



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 2013/माघ 6, 1934

No. 1]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 2013/MAGHA 6, 1934

रक्षा मंत्रालय

(सेना विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 01(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2013.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज को सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 177 के अधीन उनके अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक लै. का पद, 26 जनवरी, 2013 से सहर्ष प्रदान करते हैं, बशर्ते उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो और उनकी कार्यक्षमता संतोषजनक रहे :—

### अवैतनिक कप्तान के रूप में

#### 7 केवेलरी

1	जेसी	240436 एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चरण सिंह
---	------	-------------	-------------------------------	----------

#### 63 केवेलरी

2	जेसी	239751 एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह पूनिया
3	जेसी	239996 एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम स्वरूप सिंह
4	जेसी	241444 एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश बहादुर सिंह

#### 65 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी	241952 वाई	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	भर राम
---	------	------------	--------------------------	--------

#### 82 आर्मड रेजीमेंट

6	जेसी	238961 पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह
---	------	-----------	-------------------------------	----------

#### 85 आर्मड रेजीमेंट

7	जेसी	237789 एम	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रनबीर सिंह
---	------	-----------	-------------------------------	------------

#### आर्मड कोर

8	जेसी	239048 एन	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह बलाग्नन
---	------	-----------	-------------------------------	--------------------

#### आर्टिलरी रेजीमेंट

9	जेसी	262115 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजय सिंह
10	जेसी	258396 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अखिलेश कुमार
11	जेसी	261861 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अलेक्जेंडर मेथ्यू
12	जेसी	264629 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जी. माकुनधु

13	जेसी 263580 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोपा कुमार एस
14	जेसी 263239 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरदेव सिंह
15	जेसी 262983 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरशिंदर सिंह
16	जेसी 262118 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इश्वर दयाल शर्मा
17	जेसी 262599 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश चंद्र शर्मा
18	जेसी 262818 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जयपाल सिंह
19	जेसी 261774 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह
20	जेसी 263213 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	काली चरण डेका
21	जेसी 263439 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लाल बहादुर सिंह
22	जेसी 260415 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	महेन्द्र दुबे
23	जेसी 261581 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनी बालन पी
24	जेसी 264010 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा बहादुर सिंह
25	जेसी 261507 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह
26	जेसी 261658 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आर पांडियन
27	जेसी 260053 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरजीत सिंह
28	जेसी 160786 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दर्शन सिंह
29	जेसी 267317 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरीश चंद्रा जोशी
30	जेसी 271360 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राज कुमार
31	जेसी 267609 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम लाल
32	जेसी 269081 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सूबे सिंह

आर टी

सेना वायु सुरक्षा

33	जेसी 297825 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमा शंकर शर्मा
34	जेसी 296405 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम मेहर सिंह
35	जेसी 297581 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सीता राम सामंत
36	जेसी 297121 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उमेश सिंह
37	जेसी 299865 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	किशोरी लाल
38	जेसी 299885 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम निवास

मद्रास इंजीनियर समूह

39	जेसी 307005 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ए एंथोनी
40	जेसी 306778 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अजीत गोपीनाथ
41	जेसी 306477 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धनपाल
42	जेसी 306861 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णामूर्ती पी
43	जेसी 308736 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ए अनुमाप्पन
44	जेसी 305967 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अशोक कुमार
45	जेसी 308358 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	डेविस के वी
46	जेसी 308694 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दक्षिण मूर्ती
47	जेसी 308119 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एम केशवन
48	जेसी 308314 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मुरलीधरन एन

49	जेसी 308711 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पुष्पाला अप्पला राजू
50	जेसी 308357 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एस एंथोनी जैकब
51	जेसी 308724 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शिवदासन यू
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>			
52	जेसी 328182 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आत्मा सिंह
53	जेसी 328378 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ऋदय नारायण सिंह
54	जेसी 328524 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जसबीर सिंह
55	जेसी 328377 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मानवर सिंह
56	जेसी 328303 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रसांत कुमार पट्टा नयक
57	जेसी 329400 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अमर बहादुर सिंह
<b>बोम्बे इंजीनियर समूह</b>			

58	जेसी 348938 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अमरीक सिंह
59	जेसी 349211 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चरण सिंह
60	जेसी 348841 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरमेल सिंह
61	जेसी 348924 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कैलाश चन्द
62	जेसी 348631 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम पाल
63	जेसी 348782 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उमराव लाल सैनी
64	जेसी 350041 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भूप सिंह
65	जेसी 348159 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चंदगी राम
66	जेसी 350477 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	फाटिल वामन राव दिगम्बर राव
67	जेसी 350478 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सानस यशवन्त मुगताराव
68	जेसी 348427 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एस सिंह
69	जेसी 350393 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सिंगारा सिंह
<b>सिग्नल्स कोर</b>			

70	जेसी 371806 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अनवर बेग
71	जेसी 371519 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अशोक कुमार
72	जेसी 371636 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
73	जेसी 369543 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इंदरराज शर्मा
74	जेसी 369238 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरी पाल सिंह
75	जेसी 371647 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जयन के एन
76	जेसी 371610 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कैलाश चंद्र घोष
77	जेसी 370263 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लोटन चंद्रा उमाध्याय
78	जेसी 370845 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्यार चन्द
79	जेसी 368550 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश चंद्र मोहन
80	जेसी 370264 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सर्वजीत सिंह
81	जेसी 370837 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सतबीर सिंह
82	जेसी 367968 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार

83	जेसी 371439 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरिन्दर कुमार
84	जेसी 371905 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वासुदेवन नायर एन

#### ब्रिगेड आफ गार्ड्स

85	जेसी 403181 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जितेन्द्रा नाथ राय
86	जेसी 403159 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रामवतार
87	जेसी 402926 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उमा शंकर सिंह
88	जेसी 402858 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वसंत कुमार कौशिक
89	जेसी 403532 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णा बिहारी
90	जेसी 402333 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रया वी

#### पैराशूट रेजीमेंट

91	जेसी 412339 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हिम्मत नाथ
92	जेसी 412315 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	खेबा राम, एसएम
93	जेसी 412606 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	टी एस प्रभाकर राव, एसएम
94	जेसी 413027 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं	दलवीर सिंह मल्होत्रा, एसएम

#### मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

95	जेसी 418832 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलवान सिंह एसएम
96	जेसी 419626 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हेम राज
97	जेसी 418943 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम बृक्ष सिंह
98	जेसी 419120 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सतबीर सिंह
99	जेसी 420377 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अशोक कुमार

#### पंजाब रेजीमेंट

100	जेसी 429246 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश राज
101	जेसी 428707 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जसविन्दर सिंह
102	जेसी 429264 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह चंदेल
103	जेसी 429461 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनजीत सिंह
104	जेसी 429764 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एरन सिंह

#### मद्रास रेजीमेंट

105	जेसी 438813 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बाबू एम
106	जेसी 438862 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहानन के वी
107	जेसी 438817 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एम पांडियन
108	जेसी 439236 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आर बालासुब्रामन्यन
109	जेसी 438424 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुब्बैया एपी
110	जेसी 439399 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	डी. राजेन्द्रन



ग्रेनेडियर्स

111 जेसी 449459 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अवतार सिंह
112 जेसी 449021 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धर्मबीर सिंह
113 जेसी 449591 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश कुमार
114 जेसी 449544 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुख पाल
115 जेसी 449340 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेन्द्रा सिंह
116 जेसी 449068 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विजय सिंह

मराठा लघु सेना

117 जेसी 458665 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं	अर्जुन हनुमंत जंगोदा
118 जेसी 458109 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ज्ञान चन्द
119 जेसी 458642 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लक्ष्मन वी
120 जेसी 458914 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गोरे बालकृष्णा दगादु

राजपूताना राईफल्स

121 जेसी 468919 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	फरीद उद्दीन
122 जेसी 469209 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश प्रसाद जाट, एसएम
123 जेसी 469178 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कमलेश सिंह
124 जेसी 468789 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	खेत सिंह राठोर
125 जेसी 469051 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रताप सिंह
126 जेसी 469049 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	संग सिंह भाटी
127 जेसी 469173 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सत्यवीर सिंह
128 जेसी 469791 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	केशव सिंह

राजपूत रेजीमेंट

129 जेसी 478804 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इंद्र पाल सिंह
130 जेसी 479032 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नरेन्द्रा सिंह
131 जेसी 478796 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्री प्रसाद
132 जेसी 478842 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	यश कुमार
133 जेसी 479412 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अजय पाल सिंह एसएम
134 जेसी 479739 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	छोटे खान

जाट रेजीमेंट

135 जेसी 488557 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अमर सिंह	
136 जेसी 489073 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जयबीर	
137 जेसी 140405 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राधे श्याम त्रिपाठी	आर टी
138 जेसी 488999 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम भरोसी सिंह	
139 जेसी 489673 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सीता राम	

सिख रेजीमेंट

140 जेसी 498752 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दलबीर सिंह
141 जेसी 498740 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगतार सिंह
142 जेसी 498790 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जरनैल सिंह
143 जेसी 498792 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुलदीप सिंह, एसएम
144 जेसी 498750 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनजीत सिंह
145 जेसी 499162 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दर्शन सिंह
146 जेसी 499265 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शेर सिंह, एससी
147 जेसी 499461 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुखविंदर सिंह

सिख लघु पैदल सेना

148 जेसी 509647 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
149 जेसी 509579 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगजीत सिंह
150 जेसी 508373 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लाम सिंह, एसएम
151 जेसी 509595 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सतपाल सिंह

झोंगरा रेजीमेंट

152 जेसी 519678 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दीदार सिंह कोशल
153 जेसी 519825 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कर्म सिंह
154 जेसी 519655 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	केवल सिंह
155 जेसी 519488 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहिन्दर सिंह, एससी
156 जेसी 519864 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रवीण कुमार
157 जेसी 519663 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश कुमार पटियाल
158 जेसी 519309 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	टी राम
159 जेसी 520664 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हुकम चन्द
160 जेसी 520689 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मिलाप चन्द चमबेल

गढ़वाल राईफल्स

161 जेसी 528993 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देवी प्रसाद	
162 जेसी 529343 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इंद्र सिंह	
163 जेसी 138611 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इन्द्रा देव नैटियाल	आंर टी
164 जेसी 528949 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुंवर सिंह	
165 जेसी 529243 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नन्द किशोर	
166 जेसी 529271 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शिवेंद्र कुमार	
167 जेसी 144223 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश चंद्रा जोशी	आर टी
168 जेसी 530125 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरपाल सिंह	
169 जेसी 529880 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	खीम सिंह	

कुमाँउ रेजीमेंट

170 जेसी 539193 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दीवान सिंह, एसएम
171 जेसी 539446 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हुकम सिंह
172 जेसी 539300 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लक्ष्मन सिंह
173 जेसी 539369 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रतन सिंह देब
174 जेसी 539291 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उमेश्वर सिंह
175 जेसी 539840 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बहादुर सिंह
176 जेसी 540392 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पदम सिंह कुंवर, एसएम

आसाम रेजीमेंट

177 जेसी 548631 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देही राम सेकिआ
178 जेसी 548721 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णा बहादुर एस

बिहार रेजीमेंट

179 जेसी 558856 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बायधर नाइक
180 जेसी 558985 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	महेन्द्र सिंह
181 जेसी 558959 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम प्रवेश सिंह
182 जेसी 559014 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वकील सिंह

महाराष्ट्र रेजीमेंट

183 जेसी 568720 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भवन सिंह
184 जेसी 568717 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चेत राम
185 जेसी 568885 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम सिंह तनवर
186 जेसी 568764 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वाघमरे अशोक लिंगप्पा

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

187 जेसी 579613 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोपाल सिंह
188 जेसी 579657 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह
189 जेसी 579355 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्रवण सिंह
190 जेसी 579681 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शिव राम
191 जेसी 580135 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजू माल
192 जेसी 580475 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरजीत शर्मा, एसएम

लद्दाख स्काउट्स

193 जेसी 588318 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	फुनचोक चोसगेल
194 जेसी 588322 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	थिन्लस दोर्जे

नागा रेजीमेंट

195 जेसी 590017 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बी डी. बेंगम अनल
--------------------	-------------------------------	------------------

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

196 जेसी 592621 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मंजूर अहमद भाट, एसएम
197 जेसी 592429 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रनबीर सिंह
198 जेसी 592556 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सादिक हुसैन
199 जेसी 592667 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विजय कुमार
200 जेसी 592705 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सत पाल

1 गोरखा राईफल्स

201 जेसी 602431 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उपेंद्र थापा
202 जेसी 602704 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेश बबली गुरंग

3 गोरखा राईफल्स

203 जेसी 607507 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चोक बहादुर गुरंग
204 जेसी 607464 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम बहादुर बुरा

4 गोरखा राईफल्स

205 जेसी 612556 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रम बहादुर राना
--------------------	--------------------------	------------------

5 गोरखा राईफल्स

206 जेसी 617718 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भक्त बहादुर गुरंग
----------------------	--------------------------	-------------------

8 गोरखा राईफल्स

207 जेसी 623381 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भक्ता बहादुर पुन
208 जेसी 623424 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एच बी थापा मगर
209 जेसी 140410 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	टांक प्रसाद शर्मा गोवाली आर टी
210 जेसी 623606 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नारायण बहादुर पुन

9 गोरखा राईफल्स

211 जेसी 629577 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	केशर बहादुर छत्री, एससी
-------------------	-------------------------------	-------------------------

11 गोरखा राईफल्स

212 जेसी 634292 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बिशू भक्ता राय
----------------------	-------------------------------	----------------

सेना सेवा कोर दक्षिण

213 जेसी 662363 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दुर्जन सिंह
214 जेसी 641107 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरबंस लाल
215 जेसी 662536 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एम सुब्रमणि
216 जेसी 662626 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पी सैमसन
217 जेसी 662460 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश चंद्र

218	जेसी 663509 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रयाग प्रसाद
219	जेसी 664188 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राज बहादुर वर्मा
<u>सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन</u>			

220	जेसी 680660 ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	केशर प्रसाद सिंह
221	जेसी 680981 एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	हरे राम यादव
222	जेसी 680869 एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	मंसूर अहमद खान
223	जेसी 680974 एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	ओमकार सिंह
224	जेसी 680942 वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	सुल्तान सिंह
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>			

225	जेसी 694403 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कर्म चन्द
226	जेसी 694489 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लेख राज
227	जेसी 694966 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद इस्माइल एस के
228	जेसी 694473 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ओम प्रकाश
229	जेसी 694121 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ओंकार दत्त
230	जेसी 694569 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रभाकर सिंह
231	जेसी 694914 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम बिलोक रौय
232	जेसी 694843 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रवीन्द्र कुमार
233	जेसी 696119 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाम देव
<u>सेना आयुध कोर</u>			

234	जेसी 723885 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देवेन्द्र सिंह सैंगर
235	जेसी 726535 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरबंस सिंह
236	जेसी 723872 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पंछू लाल
237	जेसी 726553 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रामनिवास
238	जेसी 724351 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	स्वप्न नंदी
239	जेसी 727211 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दुक्कू माली सुब्बा राव
240	जेसी 727164 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम कुमार
<u>कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>			

241	जेसी 754338 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अजय पाल सिंह
242	जेसी 756081 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अरुण कुमार सिंह
243	जेसी 754251 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बेरिस्टर तिवारी
244	जेसी 758770 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुनेन्द्रा सिंघा
245	जेसी 758430 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हंस बहादुर सिंह
246	जेसी 748912 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरी कुमार केके
247	जेसी 755126 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोज वरघेसे
248	जेसी 750353 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जेपी पांडे
249	जेसी 756895 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लायक अहेम्मद
250	जेसी 753904 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनी लाल बाबू टी
251	जेसी 752584 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पूरन लाल
252	जेसी 756602 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेश कुमार चौधरी, वीएसएम
253	जेसी 754187 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम आशीश सिंह

254 जेसी 754104 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शोक पालमाती महारुब बाशा
255 जेसी 752610 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एस सिंह
256 जेसी 753907 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	स्वप्न सोम
257 जेसी 761723 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	आज़ाद अहमद
258 जेसी 757402 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गुलाब सिंह
259 जेसी 756440 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गनतुरी नागेस्वर राव
260 जेसी 756041 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद यासीन
261 जेसी 762475 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रंग नाथ ठाकुर
262 जेसी 756089 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	उपेन चंद्रा गोगोई

सेना शिक्षा कोर

263 जेसी 802519 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मूकन चंद्रा मट्ट
264 जेसी 802415 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लालजी उपाध्याय
265 जेसी 802754 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रसिदुल इस्लाम चौधुरी

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

266 जेसी 797353 एन	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जनक राज
--------------------	--------------------------------	---------

आसुचना कोर

267 जेसी 810237 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अर्जुन सिंह शिवरन
268 जेसी 810250 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नरेन्द्रा सिंह
269 जेसी 810196 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुखदेव सिंह

सेना पुलिस कोर

270 जेसी 818761 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आनंद कुमार पांडे
271 जेसी 818439 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	के श्रीधर बाबू

पायोनियर कोर

272 जेसी 829258 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पुरसतम बेहेरा
----------------------	-------------------------------	---------------

रक्षा सुरक्षा कोर

273 जेसी 840705 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हीरा लाल पटेल
274 जेसी 840484 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्र सिंह लाम्बा
275 जेसी 842203 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा सिंह चौहान
276 जेसी 841771 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुनील प्रसाद शाही

प्रदेशिक सेना

277 टिजे 4337 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	किशोरी लाल
278 टिजे 3893 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम बहादुर सिंह राठौर
279 टिजे 4832 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सतीश चन्द
280 टिजे 4922 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शाम सिंह

अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के रूप में7 केवेलरी

1 जेसी 240439 एल रिसालदार मेजर जयबीर सिंह  
8 केवेलरी

2 जेसी 242205 ए रिसालदार रंजीत सिंह  
17 होर्स

3 जेसी 239224 ए रिसालदार मेजर देव करन  
9 होर्स

4 जेसी 243282 एफ रिसालदार मन्मथ सिंह  
 5 जेसी 239846 एफ रिसालदार सुन्दर सिंह बलाज  
केन्द्रीय भारत अश्व

6 जेसी 240603 एच रिसालदार दुर्गा सिंह  
62 केवेलरी

7 जेसी 241557 एल रिसालदार मुन्ना लाल  
64 केवेलरी

8 जेसी 239747 वाइ रिसालदार मेजर भरत सिंह  
65 आर्मड रेजीमेंट

9 जेसी 241836 डब्ल्यू रिसालदार कर्ण सिंह  
 10 जेसी 243071 वाइ रिसालदार सुन्दर सिंह  
66 आर्मड रेजीमेंट

11 जेसी 240248 डब्ल्यू रिसालदार मेजर राजेश कुमार के एन  
68 आर्मड रेजीमेंट

12 जेसी 239678 एन रिसालदार मेजर के डी जगन्नाथ  
 13 जेसी 239835 पी रिसालदार मेजर साधु राम  
 14 जेसी 242557 एक्स रिसालदार धीर सिंह  
73 आर्मड रेजीमेंट

15 जेसी 238724 एल रिसालदार मेजर तरसेन सिंह

74 आर्मड रेजीमेंट

16	जेसी 241151 एक्स	रिसालदार	बलबीर सिंह
17	जेसी 242143 एल	रिसालदार	बिक्रम चन्द
18	जेसी 242144 एन	रिसालदार	दलजीत सिंह राना

76 आर्मड रेजीमेंट

19	जेसी 239347 एम	रिसालदार मेजर	बलराज सिंह मन्हास
20	जेसी 239588 एम	रिसालदार मेजर	जनक सिंह
21	जेसी 241517 के	रिसालदार	पाटिल भीमराव भाउ

81 आर्मड रेजीमेंट

22	जेसी 240362 एन	रिसालदार मेजर	धर्म पाल सिंह
----	----------------	---------------	---------------

82 आर्मड रेजीमेंट

23	जेसी 239549 एन	रिसालदार मेजर	एस राजेन्द्रन
----	----------------	---------------	---------------

85 आर्मड रेजीमेंट

24	जेसी 242917 एच	रिसालदार	चमन लाल
----	----------------	----------	---------

44 आर्मड रेजीमेंट

25	जेसी 243270 एम	रिसालदार	साजन सिंह
----	----------------	----------	-----------

49 आर्मड रेजीमेंट

26	जेसी 239392 वाइ	रिसालदार मेजर	शेर सिंह ठाकुर
27	जेसी 243489 एफ	रिसालदार	राजेंद्र सिंह
28	जेसी 243284 एम	रिसालदार	तरसेम सिंह

6 आर्मड रेजीमेंट

29	जेसी 242176 डब्ल्यू	रिसालदार	चंद्रा सेकारन के
30	जेसी 242431 एक्स	रिसालदार	सुभाष चन्द

13 आर्मड रेजीमेंट

31	जेसी 238447 एल	रिसालदार मेजर	थम्पी जोर्ज
----	----------------	---------------	-------------

50 आर्मड रेजीमेंट

32	जेसी 238325 एफ	रिसालदार मेजर	कश्मीरा सिंह
33	जेसी 241627 वाइ	रिसालदार	चेत राम



54 आर्मड रेजीमेंट

34	जेंसी 242446 ए	रिसालदार	तुलसी राम	
	<u>आर्मड कोर</u>			
35	जेंसी 239051 एन	रिसालदार मेजर	जरनैल सिंह	
36	जेंसी 152315 एन	रिसालदार मेजर	लक्ष्मी प्रसाद खंडूरी	आर टी
	<u>आर्टिलरी रेजीमेंट</u>			
37	जेंसी 262809 ए	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह यादव	
38	जेंसी 264076 एल	सुबेदार मेजर	अनिल बाबू पी	
39	जेंसी 264613 एल	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार	
40	जेंसी 259875 एक्स	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह यादव	
41	जेंसी 142724 एन	सुबेदार मेजर	बालमुकन्द द्विवेदी	आर टी
42	जेंसी 261867 एक्स	सुबेदार मेजर	बलवीर सिंह	
43	जेंसी 263675 वाइ	सुबेदार मेजर	बसंत सिंह	
44	जेंसी 261900 के	सुबेदार मेजर	भीम सिंह आर	
45	जेंसी 262032 पी	सुबेदार मेजर	चंद्रा प्रकाश	
46	जेंसी 261790 ए	सुबेदार मेजर	दानबीर झा	
47	जेंसी 259642 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दरादे भगवान वाइ	
48	जेंसी 262908 एच	सुबेदार मेजर	दर्शन कुमार	
49	जेंसी 261072 के	सुबेदार मेजर	धर्मपाल	
50	जेंसी 262648 एच	सुबेदार मेजर	गुलजार सिंह	
51	जेंसी 261276 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरमेज सिंह	
52	जेंसी 260714 एफ	सुबेदार मेजर	हकीम सिंह	
53	जेंसी 264728 वाइ	सुबेदार मेजर	हरी बंधु प्रधान	
54	जेंसी 260788 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरी ओम	
55	जेंसी 262070 एल	सुबेदार मेजर	हरी राम भागेल	
56	जेंसी 257861 वाइ	सुबेदार मेजर	हेम राज	
57	जेंसी 262123 वाइ	सुबेदार मेजर	जगबीर सिंह	
58	जेंसी 258262 एल	सुबेदार मेजर	जगसिर सिंह	
59	जेंसी 261689 ए	सुबेदार मेजर	जगवीर सिंह	
60	जेंसी 261494 पी	सुबेदार मेजर	जसवीर सिंह	
61	जेंसी 261426 एफ	सुबेदार मेजर	जय प्रकाश सिंह	
62	जेंसी 261732 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कमल चंद्रा पांडे	
63	जेंसी 259921 एफ	सुबेदार मेजर	कंचन राम	
64	जेंसी 261639 पी	सुबेदार मेजर	के देवेंद्रन	
65	जेंसी 260970 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कष्णन कुमार त्रिपाठी	
66	जेंसी 262335 के	सुबेदार मेजर	कुलबीर सिंह	
67	जेंसी 260942 के	सुबेदार मेजर	कुलदीप कुमार	

68	जेसी 262827 एच	सुबेदार मेजर	कुरियाकोस इसाक	
69	जेसी 261663 एल	सुबेदार मेजर	लक्ष्मी नारायण	
70	जेसी 262054 एन	सुबेदार मेजर	नछेतर सिंह	
71	जेसी 260959 एक्स	सुबेदार मेजर	नरिंदर सिंह	
72	जेसी 262300 एन	सुबेदार मेजर	एन झा	
73	जेसी 262787 एम	सुबेदार मेजर	निकम महादेव श्रीरंम	
74	जेसी 261962 के	सुबेदार मेजर	निखिल चंद्रा राय	
75	जेसी 261098 वाइ	सुबेदार मेजर	नित्या नन्द	
76	जेसी 259543 एन	सुबेदार मेजर	परमानंद प्रसाद	
77	जेसी 260323 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	परवीन्दर सिंह	
78	जेसी 263221 एल	सुबेदार मेजर	पी मुथु राज	आर टी
79	जेसी 142725 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राकेश प्रसाद द्विवेदी	
80	जेसी 261756 ए	सुबेदार मेजर	राम अवध सिंह	
81	जेसी 263034 एम	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्रा सिंह	
82	जेसी 263209 के	सुबेदार मेजर	राम सहाय	
83	जेसी 263725 वाइ	सुबेदार मेजर	रूप सिंह	
84	जेसी 259802 एल	सुबेदार मेजर	सम्पति लाल	
85	जेसी 262403 एम	सुबेदार मेजर	संतोख सिंह	
86	जेसी 263443 ए	सुबेदार मेजर	शिव कुमार तिवारी	
87	जेसी 261994 एम	सुबेदार मेजर	श्री प्रसाद मोहंता	
88	जेसी 264651 एफ	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्र	
89	जेसी 261772 एक्स	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार	
90	जेसी 263932 एल	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार एम के	
91	जेसी 265774 ए	सुबेदार मेजर	सुरेश चन्द	
92	जेसी 261815 एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार एपी	बीएम
93	जेसी 263653 ए	सुबेदार मेजर	विजयन आचारी टी	आर टी
94	जेसी 142723 एल	सुबेदार मेजर	विजय प्रसाद किमोथी	
95	जेसी 260136 एक्स	सुबेदार मेजर	विजय सिंह	
96	जेसी 262583 ए	सुबेदार मेजर	युगल किशोर	
97	जेसी 271174 एन	सुबेदार	अमिया केआर पी	
98	जेसी 269873 ए	सुबेदार	अवतार सिंह	
99	जेसी 272647 एन	सुबेदार	अयानन्दारे	
100	जेसी 270709 के	सुबेदार	बिमल कुमार पाठक	
101	जेसी 270383 वाइ	सुबेदार	छोटे लाल	
102	जेसी 270543 एन	सुबेदार	देवीदासन सी	
103	जेसी 272309 डब्ल्यू	सुबेदार	धनी राम	
104	जेसी 271480 एच	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	
105	जेसी 267242 वाइ	सुबेदार	गायकवाड मधुकर महादेव	
106	जेसी 268305 एच	सुबेदार	गामेर बहादुर थापा	
107	जेसी 161058 एच	सुबेदार	गंगेश्वर प्रसाद पांडे,	आर टी

108	जेसी 270781 ए	सुबेदार	गिन्नी रमा राव
109	जेसी 262184 डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल दास
110	जेसी 270610 एन	सुबेदार	गुरजीत सिंह
111	जेसी 270853 वाइ	सुबेदार	हंस नाथ चौहान
112	जेसी 270153 एल	सुबेदार	जगदीश कुमार
113	जेसी 270161 के	सुबेदार	जग पाल
114	जेसी 270261 पी	सुबेदार	कदम रमेश राजाराम
115	जेसी 266925 ए	सुबेदार	कैलाश चन्द
116	जेसी 270788 के	सुबेदार	के सतीश कुमार
117	जेसी 268048 डब्ल्यू	सुबेदार	महावीर सिंह
118	जेसी 271498 वाइ	सुबेदार	महीपाल
119	जेसी 269215 एन	सुबेदार	मेजर सिंह
120	जेसी 268216 के	सुबेदार	मस्के विष्णु कालीराम
121	जेसी 264864 पी	सुबेदार	फखन कुमार
122	जेसी 269674 एम	सुबेदार	पी सिंह
123	जेसी 273709 पी	सुबेदार	पी राजन
124	जेसी 271325 एफ	सुबेदार	राज पाल सिंह
125	जेसी 267751 एक्स	सुबेदार	रमा एस सिंह
126	जेसी 270309 एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश पाल
127	जेसी 269432 के	सुबेदार	रिछपाल सिंह तोमर
128	जेसी 272225 एच	सुबेदार	एस हनमंत महादेव
129	जेसी 269335 एम	सुबेदार	एस सिंह बलवादे
130	जेसी 267279 ए	सुबेदार	सिया राम
131	जेसी 270267 डब्ल्यू	सुबेदार	सुरिन्दर चन्द
132	जेसी 267867 एन	सुबेदार	उदय सिंह
133	जेसी 271012 एच	सुबेदार	यू सिंह
134	जेसी 267116 एम	सुबेदार	उमेद सिंह
135	जेसी 262395 वाइ	सुबेदार	वेनुगोपाल पी
136	जेसी 273583 ए	सुबेदार	विजयन पी
137	जेसी 271248 एक्स	सुबेदार	विजय बहादुर यादव
138	जेसी 270777 एक्स	सुबेदार	विजय कुमार
139	जेसी 266506 एच	सुबेदार	विनोद कुमार
140	जेसी 271503 वाइ	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह
141	जेसी 269792 ए	सुबेदार	यदाल्ला कालीदासू
142	जेसी 271247 पी	सुबेदार	योगेंद्र सिंह

#### सेना वायु सुरक्षा

143	जेसी 296783 एच	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार चौधरी
144	जेसी 296851 एल	सुबेदार मेजर	अनिल प्रकाश शर्मा
145	जेसी 297891 एच	सुबेदार मेजर	गुरजंत सिंह

146	जेसी 297636 एम	सुबेदार मेजर	जयराम दीक्षित
147	जेसी 297151 के	सुबेदार मेजर	के सत्यनारायण मूर्ती
148	जेसी 296577 वाइ	सुबेदार मेजर	कुंजुमोन एम
149	जेसी 297212 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह
150	जेसी 297557 एक्स	सुबेदार मेजर	मेहताब सिंह रावत
151	जेसी 297791 एन	सुबेदार मेजर	नरेश कुमार
152	जेसी 297514 एच	सुबेदार मेजर	रोशन लाल
153	जेसी 297165 के	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
154	जेसी 298688 पी	सुबेदार	ए मोमिन
155	जेसी 298872 ए	सुबेदार	आजम हुसैन
156	जेसी 299635 एच	सुबेदार	सी सिंह
157	जेसी 299677 पी	सुबेदार	हंस राज
158	जेसी 300038 एच	सुबेदार	जे मोहंता
159	जेसी 299380 एन	सुबेदार	कमलेश नारायण
160	जेसी 300264 ए	सुबेदार	मुरलीधरन नायर टी
161	जेसी 299036 एच	सुबेदार	पाला सिंह
162	जेसी 298784 के	सुबेदार	पुरुषाथम
163	जेसी 300294 एक्स	सुबेदार	शिंंगारा सिंह
164	जेसी 300232 एक्स	सुबेदार	तिलक राज सिंह
165	जेसी 299182 एच	सुबेदार	त्रिपुरारी ओझा
166	जेसी 300223 डब्ल्यू	सुबेदार	विनोद कुमार

#### नद्दास इंजीनियर समूह

167	जेसी 306882 एफ	सुबेदार मेजर	अनबुसेलवन डी.
168	जेसी 306686 एफ	सुबेदार मेजर	जेसुराज एसआई
169	जेसी 306804 के	सुबेदार मेजर	के चित्ती बाबू
170	जेसी 306859 एन	सुबेदार मेजर	कुमारन एन
171	जेसी 306880 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुन्हिकृष्णा टी
172	जेसी 327711 एच	सुबेदार मेजर	राकेश चन्द
173	जेसी 306862 एन	सुबेदार मेजर	रवीन्द्रन एम
174	जेसी 306723 के	सुबेदार मेजर	ससिनदरन केसी
175	जेसी 306806 पी	सुबेदार मेजर	सुथान एन
176	जेसी 306844 एल	सुबेदार मेजर	वी राम
177	जेसी 306592 के	सुबेदार मेजर	वी वेंकटेश्वर राव
178	जेसी 308879 ए	सुबेदार	ए सुब्रमण्यम
179	जेसी 308889 के	सुबेदार	बेन्नी मेथ्यू
180	जेसी 308500 एल	सुबेदार	बी राजेन्द्रन
181	जेसी 308417 एन	सुबेदार	बी रमन
182	जेसी 307681 पी	सुबेदार	चंद्रआर्या सी कुलकणी
183	जेसी 308360 के	सुबेदार	जी. परसुरामन

184	जेसी 307559	वाइ	सुबेदार	हरी सिंह यादव
185	जेसी 308235	ए	सुबेदार	के मेघानाथन
186	जेसी 308755	एल	सुबेदार	एल पदमनाभन
187	जेसी 308539	एक्स	सुबेदार	एल परमशिवन
188	जेसी 308210	एन	सुबेदार	एम पलनिच्छामी
189	जेसी 307867	वाइ	सुबेदार	एम पी शरीफ
190	जेसी 308433	एल	सुबेदार	एम रमन
191	जेसी 307866	डब्ल्यू	सुबेदार	नन्द किशोर सिंह
192	जेसी 308288	वाइ	सुबेदार	प्रभाकरण पी
193	जेसी 308237	एल	सुबेदार	रामालिंगम ए
194	जेसी 305966	एच	सुबेदार	रामचंद्र सिंह
195	जेसी 306703	डब्ल्यू	सुबेदार	आर अरुणाचलम
196	जेसी 307776	पी	सुबेदार	सम्पथ कुमार एस
197	जेसी 307816	एल	सुबेदार	शिवदयाल
198	जेसी 308359	पी	सुबेदार	वी सरवानन

**बंगाल इंजीनियर समूह**

199	जेसी 330599	एम	सुबेदार मेजर	अमर सिंह	आर टी
200	जेसी 330165	एम	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह	
201	जेसी 140991	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	
202	जेसी 326801	एक्स	सुबेदार मेजर	बलजीत सिंह	
203	जेसी 327628	एल	सुबेदार मेजर	भुपिन्द्र सिंह	
204	जेसी 326575	एल	सुबेदार मेजर	ब्रजेश कुमार सिंह	
205	जेसी 326604	पी	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह	
206	जेसी 326149	एक्स	सुबेदार मेजर	गोबिंदा चंद्रा स्वेन	
207	जेसी 216029	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह	
208	जेसी 328403	पी	सुबेदार मेजर	जगजीत सिंह	
209	जेसी 330184	के	सुबेदार मेजर	कदम दीपक डागा दोबा	
210	जेसी 328757	एक्स	सुबेदार मेजर	कुमार जी.	
211	जेसी 328383	एम	सुबेदार मेजर	नताबार माझी	
212	जेसी 326545	एन	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह	
213	जेसी 326951	एन	सुबेदार मेजर	राम नारायण तिवारी	
214	जेसी 326502	वाइ	सुबेदार मेजर	सतीश चंद्रा शर्मा	
215	जेसी 326571	पी	सुबेदार मेजर	शील चन्द	
216	जेसी 328573	वाइ	सुबेदार मेजर	सुबल चंद्रा घोष	
217	जेसी 327069	एम	सुबेदार मेजर	सुभेन्दु कुमार मिश्रा	
218	जेसी 328374	एल	सुबेदार मेजर	सुंदर सिंह	
219	जेसी 330153	एक्स	सुबेदार	बी जी. धर्मन	
220	जेसी 329618	ए	सुबेदार	सी सिंह	
221	जेसी 329565	एम	सुबेदार	दर्शन सिंह	

222	जेसी 338393 के	सुबेदार
223	जेसी 338446 एक्स	सुबेदार
224	जेसी 329621 ए	सुबेदार
225	जेसी 338043 एक्स	सुबेदार
226	जेसी 329559 वाइ	सुबेदार
227	जेसी 329617 एक्स	सुबेदार
228	जेसी 329504 पी	सुबेदार
229	जेसी 329780 एक्स	सुबेदार
230	जेसी 338396 एक्स	सुबेदार
231	जेसी 338452 एल	सुबेदार
232	जेसी 338001 एल	सुबेदार
233	जेसी 329371 के	सुबेदार
234	जेसी 338192 एल	सुबेदार
235	जेसी 329703 एच	सुबेदार
236	जेसी 338451 एच	सुबेदार

बोम्बे इंजीनियर समूह

237	जेसी 348301 ए	सुबेदार मेजर
238	जेसी 348271 एन	सुबेदार मेजर
239	जेसी 348433 एन	सुबेदार मेजर
240	जेसी 348873 एफ	सुबेदार मेजर
241	जेसी 348230 के	सुबेदार मेजर
242	जेसी 348262 एम	सुबेदार मेजर
243	जेसी 348028 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर
244	जेसी 347968 पी	सुबेदार मेजर
245	जेसी 348756 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर
246	जेसी 326057 एल	सुबेदार मेजर
247	जेसी 348872 वाइ	सुबेदार मेजर
248	जेसी 348194 के	सुबेदार मेजर
249	जेसी 348813 एम	सुबेदार मेजर
250	जेसी 348774 वाइ	सुबेदार मेजर
251	जेसी 351033 एम	सुबेदार
252	जेसी 350187 एम	सुबेदार
253	जेसी 350681 एच	सुबेदार
254	जेसी 350223 एम	सुबेदार
255	जेसी 350865 एफ	सुबेदार
256	जेसी 350677 ए	सुबेदार
257	जेसी 350565 ए	सुबेदार
258	जेसी 350475 वाइ	सुबेदार
259	जेसी 350507 डब्ल्यू	सुबेदार

दयाल राम  
दिगर सिंह  
दीवान सिंह बागड़ी  
गुरमीत सिंह  
हरजीत सिंह  
जगन नाथ प्रसाद पांडे  
मान सिंह नेगी  
मोहन सिंह भंडारी  
नंदन सिंह कंधारी  
ओम प्रकाश देवरानी  
पितांबर देहिगिया  
प्रदीप गोगोई  
पूरन सिंह  
सत्य वीर सिंह  
एस सिंह

बलदेव सिंह  
बलवंत राय  
बूटा राम  
दलवाड़ा सिंह  
दीना नाथ शर्मा  
गोरे सुरेश मसकु  
हरी राम  
ज़िरमल सिंह  
जोगिंदर सिंह  
नरिंदर सिंह  
राजिन्दर सिंह  
राम फल  
एस हुसैन  
यशवंत विथल जे  
अब्दुल जब्बार  
अजीत सिंह  
ए प्रसाद  
आलम शाह अंसारी  
अमरजीत सिंह  
अनंतराम बी कोरे  
बलविन्दर सिंह  
बारगे प्रकाश शंकर  
भंवर सिंह परिहार

260	जेसी 350228	एक्स	सुबेदार	भरत सिंह
261	जेसी 350137	एफ	सुबेदार	दर्शन सिंह
262	जेसी 348812	के	सुबेदार	फोरन सिंह
263	जेसी 350242	एक्स	सुबेदार	गुरबचन सिंह
264	जेसी 350364	एफ	सुबेदार	हरनेक सिंह
265	जेसी 348103	पी	सुबेदार	जम्हार सिंह राठोर
266	जेसी 350077	एक्स	सुबेदार	जाधव दादाराव दत्तात्रिया
267	जेसी 350286	पी	सुबेदार	जाधव मारुति शिवराम
268	जेसी 348642	एल	सुबेदार	जय प्रकाश
269	जेसी 350194	एच	सुबेदार	जसपाल सिंह
270	जेसी 350485	एच	सुबेदार	कष्णन कुमार
271	जेसी 350368	एक्स	सुबेदार	कुलवंत सिंह
272	जेसी 350454	एच	सुबेदार	मुन्ना लाल
273	जेसी 350731	एच	सुबेदार	नमेश सिंह
274	जेसी 348391	एम	सुबेदार	नमन कामे
275	जेसी 350610	एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह
276	जेसी 350797	वाइ	सुबेदार	सतपाल सिंह
277	जेसी 350608	के	सुबेदार	सतपाल सिंह
278	जेसी 350372	ए	सुबेदार	शाहिदाज एम कवाले
279	जेसी 350501	पी	सुबेदार	शिंदे सुभाष सेनकड
280	जेसी 350680	ए	सुबेदार	सीताराम दादू यादव
281	जेसी 350511	वाइ	सुबेदार	सुभाष सिंह
282	जेसी 350491	डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष सिंह
283	जेसी 350091	के	सुबेदार	सुभाष सिंह
284	जेसी 350689	पी	सुबेदार	सुरजीत सिंह
285	जेसी 350514	एम	सुबेदार	टी अली
286	जेसी 349104	के	सुबेदार	टी सुरेन्द्रा रामचंद्र

सिग्नल्स कोर

287	जेसी 372613	पी	सुबेदार मेजर	ए अश्वनाथराव
288	जेसी 371881	एम	सुबेदार मेजर	ए सिंह
289	जेसी 371834	पी	सुबेदार मेजर	बाबू लाल शर्मा
290	जेसी 372263	एन	सुबेदार मेजर	बालकृष्ण नाथ कोठार
291	जेसी 371770	पी	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह बी
292	जेसी 371867	ए	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्र सिंह
293	जेसी 372090	एफ	सुबेदार मेजर	ब्रम प्रकाश
294	जेसी 370091	एल	सुबेदार मेजर	दलेल सिंह
295	जेसी 370084	पी	सुबेदार मेजर	दामोदर सिंह
296	जेसी 372495	एम	सुबेदार मेजर	दशरथ सिंह यादव
297	जेसी 371038	एम	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह

298	जेसी 368528 पी	सुबेदार मेजर	हरे राम झा
299	जेसी 371385 एल	सुबेदार मेजर	हरमेश सिंह
300	जेसी 371331 के	सुबेदार मेजर	इश्वर सिंह
301	जेसी 371868 एच	सुबेदार मेजर	जैकब वाइ
302	जेसी 371764 एफ	सुबेदार मेजर	जीत सिंह
303	जेसी 371904 एच	सुबेदार मेजर	जीवन सिंह तुर्न
304	जेसी 371526 पी	सुबेदार मेजर	जोगिंदर पौल
305	जेसी 371726 एल	सुबेदार मेजर	कामेश्वर चौधरी
306	जेसी 371759 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कृष्णा देव मिश्रा
307	जेसी 371535 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहाना कुमार वी
308	जेसी 371136 एम	सुबेदार मेजर	नरिंदर सिंह नेगी
309	जेसी 372089 एम	सुबेदार मेजर	राजेन्द्र सिंह
310	जेसी 371524 के	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह
311	जेसी 371457 के	सुबेदार मेजर	राजिन्दर नाथ
312	जेसी 371708 एच	सुबेदार मेजर	राम निवास
313	जेसी 371711 एच	सुबेदार मेजर	साबिर अली
314	जेसी 371653 के	सुबेदार मेजर	सत पौल शर्मा
315	जेसी 372876 एन	सुबेदार मेजर	सतवीर सिंह धनकर
316	जेसी 371615 एन	सुबेदार मेजर	शाम लाल मोटन
317	जेसी 371591 पी	सुबेदार मेजर	शिवाजी लगामन्ना पाटिल
318	जेसी 371771 एक्स	सुबेदार मेजर	सुभाष यादव
319	जेसी 371382 एक्स	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार
320	जेसी 371660 ए	सुबेदार मेजर	सन्नी जॉन
321	जेसी 369884 एफ	सुबेदार मेजर	तेजबीर सिंह
322	जेसी 372521 एच	सुबेदार मेजर	तोमर रणधीर सिंह राम सिंह
323	जेसी 372234 वाइ	सुबेदार मेजर	उज्जल कान्ति सामंत
324	जेसी 371641 पी	सुबेदार मेजर	विष्णु पाल सिंह
325	जेसी 370350 एच	सुबेदार मेजर	जिले सिंह
326	जेसी 376918 एम	सुबेदार	अनिल कुमार तिवारी
327	जेसी 375760 एच	सुबेदार	ब्रम सिंह
328	जेसी 378125 एच	सुबेदार	जी एच नबी लोने
329	जेसी 378146 वाइ	सुबेदार	जगदीश पूनिया
330	जेसी 375874 एन	सुबेदार	कण्णन लाल
331	जेसी 376713 वाइ	सुबेदार	महिमा सिंह
332	जेसी 372479 पी	सुबेदार	एन चरण मुदली
333	जेसी 377306 एफ	सुबेदार	परमात्मा सिंह
334	जेसी 376086 डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेमानन्दन वी
335	जेसी 378399 एन	सुबेदार	प्रोसान्ता कुमार कोनर
336	जेसी 376341 एक्स	सुबेदार	पुशकर सिंह रावत
337	जेसी 375895 के	सुबेदार	रघबीर सिंह कौंदर



338	जेसी 376672	वाइ	सुबेदार	राज कुमार शुक्ला
339	जेसी 376297	वाइ	सुबेदार	रमेश चंद्रा चौबे
340	जेसी 376300	एन	सुबेदार	रमेश प्रसाद गुप्ता
341	जेसी 375888	एन	सुबेदार	राम खुशी
342	जेसी 376295	एन	सुबेदार	राम किशन
343	जेसी 375841	एच	सुबेदार	राम सेवक
344	जेसी 377516	एफ	सुबेदार	शिशु पाल
345	जेसी 377845	एक्स	सुबेदार	शिव प्रताप सिंह
346	जेसी 377613	वाइ	सुबेदार	श्री राम सिंह
347	जेसी 376247	एन	सुबेदार	सिद्धार्थ चालावादी
348	जेसी 378398	एल	सुबेदार	सुरेश पाल सिंह
349	जेसी 377236	एन	सुबेदार	तेज सिंह
350	जेसी 376891	ए	सुबेदार	उमेश चौहान
351	जेसी 378110	ए	सुबेदार	वर्मा आर माताबदल
352	जेसी 377062	वाइ	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

353	जेसी 403452	एफ	सुबेदार मेजर	केशर सिंह धामी
354	जेसी 403070	एक्स	सुबेदार मेजर	रण सिंह
355	जेसी 403533	एफ	सुबेदार	बन्नीकोपा जी.
356	जेसी 403637	एच	सुबेदार	भगवती प्रसाद
357	जेसी 404101	वाइ	सुबेदार	लायक राम चौरसिया
358	जेसी 403810	एफ	सुबेदार	परमजीत चन्द
359	जेसी 403651	पी	सुबेदार	रामायण सिंह
360	जेसी 403868	वाइ	सुबेदार	राम प्रवेश प्रसाद
361	जेसी 404016	डब्ल्यू	सुबेदार	शिव जेआई
362	जेसी 403498	के	सुबेदार	श्याम नारायण राय
363	जेसी 403260	के	सुबेदार	त्रिभुवन चौहान
364	जेसी 403652	एक्स	सुबेदार	विनय कुमार पाठक

पैराशूट रेजीमेंट

365	जेसी 412392	वाइ	सुबेदार मेजर	ज्ञान सिंह, एसएम
366	जेसी 412462	एम	सुबेदार मेजर	के राम
367	जेसी 412616	एन	सुबेदार मेजर	के सेलवम
368	जेसी 412298	पी	सुबेदार मेजर	लाछित चंद्रा बोरदोलइ
369	जेसी 412258	एन	सुबेदार मेजर	लाला राम
370	जेसी 412397	एक्स	सुबेदार मेजर	लिला राम
371	जेसी 412552	एन	सुबेदार मेजर	रघुबीर सिंह
372	जेसी 412467	एल	सुबेदार मेजर	रण सिंह
373	जेसी 413140	वाइ	सुबेदार	ए बहादुर राय

374	जेसी 412993 के	सुबेदार	आशीश थापा
375	जेसी 412903 एक्स	सुबेदार	अवतार सिंह
376	जेसी 412866 पी	सुबेदार	देव राज
377	जेसी 413161 पी	सुबेदार	कमान सिंह
378	जेसी 412811 एल	सुबेदार	पवन कुमार सैनी
379	जेसी 413035 एच	सुबेदार	पुशकर दत्त
380	जेसी 413145 एक्स	सुबेदार	शंकर सिंह राठोर
381	जेसी 412948 एक्स	सुबेदार	सुभाष चंद्र
382	जेसी 412797 के	सुबेदार	विनोद कुमार
<u>मैकेमाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट</u>			

383	जेसी 143082 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार	आर टी
384	जेसी 418886 वाइ	सुबेदार मेजर	भोला नाथा जैना	
385	जेसी 418987 एम	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा सिंह	
386	जेसी 419090 पी	सुबेदार मेजर	डी. प्रजापत	
387	जेसी 419092 ए	सुबेदार मेजर	कोले शंकर कृष्णा	
388	जेसी 419558 एक्स	सुबेदार मेजर	लक्षमन सिंह	
389	जेसी 419261 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम वीवीएस सूर्या राव	
390	जेसी 418993 ए	सुबेदार मेजर	प्रेम सिंह	
391	जेसी 418937 एफ	सुबेदार मेजर	रामचन्द्रन पी	
392	जेसी 419795 एफ	सुबेदार मेजर	शाम लाल	
393	जेसी 420451 पी	सुबेदार	भजन सिंह	
394	जेसी 419691 ए	सुबेदार	गोविंद कुमार शर्मा	
395	जेसी 420790 पी	सुबेदार	प्रमोद कुमार शर्मा	
396	जेसी 420360 एल	सुबेदार	रोमेश चंद्र, एससी	
397	जेसी 420729 एल	सुबेदार	सत्य प्रकाश	
398	जेसी 420779 डब्ल्यू	सुबेदार	सवाई सिंह	
399	जेसी 420710 एम	सुबेदार	श्याम कुमार नेवर	
पंजाब रेजीमेंट				

400	जेसी 429353 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दलेर सिंह
401	जेसी 428947 वाइ	सुबेदार मेजर	जी. सिंह
402	जेसी 429151 पी	सुबेदार मेजर	लखविन्दर सिंह
403	जेसी 429210 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मेजर सिंह
404	जेसी 429008 एच	सुबेदार मेजर	मनमोहन सिंह
405	जेसी 429077 वाइ	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द
406	जेसी 429159 एफ	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
407	जेसी 429268 एन	सुबेदार मेजर	सुभाष सिंह
408	जेसी 429002 एफ	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह
409	जेसी 430108 ए	सुबेदार	बलबीर सिंह

410	जेसी 430129 डब्ल्यू	सुबेदार	बावा सिंह
411	जेसी 430047 एन	सुबेदार	हरबंस लाल
412	जेसी 429355 एफ	सुबेदार	एच सिंह
413	जेसी 429291 एफ	सुबेदार	जगतार सिंह
414	जेसी 429069 ए	सुबेदार	जरनैल सिंह
415	जेसी 429374 एम	सुबेदार	जरनैल सिंह
416	जेसी 429977 एच	सुबेदार	कंचन कुमार
417	जेसी 430123 पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह
418	जेसी 429444 ए	सुबेदार	कुलदीप सिंह
419	जेसी 429510 एक्स	सुबेदार	मनजीत सिंह
420	जेसी 430374 वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश
421	जेसी 430360 वाइ	सुबेदार	पूरन चन्द
422	जेसी 430135 के	सुबेदार	राजबीर सिंह
423	जेसी 430048 डब्ल्यू	सुबेदार	रनबीर सिंह
424	जेसी 429593 एन	सुबेदार	सोहन सिंह
425	जेसी 430336 एच	सुबेदार	सोम नाथ
426	जेसी 429361 पी	सुबेदार	सुखदेव सिंह

मद्रास रेजीमेंट

427	जेसी 438744 एच	सुबेदार मेजर	हरीश टीके, एसएम
428	जेसी 438583 एल	सुबेदार मेजर	मनियन के
429	जेसी 438655 के	सुबेदार मेजर	शशि आर
430	जेसी 438838 ए	सुबेदार मेजर	वी सत्यनारायणा
431	जेसी 438892 एन	सुबेदार मेजर	यादवा सी के
432	जेसी 438936 ए	सुबेदार मेजर	वाइ राजासेखरा रेडी
433	जेसी 439146 एक्स	सुबेदार	बी बाकजप्पा
434	जेसी 439130 एम	सुबेदार	बी केशवन
435	जेसी 439658 के	सुबेदार	बृजपाल गन्वार
436	जेसी 439281 एल	सुबेदार	मलप्पा चन्प्पा एच
437	जेसी 439396 वाइ	सुबेदार	पी परासू रमन
438	जेसी 439196 एच	सुबेदार	संगप्पा डी.
439	जेसी 439692 के	सुबेदार	शेखर एन जी.
440	जेसी 439283 डब्ल्यू	सुबेदार	शिवकुमार सी

ग्रेनेडियर्स

441	जेसी 449540 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अलियास
442	जेसी 449625 एम	सुबेदार मेजर	बोध राज
443	जेसी 449409 वाइ	सुबेदार मेजर	हमीद खान
444	जेसी 448598 एफ	सुबेदार मेजर	जे सिंह
445	जेसी 448953 एन	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा पाल

446	जेसी 132307 एन	सुबेदार मेजर	प्रेम राज शर्मा	आर टी
447	जेसी 449255 एक्स	सुबेदार मेजर	रघुवीर सिंह जाट	
448	जेसी 449218 के	सुबेदार मेजर	राम कुमार सिंह	
449	जेसी 449643 पी	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	
450	जेसी 450510 एल	सुबेदार	बादशाह खान	
451	जेसी 449924 एल	सुबेदार	बीरबल सिंह	
452	जेसी 448769 एच	सुबेदार	एच राम जाट	
453	जेसी 450381 डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश लाल	
454	जेसी 450086 एन	सुबेदार	जंगशेर अली	
455	जेसी 450466 एम	सुबेदार	मानवर खान	
456	जेसी 450555 एल	सुबेदार	श्याम सिंह	
457	जेसी 449653 वाइ	सुबेदार	वजीर सिंह	

#### मराठा लघु सेना

458	जेसी 458559 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आनंदा बी एन	
459	जेसी 458760 एफ	सुबेदार मेजर	हिमायत टी खान	
460	जेसी 458692 वाइ	सुबेदार मेजर	जाधव जयवंत मारुति	
461	जेसी 458811 के	सुबेदार मेजर	कुम्भार रघुनाथ दादू	
462	जेसी 458583 एम	सुबेदार मेजर	लाडु भानु गावडे	
463	जेसी 458373 एम	सुबेदार मेजर	मारुति गणपति शिंदे	
464	जेसी 458647 एम	सुबेदार मेजर	एम अप्पान्ना यू	
465	जेसी 458676 एफ	सुबेदार मेजर	शिरके अशोक नाना	
466	जेसी 459975 एम	सुबेदार	अयूब अली	
467	जेसी 459850 पी	सुबेदार	भीकाजी बाबन भागवत	
468	जेसी 458803 एल	सुबेदार	कदम रघुनाथ शंकर	
469	जेसी 459714 वाइ	सुबेदार	मोढ अशरफ शेख, एसएम	
470	जेसी 460011 के	सुबेदार	शिंदे उत्तातम यशवन्त	
471	जेसी 459402 एच	सुबेदार	सुभाष शिवाजी थोकल	

#### राजपूताना राईफल्स

472	जेसी 469075 एन	सुबेदार मेजर	अर्जुन सिंह	
473	जेसी 469096 एम	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद	
474	जेसी 468797 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह	
475	जेसी 469425 एक्स	सुबेदार मेजर	नन्द सिंह	
476	जेसी 469276 पी	सुबेदार मेजर	नेत्रा पाल सिंह	
477	जेसी 469387 एम	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द	
478	जेसी 469023 ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह	
479	जेसी 469022 एक्स	सुबेदार मेजर	राम कुंवर	
480	जेसी 469251 एच	सुबेदार मेजर	राम सिंह	
481	जेसी 468775 एक्स	सुबेदार मेजर	रतन लाल	

482	जेसी 469119 एच	सुबेदार मेजर	रेवात सिंह
483	जेसी 469060 एन	सुबेदार मेजर	रिदमल सिंह
484	जेसी 468883 एफ	सुबेदार मेजर	रूप सिंह
485	जेसी 469376 ए	सुबेदार मेजर	रोशन खान
486	जेसी 468893 एल	सुबेदार मेजर	एस पाल सिंह
487	जेसी 469355 के	सुबेदार मेजर	यासीन मोहम्मद
488	जेसी 470037 एम	सुबेदार	आभी सिंह
489	जेसी 469761 के	सुबेदार	ए खान
490	जेसी 470156 एच	सुबेदार	भगत सिंह
491	जेसी 469715 पी	सुबेदार	दलीप सिंह राजपूत
492	जेसी 469667 ए	सुबेदार	हरी सिंह
493	जेसी 469882 एल	सुबेदार	जयपाल सिंह
494	जेसी 469981 एन	सुबेदार	के सिंह
495	जेसी 470196 के	सुबेदार	नरेश कुमार
496	जेसी 469846 ए	सुबेदार	रामधन लाल गूजर
497	जेसी 470078 डब्ल्यू	सुबेदार	राम निवास
498	जेसी 470356 वाइ	सुबेदार	रेहिताशवा कुमार
499	जेसी 470125 एच	सुबेदार	सरजीत सिंह शेखावत
500	जेसी 469682 पी	सुबेदार	सत्यवीर सिंह
501	जेसी 469446 एन	सुबेदार	श्री पाल सिंह
502	जेसी 470165 के	सुबेदार	त्रिलोक सिंह
503	जेसी 470521 वाइ	सुबेदार	विनोद सिंह, एसएम
504	जेसी 470036 के	सुबेदार	विशराम सिंह

राजपूत रेजीमेंट

505	जेसी 479183 एम	सुबेदार मेजर	भरत सिंह गुर्जर, एसएम
506	जेसी 478976 के	सुबेदार मेजर	फतेह सिंह
507	जेसी 478571 वाइ	सुबेदार मेजर	जोयदेब पाल
508	जेसी 478728 एन	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह
509	जेसी 478861 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राज पाल
510	जेसी 479169 एफ	सुबेदार मेजर	राकेश कुमार सिंह
511	जेसी 479072 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रतन लाल गुर्जर
512	जेसी 478792 एल	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार मिश्रा
513	जेसी 479033 एक्स	सुबेदार मेजर	शिव नंदन सिंह
514	जेसी 478729 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सिया राम
515	जेसी 480162 के	सुबेदार	आभी सिंह
516	जेसी 479610 वाइ	सुबेदार	अमीर सिंह
517	जेसी 480211 एफ	सुबेदार	भूप सिंह
518	जेसी 480058 डब्ल्यू	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह
519	जेसी 479736 वाइ	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह यादव

520	जेसी 480423 एम	सुबेदार	चमन सिंह नगर
521	जेसी 479989 एन	सुबेदार	चरण सिंह
522	जेसी 478363 के	सुबेदार	गोविंद सिंह
523	जेसी 480143 वाइ	सुबेदार	जितेन्द्रा प्रसाद तिवारी
524	जेसी 480264 ए	सुबेदार	कष्णन कुमार
525	जेसी 479499 ए	सुबेदार	कुंवर सिंह
526	जेसी 480348 एन	सुबेदार	रमेश सिंह
527	जेसी 480040 ए	सुबेदार	सत्य प्रकाश
528	जेसी 479774 पी	सुबेदार	शेख गुलाम रसूल
529	जेसी 479788 पी	सुबेदार	श्याम लाल सिंह
530	जेसी 479653 एन	सुबेदार	सुवर्ण सिंह
531	जेसी 479824 पी	सुबेदार	सुभाष सिंह

जाट रेजीमेंट

532	जेसी 489225 एच	सुबेदार मेजर	अरबिंद कुमार	
533	जेसी 489144 एच	सुबेदार मेजर	दया राम	
534	जेसी 489169 पी	सुबेदार मेजर	हनुमान राम जाट	
535	जेसी 489101 एन	सुबेदार मेजर	सीता राम	
536	जेसी 489154 एम	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्रा आर्य	
537	जेसी 152329 एन	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश त्रिपाठी	आर टी
538	जेसी 490016 एक्स	सुबेदार	एन सिंह	
539	जेसी 490041 डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा बोश	
540	जेसी 489909 वाइ	सुबेदार	जवाहर लाल जाट	
541	जेसी 489476 एम	सुबेदार	करन सिंह	
542	जेसी 489376 एफ	सुबेदार	खड़ग सिंह	
543	जेसी 490076 एम	सुबेदार	लक्ष्मण सिंह	
544	जेसी 490114 एक्स	सुबेदार	मुंशी राम	
545	जेसी 489794 डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	
546	जेसी 489786 एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश	
547	जेसी 490231 एच	सुबेदार	राम चन्द्र	
548	जेसी 489942 डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चन्द्र	
549	जेसी 489449 एच	सुबेदार	रणधीर सिंह	
550	जेसी 489672 एम	सुबेदार	सुम राम	
551	जेसी 489907 एन	सुबेदार	उदयवीर सिंह	
552	जेसी 490113 पी	सुबेदार	विद्याधर सिंह	

सिख रेजीमेंट

553	जेसी 498701 एक्स	सुबेदार मेजर	बलकार सिंह
554	जेसी 498606 एल	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह
555	जेसी 498988 ए	सुबेदार मेजर	गोरी संकर पटनायक

556	जेसी 152332	एन	सुबेदार मेजर	गुरबचन सिंह	आर टी
557	जेसी 498791	के	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह	
558	जेसी 498794	एक्स	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	
559	जेसी 498787	एफ	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह	
560	जेसी 498680	वाइ	सुबेदार मेजर	तरसेम सिंह	
561	जेसी 499398	एन	सुबेदार	बलकार सिंह	
562	जेसी 499783	एक्स	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	
563	जेसी 499240	एल	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	
564	जेसी 498857	पी	सुबेदार	दलविन्दर सिंह	
565	जेसी 499170	एक्स	सुबेदार	गुलज़ार सिंह	
566	जेसी 499209	वाइ	सुबेदार	हरबंस सिंह	
567	जेसी 499520	वाइ	सुबेदार	जसवंत सिंह	
568	जेसी 499452	डब्ल्यू	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	
569	जेसी 499332	एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह	
570	जेसी 499439	एम	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	
571	जेसी 499276	के	सुबेदार	परमिन्दर सिंह	
572	जेसी 499391	के	सुबेदार	सचदेव सिंह	
573	जेसी 499110	एच	सुबेदार	सतनारा सिंह	
574	जेसी 499075	एल	सुबेदार	सतपल सिंह	
575	जेसी 499051	एफ	सुबेदार	सुखविन्दर सिंह	
576	जेसी 499632	वाइ	सुबेदार	सुखजान सिंह	
577	जेसी 499422	वाइ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	

#### सिख लघु पैदल सेना

578	जेसी 508948	पी	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह
579	जेसी 508774	ए	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह
580	जेसी 508818	एम	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
581	जेसी 508893	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
582	जेसी 508890	एम	सुबेदार मेजर	निर्मल सिंह, कसाफा
583	जेसी 508444	एफ	सुबेदार मेजर	रणधीर सिंह
584	जेसी 509006	एल	सुबेदार मेजर	एस सिंह
585	जेसी 509208	एम	सुबेदार	गुलज़ार सिंह
586	जेसी 509498	पी	सुबेदार	हरपाल सिंह
587	जेसी 509133	ए	सुबेदार	जोगिन्दर सिंह
588	जेसी 509271	एफ	सुबेदार	करनैल सिंह
589	जेसी 509021	ए	सुबेदार	लखबीर सिंह
590	जेसी 509284	वाइ	सुबेदार	मगहर सिंह
591	जेसी 509433	एफ	सुबेदार	परमजीत सिंह
592	जेसी 508922	ए	सुबेदार	सोम सिंह

डोगरा रेजीमेंट

593	जेसी 519817 के	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
594	जेसी 519532 एक्स	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
595	जेसी 519632 एच	सुबेदार मेजर	सी एन बोध, एससी
596	जेसी 519699 एफ	सुबेदार मेजर	हेम सिंह
597	जेसी 519134 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जय कुमार सिंह
598	जेसी 519432 एम	सुबेदार मेजर	कमल सिंह
599	जेसी 519687 एम	सुबेदार मेजर	करन सिंह
600	जेसी 519800 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मनोहर लाल
601	जेसी 519477 एम	सुबेदार मेजर	मोहर सिंह
602	जेसी 519546 एक्स	सुबेदार मेजर	नानक चन्द लगवल
603	जेसी 519651 एन	सुबेदार मेजर	नील चन्द, एससी
604	जेसी 519631 ए	सुबेदार मेजर	पालदेन जी. एससी
605	जेसी 519720 वाइ	सुबेदार मेजर	सुनीत सिंह
606	जेसी 519384 एक्स	सुबेदार मेजर	ठाकुर सिंह
607	जेसी 520371 एम	सुबेदार	अजीत लाल
608	जेसी 520544 वाइ	सुबेदार	अंचल सिंह
609	जेसी 520549 एक्स	सुबेदार	अशवनी कुमार एस
610	जेसी 520425 एच	सुबेदार	बालक राम
611	जेसी 520890 पी	सुबेदार	ब्रम लाल शर्मा
612	जेसी 520537 एच	सुबेदार	दलीप सिंह
613	जेसी 520460 एल	सुबेदार	गुलशन कुमार
614	जेसी 520684 एल	सुबेदार	हरी राम
615	जेसी 520762 एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
616	जेसी 162962 एफ	सुबेदार	काली दास शर्मा
617	जेसी 519899 एक्स	सुबेदार	कष्णन चन्द
618	जेसी 520697 एच	सुबेदार	ओम प्रकाश
619	जेसी 520176 पी	सुबेदार	राजेश कुमार
620	जेसी 520099 एल	सुबेदार	रमेश चन्द
621	जेसी 520535 एक्स	सुबेदार	शमशेर सिंह
622	जेसी 520228 ए	सुबेदार	सुरेश कुमार
623	जेसी 520282 एन	सुबेदार	विजय कुमार
624	जेसी 519804 एम	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह झिनक्वान

आर टी

गढ़वाल राईफल्स

625	जेसी 529327 के	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
626	जेसी 529161 एन	सुबेदार मेजर	बिशन दत्त
627	जेसी 529280 के	सुबेदार मेजर	चन्द्र शेखर
628	जेसी 529285 एच	सुबेदार मेजर	धन सिंह



629	जेसी 529448	एल	सुबेदार मेजर	एच सिंह
630	जेसी 529191	एल	सुबेदार मेजर	जगदम्बा प्रसाद
631	जेसी 529283	एक्स	सुबेदार मेजर	महाबीर सिंह
632	जेसी 528962	एच	सुबेदार मेजर	पदम सिंह
633	जेसी 529304	एच	सुबेदार मेजर	पीएआर सिंह
634	जेसी 529122	पी	सुबेदार मेजर	शीतल सिंह
635	जेसी 529420	एल	सुबेदार मेजर	शिव कुमार
636	जेसी 530269	एक्स	सुबेदार	अर्जुन सिंह
637	जेसी 530473	डब्ल्यू	सुबेदार	भगत सिंह
638	जेसी 530284	एम	सुबेदार	भगवती प्रसाद
639	जेसी 530431	के	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह
640	जेसी 529998	एन	सुबेदार	बी पी के
641	जेसी 530080	ए	सुबेदार	हर्षपाल सिंह
642	जेसी 530505	एन	सुबेदार	जय प्रकाश
643	जेसी 529902	ए	सुबेदार	कुंदन सिंह
644	जेसी 530231	एन	सुबेदार	महाबीर सिंह
645	जेसी 529920	एच	सुबेदार	महीपाल सिंह बिष्ट
646	जेसी 530340	ए	सुबेदार	मान मोहन सिंह
647	जेसी 530517	एच	सुबेदार	राकेश चंद्रा
648	जेसी 530578	ए	सुबेदार	रोशन लाल
649	जेसी 530474	वाइ	सुबेदार	शिव सिंह

कृमोउ रेजीमेंट

650	जेसी 539141	एन	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्र कुमार
651	जेसी 539171	एल	सुबेदार मेजर	चरण सिंह बिष्ट
652	जेसी 539469	पी	सुबेदार मेजर	देवराज सिंह
653	जेसी 539477	एन	सुबेदार मेजर	हर सिंह
654	जेसी 539340	एफ	सुबेदार मेजर	इंद्र सिंह
655	जेसी 539327	एक्स	सुबेदार मेजर	राजबीर सिंह, एसएम
656	जेसी 539437	एम	सुबेदार मेजर	राम सिंह गरिया
657	जेसी 539102	पी	सुबेदार मेजर	शमशेर सिंह
658	जेसी 540110	ए	सुबेदार	गनेश सिंह
659	जेसी 540329	पी	सुबेदार	हरीश चंद्रा
660	जेसी 540021	एफ	सुबेदार	जगत सिंह
661	जेसी 539439	एक्स	सुबेदार	जगदीश सिंह नेगी
662	जेसी 539592	एन	सुबेदार	जय पाल सिंह
663	जेसी 539481	डब्ल्यू	सुबेदार	जीवन सिंह
664	जेसी 158232	वाइ	सुबेदार	के बी उपाध्याय
665	जेसी 540298	ए	सुबेदार	कुंदन सिंह
666	जेसी 539624	एल	सुबेदार	नंदा बल्लभ

आर टी

667 जेसी 540012 ए	सुबेदार	नारायण लाल
668 जेसी 539753 एल	सुबेदार	नरेंद्र सिंह
<u>आसाम रेजीमेंट</u>		
669 जेसी 548868 ए	सुबेदार मेजर	दल बहादुर थापा
670 जेसी 548720 एफ	सुबेदार मेजर	एच. लाल
671 जेसी 548848 एम	सुबेदार मेजर	एल. के.आई.
672 जेसी 548783 के	सुबेदार मेजर	एम. एम. बसुमा
673 जेसी 548583 एन	सुबेदार मेजर	रंजन सिन्हा
674 जेसी 140409 वाइ	सुबेदार मेजर	एस. एम. अनल
675 जेसी 548283 एम	सुबेदार मेजर	उत्तातम कुमार सिंघा
676 जेसी 549327 एल	सुबेदार	ए. नाबा कुमार सिंघा
677 जेसी 549233 एन	सुबेदार	बी. बिहारी सिंघा
678 जेसी 549268 के	सुबेदार	दिलीप कुमार रसैली
679 जेसी 549699 डब्ल्यू	सुबेदार	हेननिगेन
680 जेसी 549490 एल	सुबेदार	जयपुर पी
681 जेसी 549356 ए	सुबेदार	कृष्णा कान्ता बसुमा
682 जेसी 549090 वाइ	सुबेदार	लोक बहादुर थापा
683 जेसी 549185 वाइ	सुबेदार	पुतुल सेकिआ
684 जेसी 549201 एल	सुबेदार	रोंगसिंगचुंग
685 जेसी 549224 एम	सुबेदार	सुकुमार बसुमा
686 जेसी 549096 ए	सुबेदार	याम बहादुर थापा

आर टी

बिहार रेजीमेंट

687 जेसी 559046 एच	सुबेदार मेजर	बसन्ता कुमार प्रधान
688 जेसी 558972 एफ	सुबेदार मेजर	राम बाली दुबे
689 जेसी 144203 वाइ	सुबेदार मेजर	राम कृष्णन पाठक
690 जेसी 558970 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सोमरा ओरान
691 जेसी 559464 एक्स	सुबेदार	भज गोविन्द दास
692 जेसी 559691 एक्स	सुबेदार	भरत लाल
693 जेसी 559380 के	सुबेदार	गिरीश देव राय
694 जेसी 560245 एच	सुबेदार	जगन नाथ
695 जेसी 559978 पी	सुबेदार	कैलाश चंद्रा स्वेन
696 जेसी 559402 एक्स	सुबेदार	ललन सिंह यादव
697 जेसी 559524 एफ	सुबेदार	रमाकांत एम
698 जेसी 559280 वाइ	सुबेदार	राम गती महतो
699 जेसी 559473 वाइ	सुबेदार	सरत कुमार बेहेरा
700 जेसी 559965 एक्स	सुबेदार	सत्येन्द्र प्रसाद
701 जेसी 560088 एफ	सुबेदार	सुखदेव प्रसाद

आर टी

महार रेजीमेंट

702	जेसी 568849 ए	सुबेदार मेजर
703	जेसी 568808 एम	सुबेदार मेजर
704	जेसी 568981 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर
705	जेसी 568724 वाइ	सुबेदार मेजर
706	जेसी 568844 एक्स	सुबेदार मेजर
707	जेसी 568890 एम	सुबेदार मेजर
708	जेसी 569889 के	सुबेदार
709	जेसी 569959 एक्स	सुबेदार
710	जेसी 569711 एन	सुबेदार
711	जेसी 569629 वाइ	सुबेदार
712	जेसी 569746 के	सुबेदार
713	जेसी 569890 वाइ	सुबेदार
714	जेसी 569519 के	सुबेदार
715	जेसी 569743 डब्ल्यू	सुबेदार
716	जेसी 569401 एच	सुबेदार
717	जेसी 569655 ए	सुबेदार

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

718	जेसी 579533 के	सुबेदार मेजर
719	जेसी 579634 एक्स	सुबेदार मेजर
720	जेसी 579809 पी	सुबेदार मेजर
721	जेसी 579772 वाइ	सुबेदार मेजर
722	जेसी 579129 पी	सुबेदार मेजर
723	जेसी 579470 एम	सुबेदार मेजर
724	जेसी 579234 एल	सुबेदार मेजर
725	जेसी 160683 एक्स	सुबेदार मेजर
726	जेसी 580208 डब्ल्यू	सुबेदार
727	जेसी 580106 ए	सुबेदार
728	जेसी 580381 ए	सुबेदार
729	जेसी 580344 एम	सुबेदार
730	जेसी 580589 एच	सुबेदार
731	जेसी 580408 एम	सुबेदार
732	जेसी 580380 एक्स	सुबेदार
733	जेसी 580304 एल	सुबेदार
734	जेसी 580109 एन	सुबेदार
735	जेसी 580550 डब्ल्यू	सुबेदार
736	जेसी 580033 वाइ	सुबेदार
737	जेसी 580268 एल	सुबेदार

छाईतु साहू  
कालिया राम  
काम्बले सुभाष लिम्बाजी  
पी दलित डी.  
प्रताप नाथ  
वाघमरे दिगम्बर समभाजी  
भूपाल सिंह  
दरवान सिंह  
जसबीर सिंह  
मनके दिलीप शीताराम  
मुन्नेल कुमार  
महेश सिंह  
मनमोहन कुमार रूपाजी काम्बले  
श्रीलाल दयानन्द बापू  
सत्यदेव लाल  
उमराव सिंह

अजमेर चन्द कटोच  
अजयशिव सिंह  
अजयशिव सिंह  
गोपाल सिंह  
जसवीर सिंह  
मन्मथ चन्द  
रवीन्द्र सिंह  
विद्या प्रकाश शर्मा  
अब अजीज  
अनिल सिंह  
देविन्द्र सिंह  
धर्म पाल  
मनमोहन सिंह  
कुलवंत सिंह  
मोहम्मद कयूम  
प्रीतम सिंह  
मन्मथ चन्द  
राज सिंह  
मुन्नेल चन्द  
मुन्नेल राज

आर टी

738 जेसी 580165 एम सुबेदार सुरेन्द्रा छत्री  
लध्दाख स्काउट

739 जेसी 588216 के	सुबेदार मेजर	छेतन नमगौल
740 जेसी 588128 एन	सुबेदार मेजर	लोबजंग एन
741 जेसी 588134 एफ	सुबेदार मेजर	सोनम रिगजिन
742 जेसी 588239 एल	सुबेदार	कर्मा सम्स्तान
743 जेसी 588347 पी	सुबेदार	सकाराम सम्स्तान
744 जेसी 588430 एम	सुबेदार	स्टनजिन टुनदुप
745 जेसी 588352 ए	सुबेदार	टुनदुप वंगेल

नागा रेजीमेंट

746 जेसी 590137 एन	सुबेदार मेजर	नंदन सिंह
747 जेसी 590037 एच	सुबेदार मेजर	वाइ चिम्बीज

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

748 जेसी 592530 पी	सुबेदार मेजर	बचन लाल
749 जेसी 592546 ए	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह
750 जेसी 592701 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
751 जेसी 592712 एच	सुबेदार मेजर	मोहम्मद हुसैन
752 जेसी 592424 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहम्मद क्यू
753 जेसी 592584 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहम्मद सादिक
754 जेसी 592589 पी	सुबेदार मेजर	मुख्तार राज
755 जेसी 592717 एफ	सुबेदार मेजर	प्रीतम लाल
756 जेसी 592744 एल	सुबेदार मेजर	सागर सिंह
757 जेसी 592633 एन	सुबेदार मेजर	स्वर्ण सिंह कटाल
758 जेसी 592673 पी	सुबेदार मेजर	तिलक राज
759 जेसी 593343 एच	सुबेदार	अंचल राम
760 जेसी 593171 वाइ	सुबेदार	ए सिंह
761 जेसी 593297 वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह
762 जेसी 593375 एल	सुबेदार	बलवंत सिंह
763 जेसी 593416 के	सुबेदार	बशीर अहमद शेख
764 जेसी 593485 ए	सुबेदार	बहादुर सिंह
765 जेसी 593690 एफ	सुबेदार	देव राज
766 जेसी 592736 एम	सुबेदार	गुरदास सिंह
767 जेसी 593076 एम	सुबेदार	जनक राज
768 जेसी 593210 एम	सुबेदार	मोहम्मद अफराज
769 जेसी 593269 एम	सुबेदार	मोहम्मद आलम
770 जेसी 593947 एफ	सुबेदार	मोहम्मद शकूर
771 जेसी 593354 पी	सुबेदार	प्यारा लाल शर्मा

772	जेसी 593583 ए	सुबेदार	राज कपूर
773	जेसी 593323 पी	सुबेदार	रमेश कुमार मेहरा
774	जेसी 592985 एल	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार
775	जेसी 592968 एल	सुबेदार	रोमेश कुमार
776	जेसी 593429 एफ	सुबेदार	सतवीर कुमार
777	जेसी 592973 डब्ल्यू	सुबेदार	सूरज सिंह
778	जेसी 593536 एच	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह
779	जेसी 593623 डब्ल्यू	सुबेदार	तारा चन्द
780	जेसी 592982 एक्स	सुबेदार	तारा चन्द
781	जेसी 593118 एन	सुबेदार	वाली मोढ़

**1 गोरखा राईफल्स**

782	जेसी 602429 एल	सुबेदार मेजर	हरी बहादुर थापा
783	जेसी 602596 एफ	सुबेदार	चंद्रा बहादुर गुरंग
784	जेसी 602595 वाइ	सुबेदार	पूर्णा बहादुर गुरंग
785	जेसी 602638 एच	सुबेदार	रंजीत राना
786	जेसी 602680 एफ	सुबेदार	रेशम बहादुर थापा

**3 गोरखा राईफल्स**

787	जेसी 607314 एफ	सुबेदार मेजर	जग बहादुर गुरंग
788	जेसी 607534 एल	सुबेदार मेजर	खेम बहादुर भुजल
789	जेसी 607446 पी	सुबेदार मेजर	आरईके बहादुर थापा
790	जेसी 607387 एन	सुबेदार मेजर	उमान सिंह थापा
791	जेसी 607519 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	याम बहादुर थापा
792	जेसी 607584 डब्ल्यू	सुबेदार	गंगा बहादुर थापा
793	जेसी 607652 वाइ	सुबेदार	कमल बहादुर पुन

**4 गोरखा राईफल्स**

794	जेसी 612436 पी	सुबेदार मेजर	नार बहादुर गुरंग
795	जेसी 612427 एन	सुबेदार मेजर	प्रीतम बहादुर थापा
796	जेसी 612700 एक्स	सुबेदार	गीर बहादुर थापा
797	जेसी 612703 एल	सुबेदार	नारायण सिंह आर
798	जेसी 612544 वाइ	सुबेदार	नार बहादुर थापा

**5 गोरखा राईफल्स**

799	जेसी 617545 एल	सुबेदार मेजर	धन बहादुर थापा
800	जेसी 617472 के	सुबेदार मेजर	दुर्गा बहादुर राना
801	जेसी 617569 पी	सुबेदार मेजर	गण बहादुर थापा
802	जेसी 158807 एच	सुबेदार मेजर	एच सी धस्माना
803	जेसी 617608 के	सुबेदार मेजर	के बहादुर गुरंग

आर टी

804 जेसी 617900 एक्स सुबेदार नेत्रा बहादुर केसी  
8 गोरखा राईफल्स

805 जेसी 623277 एच	सुबेदार मेजर	दल बहादुर गुरंग
806 जेसी 623357 ए	सुबेदार मेजर	केयूएस प्रसाद गुरंग
807 जेसी 623348 वाइ	सुबेदार मेजर	सूर्या बहादुर प्रधान
808 जेसी 623441 ए	सुबेदार मेजर	याम बहादुर हमल
809 जेसी 623615 पी	सुबेदार	बीईएल बहादुर पुन
810 जेसी 623708 के	सुबेदार	बी प्रसाद गुरंग
811 जेसी 623730 पी	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा
812 जेसी 623723 वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह गुलरिया
813 जेसी 623538 एल	सुबेदार	विजय कुमार गुरंग
814 जेसी 623657 एफ	सुबेदार	वाईओयू बहादुर राना

9 गोरखा राईफल्स

815 जेसी 629801 एफ	सुबेदार	बीर बहादुर साही
816 जेसी 629657 एक्स	सुबेदार	चित्रा बहादुर थापा
817 जेसी 629743 एच	सुबेदार	गोकरना राज जी.
818 जेसी 629776 एन	सुबेदार	कृष्णा बहादुर मल्ला
819 जेसी 629678 एन	सुबेदार	पदम सिंह छत्री

11 गोरखा राईफल्स

820 जेसी 634361 एच	सुबेदार मेजर	भक्ता मुखिया
821 जेसी 634108 एफ	सुबेदार मेजर	टेक बहादुर लिम्बू
822 जेसी 634262 ए	सुबेदार मेजर	वाइ शिरिंग लेपचा
823 जेसी 634869 एम	सुबेदार	चेत बहादुर लिम्बू
824 जेसी 634703 एल	सुबेदार	लोक बहादुर लिम्बू
825 जेसी 634806 के	सुबेदार	महेंद्र कुमार सुब्बा
826 जेसी 634620 ए	सुबेदार	वाइ राय

सेना सेवा कोर दक्षिण

827 जेसी 641090 वाइ	सुबेदार मेजर	आनंद स्वरूप
828 जेसी 642158 एफ	सुबेदार मेजर	आशीम कुमार दास
829 जेसी 641146 ए	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
830 जेसी 662425 वाइ	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह शेखावत
831 जेसी 640966 ए	सुबेदार मेजर	भासकरण पी
832 जेसी 662681 एन	सुबेदार मेजर	छबि राम सिंह
833 जेसी 641364 वाइ	सुबेदार मेजर	दया चन्द
834 जेसी 642130 एफ	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार
835 जेसी 641113 पी	सुबेदार मेजर	गंगा सिंह तरीयाल

836	जेसी 640871	एल	सुबेदार मेजर	कृष्णा कुमार सिंह
837	जेसी 662549	एन	सुबेदार मेजर	कृष्णा प्रसाद रवा
838	जेसी 662347	एम	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह
839	जेसी 641143	एम	सुबेदार मेजर	मल्कीत सिंह
840	जेसी 662574	एम	सुबेदार मेजर	मोहन लाल
841	जेसी 641147	एच	सुबेदार मेजर	नरेंद्र सिंह
842	जेसी 641394	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नरिंदर पाल सिंह जी.
843	जेसी 662364	एम	सुबेदार मेजर	रबीन्द्र मिश्रा
844	जेसी 640979	एक्स	सुबेदार मेजर	राजू जोसफ
845	जेसी 641973	एच	सुबेदार मेजर	राम कुमार
846	जेसी 641846	एन	सुबेदार मेजर	राम निवास
847	जेसी 140502	ए	सुबेदार मेजर	राम पूजन पांडे
848	जेसी 641159	एक्स	सुबेदार मेजर	आर के
849	जेसी 642246	एक्स	सुबेदार मेजर	शिव कुमार शर्मा
850	जेसी 641635	एल	सुबेदार मेजर	सुदेव कुमार
851	जेसी 662454	एन	सुबेदार मेजर	एस प्रभाकर
852	जेसी 663643	के	सुबेदार	ए बी शिवकुमार
853	जेसी 663773	एम	सुबेदार	हरी नारायण राय
854	जेसी 663952	एम	सुबेदार	जसपाल सिंह
855	जेसी 664919	एफ	सुबेदार	के सुजिंदर
856	जेसी 641576	के	सुबेदार	लक्षमन सिंह
857	जेसी 663816	डब्ल्यू	सुबेदार	पी कदवा
858	जेसी 663873	एक्स	सुबेदार	प्रभाकर चंद्रा बराल
859	जेसी 664269	वाइ	सुबेदार	शम्भू प्रसाद
860	जेसी 663516	पी	सुबेदार	शिव राम शर्मा
861	जेसी 641582	एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार
862	जेसी 663883	एफ	सुबेदार	सुरेश चंद्रा प्रजापति

आर टी

सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन

863	जेसी 680655	पी	रिसालदार मेजर	मनवीर सिंह
864	जेसी 680934	ए	रिसालदार	अब्दुल हकीम
865	जेसी 680932	पी	रिसालदार	अक्षय लाल सिंह
866	जेसी 680889	वाइ	रिसालदार	सी कृष्णन
867	जेसी 680975	के	रिसालदार	घान बहादुर
868	जेसी 681009	के	रिसालदार	एच नमदेव रमनाथ
869	जेसी 680867	ए	रिसालदार	कमलेश शर्मा
870	जेसी 680866	एक्स	रिसालदार	मान मठ के
871	जेसी 680760	एल	रिसालदार	मोहम्मद एफ जैदुली
872	जेसी 680931	एम	रिसालदार	पठान सलामुद्दीन गुलाब
873	जेसी 680898	ए	रिसालदार	राम बाबू राय

874	जेसी 680918 एच	रिसालदार	राम निवास
875	जेसी 680891 डब्ल्यू	रिसालदार	सादत हुसैन
876	जेसी 680878 एम	रिसालदार	सत्यनारायण माली
877	जेसी 680887 एन	रिसालदार	विजय शंकर राम
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>			

878	जेसी 694178 के	सुबेदार मेजर	अच्युत कुमार घोष	
879	जेसी 694519 के	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह	
880	जेसी 694916 एच	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	
881	जेसी 694179 एम	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	
882	जेसी 694566 एफ	सुबेदार मेजर	भरत चौधरी	
883	जेसी 694527 एच	सुबेदार मेजर	बी दून	
884	जेसी 694503 वाइ	सुबेदार मेजर	देब सिंह बिष्ट	
885	जेसी 694401 एच	सुबेदार मेजर	दिल नारायण श्रेष्ठ	
886	जेसी 694982 एल	सुबेदार मेजर	दुलाल सिन्हा	
887	जेसी 161110 ए	सुबेदार मेजर	गिरीश चंद्रा जोशी	आर टी
888	जेसी 694682 के	सुबेदार मेजर	जय भगवान सिंह	
889	जेसी 694471 एफ	सुबेदार मेजर	ललन सिंह	
890	जेसी 694406 एफ	सुबेदार मेजर	लाल बहादुर	
891	जेसी 161106 एक्स	सुबेदार मेजर	महा प्रसाद पांडे	आर टी
892	जेसी 694501 एन	सुबेदार मेजर	मिर्जा के	
893	जेसी 694589 एच	सुबेदार मेजर	नरेश कुमार अग्रवाल	
894	जेसी 692563 पी	सुबेदार मेजर	निलाम्बर बी	
895	जेसी 691170 एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	
896	जेसी 693569 एच	सुबेदार मेजर	पवार धानाजी शंकर	
897	जेसी 691832 के	सुबेदार मेजर	राज सिंह	
898	जेसी 692446 के	सुबेदार मेजर	रामनिवास सिंह	
899	जेसी 694497 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	शशि कुमार सिंघा	
900	जेसी 694529 एन	सुबेदार मेजर	सतबीर सिंह	
901	जेसी 690999 एफ	सुबेदार मेजर	सैयद सादिक	
902	जेसी 694576 एल	सुबेदार मेजर	सेवा सिंह	
903	जेसी 691442 एफ	सुबेदार मेजर	शरत चन्द	
904	जेसी 695172 पी	सुबेदार मेजर	सिद्ध नाथ सिंह	
905	जेसी 694482 एन	सुबेदार मेजर	सुख राम मौर्या	
906	जेसी 694680 वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार	
907	जेसी 691494 एक्स	सुबेदार मेजर	उमा संकर डे	
908	जेसी 694504 एफ	सुबेदार मेजर	वी थापा	
909	जेसी 161071 एम	सुबेदार मेजर	व्यास प्रसाद मिश्रा	आर टी
910	जेसी 694933 एच	सुबेदार मेजर	वाइ लेपचा	
911	जेसी 696037 एन	सुबेदार	विभूति भूसेन महाराज	



912	जेसी 696047	एक्स	सुबेदार	बीर बहादुर सिंह
913	जेसी 696120	एल	सुबेदार	देव नाथ यादव
914	जेसी 694409	पी	सुबेदार	गुलाब चन्द यादव
915	जेसी 692465	पी	सुबेदार	किशन लाल
916	जेसी 696044	के	सुबेदार	महाबीर प्रसाद सैनी
917	जेसी 696567	एच	सुबेदार	प्रताप राम
918	जेसी 696156	के	सुबेदार	पूरन चन्द सैनी
919	जेसी 692211	एक्स	सुबेदार	रमेश कुमार
<u>सेना आयुध कोर</u>				

920	जेसी 726517	पी	सुबेदार मेजर	बनारसी दास
921	जेसी 726721	एन	सुबेदार मेजर	बनवारी लाल
922	जेसी 723682	पी	सुबेदार मेजर	भरत पाल
923	जेसी 724037	एम	सुबेदार मेजर	बोद्धा गीता राव
924	जेसी 723917	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	किशन सिंह
925	जेसी 723915	एल	सुबेदार मेजर	एम एच
926	जेसी 725403	एक्स	सुबेदार मेजर	मुन्ना लाल साह
927	जेसी 724631	एन	सुबेदार मेजर	प्रेम बल्लभ
928	जेसी 723647	एम	सुबेदार मेजर	आर बाबू सी
929	जेसी 726467	पी	सुबेदार मेजर	राजवीर सिंह
930	जेसी 723873	के	सुबेदार मेजर	आर वी बालसुब्रामणियम
931	जेसी 724260	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्याम लाल
932	जेसी 723926	एक्स	सुबेदार मेजर	सुदर्शन जैना
933	जेसी 724130	एन	सुबेदार	अक्षय कुमार दाश
934	जेसी 726999	पी	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार तिवारी
935	जेसी 726675	के	सुबेदार	चंद्र सेकार सिंह
936	जेसी 727284	एल	सुबेदार	चंदेश्वर प्रसाद
937	जेसी 725704	एफ	सुबेदार	हमीर सिंह सोलंकी
938	जेसी 727266	एच	सुबेदार	इन्द्रजीत मंडल
939	जेसी 725829	वाइ	सुबेदार	जल सिंह
940	जेसी 726896	डब्ल्यू	सुबेदार	झम्मन सिंह यादव
941	जेसी 725131	एच	सुबेदार	काम्बले संजय किसान राव
942	जेसी 726894	एल	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह
943	जेसी 726839	पी	सुबेदार	ओम प्रकाश वर्मा
944	जेसी 726985	पी	सुबेदार	पी गोपाल मोन्डल
945	जेसी 727973	एम	सुबेदार	परमजीत सिंह
946	जेसी 725869	ए	सुबेदार	फूल सिंह
947	जेसी 726140	डब्ल्यू	सुबेदार	राय सिंह बसेरा
948	जेसी 726752	एन	सुबेदार	राम विलास यादव
949	जेसी 727500	एन	सुबेदार	श्रीनिवास भारद्वाज

950	जेसी 727478 एन	सुबेदार	सुनील कुमार
951	जेसी 727028 डब्ल्यू	सुबेदार	तिल बहादुर छत्री सारकी
952	जेसी 726825 पी	सुबेदार	विनोद कुमार
953	जेसी 726923 पी	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह
954	जेसी 725610 के	सुबेदार	यस पाल सिंह
<u>कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>			

955	जेसी 754065 एन	सुबेदार मेजर	अमर नाथ झा
956	जेसी 754237 एक्स	सुबेदार मेजर	अमर सिंह यादव
957	जेसी 754142 एक्स	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा कुमार शर्मा
958	जेसी 754449 एच	सुबेदार मेजर	बी थामोथरन
959	जेसी 754103 वाइ	सुबेदार मेजर	बुध प्रकाश शर्मा
960	जेसी 755941 ए	सुबेदार मेजर	चंचल रौय चौधरी
961	जेसी 754232 वाइ	सुबेदार मेजर	दस्तगीर
962	जेसी 751333 एफ	सुबेदार मेजर	दोलत राम
963	जेसी 752326 एक्स	सुबेदार मेजर	देस राज ठाकुर
964	जेसी 754343 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	धीरेन्द्र नाथ भूयान
965	जेसी 753975 पी	सुबेदार मेजर	दीपक बहादुर लामा
966	जेसी 751634 एल	सुबेदार मेजर	गजिंद्र सिंह रावत
967	जेसी 751416 एम	सुबेदार मेजर	हरचरन सिंह
968	जेसी 753663 वाइ	सुबेदार मेजर	जगबीर सिंह
969	जेसी 753844 के	सुबेदार मेजर	जगदेव सिंह
970	जेसी 753889 के	सुबेदार मेजर	जय राम
971	जेसी 754337 एच	सुबेदार मेजर	जेजी जी.
972	जेसी 753846 पी	सुबेदार मेजर	जॉनी जी.
973	जेसी 754401 पी	सुबेदार मेजर	कमलेश कुमार पाठक
974	जेसी 757136 पी	सुबेदार मेजर	कन्हैया लाल
975	जेसी 754076 ए	सुबेदार मेजर	करन सिंह
976	जेसी 751556 वाइ	सुबेदार मेजर	केन्द्रे पण्डित हनमंत राव
977	जेसी 754593 एक्स	सुबेदार मेजर	के पिल्लई जी.
978	जेसी 753586 पी	सुबेदार मेजर	कृष्णा दत्त शर्मा
979	जेसी 754359 एफ	सुबेदार मेजर	लाल सिंह
980	जेसी 756074 एन	सुबेदार मेजर	मंगल सिंह
981	जेसी 756077 एफ	सुबेदार मेजर	मोहन चेंदारा
982	जेसी 754383 एक्स	सुबेदार मेजर	एम रामचन्द्रन
983	जेसी 752597 पी	सुबेदार मेजर	एम सिवराज
984	जेसी 752527 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मूर्ती एस
985	जेसी 758426 एक्स	सुबेदार मेजर	नाथू सिंह
986	जेसी 751888 एच	सुबेदार मेजर	रघुवीर सिंह एल
987	जेसी 751685 वाइ	सुबेदार मेजर	राजीव कुमार सिंह

988	जेसी 753880	पी	सुबेदार मेजर	आर शिवरन	
989	जेसी 753978	एच	सुबेदार मेजर	सदाशिवन नायर पी बी	
990	जेसी 754070	वाइ	सुबेदार मेजर	सतीश चन्द गुलेरिया	
991	जेसी 753361	एम	सुबेदार मेजर	एस बहादुर नेबर	
992	जेसी 146675	एन	सुबेदार मेजर	शिव कुमार जिमाटी	आर टी
993	जेसी 753036	एम	सुबेदार मेजर	शिवराज कुमार वशिष्ठा	
994	जेसी 753018	के	सुबेदार मेजर	एस सुब्बा राव	
995	जेसी 754257	एल	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्रा	
996	जेसी 758319	एक्स	सुबेदार मेजर	विजया कुमार पीएस	
997	जेसी 749237	एन	सुबेदार मेजर	बीजेन्द कुमार मुन्ता	
998	जेसी 756449	एफ	सुबेदार	ए मोहनकारी	
999	जेसी 754599	वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार	
1000	जेसी 763448	एफ	सुबेदार	बालीराज राय	
1001	जेसी 755014	एम	सुबेदार	आई राम	
1002	जेसी 762876	एन	सुबेदार	भजन सिंह	
1003	जेसी 763312	एक्स	सुबेदार	भरत सिंह मुर्जर	
1004	जेसी 756311	एम	सुबेदार	भोला सिंह यादव	
1005	जेसी 763261	पी	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	
1006	जेसी 757782	एम	सुबेदार	बोज्जा प्रकाश	
1007	जेसी 760582	एफ	सुबेदार	बी वी राव	
1008	जेसी 759142	एफ	सुबेदार	सी मुनियांदी	
1009	जेसी 758116	एन	सुबेदार	गायकवाड सहाजी यशवन्त	
1010	जेसी 763823	एफ	सुबेदार	जी. महेन्द्रन	
1011	जेसी 761721	एम	सुबेदार	गोरा सिंह	
1012	जेसी 761149	के	सुबेदार	हरेन्द्र ठाकुर	
1013	जेसी 756638	एल	सुबेदार	जीतेन कुमार नाथ	
1014	जेसी 763149	एच	सुबेदार	कमल किशोर शर्मा	
1015	जेसी 763393	एच	सुबेदार	महेश सिंह राजपूत	
1016	जेसी 760482	डब्ल्यू	सुबेदार	महीपाल सिंह	
1017	जेसी 756150	पी	सुबेदार	महीपाल सिंह	
1018	जेसी 762078	ए	सुबेदार	एम सिंह	
1019	जेसी 762508	वाइ	सुबेदार	मोहम्मद अयूब नोबी	
1020	जेसी 755994	वाइ	सुबेदार	एम मोनमलाई	
1021	जेसी 761815	के	सुबेदार	एम खान	
1022	जेसी 753752	एक्स	सुबेदार	नागराजू आरएल	
1023	जेसी 188989	एफ	सुबेदार	नरेन्द्रा नाथ तिवारी	आर टी
1024	जेसी 753725	एन	सुबेदार	नीरंज राव	
1025	जेसी 763483	के	सुबेदार	पी च. केपला राव	
1026	जेसी 763858	एक्स	सुबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	
1027	जेसी 757882	वाइ	सुबेदार	प्रीतम सिंह	

1028 जेसी 757607 एक्स	सुबेदार	राजदेव सिंह यादव
1029 जेसी 764028 एन	सुबेदार	रमेश चन्द
1030 जेसी 761284 एक्स	सुबेदार	राम नरेश सिंह
1031 जेसी 763131 एम	सुबेदार	राम सिंह नेगी
1032 जेसी 756903 डब्ल्यू	सुबेदार	राम तेज
1033 जेसी 761486 वाइ	सुबेदार	रामबीर सिंह
1034 जेसी 755016 एक्स	सुबेदार	आर सुबा राज
1035 जेसी 759491 एल	सुबेदार	संत राज राम
1036 जेसी 763346 एल	सुबेदार	सतीसन एस
1037 जेसी 755380 डब्ल्यू	सुबेदार	सतपाल सिंह
1038 जेसी 760578 वाइ	सुबेदार	शिवेंद्र पाठक
1039 जेसी 753820 ए	सुबेदार	एस मणिवान्नन
1040 जेसी 759582 पी	सुबेदार	सुदर्शनन नायर जी.
1041 जेसी 756438 पी	सुबेदार	सूरत सिंह
1042 जेसी 755978 एफ	सुबेदार	टेक बहादुर शर्मा
1043 जेसी 756594 वाइ	सुबेदार	त्रिलोक सिंह
1044 जेसी 763447 वाइ	सुबेदार	उपेंद्र प्रसाद यादव
1045 जेसी 755051 ए	सुबेदार	विजय कुमार

#### सेना शिक्षा कोर

1046 जेसी 802788 एच	सुबेदार मेजर	अमर नाथ सिंह यादवा
1047 जेसी 802562 एक्स	सुबेदार मेजर	प्रमोद कुमार के
1048 जेसी 802202 एफ	सुबेदार मेजर	एस के अब्बास मोन्डल
1049 जेसी 802550 एच	सुबेदार मेजर	सतीश चंद्रा
1050 जेसी 802518 एन	सुबेदार मेजर	उरबा दत्त भट्ट
1051 जेसी 802892 डब्ल्यू	सुबेदार	अभिलाख सिंह
1052 जेसी 803459 वाइ	सुबेदार	बच्चे सिंह ए
1053 जेसी 803556 डब्ल्यू	सुबेदार	बृज चंद्रा यादव
1054 जेसी 803104 एन	सुबेदार	जगत नारायण यादव
1055 जेसी 803590 डब्ल्यू	सुबेदार	कुलदीप सिंह राघव
1056 जेसी 803445 वाइ	सुबेदार	लुम्बा राम चौधरी
1057 जेसी 802903 एक्स	सुबेदार	पृथ्वी नाथ मनी
1058 जेसी 802822 एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश सिंह
1059 जेसी 802842 एल	सुबेदार	राम शंकर
1060 जेसी 802839 एल	सुबेदार	उमेश दत्त भारद्वाज

#### रिसाल्ट एवं वेटनरी कोर

1061 जेसी 797200 के	रिसालदार मेजर	बुद्धा राम
1062 जेसी 797541 पी	रिसालदार	करमबीर सिंह
1063 जेसी 797436 वाइ	रिसालदार	नेत्रा पाल सिंह

आसुचना कोर

1064 जेसी 810236 के	सुबेदार मेजर	किशन सिंह
1065 जेसी 810681 एच	सुबेदार मेजर	पृथ्वी सिंह भूरिया
1066 जेसी 810242 एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द
1067 जेसी 210043 एम	सुबेदार मेजर	रतन कुमार सरकार
1068 जेसी 810098 एन	सुबेदार मेजर	सुभाष चन्द नेगी
1069 जेसी 810131 ए	सुबेदार मेजर	सुखचैन सिंह
1070 जेसी 810760 एक्स	सुबेदार	ए प्रताप सिंह
1071 जेसी 810738 एम	सुबेदार	रघबीर सिंह चौहान
1072 जेसी 811088 डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
1073 जेसी 810777 एल	सुबेदार	राजेश्वर कुमार
1074 जेसी 810786 एम	सुबेदार	राम किशोर द्विवेदी
1075 जेसी 810784 एफ	सुबेदार	त्रिभुवन सिंह

सेना पुलिस कोर

1076 जेसी 818792 पी	सुबेदार मेजर	अशोक नाथ त्रिपाठी
1077 जेसी 818797 एन	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
1078 जेसी 818786 एफ	सुबेदार मेजर	भागीरथ सिंह
1079 जेसी 818756 के	सुबेदार मेजर	नटराजन के
1080 जेसी 818857 एक्स	सुबेदार मेजर	राम बिहारी सिंह, एसएम
1081 जेसी 819200 एम	सुबेदार	हनुमाना राम बी
1082 जेसी 818980 डब्ल्यू	सुबेदार	शैलेंद्र सिंह

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1083 जेसी 826122 एच	सुबेदार मेजर	बिल बहादुर थापा
---------------------	--------------	-----------------

पायोनियर कोर

1084 जेसी 829027 एफ	सुबेदार मेजर	रामजीत सिंह
1085 जेसी 829269 के	सुबेदार मेजर	एस पटेल
1086 जेसी 829387 एक्स	सुबेदार	जे पात्रा

सेना डाक सेवा

1087 जेसी 834103 एम	सुबेदार	जी. भीमराव एस
---------------------	---------	---------------

रक्षा सुरक्षा कोर

1088 जेसी 840536 ए	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
1089 जेसी 841485 के	सुबेदार मेजर	एम के पेरुमल
1090 जेसी 842214 वाइ	सुबेदार	चिन्तामानि शर्मा
1091 जेसी 842079 डब्ल्यू	सुबेदार	इंद्र देव शुक्ल
1092 जेसी 841557 एच	सुबेदार	मेहर बेन सिंह
1093 जेसी 841469 एम	सुबेदार	मेवा सिंह
1094 जेसी 841761 एफ	सुबेदार	रमेश चंद्र
1095 जेसी 842347 पी	सुबेदार	केके तिलक राज

प्रदेशिक सेना

1096 टिजे 3918 एल	सुबेदार	अभिनन्दन सिंह
1097 टिजे 4314 वाई	सुबेदार	अतीक अहमद
1098 टिजे 4804 एम	सुबेदार	अवदेश कुमार
1099 टिजे 4612 पी	सुबेदार	बलबीर सिंह
1100 टिजे 5039 डब्ल्यू	सुबेदार	गिरीश बाबू
1101 टिजे 4078 एक्स	सुबेदार	गोपाल दास
1102 टिजे 3936 एन	सुबेदार	गोरख नाथ
1103 टिजे 4813 एन	सुबेदार	हमीर सिंह
1104 टिजे 4903 पी	सुबेदार	के कुमार
1105 टिजे 4238 एक्स	सुबेदार	मंगा राम
1106 टिजे 4416 पी	सुबेदार	मुरारी लाल
1107 टिजे 4865 के	सुबेदार	रघुबीर सिंह यादव
1108 टिजे 5042 डब्ल्यू	सुबेदार	राम किशोर
1109 टिजे 4614 ए	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार
1110 टिजे 4155 डब्ल्यू	सुबेदार	विशवापाल

क्योत्तिर मंजूरी 26 जनवरी 2007 से अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

राजपूत रेजीमेंट

1. जेसी-218259 एच एक्स सुबेदार मेजर किरन पाल सिंह  
[सं. बी/43432/आरडी-13/एजी/सीडब्ल्यू-2]  
जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेन्ट जनरल

**MINISTRY OF DEFENCE****(ARMY BRANCH)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 01(E) dated 26th January, 2013.**—The President is pleased to grant honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Republic Day 2013 to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army 1987, with effect from 26th January, 2013, subject to the individual not being under any disciplinary action and satisfactory continued performance :—

**TO BE HONORARY CAPTAINS****7 CAVALRY**

1 JC 240436X RIS MAJ & HONY LT CHARAN SINGH

**63 CAVALRY**

2 JC 239751F RIS MAJ & HONY LT GOPAL SINGH POONIA  
3 JC 239996X RIS MAJ & HONY LT RAM SWAROOP SINGH  
4 JC 241444H RIS & HONY LT RAKESH BHADUR SINGH

**65 ARMoured REGIMENT**

5 JC 241952Y RIS & HONY LT GHAR RAM  
**82 ARMoured REGIMENT**

6 JC 238961P RIS MAJ & HONY LT KARAN SINGH  
**85 ARMoured REGIMENT**

7 JC 237789M RIS MAJ & HONY LT RANBIR SINGH  
**ARMoured CORPS**

8 JC 239048N RIS MAJ & HONY LT SATNAM SINGH BLAGGAN  
**REGIMENT OF ARTILLERY**

9	JC 262115A	SUB MAJ & HONY LT	AJAB SINGH
10	JC 258396K	SUB MAJ & HONY LT	AKHILESH KUMAR
11	JC 261861W	SUB MAJ & HONY LT	ALEXANDER MATHEW
12	JC 264629W	SUB MAJ & HONY LT	G MAKUNTHU
13	JC 263580Y	SUB MAJ & HONY LT	GOPA KUMAR S
14	JC 263239F	SUB MAJ & HONY LT	GURDEV SINGH
15	JC 262983M	SUB MAJ & HONY LT	GURSHINDER SINGH
16	JC 262118N	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR DAYAL SHARMA
17	JC 262599L	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER SHARMA
18	JC 262818F	SUB MAJ & HONY LT	JAIPAL SINGH
19	JC 261774H	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
20	JC 263213M	SUB MAJ & HONY LT	KALI CHARAN DEKA
21	JC 263439X	SUB MAJ & HONY LT	LAL BAHADUR SINGH
22	JC 260415H	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA DUBEY
23	JC 261581H	SUB MAJ & HONY LT	MANI BALAN P
24	JC 264010P	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA BAHADUR SINGH
25	JC 261507F	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH
26	JC 261658A	SUB MAJ & HONY LT	R PANDIYAN
27	JC 260053M	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH
28	JC 160786W	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH
29	JC 267317L	SUB & HONY LT	HARISH CHANDRA JOSHI
30	JC 271360K	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR
31	JC 267609N	SUB & HONY LT	RAM LAL
32	JC 269081A	SUB & HONY LT	SUBE SINGH

(RT)

**ARMY AIR DEFENCE**

33	JC 297825W	SUB MAJ & HONY LT	RAMA SHANKER SHARMA
34	JC 296405K	SUB MAJ & HONY LT	RAM MEHAR SINGH
35	JC 297581N	SUB MAJ & HONY LT	SITA RAM SAMANTA
36	JC 297121M	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH
37	JC 299865W	SUB & HONY LT	KISHORI LAL
38	JC 299885K	SUB & HONY LT	RAM NIWAS

**MADRAS ENGINEER GROUP**

39	JC 307005A	SUB MAJ & HONY LT	A ANTHONY
40	JC 306778N	SUB MAJ & HONY LT	AJITH GOPINATH
41	JC 306477K	SUB MAJ & HONY LT	DHANAPAL
42	JC 306861L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNAMOORTHY P
43	JC 308736A	SUB & HONY LT	A ANUMAPPAN
44	JC 305967L	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR

45	JC 308358M	SUB & HONY LT	DAVIS KV
46	JC 308694Y	SUB & HONY LT	DHAKSHINA MOORTHY
47	JC 308119X	SUB & HONY LT	M KESAVAN
48	JC 308314P	SUB & HONY LT	MURALEEDHARAN N
49	JC 308711N	SUB & HONY LT	PUPPALA APPLA RAJU
50	JC 308357K	SUB & HONY LT	S ANTHONY JACAB
51	JC 308724L	SUB & HONY LT	SIVADASAN U

**BENGAL ENGINEER GROUP**

52	JC 328182N	SUB MAJ & HONY LT	ATMA SINGH
53	JC 328378F	SUB MAJ & HONY LT	HRIDYA NARAYAN SINGH
54	JC 328524W	SUB MAJ & HONY LT	JASBIR SINGH
55	JC 328377Y	SUB MAJ & HONY LT	MANWAR SINGH
56	JC 328303K	SUB MAJ & HONY LT	PRASANTA KUMAR PATTA NAYAK
57	JC 329400N	SUB & HONY LT	AMAR BAHADUR SINGH

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

58	JC 348938K	SUB MAJ & HONY LT	AMRIK SINGH
59	JC 349211L	SUB MAJ & HONY LT	CHARAN SINGH
60	JC 348841Y	SUB MAJ & HONY LT	GURMEL SINGH
61	JC 348924K	SUB MAJ & HONY LT	KAILASH CHAND
62	JC 348631Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM PAL
63	JC 348782X	SUB MAJ & HONY LT	UMRAO LAL SAINI
64	JC 350041Y	SUB & HONY LT	BHOOP SINGH
65	JC 348159F	SUB & HONY LT	CHANDGI RAM
66	JC 350477K	SUB & HONY LT	PATIL VAMAN RAO DIGAMBAR RAO
67	JC 350478M	SUB & HONY LT	SANAS YASHAVANT MUGATRAO
68	JC 348427A	SUB & HONY LT	SAPATAR SINGH
69	JC 350393W	SUB & HONY LT	SINGARA SINGH

**CORPS OF SIGNALS**

70	JC 371806H	SUB MAJ & HONY LT	ANWER BAIG
71	JC 371519Y	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR
72	JC 371636K	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
73	JC 369543W	SUB MAJ & HONY LT	HANSRAJ SHARMA
74	JC 369238K	SUB MAJ & HONY LT	HARI PAL SINGH
75	JC 371647W	SUB MAJ & HONY LT	JAYAN K N
76	JC 371610P	SUB MAJ & HONY LT	KAILASH CHANDRA GHOSH
77	JC 370263P	SUB MAJ & HONY LT	LOTAN CHANDRA UPADHYAY
78	JC 370845P	SUB MAJ & HONY LT	PIAR CHAND
79	JC 368550A	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDER CHOPRA
80	JC 370264X	SUB MAJ & HONY LT	SARVJEET SINGH
81	JC 370837W	SUB MAJ & HONY LT	SATBIR SINGH
82	JC 367968W	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR
83	JC 371439F	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER KUMAR
84	JC 371905L	SUB MAJ & HONY LT	VASUDEVAN NAIR N

**THE BRIGADE OF GUARDS**

85	JC 403181P	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA NATH RAI
86	JC 403159K	SUB MAJ & HONY LT	RAMOTAR
87	JC 402926L	SUB MAJ & HONY LT	UMA SHANKAR SINGH
88	JC 402858H	SUB MAJ & HONY LT	VASANT KUMAR KAUSHIK
89	JC 403532Y	SUB & HONY LT	KRISHNA BIHARI
90	JC 402333Y	SUB & HONY LT	PRYA VART



**THE PARACHUTE REGIMENT**

91	JC 412339N	SUB MAJ & HONY LT	HIMMAT NATH
92	JC 412315K	SUB MAJ & HONY LT	KHABA RAM, SM
93	JC 412606K	SUB MAJ & HONY LT	T S PRABHAKAR RAO, SM
94	JC 413027K	SUB & HONY LT	DALVIR SINGH MALHOTRA, SM

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

95	JC 418832X	SUB MAJ & HONY LT	BALWAN SINGH SM
96	JC 419626A	SUB MAJ & HONY LT	HEM RAJ
97	JC 418943P	SUB MAJ & HONY LT	RAM BRIKSH SINGH
98	JC 419120F	SUB MAJ & HONY LT	SATBIR SINGH
99	JC 420377Y	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR

**THE PUNJAB REGIMENT**

100	JC 429246P	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH RAJ
101	JC 428707F	SUB MAJ & HONY LT	JASWINDER SINGH
102	JC 429264X	SUB MAJ & HONY LT	RANJEET SINGH CHANDEL
103	JC 429461A	SUB & HONY LT	MANJIT SINGH
104	JC 429764P	SUB & HONY LT	PURAN SINGH

**THE MADRAS REGIMENT**

105	JC 438813N	SUB MAJ & HONY LT	BABU M
106	JC 438862W	SUB MAJ & HONY LT	MOHANAN KV
107	JC 438817K	SUB MAJ & HONY LT	M PANDIAN
108	JC 439236Y	SUB MAJ & HONY LT	R BALASUBRAMANIAN
109	JC 438424N	SUB MAJ & HONY LT	SUBBAIAH AP
110	JC 439399M	SUB & HONY LT	D RAJENDRAN

**THE GRENADIERS**

111	JC 449459K	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH
112	JC 449021N	SUB MAJ & HONY LT	DHARAMBIR SINGH
113	JC 449591K	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR
114	JC 449544M	SUB MAJ & HONY LT	SUKH PAL
115	JC 449340A	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH
116	JC 449068Y	SUB MAJ & HONY LT	VIJAI SINGH

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

117	JC 458665P	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN HANUMANT JANGAUDA
118	JC 458109Y	SUB MAJ & HONY LT	GIAN CHAND
119	JC 458642N	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN VANDURE
120	JC 458914H	SUB & HONY LT	GORE BALAKRISHNA DAGADU

**THE RAJPUTANA RIFLES**

121	JC 468919P	SUB MAJ & HONY LT	FARID UDDIN
122	JC 469209K	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD JAT, SM
123	JC 469178P	SUB MAJ & HONY LT	KAMLESH SINGH
124	JC 468789X	SUB MAJ & HONY LT	KHET SINGH RATHORE
125	JC 469051M	SUB MAJ & HONY LT	PRATAP SINGH
126	JC 469049P	SUB MAJ & HONY LT	SANG SINGH BHATI
127	JC 469173W	SUB MAJ & HONY LT	SATYAVIR SINGH
128	JC 469791F	SUB & HONY LT	KESHAV SINGH

**THE RAJPUT REGIMENT**

129	JC 478804P	SUB MAJ & HONY LT	INDER PAL SINGH
130	JC 479032P	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH
131	JC 478796F	SUB MAJ & HONY LT	SRI PRASAD
132	JC 478842L	SUB MAJ & HONY LT	YESH KUMAR
133	JC 479412N	SUB & HONY LT	AJAY PAL SINGH SM
134	JC 479739M	SUB & HONY LT	CHHOTE KHAN

**THE JAT REGIMENT**

135	JC 488557A	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH
136	JC 489073M	SUB MAJ & HONY LT	JAIBIR
137	JC 140405H	SUB MAJ & HONY LT	RADHEY SHYAM TRIPATHI (RT)
138	JC 488999Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM BHAROSI SINGH
139	JC 489673P	SUB & HONY LT	SITA RAM

**THE SIKH REGIMENT**

140	JC 498752L	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH
141	JC 498740W	SUB MAJ & HONY LT	JAGTAR SINGH
142	JC 498790F	SUB MAJ & HONY LT	JARNAIL SINGH
143	JC 498792M	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH, SM
144	JC 498750A	SUB MAJ & HONY LT	MANJIT SINGH
145	JC 499162Y	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH
146	JC 499265X	SUB & HONY LT	SHER SINGH, SC
147	JC 499461X	SUB & HONY LT	SUKHWINDER SINGH

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

148	JC 509647X	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH
149	JC 509579P	SUB & HONY LT	JAGJIT SINGH
150	JC 508373L	SUB & HONY LT	LABH SINGH, SM
151	JC 509595M	SUB & HONY LT	SATPAL SINGH

**THE DOGRA REGIMENT**

152	JC 519678L	SUB MAJ & HONY LT	DIDAR SINGH KAUSHAL
153	JC 519825H	SUB MAJ & HONY LT	KARAM SINGH
154	JC 519655X	SUB MAJ & HONY LT	KEWAL SINGH
155	JC 519488Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH, SC
156	JC 519864F	SUB MAJ & HONY LT	PERVEEN KUMAR
157	JC 519663H	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR PATYAL
158	JC 519309N	SUB MAJ & HONY LT	TERATH RAM
159	JC 520664X	SUB & HONY LT	HUKAM CHAND
160	JC 520689K	SUB & HONY LT	MILAP CHAND CHAMBEL

**THE GARHWAL RIFLES**

161	JC 528993H	SUB MAJ & HONY LT	DEVI PRASAD
162	JC 529343F	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH
163	JC 138611N	SUB MAJ & HONY LT	INDRA DEV NAUTIYAL (RT)
164	JC 528949Y	SUB MAJ & HONY LT	KUNWAR SINGH
165	JC 529243W	SUB MAJ & HONY LT	NAND KISHOR
166	JC 529271H	SUB MAJ & HONY LT	SHIVENDRA KUMAR
167	JC 144223M	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHANDRA JOSHI (RT)
168	JC 530125P	SUB & HONY LT	HARPAL SINGH
169	JC 529880M	SUB & HONY LT	KHEEM SINGH

**THE KUMAON REGIMENT**

170	JC 539193K	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH, SM
171	JC 539446N	SUB MAJ & HONY LT	HUKAM SINGH
172	JC 539300A	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN SINGH
173	JC 539369K	SUB MAJ & HONY LT	RATAN SINGH DEB
174	JC 539291K	SUB MAJ & HONY LT	UMESHWAR SINGH
175	JC 539840Y	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH
176	JC 540392K	SUB & HONY LT	PADAM SINGH KUNWAR, SM

**THE ASSAM REGIMENT**

177	JC 548631H	SUB MAJ & HONY LT	DEHI RAM SAIKIA
178	JC 548721K	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA BAHADUR SUNCHEURI

**THE BIHAR REGIMENT**

179	JC 558856Y	SUB MAJ & HONY LT	BAIDHAR NAIK
180	JC 558985Y	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH
181	JC 558959X	SUB MAJ & HONY LT	RAM PRAVESH SINGH
182	JC 559014A	SUB MAJ & HONY LT	WAKIL SINGH

**THE MAHAR REGIMENT**

183	JC 568720H	SUB MAJ & HONY LT	BHAWAN SINGH
184	JC 568717H	SUB MAJ & HONY LT	CHET RAM
185	JC 568885F	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH TANWAR
186	JC 568764A	SUB MAJ & HONY LT	WAGHMARE ASHOK LINGAPPA

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

187	JC 579613F	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH
188	JC 579657Y	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH
189	JC 579355M	SUB MAJ & HONY LT	SARWAN SINGH
190	JC 579681P	SUB MAJ & HONY LT	SHIV RAM
191	JC 580135P	SUB & HONY LT	RAJU MALL
192	JC 580475X	SUB & HONY LT	SURJEET SHARMA, SM

**THE LADAKH SCOUTS**

193	JC 588318A	SUB & HONY LT	PHUNCHOK CHOSGAIL
194	JC 588322H	SUB & HONY LT	THINLES DORJE

**THE NAGA REGIMENT**

195	JC 590017P	SUB MAJ & HONY LT	B D BENGAM ANAL
-----	------------	-------------------	-----------------

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

196	JC 592621Y	SUB MAJ & HONY LT	MANZOOR AHMAD BHAT, SM
197	JC 592429P	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH
198	JC 592556K	SUB MAJ & HONY LT	SADIQ HUSSAIN
199	JC 592667F	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR
200	JC 592705M	SUB & HONY LT	SAT PAL

**1 GORKHA RIFLES**

201	JC 602431H	SUB MAJ & HONY LT	UPENDRA THAPA
202	JC 602704A	SUB & HONY LT	RAJESH BABLY GURUNG

**3 GORKHA RIFLES**

203	JC 607507F	SUB MAJ & HONY LT	CHOK BAHADUR GURUNG
204	JC 607464X	SUB MAJ & HONY LT	RAM BAHADUR BURA

**4 GORKHA RIFLES**

205 JC 612556N SUB & HONY LT PREM BAHADUR RANA

**5 GORKHA RIFLES**

206 JC 617718X SUB & HONY LT BHAKAT BAHADUR GURUNG

**8 GORKHA RIFLES**

207 JC 623381W SUB MAJ & HONY LT BHAKTA BAHADUR PUN  
 208 JC 623424A SUB MAJ & HONY LT H B THAPA MAGAR  
 209 JC 140410N SUB MAJ & HONY LT TANK PRASAD SHARMA GEWALI(RT)  
 210 JC 623606N SUB & HONY LT NARAYAN BAHADUR PUN

**9 GORKHA RIFLES**

211 JC 629577A SUB MAJ & HONY LT KESHAR BAHADUR CHHETRI, SC

**11 GORKHA RIFLES**

212 JC 634292X SUB MAJ & HONY LT BISHNU BHAKTA RAI

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

213 JC 662363K SUB MAJ & HONY LT DURJAN SINGH  
 214 JC 641107F SUB MAJ & HONY LT HARBANS LAL  
 215 JC 662536W SUB MAJ & HONY LT M SUBRAMANI  
 216 JC 662626X SUB MAJ & HONY LT P SAMSON  
 217 JC 662460F SUB MAJ & HONY LT SURESH CHANDER  
 218 JC 663509Y SUB & HONY LT PRAYAG PRASAD  
 219 JC 664188Y SUB & HONY LT RAJ BAHADUR VERMA

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

220 JC 680660A RIS MAJ & HONY LT KESHAR PRASAD SINGH  
 221 JC 680981X RIS & HONY LT HARE RAM YADAV  
 222 JC 680869L RIS & HONY LT MANSOOR AHMED KHAN  
 223 JC 680974F RIS & HONY LT OMKAR SINGH  
 224 JC 680942Y RIS & HONY LT SULTAN SINGH

**ARMY MEDICAL CORPS**

225 JC 694403N SUB MAJ & HONY LT KARAM CHAND  
 226 JC 694489X SUB MAJ & HONY LT LEKH RAJ  
 227 JC 694966N SUB MAJ & HONY LT MD ESMAIL S K  
 228 JC 694473M SUB MAJ & HONY LT OM PRAKASH  
 229 JC 694121P SUB MAJ & HONY LT ONKAR DATT  
 230 JC 694569P SUB MAJ & HONY LT PRABHAKER SINGH  
 231 JC 694914X SUB MAJ & HONY LT RAM BILOK ROY  
 232 JC 694843F SUB MAJ & HONY LT RAVINDRA KUMAR  
 233 JC 696119W SUB & HONY LT BAM DEV

**ARMY ORDNANCE CORPS**

234 JC 723885Y SUB MAJ & HONY LT DEVENDRA SINGH SENGAR  
 235 JC 726535X SUB MAJ & HONY LT HARBANS SINGH  
 236 JC 723872F SUB MAJ & HONY LT PANCHOO LAL  
 237 JC 726553A SUB MAJ & HONY LT RAMNIWAS  
 238 JC 724351A SUB MAJ & HONY LT SWAPAN NANDI  
 239 JC 727211Y SUB & HONY LT DUKKU MALI SUBBA RAO  
 240 JC 727164M SUB & HONY LT RAM KUMAR

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

241	JC 754338L	SUB MAJ & HONY LT	AJAI PAL SINGH
242	JC 756081K	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR SINGH
243	JC 754251K	SUB MAJ & HONY LT	BARISTER TIWARI
244	JC 758770K	SUB MAJ & HONY LT	GUNINDRA SINGHA
245	JC 758430F	SUB MAJ & HONY LT	HANS BAHADUR SINGH
246	JC 748912H	SUB MAJ & HONY LT	HARI KUMAR KK
247	JC 755126M	SUB MAJ & HONY LT	JOSE VARGHESE
248	JC 750353H	SUB MAJ & HONY LT	JP PANDEY
249	JC 756895H	SUB MAJ & HONY LT	LAIK AHEMMAD
250	JC 753904N	SUB MAJ & HONY LT	MANI LAL BABU
			THEKKEVALIYAVALLAPPIL
251	JC 752584X	SUB MAJ & HONY LT	PURAN LAL
252	JC 756602M	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR CHOUDHARY, VSM
253	JC 754187X	SUB MAJ & HONY LT	RAM ASHISH SINGH
254	JC 754104F	SUB MAJ & HONY LT	SHAIK PALMATI MAHABOOB BASHA
255	JC 752610N	SUB MAJ & HONY LT	SUNEHRA SINGH
256	JC 753907F	SUB MAJ & HONY LT	SWAPAN SOM
257	JC 761723X	SUB & HONY LT	AZAD AHMED
258	JC 757402H	SUB & HONY LT	GOLAB SINGH
259	JC 756440M	SUB & HONY LT	GUNTURI NAGESWARA RAO
260	JC 756041H	SUB & HONY LT	MOHAMMED YASIN
261	JC 762475Y	SUB & HONY LT	RANG NATH THAKUR
262	JC 756089W	SUB & HONY LT	UPEN CHANDRA GOGOI

**ARMY EDUCATION CORPS**

263	JC 802519W	SUB MAJ & HONY LT	BHUWAN CHANDRA BHATT
264	JC 802415P	SUB MAJ & HONY LT	LALJI UPADHYAY
265	JC 802754P	SUB MAJ & HONY LT	RASIDUL ISLAM CHOUDHURY

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

266	JC 797353N	RIS MAJ & HONY LT	JANAK RAJ
-----	------------	-------------------	-----------

**THE INTELLIGENCE CORPS**

267	JC 810237M	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SINGH SHEORAN
268	JC 810250W	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH
269	JC 810196N	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH

**CORPS OF MILITARY POLICE**

270	JC 818761P	SUB MAJ & HONY LT	ANAND KUMAR PANDEY
271	JC 818439H	SUB & HONY LT	K SREEDHAR BABU

**THE PIONEER CORPS**

272	JC 829258X	SUB MAJ & HONY LT	PURASTAM BEHERA
-----	------------	-------------------	-----------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

273	JC 840705W	SUB MAJ & HONY LT	HIRA LAL PATEL
274	JC 840484P	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER SINGH LAMBA
275	JC 842203M	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH CHAUHAN
276	JC 841771L	SUB & HONY LT	SUNIL PRASAD SHAHI

**TERRITORIAL ARMY**

277	TJ 4337A	SUB & HONY LT	KISHORI LAL
278	TJ 3893K	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR SINGH RATHORE

279	TJ 4832Y	SUB & HONY LT	SATISH CHAND
280	TJ 4922A	SUB & HONY LT	SHAM SINGH

### TO BE HONORARY LIEUTENANTS

#### 7 CAVALRY

1	JC 240439L	RIS MAJ	JAIBIR SINGH
---	------------	---------	--------------

#### 8 CAVALRY

2	JC 242205A	RIS	RANJIT SINGH
---	------------	-----	--------------

#### 17 HORSE

3	JC 239224A	RIS MAJ	DEV KARAN
---	------------	---------	-----------

#### 9 HORSE

4	JC 243282F	RIS	MAN PHOOL SINGH
5	JC 239846F	RIS	SURENDER SINGH DALAL

#### CENTRAL INDIA HORSE

6	JC 240603H	RIS	HUKAM SINGH
---	------------	-----	-------------

#### 62 CAVALRY

7	JC 241557L	RIS	GULJHARI LAL
---	------------	-----	--------------

#### 64 CAVALRY

8	JC 239747Y	RIS MAJ	BHARAT SINGH
---	------------	---------	--------------

#### 65 ARMOURED REGIMENT

9	JC 241836W	RIS	KASHMIR SINGH
10	JC 243071Y	RIS	SURINDER SINGH

#### 66 ARMOURED REGIMENT

11	JC 240248W	RIS MAJ	SHASHIDHAR KUMAR KN
----	------------	---------	---------------------

#### 68 ARMOURED REGIMENT

12	JC 239678N	RIS MAJ	K D JAGANNATH
13	JC 239835P	RIS MAJ	SADHU RAM
14	JC 242557X	RIS	DHIR SINGH

#### 73 ARMOURED REGIMENT

15	JC 238724L	RIS MAJ	TARSEM SINGH
----	------------	---------	--------------

#### 74 ARMOURED REGIMENT

16	JC 241151X	RIS	BALBIR SINGH
17	JC 242143L	RIS	BIKRAM CHAND
18	JC 242144N	RIS	DALJEET SINGH RANA

#### 76 ARMOURED REGIMENT

19	JC 239347M	RIS MAJ	BALRAJ SINGH MANHAS
20	JC 239588M	RIS MAJ	JANAK SINGH
21	JC 241517K	RIS	PATIL BHIMRAO BHAU

#### 81 ARMOURED REGIMENT

22	JC 240362N	RIS MAJ	DHARM PAL SINGH
----	------------	---------	-----------------

**82 ARMoured REGIMENT**

23 JC 239549N RIS MAJ

S RAJENDRAN

**85 ARMoured REGIMENT**

24 JC 242917H RIS

CHAMAN LAL

**44 ARMoured REGIMENT**

25 JC 243270M RIS

SAJJAN SINGH

**49 ARMoured REGIMENT**

26 JC 239392Y RIS MAJ

SHER SINGH THAKUR

27 JC 243489F RIS

RAJENDER SINGH

28 JC 243284M RIS

TARSEM SINGH

**6 ARMoured REGIMENT**

29 JC 242176W RIS

CHANDRA SEKARAN K

30 JC 242431X RIS

SUBHASH CHAND

**13 ARMoured REGIMENT**

31 JC 238447L RIS MAJ

THAMM GEORGE

**50 ARMoured REGIMENT**

32 JC 238325F RIS MAJ

KASHINATH SINGH

33 JC 241627Y RIS

CHET RAM

**54 ARMoured REGIMENT**

34 JC 242446A RIS

TULSI RAM

**ARMoured CORPS**

35 JC 239051N RIS MAJ

JARNAIL SINGH

36 JC 152315N RIS MAJ

LAXMI PRASAD KHANDURI (RT)

**REGIMENT OF ARTILLERY**

37 JC 262809A SUB MAJ

AJEET SINGH YADAV

38 JC 264076L SUB MAJ

ANIL BANDHU P

39 JC 264613L SUB MAJ

ASHWAN KUMAR

40 JC 259875X SUB MAJ

BALBIR SINGH YADAV

41 JC 142724N SUB MAJ

BALMUKUND DWIVEDI (RT)

42 JC 261867X SUB MAJ

BALVIR SINGH

43 JC 263675Y SUB MAJ

BASANT SINGH

44 JC 261900K SUB MAJ

BHIM SINGH RAWISH

45 JC 262032P SUB MAJ

CHANDRA MOHARASH

46 JC 261790A SUB MAJ

DANBIR JHA

47 JC 259642W SUB MAJ

DARADE BHISHMAN YESHA VANTRAO

48 JC 262908H SUB MAJ

DARSHAN KUMAR

49 JC 261072K SUB MAJ

DHARAMPAL

50 JC 262648H SUB MAJ

GULJAR SINGH

51 JC 261276W SUB MAJ

GURMEJ SINGH

52 JC 260714F SUB MAJ

HAKIM SINGH

53 JC 264728Y SUB MAJ

HARI BANDHU PRADHAN

54 JC 260788W SUB MAJ

HARI OM

55 JC 262070L SUB MAJ

HARI RAM BHAGEL

56	JC 257861Y	SUB MAJ	HEM RAJ	
57	JC 262123Y	SUB MAJ	JAGBIR SINGH	
58	JC 258262L	SUB MAJ	JAGSIR SINGH	
59	JC 261689A	SUB MAJ	JAGVIR SINGH	
60	JC 261494P	SUB MAJ	JASVIR SINGH	
61	JC 261426F	SUB MAJ	JAY PRAKASH SINGH	
62	JC 261732W	SUB MAJ	KAMAL CHANDRA PANDEY	
63	JC 259921F	SUB MAJ	KANCHAN RAM	
64	JC 261639P	SUB MAJ	K DEVENDRAN	
65	JC 260970W	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR TRIPATHI	
66	JC 262335K	SUB MAJ	KULBIR SINGH	
67	JC 260942K	SUB MAJ	KULDEEP KUMAR	
68	JC 262827H	SUB MAJ	KURIAKOSE ISAC	
69	JC 261663L	SUB MAJ	LAXMINARAIN	
70	JC 262054N	SUB MAJ	NACHHATTAR SINGH	
71	JC 260959X	SUB MAJ	NARINDER SINGH	
72	JC 262300N	SUB MAJ	NEERAS JHA	
73	JC 262787M	SUB MAJ	NIKAM MAHADEO SHRIRANG	
74	JC 261962K	SUB MAJ	NIKHIL CHANDRA RAY	
75	JC 261098Y	SUB MAJ	NITYA NAND	
76	JC 259543N	SUB MAJ	PARMANAND PRASAD	
77	JC 260323W	SUB MAJ	PARVINDER SINGH	
78	JC 263221L	SUB MAJ	P MUTHU RAJ	
79	JC 142725W	SUB MAJ	RAKESH PRASAD DWIVEDI	(RT)
80	JC 261756A	SUB MAJ	RAM AWADH SINGH	
81	JC 263034M	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA SINGH	
82	JC 263209K	SUB MAJ	RAM SAHAI	
83	JC 263725Y	SUB MAJ	ROOP SINGH	
84	JC 259802L	SUB MAJ	SAMPATI LAL	
85	JC 262403M	SUB MAJ	SANTOKH SINGH	
86	JC 263443A	SUB MAJ	SHEO KUMAR TIWARY	
87	JC 261994M	SUB MAJ	SRI PRASAD MOHANTA	
88	JC 264651F	SUB MAJ	SUBHASH CHANDER	
89	JC 261772X	SUB MAJ	SUNIL KUMAR	
90	JC 263932L	SUB MAJ	SUNIL KUMAR M K	
91	JC 265774A	SUB MAJ	SURESH CHAND	
92	JC 261815F	SUB MAJ	SURESH KUMAR AP	
93	JC 263653A	SUB MAJ	VIJAYAN ACHARY T	(BM)
94	JC 142723L	SUB MAJ	VIJAY PRASAD KIMOTHI	(RT)
95	JC 260136X	SUB MAJ	VIJAY SINGH	
96	JC 262583A	SUB MAJ	YUGAL KISHORE	
97	JC 271174N	SUB	AMIYA KR PATOWRI	
98	JC 269873A	SUB	AVTAR SINGH	
99	JC 272647N	SUB	AYANANDARAY	
100	JC 270709K	SUB	BIMAL KUMAR PATHAK	
101	JC 270383Y	SUB	CHHOTE LAL	
102	JC 270543N	SUB	DEVIDASAN C	
103	JC 272309W	SUB	DHANI RAM	
104	JC 271480H	SUB	DHARAMBIR SINGH	
105	JC 267242Y	SUB	GAIKWAD MADHUKAR MAHADEV	
106	JC 268305H	SUB	GAMAR BAHADUR THAPA	
107	JC 161058H	SUB	GANGESHWAR PRASAD PANDEY	(RT)
108	JC 270781A	SUB	GINNI RAMA RAO	



109	JC 262184W	SUB	GOPAL DAS
110	JC 270610N	SUB	GURJIT SINGH
111	JC 270853Y	SUB	HANS NATH CHAUHAN
112	JC 270153L	SUB	JAGDISH KUMAR
113	JC 270161K	SUB	JAG PAL
114	JC 270261P	SUB	KADAM RAMESH RAJARAM
115	JC 266925A	SUB	KAILASH CHAND
116	JC 270788K	SUB	K SATHEESH KUMAR
117	JC 268048W	SUB	MAHAVEER SINGH
118	JC 271498Y	SUB	MAHIPAL
119	JC 269215N	SUB	MAJOR SINGH
120	JC 268216K	SUB	MASKE VISHNU BALIRAM
121	JC 264864P	SUB	PAWAN KUMAR
122	JC 269674M	SUB	PHULJEET SINGH
123	JC 273709P	SUB	P RAJAN
124	JC 271325F	SUB	RAJ PAL SINGH
125	JC 267751X	SUB	RAMA SHREY SINGH
126	JC 270309X	SUB	RAM PRAKASH PAL
127	JC 269432K	SUB	RICHHPAL SINGH TOMAR
128	JC 272225H	SUB	SAJAGANE HANMANT MAHADEO
129	JC 269335M	SUB	SATAVEER SINGH BALWADA
130	JC 267279A	SUB	SIYA RAM
131	JC 270267W	SUB	SURINDER CHAND
132	JC 267867N	SUB	UDAI SINGH
133	JC 271012H	SUB	UJAYVIR SINGH
134	JC 267116M	SUB	UMED SINGH
135	JC 262395Y	SUB	VENUGOPAL P
136	JC 273583A	SUB	VIJAYAN P
137	JC 271248X	SUB	VIJAY BAHADUR YADAV
138	JC 270777X	SUB	VIJAY KUMAR
139	JC 266506H	SUB	VINOD KUMAR
140	JC 271503Y	SUB	VIRENDRA SINGH
141	JC 269792A	SUB	YADALLA KALIDASU
142	JC 271247P	SUB	YOGENDER SINGH

**ARMY AIR DEFENCE**

143	JC 296783H	SUB MAJ	ANIL KUMAR CHOUDHARY
144	JC 296851L	SUB MAJ	ANIL PRAKASH SHARMA
145	JC 297691H	SUB MAJ	GURJANT SINGH
146	JC 297636M	SUB MAJ	JAIRAM DIXIT
147	JC 297151K	SUB MAJ	KOREDDI SATYANARAYANA MURTHY
148	JC 296577Y	SUB MAJ	KUNJUMON M
149	JC 297212W	SUB MAJ	LAXMAN SINGH
150	JC 297557X	SUB MAJ	MEHTAB SINGH RAWAT
151	JC 297791N	SUB MAJ	NARESH KUMAR
152	JC 297514H	SUB MAJ	ROSHAN LAL
153	JC 297165K	SUB MAJ	SURESH KUMAR
154	JC 298688P	SUB	ANSARUL MOMIN
155	JC 298872A	SUB	AZAM HUSSAIN
156	JC 299635H	SUB	CALACTOR SINGH
157	JC 299677P	SUB	HANS RAJ
158	JC 300038H	SUB	JUDHISTHIR MOHANTA
159	JC 299380N	SUB	KAMLESH NARAYAN

160 JC 300264A SUB  
 161 JC 299036H SUB  
 162 JC 298784K SUB  
 163 JC 300294X SUB  
 164 JC 300232X SUB  
 165 JC 299182H SUB  
 166 JC 300223W SUB

MURALEEDHARAN NAIR T  
 PALA SINGH  
 PURUSHOTHAM  
 SHINGARA SINGH  
 TILAK RAJ SINGH  
 TRIPURARI OJHA  
 VINOD KUMAR

### **MADRAS ENGINEER GROUP**

167 JC 306882F SUB MAJ  
 168 JC 306686F SUB MAJ  
 169 JC 306804K SUB MAJ  
 170 JC 306859N SUB MAJ  
 171 JC 306880W SUB MAJ  
 172 JC 327711H SUB MAJ  
 173 JC 306862N SUB MAJ  
 174 JC 306723K SUB MAJ  
 175 JC 306806P SUB MAJ  
 176 JC 306844L SUB MAJ  
 177 JC 306592K SUB MAJ  
 178 JC 308879A SUB  
 179 JC 308889K SUB  
 180 JC 308500L SUB  
 181 JC 308417N SUB  
 182 JC 307681P SUB  
 183 JC 308360K SUB  
 184 JC 307559Y SUB  
 185 JC 308235A SUB  
 186 JC 308755L SUB  
 187 JC 308539X SUB  
 188 JC 308210N SUB  
 189 JC 307867Y SUB  
 190 JC 308433L SUB  
 191 JC 307866W SUB  
 192 JC 308288Y SUB  
 193 JC 308237L SUB  
 194 JC 305966H SUB  
 195 JC 306703W SUB  
 196 JC 307776P SUB  
 197 JC 307816L SUB  
 198 JC 308359P SUB

ANBUSELVAM D  
 JESURAJ SI  
 K CHITTI BABU  
 KUMARAN N  
 KUNHIKRISHNAN T  
 RAKESH CHAND  
 RAVEENDRAN M  
 SASINDRAN KC  
 SUTHAN N  
 VAGA RAM  
 V VENKATESWARA RAO  
 A SUBRAMANYAM  
 BENNY MATHEW  
 B RAJENDRAN  
 B RAMAN  
 CHANDRAYYA C KULKARNI  
 G PARASURAMAN  
 HARI SINGH YADAV  
 K MEGANATHAN  
 L PADMANABHAN  
 L PARAMASIVAN  
 M PALANICHAMY  
 M PASULLA SHARIF  
 M RAMAN  
 NAND KISHOR SINGH  
 PRABHAKARAN P  
 RAMALINGAM A  
 RAMCHANDER SINGH  
 R ARUNACHALAM  
 SAMPATH KUMAR S  
 SHIVDAYAL  
 V SARAVANAN

### **BENGAL ENGINEER GROUP**

199 JC 330599M SUB MAJ  
 200 JC 330165M SUB MAJ  
 201 JC 140991W SUB MAJ  
 202 JC 326801X SUB MAJ  
 203 JC 327628L SUB MAJ  
 204 JC 326575L SUB MAJ  
 205 JC 326604P SUB MAJ  
 206 JC 326149X SUB MAJ  
 207 JC 216029W SUB MAJ  
 208 JC 328403P SUB MAJ

AMAR SINGH  
 AVTAR SINGH  
 BALBIR SINGH  
 BALJIT SINGH  
 BHUPINDER SINGH  
 BRAJESH KUMAR SINGH  
 DHARAMVIR SINGH  
 GOBINDA CHANDRA SWAIN  
 GOPAL SINGH  
 JAGJIT SINGH

(RT)

209	JC 330184K	SUB MAJ	KADAM DIPAK DAGA DOBA
210	JC 328757X	SUB MAJ	KUMAR GHUAUATRI
211	JC 328383M	SUB MAJ	NATABAR MAJHI
212	JC 326545N	SUB MAJ	PRATAP SINGH
213	JC 326951N	SUB MAJ	RAM NARAYAN TIWARI
214	JC 326502Y	SUB MAJ	SATISH CHANDRA SHARMA
215	JC 326571P	SUB MAJ	SHEEL CHAND
216	JC 328573Y	SUB MAJ	SUBAL CHANDRA GHOSH
217	JC 327069M	SUB MAJ	SUBHENDU KUMAR MISHRA
218	JC 328374L	SUB MAJ	SUNDER SINGH
219	JC 330153X	SUB	B G DHARMAN
220	JC 329618A	SUB	CHEK SINGH
221	JC 329565M	SUB	DARSHAN SINGH
222	JC 338393K	SUB	DAYAL RAM
223	JC 338446X	SUB	DIGAR SINGH
224	JC 329621A	SUB	DIWAN SINGH BAGRI
225	JC 338043X	SUB	GURMEET SINGH
226	JC 329559Y	SUB	HARJIT SINGH
227	JC 329617X	SUB	JAGAN NATH PRASAD PANDEY
228	JC 329504P	SUB	MAN SINGH NEGI
229	JC 329780X	SUB	MOHAN SINGH BHANDARI
230	JC 338396X	SUB	NANDAN SINGH KANDARI
231	JC 338452L	SUB	OM PRAKASH DEVRANI
232	JC 338001L	SUB	PITAMBAR DEHINGIA
233	JC 329371K	SUB	PRADIP GOGOI
234	JC 338192L	SUB	PURAN SINGH
235	JC 329703H	SUB	SATYA VIR SINGH
236	JC 338451H	SUB	SETPAL SINGH

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

237	JC 348301A	SUB MAJ	BALDEV SINGH
238	JC 348271N	SUB MAJ	BALWANT RAI
239	JC 348433N	SUB MAJ	BOOTA RAM
240	JC 348873F	SUB MAJ	DALBARA SINGH
241	JC 348230K	SUB MAJ	DINA NATH SHARMA
242	JC 348262M	SUB MAJ	GORE SURESH MASKU
243	JC 348028W	SUB MAJ	HARI RAM
244	JC 347968P	SUB MAJ	JHIRMAL SINGH
245	JC 348756W	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
246	JC 326057L	SUB MAJ	NARINDER SINGH
247	JC 348872Y	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
248	JC 348194K	SUB MAJ	RAM PHAL
249	JC 348813M	SUB MAJ	SHAVIR HUSAIN
250	JC 348774Y	SUB MAJ	YASHWANT VITHAL JOGLE
251	JC 351033M	SUB	ABDUL JABBAR
252	JC 350187M	SUB	AJIT SINGH
253	JC 350681H	SUB	AKHILASWAR PRASAD
254	JC 350223M	SUB	ALAM SHAH ANSARI
255	JC 350865F	SUB	AMARJIT SINGH
256	JC 350677A	SUB	ANANTRAM BHURAJI KORE
257	JC 350565A	SUB	BALWINDER SINGH
258	JC 350475Y	SUB	BARGE PRAKASH SHANKAR
259	JC 350507W	SUB	BHANWAR SINGH PARIHAR

260	JC 350290X	SUB	BHARAT SINGH
261	JC 350137F	SUB	DARSHAN SINGH
262	JC 348812K	SUB	FORAN SINGH
263	JC 350242X	SUB	GURBACHAN SINGH
264	JC 350364F	SUB	HARNEK SINGH
265	JC 348103P	SUB	JABBAR SINGH RATHORE
266	JC 350077X	SUB	JADHAV DADARAO DATTATRAYA
267	JC 350286P	SUB	JADHAV MARUTI SHIVARAM
268	JC 348642L	SUB	JAI PRAKASH
269	JC 350194H	SUB	JASPAL SINGH
270	JC 350485H	SUB	KRISHAN KUMAR
271	JC 350368X	SUB	KULWANT SINGH
272	JC 350454H	SUB	MUNNA LAL
273	JC 350731H	SUB	NAGENDRA GIRI
274	JC 348391M	SUB	NAMAN BAGE
275	JC 350610F	SUB	PREM SINGH
276	JC 350797Y	SUB	SATNAM SINGH
277	JC 350608K	SUB	SATPAL SINGH
278	JC 350372A	SUB	SHALIGRAM NINAJI KAWALE
279	JC 350501P	SUB	SHINDE SUBHASH SHENFAD
280	JC 350680A	SUB	SITARAM DADU YADAV
281	JC 350511Y	SUB	SUKHDEV SINGH
282	JC 350491W	SUB	SUKHWANT SINGH
283	JC 350091K	SUB	SURINDER SINGH
284	JC 350689P	SUB	SURJIT SINGH
285	JC 350514M	SUB	TASBBAR ALI
286	JC 349104K	SUB	TAWEDE SURENDRA RAMCHANDRA

**CORPS OF SIGNALS**

287	JC 372613P	SUB MAJ	A ARUNACHALAM
288	JC 371881M	SUB MAJ	ALAKHNATH SINGH
289	JC 371834P	SUB MAJ	BABU LAL SHARMA
290	JC 372263N	SUB MAJ	BALAKRISHNAN NAIR KR
291	JC 371770P	SUB MAJ	BALWAN SINGH BAJAR
292	JC 371867A	SUB MAJ	BIRENDRA SINGH
293	JC 372090F	SUB MAJ	BRAHAM PRAKASH
294	JC 370091L	SUB MAJ	DALEL SINGH
295	JC 370084P	SUB MAJ	DAMODAR SINGH
296	JC 372495M	SUB MAJ	DASHRATH SINGH YADAV
297	JC 371038M	SUB MAJ	DILBAGH SINGH
298	JC 368528P	SUB MAJ	HARE RAM JHA
299	JC 371385L	SUB MAJ	HARMESH SINGH
300	JC 371331K	SUB MAJ	ISHWAR SINGH
301	JC 371868H	SUB MAJ	JACOB Y
302	JC 371764F	SUB MAJ	JEET SINGH
303	JC 371904H	SUB MAJ	JIWAN SINGH TURN
304	JC 371526P	SUB MAJ	JOGINDER PAUL
305	JC 371726L	SUB MAJ	KAMESHWAR CHAUDHARY
306	JC 371759W	SUB MAJ	KRISHNA DEO MISHRA
307	JC 371535W	SUB MAJ	MOHANA KUMAR V
308	JC 371136M	SUB MAJ	NARINDER SINGH NEGI
309	JC 372089M	SUB MAJ	RAJENDAR SINGH
310	JC 371524K	SUB MAJ	RAJENDER SINGH

311	JC 371457K	SUB MAJ	RAJINDER NATH
312	JC 371708H	SUB MAJ	RAM NIWAS
313	JC 371711H	SUB MAJ	SABIR ALI
314	JC 371653K	SUB MAJ	SAT PAUL SHARMA
315	JC 372876N	SUB MAJ	SATVIR SINGH DHANKHAR
316	JC 371615N	SUB MAJ	SHAM LAL MOTAN
317	JC 371591P	SUB MAJ	SHIVAJI LAGAMANNA PATIL
318	JC 371771X	SUB MAJ	SUBHASH YADAV
319	JC 371382X	SUB MAJ	SUNIL KUMAR
320	JC 371660A	SUB MAJ	SUNNY JOHN
321	JC 369884F	SUB MAJ	TEJBIR SINGH
322	JC 372521H	SUB MAJ	TOMAR RANDHIR SINGH RAM SINGH
323	JC 372234Y	SUB MAJ	UJJAL KANTI SAMANTA
324	JC 371641P	SUB MAJ	VISHNU PAL SINGH
325	JC 370350H	SUB MAJ	ZILE SINGH
326	JC 376918M	SUB	ANIL KUMAR TIWARI
327	JC 375760H	SUB	BRAHAM SINGH
328	JC 378125H	SUB	GH NABI LONE
329	JC 378146Y	SUB	JAGDISH POONIYA
330	JC 375874N	SUB	KRISHAN LAL
331	JC 376713Y	SUB	MAHIMA SINGH
332	JC 372479P	SUB	NRUSINGHA CHARAN MUDULI
333	JC 377306F	SUB	PARMATMA SINGH
334	JC 376086W	SUB	PREMANANDAN V
335	JC 378399N	SUB	PROSANTA KUMAR KONER
336	JC 376341X	SUB	PUSHKAR SINGH RAWAT
337	JC 375895K	SUB	RAGHBIR SINGH KAUNDAL
338	JC 376672Y	SUB	RAJ KUMAR SHUKLA
339	JC 376297Y	SUB	RAMESH CHANDRA CHOBEY
340	JC 376300N	SUB	RAMESH PRASAD GUPTA
341	JC 375888N	SUB	RAM KHUSHI
342	JC 376295N	SUB	RAM KISHAN
343	JC 375841H	SUB	RAM SEWAK
344	JC 377516F	SUB	SHISHU PAL
345	JC 377845X	SUB	SHIV PARTAP SINGH
346	JC 377613Y	SUB	SHREE RAM SINGH
347	JC 376247N	SUB	SIDDARTH CHALAWADI
348	JC 378398L	SUB	SURESH PAL SINGH
349	JC 377236N	SUB	TEJ SINGH
350	JC 376891A	SUB	UMESH CHAUHAN
351	JC 378110A	SUB	VERMA RAMSURESH MATABADAL
352	JC 377062Y	SUB	VIRENDRA SINGH

**THE BRIGADE OF GUARDS**

353	JC 403452F	SUB MAJ	KESHAR SINGH DHAMI
354	JC 403070X	SUB MAJ	RAN SINGH
355	JC 403533F	SUB	BANNIKOPPA GIRIYAPPA
356	JC 403637H	SUB	BHAGWATI PRASAD
357	JC 404101Y	SUB	LAYAK RAM CHAURASIYA
358	JC 403810F	SUB	PARAMJIT CHAND
359	JC 403651P	SUB	RAMAYAN SINGH
360	JC 403868Y	SUB	RAM PRAVESH PRASAD
361	JC 404016W	SUB	SHIV JI

362	JC 403498K	SUB	SHYAM NARAYAN RAI
363	JC 403260K	SUB	TRIBHUBAN CHAUHAN
364	JC 403652X	SUB	VINAY KUMAR PATHAK

**THE PARACHUTE REGIMENT**

365	JC 412392Y	SUB MAJ	GYAN SINGH, SM
366	JC 412462M	SUB MAJ	KOJA RAM
367	JC 412616N	SUB MAJ	K SELVAM
368	JC 412298P	SUB MAJ	LACHIT CHANDRA BORDOLOI
369	JC 412258N	SUB MAJ	LALA RAM
370	JC 412397X	SUB MAJ	LILA RAM
371	JC 412552N	SUB MAJ	RAGHUBIR SINGH
372	JC 412467L	SUB MAJ	RAN SINGH
373	JC 413140Y	SUB	AITI BAHADUR RAI
374	JC 412993K	SUB	ASHISH THAPA
375	JC 412903X	SUB	AVTAR SINGH
376	JC 412866P	SUB	DEV RAJ
377	JC 413161P	SUB	KAMAN SINGH
378	JC 412811L	SUB	PAWAN KUMAR SAINI
379	JC 413035H	SUB	PUSHKAR DATT
380	JC 413145X	SUB	SHANKAR SINGH RATHORE
381	JC 412948X	SUB	SUBHASH CHANDER
382	JC 412797K	SUB	VINOD KUMAR

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

383	JC 143082W	SUB MAJ	ASHOK KUMAR	(RT)
384	JC 418886Y	SUB MAJ	BHOLA NATHA JENA	
385	JC 418987M	SUB MAJ	BIRENDRA SINGH	
386	JC 419090P	SUB MAJ	DHANNARAM PRAJAPAT	
387	JC 419092A	SUB MAJ	KOLE SHANKAR KRISHNA	
388	JC 419558X	SUB MAJ	LACHHMAN SINGH	
389	JC 419261W	SUB MAJ	MANDELA VVS SURYA RAO	
390	JC 418993A	SUB MAJ	PREM SINGH	
391	JC 418937F	SUB MAJ	RAMACHANDRAN P	
392	JC 419795F	SUB MAJ	SHAM LAL	
393	JC 420451P	SUB	BHAJAN SINGH	
394	JC 419691A	SUB	GOVIND KUMAR SHARMA	
395	JC 420790P	SUB	PARMOD KUMAR SHARMA	
396	JC 420360L	SUB	ROMESH CHANDER, SC	
397	JC 420729L	SUB	SATYA PRAKASH	
398	JC 420779W	SUB	SAWAI SINGH	
399	JC 420710M	SUB	SHYAM KUMAR NEWAR	

**THE PUNJAB REGIMENT**

400	JC 429353W	SUB MAJ	DALER SINGH
401	JC 428947Y	SUB MAJ	GURCHARNJIT SINGH
402	JC 429151P	SUB MAJ	LAKHWINDER SINGH
403	JC 429210W	SUB MAJ	MAJOR SINGH
404	JC 429008H	SUB MAJ	MANMOHAN SINGH
405	JC 429077Y	SUB MAJ	PARKASH CHAND
406	JC 429159F	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
407	JC 429268N	SUB MAJ	SUBHASH SINGH
408	JC 429002F	SUB MAJ	SURJIT SINGH

409	JC 430108A	SUB	BALBIR SINGH
410	JC 430129W	SUB	BAWA SINGH
411	JC 430047N	SUB	HARBANS LAL
412	JC 429355F	SUB	HARPHUL SINGH
413	JC 429291F	SUB	JAGTAR SINGH
414	JC 429069A	SUB	JARNAIL SINGH
415	JC 429374M	SUB	JARNAIL SINGH
416	JC 429977H	SUB	KANCHAN KUMAR
417	JC 430123P	SUB	KULDIP SINGH
418	JC 429444A	SUB	KULDIP SINGH
419	JC 429510X	SUB	MANJIT SINGH
420	JC 430374Y	SUB	OM PARKASH
421	JC 430360Y	SUB	PURAN CHAND
422	JC 430135K	SUB	RAJBIR SINGH
423	JC 430048W	SUB	RANBIR SINGH
424	JC 429593N	SUB	SOHAN SINGH
425	JC 430336H	SUB	SOM NATH
426	JC 429361P	SUB	SUKHDEV SINGH

**THE MADRAS REGIMENT**

427	JC 438744H	SUB MAJ	HARISH TK, SM
428	JC 438583L	SUB MAJ	MANYAN K
429	JC 438655K	SUB MAJ	SASI R
430	JC 438838A	SUB MAJ	V SATYANARAYANA
431	JC 438892N	SUB MAJ	YADAVA CK
432	JC 438936A	SUB MAJ	Y RAJASEKHARA REDDY
433	JC 439146X	SUB	B BOJAPPA
434	JC 439130M	SUB	B KESAVAN
435	JC 439658K	SUB	BRIJPAL GANGWAR
436	JC 439281L	SUB	MALLAPPA CHANAPPA HOSAKOTI
437	JC 439396Y	SUB	P PARASU RAMAN
438	JC 439196H	SUB	SANGAPPA DEGINAL
439	JC 439692K	SUB	SHEKHAR NAVALA GATTI
440	JC 439283W	SUB	SIVAKUMAR C

**THE GRENADIERS**

441	JC 449540W	SUB MAJ	ALIYAS
442	JC 449625M	SUB MAJ	BODH RAJ
443	JC 449409Y	SUB MAJ	HAMID KHAN
444	JC 448598F	SUB MAJ	JUGAT SINGH
445	JC 448953N	SUB MAJ	NARENDRA PAL
446	JC 132307N	SUB MAJ	PREM RAJ SHARMA (RT)
447	JC 449255X	SUB MAJ	RAGHUVIR SINGH JAT
448	JC 449218K	SUB MAJ	RAM KUMAR SINGH
449	JC 449643P	SUB MAJ	SURJIT SINGH
450	JC 450510L	SUB	BADSHAH KHAN
451	JC 449924L	SUB	BIRBAL SINGH
452	JC 448769H	SUB	HARMANA RAM JAT
453	JC 450381W	SUB	JAGDISH LAL
454	JC 450086N	SUB	JANGSHER ALI
455	JC 450466M	SUB	MANWAR KHAN
456	JC 450555L	SUB	SHYAM SINGH
457	JC 449653Y	SUB	WAZIR SINGH

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

458	JC 458559W	SUB MAJ
459	JC 458760F	SUB MAJ
460	JC 458692Y	SUB MAJ
461	JC 458811K	SUB MAJ
462	JC 458583M	SUB MAJ
463	JC 458373M	SUB MAJ
464	JC 458647M	SUB MAJ
465	JC 458676F	SUB MAJ
466	JC 459975M	SUB
467	JC 459850P	SUB
468	JC 458803L	SUB
469	JC 459714Y	SUB
470	JC 460011K	SUB
471	JC 459402H	SUB

ANANDA B N  
HIMAYAT TULLA KHAN  
JADHAV JAYWANT MARUTI  
KUMBHAR RAGHUNATH DADU  
LADU BHANU GAWADE  
MARUTI GANAPATI SHINDE  
MONESHRI APPANNA USOLKAR  
SHIRKE ASHOK NANA  
AYUB ALI  
BHIKAJI BABAN BHAGWAT  
KADAM RAGHUNATH SHANKAR  
MODH ASHRAF SHIEKH, SM  
SHINDE UTTAM YASHAWANT  
SUBHASH SHIVAJI THOKAL

**THE RAJPUTANA RIFLES**

472	JC 469075N	SUB MAJ
473	JC 469096M	SUB MAJ
474	JC 468797W	SUB MAJ
475	JC 469425X	SUB MAJ
476	JC 469276P	SUB MAJ
477	JC 469387M	SUB MAJ
478	JC 469023A	SUB MAJ
479	JC 469022X	SUB MAJ
480	JC 469251H	SUB MAJ
481	JC 468775X	SUB MAJ
482	JC 469119H	SUB MAJ
483	JC 469060N	SUB MAJ
484	JC 468883F	SUB MAJ
485	JC 469376A	SUB MAJ
486	JC 468893L	SUB MAJ
487	JC 469355K	SUB MAJ
488	JC 470037M	SUB
489	JC 469761K	SUB
490	JC 470156H	SUB
491	JC 469715P	SUB
492	JC 469667A	SUB
493	JC 469882L	SUB
494	JC 469981N	SUB
495	JC 470196K	SUB
496	JC 469846A	SUB
497	JC 470078W	SUB
498	JC 470356Y	SUB
499	JC 470125H	SUB
500	JC 469682P	SUB
501	JC 469446N	SUB
502	JC 470165K	SUB
503	JC 470521Y	SUB
504	JC 470036K	SUB

ARJUN SINGH  
JAGDISH PRASAD  
MAHENDER SINGH  
NAND SINGH  
NETRA PAL SINGH  
PRAKASH CHAND  
RAJENDRA SINGH  
RAM KUWAR  
RAM SINGH  
RATTAN LAL  
REWAT SINGH  
RIDMAL SINGH  
ROOP SINGH  
ROSHAN KHAN  
SAHANSAR PAL SINGH  
YASIN MOHAMMED  
ABHAI SINGH  
ASAR KHAN  
BHAGAT SINGH  
DALIP SINGH RAJPUT  
HARI SINGH  
JAIPAL SINGH  
KHINW SINGH  
NARESH KUMAR  
RAMDHAN LAL GUJAR  
RAM NIWAS  
ROHITASWA KUMAR  
SARJIT SINGH SHEKHAWAT  
SATYAVIR SINGH  
SHRI PAL SINGH  
TIRLOK SINGH  
VINOD SINGH, SM  
VISHRAM SINGH



**THE RAJPUT REGIMENT**

505	JC 479183M	SUB MAJ	BHARAT SINGH GURJAR, SM
506	JC 478976K	SUB MAJ	FATEH SINGH
507	JC 478571Y	SUB MAJ	JOYDEB PAL
508	JC 478728N	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH
509	JC 478861W	SUB MAJ	RAJ PAL
510	JC 479169F	SUB MAJ	RAKESH KUMAR SINGH
511	JC 479072W	SUB MAJ	RATAN LAL GURJAR
512	JC 478792L	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR MISHRA
513	JC 479033X	SUB MAJ	SHIV NANDAN SINGH
514	JC 478729W	SUB MAJ	SIYA RAM
515	JC 480162K	SUB	ABHAI SINGH
516	JC 479610Y	SUB	AMIR SINGH
517	JC 480211F	SUB	BHUP SINGH
518	JC 480058W	SUB	BIJENDER SINGH
519	JC 479736Y	SUB	BIRENDRA SINGH YADAV
520	JC 480423M	SUB	CHAMAN SINGH NAGAR
521	JC 479989N	SUB	CHARAN SINGH
522	JC 478363K	SUB	GOVIND SINGH
523	JC 480143Y	SUB	JITENDRA PRASAD TIWARI
524	JC 480264A	SUB	KRISHAN KUMAR
525	JC 479499A	SUB	KUNWAR SINGH
526	JC 480348N	SUB	RAMESH SINGH
527	JC 480040A	SUB	SATYA PRAKASH
528	JC 479774P	SUB	SHEIKH GULAM RASUL
529	JC 479788P	SUB	SHYAM LAL SINGH
530	JC 479653N	SUB	SOVARAN SINGH
531	JC 479824P	SUB	SUBHASH SINGH

**THE JAT REGIMENT**

532	JC 489225H	SUB MAJ	ARBIND KUMAR
533	JC 489144H	SUB MAJ	DAYA RAM
534	JC 489169P	SUB MAJ	HANUMAN RAM JAT
535	JC 489101N	SUB MAJ	SITA RAM
536	JC 489154M	SUB MAJ	SUBHASH CHANDRA ARYA
537	JC 152329N	SUB MAJ	VED PRAKASH TRIPATHI (RT)
538	JC 490016X	SUB	AN SINGH
539	JC 490041W	SUB	CHANDRA BOSH
540	JC 489909Y	SUB	JAWAHAR LAL JAT
541	JC 489476M	SUB	KARAN SINGH
542	JC 489376F	SUB	KHARAG SINGH
543	JC 490076M	SUB	LAXMAN SINGH
544	JC 490114X	SUB	MUNSHI RAM
545	JC 489794W	SUB	OM PARKASH
546	JC 489786X	SUB	OM PRAKASH
547	JC 490231H	SUB	RAM CHANDAR
548	JC 489942W	SUB	RAMESH CHAND
549	JC 489449H	SUB	RANDHIR SINGH
550	JC 489672M	SUB	SUBH RAM
551	JC 489907N	SUB	UDAIVIR SINGH
552	JC 490113P	SUB	VIDHADHAR SINGH

**THE SIKH REGIMENT**

553	JC 498701X	SUB MAJ	BALKAR SINGH
554	JC 498606L	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
555	JC 498988A	SUB MAJ	GOURI SANKAR PATTANAYAK
556	JC 152332N	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH (RT)
557	JC 498791K	SUB MAJ	GURDEV SINGH
558	JC 498794X	SUB MAJ	GURDIP SINGH
559	JC 498787F	SUB MAJ	PARAMJIT SINGH
560	JC 498660Y	SUB MAJ	TARSEM SINGH
561	JC 499398N	SUB	BALKAR SINGH
562	JC 499783X	SUB	BALWINDER SINGH
563	JC 499240L	SUB	BALWINDER SINGH
564	JC 498857P	SUB	DALWINDER SINGH
565	JC 499170X	SUB	GULZAR SINGH
566	JC 499209Y	SUB	HARBANS SINGH
567	JC 499520Y	SUB	JASWANT SINGH
568	JC 499452W	SUB	JASWINDER SINGH
569	JC 499332X	SUB	KULDIP SINGH
570	JC 499439M	SUB	LAKHWINDER SINGH
571	JC 499276K	SUB	PARMINDER SINGH
572	JC 499391K	SUB	SARDUL SINGH
573	JC 499110H	SUB	SATNAM SINGH
574	JC 499075L	SUB	SATPAL SINGH
575	JC 499051F	SUB	SUKHMINDER SINGH
576	JC 499632Y	SUB	SURJAN SINGH
577	JC 499422Y	SUB	TARLOCHAN SINGH

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

578	JC 508948P	SUB MAJ	AMRIK SINGH
579	JC 508774A	SUB MAJ	AVTAR SINGH
580	JC 508818M	SUB MAJ	BALWANT SINGH
581	JC 508893W	SUB MAJ	MOHAN SINGH
582	JC 508690M	SUB MAJ	NIRMAL SINGH, SM
583	JC 508444F	SUB MAJ	RANDHIR SINGH
584	JC 509006L	SUB MAJ	SAWARNJIT SINGH
585	JC 509208M	SUB	GULZAR SINGH
586	JC 509498P	SUB	HARPAL SINGH
587	JC 509133A	SUB	JOGINDER SINGH
588	JC 509271F	SUB	KARNAIL DAS
589	JC 509021A	SUB	LAKHBIR SINGH
590	JC 509284Y	SUB	MAGHAR SINGH
591	JC 509433F	SUB	PARAMJIT SINGH
592	JC 508922A	SUB	SOM SINGH

**THE DOGRA REGIMENT**

593	JC 519817K	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
594	JC 519532X	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
595	JC 519632H	SUB MAJ	C N BODH, SC
596	JC 519699F	SUB MAJ	HEM SINGH
597	JC 519134W	SUB MAJ	JAI KUMAR SINGH
598	JC 519432M	SUB MAJ	KAMAL SINGH
599	JC 519687M	SUB MAJ	KARAN SINGH

600	JC 519800W	SUB MAJ	MANOHAR LAL	
601	JC 519477M	SUB MAJ	MOHAR SINGH	
602	JC 519546X	SUB MAJ	NANAK CHAND LAGWAL	
603	JC 519651N	SUB MAJ	NEEL CHAND, SC	
604	JC 519631A	SUB MAJ	PALDEN GIACHHO, SC	
605	JC 519720Y	SUB MAJ	SUNIT SINGH	
606	JC 519384X	SUB MAJ	THAKUR SINGH	
607	JC 520371M	SUB	AJIT LAL	
608	JC 520544Y	SUB	ANCHAL SINGH	
609	JC 520549X	SUB	ASHWANI KUMAR SUPAHIYA	
610	JC 520425H	SUB	BALAK RAM	
611	JC 520890P	SUB	BRAHAM LAL SHARMA	
612	JC 520537H	SUB	DALEEP SINGH	
613	JC 520460L	SUB	GULSHAN KUMAR	
614	JC 520684L	SUB	HARI RAM	
615	JC 520762X	SUB	JOGINDER SINGH	
616	JC 162962F	SUB	KALI DASS SHARMA	(RT)
617	JC 519899X	SUB	KRISHAN CHAND	
618	JC 520697H	SUB	OM PARKASH	
619	JC 520176P	SUB	RAJESH KUMAR	
620	JC 520099L	SUB	RAMESH CHAND	
621	JC 520535X	SUB	SHAMSHER SINGH	
622	JC 520228A	SUB	SURESH KUMAR	
623	JC 520282N	SUB	VIJAY KUMAR	
624	JC 519804M	SUB	VIRENDER SINGH JHINKWAN	

**THE GARHWAL RIFLES**

625	JC 529327K	SUB MAJ	BALWANT SINGH	
626	JC 529161N	SUB MAJ	BISHAN DATT	
627	JC 529280K	SUB MAJ	CHANDAR SHEKHAR	
628	JC 529285H	SUB MAJ	DHAN SINGH	
629	JC 529448L	SUB MAJ	HARCHANDRA SINGH	
630	JC 529191L	SUB MAJ	JAGDAMBA PRASAD	
631	JC 529283X	SUB MAJ	MAHABIR SINGH	
632	JC 528962H	SUB MAJ	PADAM SINGH	
633	JC 529304H	SUB MAJ	PAR SINGH	
634	JC 529122P	SUB MAJ	SHITAL SINGH	
635	JC 529420L	SUB MAJ	SHIV KUMAR	
636	JC 530269X	SUB	ARJUN SINGH	
637	JC 530473W	SUB	BHAGAT SINGH	
638	JC 530284M	SUB	BHAGWATI PRASAD	
639	JC 530431K	SUB	BIRENDRA SINGH	
640	JC 529998N	SUB	B P KURIYAL	
641	JC 530080A	SUB	HARSHPAL SINGH	
642	JC 530505N	SUB	JAI PRAKASH	
643	JC 529902A	SUB	KUNDAN SINGH	
644	JC 530231N	SUB	MAHABIR SINGH	
645	JC 529920H	SUB	MAHIPAL SINGH BISHT	
646	JC 530340A	SUB	MAN MOHAN SINGH	
647	JC 530517H	SUB	RAKESH CHANDRA	
648	JC 530578A	SUB	ROSHAN LAL	
649	JC 530474Y	SUB	SHIV SINGH	

**THE KUMAON REGIMENT**

650	JC 539141N	SUB MAJ	BIRENDER KUMAR	
651	JC 539171L	SUB MAJ	CHARAN SINGH BISHT	
652	JC 539469P	SUB MAJ	DEVRAJ SINGH	
653	JC 539477N	SUB MAJ	HAR SINGH	
654	JC 539340F	SUB MAJ	INDER SINGH	
655	JC 539327X	SUB MAJ	RAJBIR SINGH, SM	
656	JC 539437M	SUB MAJ	RAM SINGH GARIYA	
657	JC 539102P	SUB MAJ	SHAMSHER SINGH	
658	JC 540110A	SUB	GANESH SINGH	
659	JC 540329P	SUB	HARISH CHANDRA	
660	JC 540021F	SUB	JAGAT SINGH	
661	JC 539439X	SUB	JAGDISH SINGH NEGI	
662	JC 539592N	SUB	JAI PAL SINGH	
663	JC 539481W	SUB	JEEWAN SINGH	
664	JC 158232Y	SUB	K B UPADHYAYA	(RT)
665	JC 540298A	SUB	KUNDAN SINGH	
666	JC 539624L	SUB	NANDA BALLABH	
667	JC 540012A	SUB	NARAYAN LAL	
668	JC 539753L	SUB	NARENDER SINGH	

**THE ASSAM REGIMENT**

669	JC 548868A	SUB MAJ	DAL BAHADUR THAPA	
670	JC 548720F	SUB MAJ	HAUKHOLAL	
671	JC 548848M	SUB MAJ	LAMZA KAI	
672	JC 548783K	SUB MAJ	M M BASUMATARY	
673	JC 548583N	SUB MAJ	RANJAN SINHA	
674	JC 140409Y	SUB MAJ	SENGUL MONISHING ANAL	(RT)
675	JC 548283M	SUB MAJ	UTTAM KUMAR SINGHA	
676	JC 549327L	SUB	A NABA KUMAR SINGHA	
677	JC 549233N	SUB	BROJO BEHARI SINGHA	
678	JC 549268K	SUB	DILIP KUMAR RASAILY	
679	JC 549699W	SUB	HENNEIGEN	
680	JC 549490L	SUB	JAYPUR PAYENG	
681	JC 549356A	SUB	KRISHNA KANTA BASUMATARY	
682	JC 549090Y	SUB	LOK BAHADUR THAPA	
683	JC 549185Y	SUB	PUTUL SAIKIA	
684	JC 549201L	SUB	RONGSENCHUJANG	
685	JC 549224M	SUB	SUKUMAR BASUMATARY	
686	JC 549096A	SUB	YAM BAHADUR THAPA	

**THE BIHAR REGIMENT**

687	JC 559046H	SUB MAJ	BASANTA KUMAR PRADHAN	
688	JC 558972F	SUB MAJ	RAM BALI DUBEY	
689	JC 144203Y	SUB MAJ	RAM KRISHAN PATHAK	(RT)
690	JC 558970W	SUB MAJ	SOMRA ORAON	
691	JC 559464X	SUB	BHAJA GOVINDA DAS	
692	JC 559691X	SUB	BHARAT LAL	
693	JC 559380K	SUB	GIRISH DEO RAI	
694	JC 560245H	SUB	JAGAN NATH	
695	JC 559978P	SUB	KAILASH CHANDRA SWAIN	
696	JC 559402X	SUB	LALAN SINGH YADAV	

697	JC 559524F	SUB	RAMAKANTA MAHUNTA
698	JC 559280Y	SUB	RAM GATI MAHTO
699	JC 559473Y	SUB	SARAT KUMAR BEHERA
700	JC 559965X	SUB	SATYENDRA PRASAD
701	JC 560088F	SUB	SUKHDEO PRASAD

**THE MAHAR REGIMENT**

702	JC 568649A	SUB MAJ	CHAITU SAHU
703	JC 568808M	SUB MAJ	KALIA RAM
704	JC 568981W	SUB MAJ	KAMBLE SUBHASH LIMBAJI
705	JC 568724Y	SUB MAJ	PAIKRAO DALIT DHARBA
706	JC 568844X	SUB MAJ	PRATAP NATH
707	JC 568890M	SUB MAJ	WAGHMARE DIGAMBAR SAMBHAJI
708	JC 569889K	SUB	BHUPAL SINGH
709	JC 569959X	SUB	DARWAN SINGH
710	JC 569711N	SUB	JASBIR SINGH
711	JC 569629Y	SUB	MASKE DILIP GITARAM
712	JC 569746K	SUB	MUKESH KUMAR
713	JC 569890Y	SUB	NAHAR SINGH
714	JC 569519K	SUB	NANAD KUMAR RUPAJI KAMBLE
715	JC 569743W	SUB	SHIRSAT DAYANAND BAPU
716	JC 569401H	SUB	TARSAM LAL
717	JC 569655A	SUB	UMRAO SINGH

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

718	JC 579533K	SUB MAJ	AJMER CHAND KATOCH
719	JC 579634X	SUB MAJ	BAKSHSHISH SINGH
720	JC 579809P	SUB MAJ	BAKSHSHISH SINGH
721	JC 579772Y	SUB MAJ	GOPAL SINGH
722	JC 579129P	SUB MAJ	JARNAIL SINGH
723	JC 579470M	SUB MAJ	KRISHAN CHAND
724	JC 579234L	SUB MAJ	RAVINDER SINGH
725	JC 160683X	SUB MAJ	VIDYA PARKASH SHARMA (RT)
726	JC 580208W	SUB	AB AZIZ
727	JC 580106A	SUB	ANIL SINGH
728	JC 580381A	SUB	DAVINDER SINGH
729	JC 580344M	SUB	DHARAM PAL
730	JC 580589H	SUB	GAGAN SINGH
731	JC 580408M	SUB	KULWANT SINGH
732	JC 580380X	SUB	MOHD QUYOOM
733	JC 580304L	SUB	PRITAM SINGH
734	JC 580109N	SUB	PURAN CHAND
735	JC 580550W	SUB	RAJ SINGH
736	JC 580033Y	SUB	SUBASH CHANDER
737	JC 580268L	SUB	SUKH RAJ
738	JC 580165M	SUB	SURENDRA CHHETRI

**THE LADAKH SCOUTS**

739	JC 588216K	SUB MAJ	CHHETAN NAMGIAL
740	JC 588128N	SUB MAJ	LOBZANG NETAK
741	JC 588134F	SUB MAJ	SONAM RIGZIN
742	JC 588239L	SUB	KARMA SAMSTAN
743	JC 588347P	SUB	SKARMA SAMSTAN

744	JC 588430M	SUB	STANZIN TUNDUP
745	JC 588352A	SUB	TUNDUP WANGIAL

**THE NAGA REGIMENT**

746	JC 590137N	SUB MAJ	NANDAN SINGH
747	JC 590037H	SUB MAJ	Y CHEMBISE

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

748	JC 592530P	SUB MAJ	BACHAN LAL
749	JC 592546A	SUB MAJ	DALEEP SINGH
750	JC 592701W	SUB MAJ	KULDEEP SINGH
751	JC 592712H	SUB MAJ	MOHD HUSSAIN
752	JC 592424W	SUB MAJ	MOHD QASAM
753	JC 592584W	SUB MAJ	MOHD SADIQ
754	JC 592589P	SUB MAJ	MULKH RAJ
755	JC 592717F	SUB MAJ	PRITAM LAL
756	JC 592744L	SUB MAJ	SAGAR SINGH
757	JC 592633N	SUB MAJ	SWARAN SINGH KATAL
758	JC 592673P	SUB MAJ	TILAK RAJ
759	JC 593343H	SUB	ANCHAL RAM
760	JC 593171Y	SUB	ANGREZE SINGH
761	JC 593297Y	SUB	BALBIR SINGH
762	JC 593375L	SUB	BALWANT SINGH
763	JC 593416K	SUB	BASHIR AHMAD SHEIKH
764	JC 593485A	SUB	BHADUR SINGH
765	JC 593690F	SUB	DEV RAJ
766	JC 592736M	SUB	GURDASS SINGH
767	JC 593076M	SUB	JANAK RAJ
768	JC 593210M	SUB	MOHD AFRAZ
769	JC 593269M	SUB	MOHD ALAM
770	JC 593947F	SUB	MOHD SHAKOOR
771	JC 593354P	SUB	PAYARA LAL SHARMA
772	JC 593583A	SUB	RAJ KAPOOR
773	JC 593323P	SUB	RAMESH KUMAR MEHRA
774	JC 592985L	SUB	RAVINDER KUMAR
775	JC 592968L	SUB	ROMESH KUMAR
776	JC 593429F	SUB	SATVIR KUMAR
777	JC 592973W	SUB	SURAJ SINGH
778	JC 593536H	SUB	SURINDER SINGH
779	JC 593623W	SUB	TARA CHAND
780	JC 592982X	SUB	TARA CHAND
781	JC 593118N	SUB	VALI MODH

**1 GORKHA RIFLES**

782	JC 602429L	SUB MAJ	HARI BAHADUR THAPA
783	JC 602596F	SUB	CHANDRA BAHADUR GURUNG
784	JC 602595Y	SUB	PURNA BAHADUR GURUNG
785	JC 602638H	SUB	RANJIT RANA
786	JC 602680F	SUB	RESHAM BAHADUR THAPA

**3 GORKHA RIFLES**

787	JC 607314F	SUB MAJ	JAG BAHADUR GURUNG
788	JC 607534L	SUB MAJ	KHEM BAHADUR BHUJEL

789	JC 607446P	SUB MAJ	REK BAHADUR THAPA
790	JC 607387N	SUB MAJ	UMAN SINGH THAPA
791	JC 607519W	SUB MAJ	YAM BAHADUR THAPA
792	JC 607584W	SUB	GANGA BAHADUR THAPA
793	JC 607652Y	SUB	KAMAL BAHADUR PUN

**4 GORKHA RIFLES**

794	JC 612436P	SUB MAJ	NAR BAHADUR GURUNG
795	JC 612427N	SUB MAJ	PRITAM BAHADUR THAPA
796	JC 612700X	SUB	GIR BAHADUR THAPA
797	JC 612703L	SUB	NARAYAN SINGH RESMI
798	JC 612544Y	SUB	NAR BAHADUR THAPA

**5 GORKHA RIFLES**

799	JC 617545L	SUB MAJ	DHAN BAHADUR THAPA
800	JC 617472K	SUB MAJ	DURGA BAHADUR RANA
801	JC 617569P	SUB MAJ	GAN BAHADUR THAPA
802	JC 158807H	SUB MAJ	H.C DHASMANA (RT)
803	JC 617608K	SUB MAJ	KHIL BAHADUR GURUNG
804	JC 617900X	SUB	NEERA BAHADUR KC

**8 GORKHA RIFLES**

805	JC 623277H	SUB MAJ	DAL BAHADUR GURUNG
806	JC 623357A	SUB MAJ	KUL PRASAD GURUNG
807	JC 623348Y	SUB MAJ	SURYA BAHADUR PRATMAN
808	JC 623441A	SUB MAJ	YAM BAHADUR HAMAL
809	JC 623615P	SUB	DEL BAHADUR PUN
810	JC 623708K	SUB	CHANDRA PRASAD GURUNG
811	JC 623730P	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA
812	JC 623723Y	SUB	RAJINDER SINGH GULARIA
813	JC 623538L	SUB	VIJAY KUMAR GURUNG
814	JC 623657F	SUB	YOU BAHADUR RANA

**9 GORKHA RIFLES**

815	JC 629801F	SUB	HR BAHADUR SAHI
816	JC 629657X	SUB	CHERA BAHADUR THAPA
817	JC 629743H	SUB	GOKARNA RAJ GUWALI
818	JC 629776N	SUB	KRISHNA BAHADUR MALLA
819	JC 629678N	SUB	PADAM SINGH CHETRI

**11 GORKHA RIFLES**

820	JC 634361H	SUB MAJ	BHAKTA MUKHIA
821	JC 634108F	SUB MAJ	TEK BAHADUR LIMBU
822	JC 634262A	SUB MAJ	YAKUP THERING LEPCHA
823	JC 634869M	SUB	CHET BAHADUR LIMBU
824	JC 634703L	SUB	LOK BAHADUR LIMBU
825	JC 634806K	SUB	MAHENDRA KUMAR SUBBA
826	JC 634620A	SUB	YOYATIRAI

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

827	JC 641090Y	SUB MAJ	ANAND SWAROOP
828	JC 642158F	SUB MAJ	ASHIM KUMAR DAS
829	JC 641146A	SUB MAJ	ASHOK KUMAR

830	JC 662425Y	SUB MAJ	BHANWAR SINGH SHEKHAWAT
831	JC 640966A	SUB MAJ	BHASKARAN P
832	JC 662681N	SUB MAJ	CHHABI RAM SINGH
833	JC 641364Y	SUB MAJ	DAYA CHAND
834	JC 642130F	SUB MAJ	DINESH KUMAR
835	JC 641113P	SUB MAJ	GANGA SINGH TARIYAL
836	JC 640971L	SUB MAJ	KRISHNA KUMAR SINGH
837	JC 662549N	SUB MAJ	KRISHNA PRASAD RAVA
838	JC 662347M	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH
839	JC 641143M	SUB MAJ	MALKIT SINGH
840	JC 662574M	SUB MAJ	MOHAN LAL
841	JC 641147H	SUB MAJ	NARENDER SINGH
842	JC 641394W	SUB MAJ	NARINDER PAL SINGH GEHARWAR
843	JC 662364M	SUB MAJ	RABINDRA MISHRA
844	JC 640979X	SUB MAJ	RAJU JOSEPH
845	JC 641973H	SUB MAJ	RAM KUMAR
846	JC 641846N	SUB MAJ	RAM NIWAS
847	JC 140502A	SUB MAJ	RAM PUJAN PANDEY (RT)
848	JC 641159X	SUB MAJ	REGHURAJ K
849	JC 642246X	SUB MAJ	SHIV KUMAR SHARMA
850	JC 641635L	SUB MAJ	SUDESH KUMAR
851	JC 662454N	SUB MAJ	SUKHANDU PRAMANIK
852	JC 663643K	SUB	A B SIVAKUMAR
853	JC 663773M	SUB	HARI NARAYAN RAI
854	JC 663952M	SUB	JASMAL SINGH
855	JC 664919F	SUB	K SUBBIAH
856	JC 641576K	SUB	LACHHMAN SINGH
857	JC 663816W	SUB	PARMHANS YADAVA
858	JC 663873X	SUB	PRABHAS CHANDRA BARAL
859	JC 664269Y	SUB	SHAMBHU PRASAD
860	JC 663516P	SUB	SHIV RAM SHARMA
861	JC 641582X	SUB	SURENDER KUMAR
862	JC 663883F	SUB	SURESH CHANDRA PRAJAPATI

#### ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

863	JC 680655P	RIS MAJ	MANBER SINGH
864	JC 680934A	RIS	ABDUL HAMID
865	JC 680932P	RIS	AKSHAYA LAL SINGH
866	JC 680889Y	RIS	C KRISHNAN
867	JC 680975K	RIS	GHAN BHADUR
868	JC 681009K	RIS	HANNWARE NAMDEO RANGNATH
869	JC 680867A	RIS	KAMLESH SAHANI
870	JC 680866X	RIS	MAN MATH ROY
871	JC 680760L	RIS	MD MANAF CHOWDHURY
872	JC 680931M	RIS	PATHAN SALAUDDIN GULAB
873	JC 680898A	RIS	RAM BABU RAI
874	JC 680918H	RIS	RAM NIWAS
875	JC 680891W	RIS	SADAT HUSAIN
876	JC 680878M	RIS	SATYANARAYAN MALI
877	JC 680887N	RIS	VIJAI SHANKAR RAM

#### ARMY MEDICAL CORPS

878	JC 694178K	SUB MAJ	ACHYUT KUMAR GHOSH
-----	------------	---------	--------------------



879	JC 694519K	SUB MAJ	AJIT SINGH	
880	JC 694916H	SUB MAJ	BALBIR SINGH	
881	JC 694179M	SUB MAJ	BALBIR SINGH	
882	JC 694566F	SUB MAJ	BHARAT CHOUDHARY	
883	JC 694527H	SUB MAJ	BRAHAMSAT DOON	
884	JC 694503Y	SUB MAJ	DEB SINGH BISHT	
885	JC 694401H	SUB MAJ	DIL NARAYAN SHERESTHA	
886	JC 694982L	SUB MAJ	DULAL SINHA	
887	JC 161110A	SUB MAJ	GIRISH CHANDRA JOSHI	(RT)
888	JC 694682K	SUB MAJ	JAI BHAGWAN SINGH	
889	JC 694471F	SUB MAJ	LALAN SINGH	
890	JC 694406F	SUB MAJ	LAL BAHADUR	
891	JC 161106X	SUB MAJ	MAHA PRASAD PANDEY	(RT)
892	JC 694501N	SUB MAJ	MIRZA KHOSHNAABI	
893	JC 694589H	SUB MAJ	NARESH KUMAR AMRWAL	
894	JC 692563P	SUB MAJ	NILAMBAR BISWASRA	
895	JC 691170M	SUB MAJ	OM PRAKASH	
896	JC 693569H	SUB MAJ	PAWAR DHANAJI SHANKAR	
897	JC 691832K	SUB MAJ	RAJ SINGH	
898	JC 692446K	SUB MAJ	RAMNIWAS SINGH	
899	JC 694497W	SUB MAJ	SASHI KUMAR SINGHA	
900	JC 694529N	SUB MAJ	SATBIR SINGH	
901	JC 690999F	SUB MAJ	SAYED SADIQ	
902	JC 694576L	SUB MAJ	SEWA SINGH	
903	JC 691442F	SUB MAJ	SHARAT CHAND	
904	JC 695172P	SUB MAJ	SIDH NATH SINGH	
905	JC 694482N	SUB MAJ	SUKH RAM MAURYA	
906	JC 694680Y	SUB MAJ	SURESH KUMAR	
907	JC 691494X	SUB MAJ	UMA SANKAR DEY	
908	JC 694504F	SUB MAJ	VISHNUBIR THAPA	
909	JC 161071M	SUB MAJ	VYAS PRASAD MISHRA	(RT)
910	JC 694933H	SUB MAJ	YOUEL LEPCHA	
911	JC 696037N	SUB	BIBHUTI BHUSAN MAHARANA	
912	JC 696047X	SUB	BIR BAHADUR SINGH	
913	JC 696120L	SUB	DEO NATH YADAV	
914	JC 694409P	SUB	GULAB CHAND YADAV	
915	JC 692465P	SUB	KISHAN LAL	
916	JC 696044K	SUB	MAHABIR PRASAD SAINI	
917	JC 696567H	SUB	PRATAP RAM	
918	JC 696156K	SUB	PURAN CHAND SAINI	
919	JC 692211X	SUB	RAMESH KUMAR	

**ARMY ORDNANCE CORPS**

920	JC 726517P	SUB MAJ	BANARSI DASS	
921	JC 726721N	SUB MAJ	BANWARI LAL	
922	JC 723682P	SUB MAJ	BHARAT PAL	
923	JC 724037M	SUB MAJ	BODDA GEETA RAO	
924	JC 723917W	SUB MAJ	KISHAN SINGH	
925	JC 723915L	SUB MAJ	MRUTYANJAYA HAVERIMATH	
926	JC 725403X	SUB MAJ	MUNNA LAL SAH	
927	JC 724631N	SUB MAJ	PREM BALLABH	
928	JC 723647M	SUB MAJ	RADHEESA BABU C	
929	JC 726467P	SUB MAJ	RAJVIR SINGH	

930	JC 723873K	SUB MAJ	R V BALASUBRAMANIAM
931	JC 724260W	SUB MAJ	SHYAM LAL
932	JC 723926X	SUB MAJ	SUDARSAN JENA
933	JC 724130N	SUB	AKSHAYA KUMAR DASH
934	JC 726999P	SUB	BRIJESH KUMAR TIWARI
935	JC 726675K	SUB	CHANDER SEKAR SINGH
936	JC 727284L	SUB	CHANDESHWAR PRASAD
937	JC 725704F	SUB	HAMIR SINGH SOLANKI
938	JC 727266H	SUB	INDRAJIT MANDAL
939	JC 725829Y	SUB	JAL SINGH
940	JC 726896W	SUB	JHAMMAN SINGH YADAV
941	JC 725131H	SUB	KAMBLE SANJAY KISAN RAO
942	JC 726894L	SUB	NARENDRA KUMAR SINGH
943	JC 726839P	SUB	OM PRAKASH VERMA
944	JC 726985P	SUB	PANCHO GOPAL MONDAL
945	JC 727973M	SUB	PARAMJIT SINGH
946	JC 725869A	SUB	PHOOL SINGH
947	JC 726140W	SUB	RAI SINGH BASERA
948	JC 726752N	SUB	RAM VILAS YADAV
949	JC 727500N	SUB	SHRINIWAS BHARADWAJ
950	JC 727478N	SUB	SUNIL KUMAR
951	JC 727028W	SUB	TIL BAHADUR CHHETRI SARKI
952	JC 726825P	SUB	VINOD KUMAR
953	JC 726923P	SUB	VIRENDER SINGH
954	JC 725610K	SUB	YAS PAL SINGH

#### **CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

955	JC 754065N	SUB MAJ	AMAR NATH JHA
956	JC 754237X	SUB MAJ	AMAR SINGH YADAV
957	JC 754142X	SUB MAJ	BIRENDRA KUMAR SHARMA
958	JC 754449H	SUB MAJ	B THAMOTHARAN
959	JC 754103Y	SUB MAJ	BUDH PARKASH SHARMA
960	JC 755941A	SUB MAJ	CHANCHAL ROY CHAUDHURY
961	JC 754232Y	SUB MAJ	DASTGIR
962	JC 751333F	SUB MAJ	DAULAT RAM
963	JC 752326X	SUB MAJ	DES RAJ THAKUR
964	JC 754343W	SUB MAJ	DHIRENDRA NATH BHUYAN
965	JC 753975P	SUB MAJ	DIPAK BAHADUR LAMA
966	JC 751634L	SUB MAJ	GAJINDER SINGH RAWAT
967	JC 751416M	SUB MAJ	HARCHARAN SINGH
968	JC 753663Y	SUB MAJ	JAGBIR SINGH
969	JC 753844K	SUB MAJ	JAGDEV SINGH
970	JC 753889K	SUB MAJ	JAI RAM
971	JC 754337H	SUB MAJ	JEJEE G
972	JC 753846P	SUB MAJ	JOHNY G
973	JC 754401P	SUB MAJ	KAMLESH KUMAR PATHAK
974	JC 757136P	SUB MAJ	KANHAIYA LAL
975	JC 754076A	SUB MAJ	KARAN SINGH
976	JC 751556Y	SUB MAJ	KENDRE PANDIT HANMANT RAO
977	JC 754593X	SUB MAJ	KOCHANUJAN PILLAI G
978	JC 753586P	SUB MAJ	KRISHNA DATT SHARMA
979	JC 754359F	SUB MAJ	LAL SINGH
980	JC 756074N	SUB MAJ	MANGAL SINGH

981	JC 756077F	SUB MAJ	MOHAN CHANDARA	
982	JC 754383X	SUB MAJ	M RAMACHANDRAN	
983	JC 752597P	SUB MAJ	M SIVARAJ	
984	JC 752527W	SUB MAJ	MURTHI S	
985	JC 758426X	SUB MAJ	NATHU SINGH	
986	JC 751888H	SUB MAJ	RAGHUVEER SINGH LUXAWAT	
987	JC 751685Y	SUB MAJ	RAJIV KUMAR SINGH	
988	JC 753880P	SUB MAJ	RAJPHAL SHEORAN	
989	JC 753978H	SUB MAJ	SADASIVAN NAIR PB	
990	JC 754070Y	SUB MAJ	SATISH CHAND GULERIA	
991	JC 753361M	SUB MAJ	SHIP BAHADUR NEWAR	
992	JC 146675N	SUB MAJ	SHIV KUMAR TRIPATHI	(RT)
993	JC 753036M	SUB MAJ	SHIVRAJ KUMAR VASHISHTHA	
994	JC 753018K	SUB MAJ	S SUBBA RAO	
995	JC 754257L	SUB MAJ	SUBHASH CHANDRA	
996	JC 758319X	SUB MAJ	VIJAYA KUMAR PS	
997	JC 749237N	SUB MAJ	VIJENDRA KUMAR GUPTA	
998	JC 756449F	SUB	A MOHANACHARI	
999	JC 754599Y	SUB	ANIL KUMAR	
1000	JC 763448F	SUB	BALIRAM ROY	
1001	JC 755014M	SUB	BHAI RAM	
1002	JC 762876N	SUB	BHAJAN SINGH	
1003	JC 763312X	SUB	BHARAT SINGH GURJAR	
1004	JC 756311M	SUB	BHOLA SINGH YADAV	
1005	JC 763261P	SUB	BIRENDER SINGH	
1006	JC 757782M	SUB	BOJJA PRAKASH	
1007	JC 760582F	SUB	B VISHWANADHA RAO	
1008	JC 759142F	SUB	C MUNIYANDI	
1009	JC 758116N	SUB	GAIKWAD SHAHAJI YASHAWANT	
1010	JC 763823F	SUB	G MAHENDRAN	
1011	JC 761721M	SUB	GORA SINGH	
1012	JC 761149K	SUB	HARENDRA THAKUR	
1013	JC 756638L	SUB	JITEN KUMAR NATH	
1014	JC 763149H	SUB	KAMAL KISHORE SHARMA	
1015	JC 763393H	SUB	MAHESH SINGH RAJPUT	
1016	JC 760482W	SUB	MAHIPAL SINGH	
1017	JC 756150P	SUB	MAHIPAL SINGH	
1018	JC 762078A	SUB	MATABAR SINGH	
1019	JC 762508Y	SUB	MD AYUB NOBI	
1020	JC 755994Y	SUB	M PONMALAI	
1021	JC 761815K	SUB	MUNIM KHAN	
1022	JC 753752X	SUB	NAGARAJU RL	
1023	JC 169989F	SUB	NAGENDRA NATH TIWARI	(RT)
1024	JC 753725N	SUB	NAURANG RAI	
1025	JC 763483K	SUB	PALLEKONA CH KESAVA RAO	
1026	JC 763858X	SUB	PRADIP KUMAR SINGH	
1027	JC 757082Y	SUB	PRITAM SINGH	
1028	JC 757607X	SUB	RAJDEO SINGH YADAV	
1029	JC 764028N	SUB	RAMESH CHAND	

1030	JC 761284X	SUB
1031	JC 763131M	SUB
1032	JC 756903W	SUB
1033	JC 761486Y	SUB
1034	JC 755016X	SUB
1035	JC 759491L	SUB
1036	JC 763346L	SUB
1037	JC 755380W	SUB
1038	JC 760578Y	SUB
1039	JC 753820A	SUB
1040	JC 759582P	SUB
1041	JC 756438P	SUB
1042	JC 755978F	SUB
1043	JC 756594Y	SUB
1044	JC 763447Y	SUB
1045	JC 755051A	SUB

RAM NARESH SINGH  
 RAM SINGH NEGI  
 RAM TEJ  
 RANBIR SINGH  
 R SUBA RAJ  
 SANT RAJ RAM  
 SATHEESAN S  
 SATPAL SINGH  
 SHIVENDRA PATHAK  
 S MANIVANNAN  
 SUDARSANAN NAIR G  
 SURAT SINGH  
 TEK BAHADUR SHARMA  
 TRILOK SINGH  
 UPENDRA PRASAD YADAV  
 VIJAY KUMAR

### ARMY EDUCATION CORPS

1046	JC 802788H	SUB MAJ
1047	JC 802562X	SUB MAJ
1048	JC 802202F	SUB MAJ
1049	JC 802550H	SUB MAJ
1050	JC 802518N	SUB MAJ
1051	JC 802892W	SUB
1052	JC 803459Y	SUB
1053	JC 803556W	SUB
1054	JC 803104N	SUB
1055	JC 803590W	SUB
1056	JC 803445Y	SUB
1057	JC 802903X	SUB
1058	JC 802822X	SUB
1059	JC 802842L	SUB
1060	JC 802839L	SUB

AMAR NATH SINGH YADAVA  
 PRAMOD KUMAR K  
 S K ABBAS MONDAL  
 SATISH CHANDRA  
 URBA DATT BHATT  
 ABHILAKH SINGH  
 BACHE SINGH AMERA  
 BRIJ CHANDRA YADAV  
 JAGAT NARAYAN YADAV  
 KULDIP SINGH RAGHAV  
 LUMBA RAM CHOUDHARY  
 PRITHVI NATH MANI  
 RAM PRAKASH SINGH  
 RAM SHANKER  
 UMESH DATT BHARDWAJ

### REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1061	JC 797200K	RIS MAJ
1062	JC 797541P	RIS
1063	JC 797436Y	RIS

BUDHA RAM  
 KARAMBIR SINGH  
 NETRA PAL SINGH

### THE INTELLIGENCE CORPS

1064	JC 810236K	SUB MAJ
1065	JC 810681H	SUB MAJ
1066	JC 810242X	SUB MAJ
1067	JC 210043M	SUB MAJ
1068	JC 810098N	SUB MAJ
1069	JC 810131A	SUB MAJ
1070	JC 810760X	SUB
1071	JC 810738M	SUB

KISHAN SINGH  
 PRITHVI SINGH BHURIA  
 RAMESH CHAND  
 RATAN KUMAR SARKAR  
 SUBHASH CHAND NEGI  
 SUKHCHAIN SINGH  
 AJEYA PRATAP SINGH  
 RAGHBIR SINGH CHAUHAN

1072	JC 811088W	SUB	RAJENDRA SINGH
1073	JC 810777L	SUB	RAJESHWAR KUMAR
1074	JC 810786M	SUB	RAM KISHOR DWIVEDI
1075	JC 810784F	SUB	TRIBHUWAN SINGH

**CORPS OF MILITARY POLICE**

1076	JC 818792P	SUB MAJ	ASHOK NATH TRIPATHI
1077	JC 818797N	SUB MAJ	BALBIR SINGH
1078	JC 818786F	SUB MAJ	BHAGIRATH SINGH
1079	JC 818756K	SUB MAJ	NATARAJAN K
1080	JC 818857X	SUB MAJ	RAM BIHARI SINGH, SM
1081	JC 819200M	SUB	HANUMANA RAM BANGARWA
1082	JC 818980W	SUB	SHAIENDRA SINGH

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

1083	JC 826122H	SUB MAJ	BIL BAHADUR THAPA
------	------------	---------	-------------------

**THE PIONEER CORPS**

1084	JC 829027F	SUB MAJ	RAMJEET SINGH
1085	JC 829269K	SUB MAJ	SARBERAM PATEL
1086	JC 829387X	SUB	JAMESWAR PATRA

**ARMY POSTAL SERVICE**

1087	JC 834103M	SUB	GAMARE BHIMRAO SAKHRAM
------	------------	-----	------------------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

1088	JC 840536A	SUB MAJ	BALWANT SINGH
1089	JC 841485K	SUB MAJ	M KARIYA PERUMAL
1090	JC 842214Y	SUB	CHINTAMANI SHARMA
1091	JC 842079W	SUB	INDER DEV SHUKUL
1092	JC 841557H	SUB	MEHAR BAN SINGH
1093	JC 841469M	SUB	MEWA SINGH
1094	JC 841761F	SUB	RAMESH CHANDER
1095	JC 842347P	SUB	KK TILAK RAJ

**TERRITORIAL ARMY**

1096	TJ 3918L	SUB	ABHINANDAN SINGH
1097	TJ 4314Y	SUB	ATIK AHAMAD
1098	TJ 4804M	SUB	AVDESH KUMAR
1099	TJ 4612P	SUB	BALBIR SINGH
1100	TJ 5039W	SUB	GIRISH BABU
1101	TJ 4078X	SUB	GOPAL DASS
1102	TJ 3936N	SUB	GORAKH NATH
1103	TJ 4813N	SUB	HAMIR SINGH
1104	TJ 4903P	SUB	KAOSHAL KUMAR
1105	TJ 4238X	SUB	MANGA RAM

1106	TJ 4416P	SUB	MURARI LAL
1107	TJ 4865K	SUB	RAGHUBIR SINGH YADAV
1108	TJ 5042W	SUB	RAM KISHORE
1109	TJ 4614A	SUB	SURENDER KUMAR
1110	TJ 4155W	SUB	VISHWAPAL

**EX-POST-FACTO  
GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS  
WITH EFFECT FROM 26 JAN 2007  
(ACTIVE)**

**THE RAJPUT REGIMENT**

1. JC 218259H EX SUB MAJ

KIRAN PAL SINGH

[No. B/43432/RD-13/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 02(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2013.—राष्ट्रपति गणत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

**अवैतनिक कप्तान के रूप में**

**राष्ट्रपति अंगरक्षक**

1	जेसी235034डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं कल्याण सिंह अवैतनिक लै.	01.10.2012
---	-------------------	--	------------

**आर्मड कोर**

2	जेसी239411वाइ	रिसालदार मेजर एवं आतिश कुमार दास देव शर्मा अवैतनिक लै.	01.10.2012
3	जेसी237806एफ	रिसालदार मेजर एवं खरादे जगनाथ पांडुरंग अवैतनिक लै.	01.12.2012
4	जेसी239293डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं प्यारे लाल अवैतनिक लै.	01.12.2012
5	जेसी238579वाइ	रिसालदार मेजर एवं रमेश प्रताप सिंह अवैतनिक लै.	01.01.2013
6	जेसी239783के	रिसालदार मेजर एवं रनबीर सिंह अवैतनिक लै.	01.01.2013
7	जेसी239619एफ	रिसालदार मेजर एवं सुरेन्द्रा सिंह अवैतनिक लै.	01.11.2012
8	जेसी241867डब्ल्यू	रिसालदार एवं ब्रिजेश कुमार अवैतनिक लै.	01.10.2012
9	जेसी241880ए	रिसालदार एवं गंगा प्रसाद पांडे अवैतनिक लै.	01.10.2012

10	जेसी241858पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	गंगा सिंह	01.10.2012
11	जेसी242146वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	ओमकार सिंह चौहान	01.12.2012
12	जेसी240571एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन लाल पाली	04.09.2012
13	जेसी241772डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद राम मीना	01.10.2012
14	जेसी241942पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	पुलिन चंद्रा दास	01.09.2012
15	जेसी243023वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.10.2012
16	जेसी240976डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रसिया नाथक	01.12.2012
17	जेसी243027पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह	01.01.2013
18	जेसी242186ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राम शर्मा	01.01.2013
19	जेसी243365एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्र न आर	01.01.2013
20	जेसी241619ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	तेज सिंह	01.09.2012
21	जेसी243485एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.01.2013
22	जेसी241621एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.09.2012
23	जेसी243142पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.11.2012

#### आर्टिलरी रेजीमेंट

24	जेसी262447के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.01.2013
25	जेसी259478वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गरजन सिंह यादव	01.10.2012
26	जेसी261194एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमेल सिंह	01.11.2012
27	जेसी260641ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जे जी. राज	01.11.2012
28	जेसी260718एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्र	01.10.2012
29	जेसी260977ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मानपल	01.11.2012
30	जेसी263083पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नगेन्द्रा सिंह	01.12.2012

31	जेसी262111के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रमोद कुमार पांडे	01.10.2012
32	जेसी263128के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम पाल	01.10.2012
33	जेसी261795वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रद्युत कुमार दास	01.11.2012
34	जेसी142714के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम अचल पांडे	01.01.2013
35	जेसी261487वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रतन लाल	01.01.2013
36	जेसी260031एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	01.10.2012
37	जेसी260987के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वीजेन्द्र कुमार	01.09.2012
38	जेसी260979एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वी त्रिपाठी	01.11.2012
39	जेसी268856एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह	01.01.2013
40	जेसी261803एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुल संदीपन भगवान राव	01.09.2012
41	जेसी269040डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बी चिन्ना नरसिम्हलु	01.10.2012
42	जेसी272308एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.09.2012
43	जेसी271194एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बसंत सिंह	01.10.2012
44	जेसी270118एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भोला नाथ	01.11.2012
45	जेसी271509ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.11.2012
46	जेसी269389एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशम्बर सिंह राना	01.10.2012
47	जेसी273685डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चमन लाल	01.10.2012
48	जेसी269793एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश कुमार	01.10.2012
49	जेसी270142वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान सिंह	01.09.2012
50	जेसी270813एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोर्धन राम	01.11.2012
51	जेसी271713वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरबक्श सिंह	01.01.2013
52	जेसी268410वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	01.09.2012
53	जेसी269990एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरनाम सिंह	01.09.2012



54	जेसी267420डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इंद्रजीत सिंह	01.09.2012
55	जेसी265828डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द	01.10.2012
56	जेसी268152के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय पाल सिंह	01.09.2012
57	जेसी271090ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जानकर सिंह	01.10.2012
58	जेसी267542ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमलेश चंद्र	01.10.2012
59	जेसी268915पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमलेशवर प्रसाद	01.01.2013
60	जेसी265953ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्म बीर	01.01.2013
61	जेसी263548के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन मोहन उपाध्याय	01.01.2013
62	जेसी266275एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एल सुब्रमणि	01.11.2012
63	जेसी269645एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह यादव	01.10.2012
64	जेसी267388एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोज कुमार आइ	01.12.2012
65	जेसी269903एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.09.2012
66	जेसी272506वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नानक सिंह	01.10.2012
67	जेसी269577पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह	01.11.2012
68	जेसी270287के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेंद्र सिंह	01.10.2012
69	जेसी271281पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.09.2012
70	जेसी268394एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रसन्नं पिल्लई वी	01.09.2012
71	जेसी274615के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा	01.01.2013
72	जेसी270633पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश कुमार	01.10.2012
73	जेसी270231एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर चन्द	01.11.2012
74	जेसी267544एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम प्रकाश	01.10.2012

75	जेसी272802के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमा कांत बशेटाकर	01.09.2012
76	जेसी267957पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर	01.12.2012
77	जेसी271453वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतनेश्वर सेकिआ	01.11.2012
78	जेसी267649पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन सिंह	01.11.2012
79	जेसी269581एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सागर सिंह	01.11.2012
80	जेसी269615ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सालुंके तानाजी नाथोबा	01.11.2012
81	जेसी268481ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतबीर सिंह	01.10.2012
82	जेसी271135पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतवंत सिंह	01.09.2012
83	जेसी268474के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस सिंह	01.10.2012
84	जेसी271484वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेख एस यासीन	01.09.2012
85	जेसी265791ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शीश राम	01.01.2013
86	जेसी268688ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव दयाल यादव	01.01.2013
87	जेसी268382एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द	01.10.2012
88	जेसी268624पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द	01.09.2012
89	जेसी269375एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.10.2012
90	जेसी269540एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वी कुमार	01.09.2012

#### सेना वायू सुरक्षा

91	जेसी296606एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र प्रकाश	01.09.2012
92	जेसी297679एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगाधर टी	01.11.2012
93	जेसी297155ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमेल सिंह	01.11.2012
94	जेसी297453डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कार्थीके अराजन पी बी	01.12.2012

95	जेसी299875ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अखलेश कुमार पांडे	01.11.2012
96	जेसी299810डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन सिंह	01.01.2013
97	जेसी300105एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.12.2012
98	जेसी299511एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्रम सिंह	01.10.2012
99	जेसी298791ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मवीर सिंह	01.09.2012
100	जेसी299817ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महात्तिम सिंह यादव	01.09.2012
101	जेसी300531डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर सीनिवासन	01.10.2012
102	जेसी299881ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम मीमा	01.10.2012
103	जेसी297251पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस मुरुगेसन	01.01.2013
104	जेसी299906पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सभा सिंह	01.01.2013
105	जेसी299881एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस हनामन्त रामप्पा	01.10.2012
106	जेसी298718एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार	01.12.2012
107	जेसी299977डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	स्वर्ण सिंह	01.10.2012
108	जेसी300190डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टी सिंह	01.10.2012

**मद्रास इंजीनियर समूह**

109	जेसी308443डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए रोबर्ट	01.09.2012
110	जेसी308734डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलजीत सिंह	01.12.2012
111	जेसी308489एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपीनाथन नायर पीके	01.11.2012
112	जेसी308818एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुमार एम	01.12.2012
113	जेसी308289ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एल अय्युक्कन	01.09.2012
114	जेसी308833आइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनी पी	01.12.2012

115	जेसी306596ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर साकेर	01.11.2012
116	जेसी306403पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतेरी केदारी पाटिल	01.10.2012
117	जेसी306458वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्यन ओआर	01.11.2012
118	जेसी307108वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्रीनिवासन जी.	01.11.2012
119	जेसी306455एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुकुमारन नायर एस	01.10.2012
120	जेसी330241एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.01.2013
121	जेसी308101एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छँगप्पा वाईएन	01.09.2012
122	जेसी309035डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयराजन के	01.01.2013
123	जेसी306782डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोगानाथन एस	01.01.2013
124	जेसी308413एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम गणेशन	01.09.2012
125	जेसी308576एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मखतुमसाब मुल्ला	01.01.2013
126	जेसी308102के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मलप्पा हादीमनी	01.09.2012
127	जेसी308111एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी जयराज	01.09.2012
128	जेसी308532एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी वेकटेशन	01.09.2012
129	जेसी308429एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमेश्वरन के.बी	01.09.2012
130	जेसी307374एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रछपाले भास्कर रेडी	01.11.2012
131	जेसी308572पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस तमिलारसन	01.01.2013
132	जेसी308412पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सजीवन डब्ल्यू	01.09.2012
133	जेसी308042ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सारंगन के	01.09.2012
134	जेसी308103एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतारु धर्मारव	01.09.2012
135	जेसी308431ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सेकार एन	01.12.2012

136	जेसी308880पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेक मोदिन	01.09.2012
137	जेसी308043एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टीआर सीनिवासन	01.09.2012
138	जेसी308702एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यू ऐसूराजन	01.09.2012

**बंगाल इंजीनियर समूह**

139	जेसी325087डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलजिन्दर सिंह	01.11.2012
140	जेसी326542ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बोस के	01.11.2012
141	जेसी327884ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दर्शन सिंह एस	01.09.2012
142	जेसी326572एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	घान श्याम सिंह भाकुनी	01.10.2012
143	जेसी327887एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोविंद सिंह	01.09.2012
144	जेसी326526एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरजंत सिंह	01.10.2012
145	जेसी330090ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इन्द्रा देव गिरि	01.11.2012
146	जेसी327807एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्र	01.11.2012
147	जेसी327886एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खेड़कर मुरलीधर राम राव	01.09.2012
148	जेसी326973एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खेम राज	01.12.2012
149	जेसी328265वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खुशाल सिंह	01.10.2012
150	जेसी327739एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पेरूमल पी	01.12.2012
151	जेसी325599एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्राकराम सिंह यादव	01.10.2012
152	जेसी327780वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामचन्द्रन के	01.10.2012
153	जेसी327562ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायन राय	01.01.2013
154	जेसी224824एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिव सहाय	01.12.2012
155	जेसी328259एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुधींद्र नाथ बसाक	01.01.2013

156	जेसी140994के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तिका प्रसाद बमरारा	01.01.2013
157	जेसी326029वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विद्या राम	01.09.2012
158	जेसी329311पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद सिंह मेहता	01.11.2012
159	जेसी329312एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल कष्णन राम	01.12.2012
160	जेसी162473डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिगम्बर प्रसाद थपलियाल	01.09.2012
161	जेसी338098एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीपक नाथ	01.09.2012
162	जेसी329310एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरीश चन्द जोशी	01.12.2012
163	जेसी329307एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंवर सिंह	01.10.2012
164	जेसी338240ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लखन लाल	01.01.2013
165	जेसी329478वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल चन्द सिंह	01.01.2013
166	जेसी329994एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी कांत	01.01.2013
167	जेसी329556एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद मोजीबेर रहमान	01.01.2013
168	जेसी328098एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह	01.12.2012
169	जेसी329990एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमा राम	01.11.2012
170	जेसी329301एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा	01.09.2012
171	जेसी329991ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामसिया यादव	01.11.2012
172	जेसी327927के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीकांत मिश्रा	01.12.2012

#### बोम्बे इंजीनियर समूह

173	जेसी140997एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अछूतानन्द त्रिपाठी	01.12.2012
174	जेसी348189वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमीन चन्द	01.01.2013
175	जेसी327429एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अरुण कुमार सिंह	01.01.2013

176	जेसी348731एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चरण सिंह	01.12.2012
177	जेसी348849एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हनीफ अहमद	01.11.2012
178	जेसी348491एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरबंस सिंह	01.09.2012
179	जेसी348519एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जाधव परशाराम दाराराम	01.10.2012
180	जेसी348557एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसबीर सिंह	01.10.2012
181	जेसी348757वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.01.2013
182	जेसी348624एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहित राजाराम	01.11.2012
183	जेसी348471के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद जानूद्दीन	01.09.2012
184	जेसी330016वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह	01.01.2013
185	जेसी349041एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पाटिल विश्वास राव गनपत राव	01.10.2012
186	जेसी347970एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेश कुमार तिवारी	01.10.2012
187	जेसी348308के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्य एन भाटी	01.12.2012
188	जेसी348913एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	समसुद्दीन	01.01.2013
189	जेसी348434डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्री निबास पांडे	01.10.2012
190	जेसी160399एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूर्या नाथ कुमारा	01.01.2013
191	जेसी160401एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र शेखर त्रिपाठी	01.11.2012
192	जेसी350371एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अबाद मोहम्मद	01.01.2013
193	जेसी350038वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गायकवाड मारुति रामु	01.01.2013
194	जेसी350449एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	01.11.2012
195	जेसी350310ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महीमन सिंह थापा	01.01.2013
196	जेसी350312एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस खान	01.09.2012

197	जेसी350126पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	01.10.2012
<u>सिग्नल्स कोर</u>				
198	जेसी374915ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार	01.01.2013
199	जेसी376579एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनूप सिंह	01.12.2012
200	जेसी371309वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.10.2012
201	जेसी371320एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशवनी कुमार शर्मा	01.12.2012
202	जेसी371313एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलजीत राय	01.10.2012
203	जेसी367926के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दया कृष्णा पांडे	01.09.2012
204	जेसी369243पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देश राज	01.09.2012
205	जेसी373319एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपीमोहन्न वी	01.01.2013
206	जेसी367927एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरनाम सिंह	01.09.2012
207	जेसी369920एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगन सिंह	01.12.2012
208	जेसी368541वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय राम ओझा	01.01.2013
209	जेसी371512पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कंचारला जयप्रकाश	01.09.2012
210	जेसी371211एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापाल सिंह मेहता	01.09.2012
211	जेसी367909के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.09.2012
212	जेसी367953एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.11.2012
213	जेसी371241एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.10.2012
214	जेसी372067एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पलविंदर सिंह	01.01.2013
215	जेसी367940डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रबींद्र सिंह	01.09.2012
216	जेसी369914एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रबीन्द्र कुमार पटनायक	01.01.2013



217	जेसी367952एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघबीर सिंह वर्मा	01.11.2012
218	जेसी371210एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज सिंह	01.09.2012
219	जेसी368984ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजपाल	01.10.2012
220	जेसी367951एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रवि चन्द धर्वाल	01.09.2012
221	जेसी371334एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुशील कुमार शर्मा	01.12.2012
222	जेसी370289के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्रा पाल सिंह	01.10.2012
223	जेसी373464वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह	01.01.2013
224	जेसी376282डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चरण सिंह	01.10.2012
225	जेसी374727वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मबीर	01.09.2012
226	जेसी375836एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मवीर सिंह	01.10.2012
227	जेसी377421एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश चंद्र	01.10.2012
228	जेसी377353वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरेन्द्र नाथ घोष	01.09.2012
229	जेसी373472एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरगोवींद सिंह चौहान	01.10.2012
230	जेसी376645पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयवीर	01.09.2012
231	जेसी375650एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.01.2013
232	जेसी377307के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कैलाश चंद्रा स्वामी	01.01.2013
233	जेसी376650ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाउतु राम	01.01.2013
234	जेसी375795वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर पाल सिंह	01.10.2012
235	जेसी376114एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नागराजा	01.12.2012
236	जेसी375678एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.10.2012
237	जेसी375604वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश यादव	01.12.2012

238	जेसी376537एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम चन्द	01.10.2012
239	जेसी375101एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार सिंह	01.09.2012
240	जेसी373673डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चरण	01.10.2012
241	जेसी377302एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवि दत्ता	01.10.2012
242	जेसी369900एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सन्यासी नाथडू कान्तामु रेडी	01.11.2012
243	जेसी375854ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.10.2012

#### ब्रिगेड आफ गार्ड्स

244	जेसी402869पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार मिश्रा	01.10.2012
245	जेसी402887एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी शंकर यादव	01.12.2012
246	जेसी402611एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम संपतु	01.11.2012
247	जेसी403542एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बजरंग सिंह	01.10.2012
248	जेसी403979डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद	01.11.2012
249	जेसी403019एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम बहादुर	01.09.2012
250	जेसी404004एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजबीर सिंह पनवर	01.11.2012
251	जेसी403806वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह	01.11.2012
252	जेसी404181एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.12.2012
253	जेसी403568एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुल्तान सिंह	01.11.2012
254	जेसी403859एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चंद्रा	01.11.2012

#### पैराशूट रेजीमेंट

255	जेसी413044के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जंग बहादुर थापा	01.11.2012
256	जेसी413087वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल सिंह	01.11.2012

257	जेसी413048ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन सिंह राना	01.12.2012
258	जेसी412477पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.09.2012
259	जेसी412803एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम सिंह	01.09.2012
260	जेसी412964पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.12.2012

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

261	जेसी418922वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नवल किशोर	01.11.2012
262	जेसी418702पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	निरंजन सिंह	01.09.2012
263	जेसी419068के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार सिंह	01.01.2013
264	जेसी418894एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमेश सिंह	01.10.2012
265	जेसी420528एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस लाल	01.11.2012
266	जेसी420767एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नेपाल सिंह	01.01.2013
267	जेसी420205के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओंकार सिंह	01.01.2013
268	जेसी420467ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमजीत सिंह	01.11.2012
269	जेसी419570वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज देव यादव	01.09.2012
270	जेसी419658एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राशन शील	01.11.2012
271	जेसी420581एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार	01.12.2012
272	जेसी419735एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यवान	01.12.2012

पंजाब रेजीमेंट

273	जेसी429187एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह एसएम	01.11.2012
274	जेसी428836एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करनैल सिंह	01.11.2012
275	जेसी429041ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह डोगरा	01.01.2013

276	जेसी429298एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रूप लाल	01.11.2012
277	जेसी429234ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सकत्तार सिंह	01.12.2012
278	जेसी428936एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विरिन्द्र शर्मा	01.10.2012
279	जेसी429978एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बुटी राम	01.11.2012
280	जेसी428620ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चमन लाल	01.01.2013
281	जेसी430008पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धूप सिंह	01.01.2013
282	जेसी429619एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरचरण सिंह	01.11.2012
283	जेसी429672एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह	01.01.2013
284	जेसी428478एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हाकम सिंह	01.10.2012
285	जेसी429880एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरमेश कुमार	01.09.2012
286	जेसी429859पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द	01.01.2013
287	जेसी429554पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जागीर सिंह	01.10.2012
288	जेसी429929एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जैक सिंह	01.12.2012
289	जेसी430107एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.01.2013
290	जेसी430311डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.12.2012
291	जेसी430010एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल किशोर	01.11.2012
292	जेसी430089ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कण्णन चन्द	01.11.2012
293	जेसी429746एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलवंत सिंह	01.01.2013
294	जेसी429890एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुख्य राज	01.12.2012
295	जेसी429413ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर वर्मा	01.12.2012
296	जेसी429517एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल सिंह	01.11.2012

297	जेसी429509एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम सिंह	01.12.2012
298	जेसी429694एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रबींद्र सिंह	01.09.2012
299	जेसी429733पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.11.2012
300	जेसी429064एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रेशम सिंह	01.11.2012
301	जेसी429192वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रूप सिंह	01.10.2012
302	जेसी429964एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत पाल	01.01.2013
303	जेसी429998वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीश कुमार	01.09.2012
304	जेसी429875एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबाष चंद्र	01.12.2012
305	जेसी430127एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर पौल	01.12.2012
306	जेसी430206ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम लाल	01.12.2012

मद्रास रेजीमेंट

307	जेसी438654एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बेटा जी.	01.09.2012
308	जेसी438966एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गणेशन एस	01.10.2012
309	जेसी438844एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरिन्दर के	01.09.2012
310	जेसी438595ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जॉन पीएल	01.11.2012
311	जेसी438758एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस एस	01.01.2013
312	जेसी438675एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजयन एच	01.11.2012
313	जेसी439529के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अल्बर्ट गनसालविस	01.09.2012
314	जेसी439804वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार वी जी	01.11.2012
315	जेसी439612एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बी वेलायुधन	01.01.2013
316	जेसी439164ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाममीदी कुरमा राव	01.11.2012

317	जेसी439733एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के.बी. रामकृष्णा	01.09.2012
318	जेसी439195ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कोयानी कृष्णा राव	01.01.2013
319	जेसी439520पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नंदन कुमार आरएस	01.11.2012
320	जेसी439508एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी ईश्वर कुमार	01.11.2012
321	जेसी439626एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजू बीएम	01.09.2012
322	जेसी439530वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वेलायुदम ई	01.01.2013
323	जेसी160674डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विनायक भाट	01.10.2012

### ग्रेनेडियर्स

324	जेसी449656एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन लाल जाट	01.12.2012
325	जेसी449345वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द	01.11.2012
326	जेसी449181एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तारा सिंह	01.01.2013
327	जेसी450679ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरजू सिंह राजपूत	01.09.2012
328	जेसी450377एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी प्रताप सिंह	01.12.2012
329	जेसी450043वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.09.2012
330	जेसी450414डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशोरी लाल	01.12.2012
331	जेसी450052ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.09.2012
332	जेसी449609पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लिला राम खटाना	01.10.2012
333	जेसी450029एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोती सिंह	01.11.2012
334	जेसी450144एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निजामुरदीन	01.10.2012
335	जेसी450326ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्यारे राम एसएम	01.11.2012
336	जेसी449611एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बाबू सिंह	01.09.2012

337	जेसी450141वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र	01.11.2012
338	जेसी449961वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र	01.10.2012
339	जेसी450207के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शशि पाल सैनी	01.01.2013
340	जेसी450660एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यावीर सिंह राजपूत	01.09.2012
341	जेसी449692एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोलंकी मगन भाई लक्खा भाई	01.09.2012

मराठा लघु सेना

342	जेसी458526एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सी सुरेश नारायण	01.10.2012
343	जेसी458784एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलीप इश्वर गायकवाड	01.01.2013
344	जेसी458455पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महामुनकर श्रीराम दमादु	01.10.2012
345	जेसी458358एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मारुति होन्नागेकर	01.10.2012
346	जेसी458696पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस महेशुमीरन	01.11.2012
347	जेसी458396एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सकाराम शंकर छाल्के	01.09.2012
348	जेसी458657डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बारगे सुदाम सम्पत	01.01.2013
349	जेसी458897एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घोले शिवनाथ कुंडलिक	01.01.2013
350	जेसी459548डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जाधव शंकर निवर्त्तरी	01.11.2012
351	जेसी459371एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगताप लक्ष्मण मनाजी	01.10.2012
352	जेसी459333एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कादव अशोक नाना	01.11.2012
353	जेसी459182के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खामाकर बी शंकर	01.09.2012
354	जेसी459294के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शशिकांत रामचंद्र महोपादी	01.01.2013
355	जेसी459383एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टी दन्यानदेव तुळशीराम	01.11.2012
356	जेसी459080एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.12.2012

राजपूताना राईफल्स

357	जेसी469208एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.01.2013
358	जेसी468842एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिरावर सिंह	01.12.2012
359	जेसी469191वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गिरराज सिंह	01.09.2012
360	जेसी468843ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुमेर सिंह	01.11.2012
361	जेसी469886एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह	01.12.2012
362	जेसी469734ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अतर सिंह	01.12.2012
363	जेसी470198पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू लाल चौधरी	01.12.2012
364	जेसी469698ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी पाल सिंह	01.11.2012
365	जेसी469726एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश	01.12.2012
366	जेसी469385एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयमल सिंह	01.09.2012
367	जेसी470134के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशोर सिंह	01.12.2012
368	जेसी469370वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र कुमार	01.01.2013
369	जेसी470275वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज बीर	01.11.2012
370	जेसी469939पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश बाबू	01.09.2012
371	जेसी469940के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.09.2012
372	जेसी469424पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोतन सिंह	01.01.2013
373	जेसी469732पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर सिंह	01.12.2012
374	जेसी469669एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम सिंह	01.01.2013
375	जेसी469953एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र कुमार	01.12.2012



राजपूत रेजीमेंट

376	जेसी478692ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन पाल	01.11.2012
377	जेसी478886एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज किशोर	01.01.2013
378	जेसी478961एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्याम बाबू सिंह	01.11.2012
379	जेसी480081के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आलम सिंह	01.01.2013
380	जेसी480223डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अल्लाह वी	01.09.2012
381	जेसी479710के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश सिंह	01.12.2012
382	जेसी480017एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशन सिंह	01.11.2012
383	जेसी480043एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	01.09.2012
384	जेसी479717एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर कृष्णा मूर्ती	01.09.2012
385	जेसी480026एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिम्भू दयाल यादव	01.09.2012
386	जेसी480117एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिद्धी नाथ	01.09.2012
387	जेसी479633ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुशील कुमार	01.09.2012

जाट रेजीमेंट

388	जेसी488983एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जग राम सिंह	01.11.2012
389	जेसी488902एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मूल चन्द	01.11.2012
390	जेसी488814एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चंद्रा	01.12.2012
391	जेसी489559एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरधारी राम	01.12.2012
392	जेसी489656पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ख्याली राम	01.12.2012
393	जेसी489929एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लेख राज	01.11.2012
394	जेसी489344वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कला	01.09.2012

395	जेसी489990डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.10.2012
396	जेसी489891एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.10.2012
397	जेसी489569एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामदीन चौधरी	01.01.2013
398	जेसी489604वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.12.2012
399	जेसी489931के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यपाल सिंह	01.12.2012
400	जेसी489932एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोनी कुमार	01.01.2013
401	जेसी489930एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीपाल सिंह	01.11.2012
402	जेसी489691एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम सिंह	01.12.2012
403	जेसी489935ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	युद्ध वीर	01.11.2012

#### सिख रेजीमेंट

404	जेसी498693के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.10.2012
405	जेसी498535पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.01.2013
406	जेसी498608डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	01.09.2012
407	जेसी498771डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रणधीर सिंह	01.10.2012
408	जेसी498646एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.10.2012
409	जेसी499521एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.10.2012
410	जेसी499022एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.12.2012
411	जेसी499113डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भुपिन्द्र सिंह	01.10.2012
412	जेसी499387एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरभजन सिंह	01.12.2012
413	जेसी499007एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.12.2012
414	जेसी499043एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.10.2012

सिख लघु पैदल सेना

415	जेसी508760ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुच्चा सिंह	01.01.2013
416	जेसी508351एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक सिंह	01.10.2012
417	जेसी509497एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	01.12.2012
418	जेसी508877वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरमेल सिंह	01.10.2012
419	जेसी509393एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेजर सिंह	01.10.2012
420	जेसी508777एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमजीत सिंह	01.10.2012
421	जेसी509165एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.09.2012
422	जेसी508881एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर पाल सिंह	01.09.2012
423	जेसी508731एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	01.09.2012

डोगरा रेजीमेंट

424	जेसी519550ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.01.2013
425	जेसी519461एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिनेश सिंह	01.10.2012
426	जेसी520820डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	असवानी कुमार	01.10.2012
427	जेसी520824एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बरिन्दर सिंह	01.10.2012
428	जेसी520583एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हेम राज	01.11.2012
429	जेसी520867एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोवान लाल	01.12.2012
430	जेसी520817डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल सिंह	01.11.2012
431	जेसी520700एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.10.2012
432	जेसी520221डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.09.2012
433	जेसी520733एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रर सिंह	01.10.2012

434	जेसी520353के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम लाल	01.12.2012
435	जेसी520663पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह सैनी	01.01.2013
436	जेसी520818वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम दत्ता	01.01.2013

#### गढ़वाल राईफल्स

437	जेसी528799एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालेन्द्रा सिंह	01.09.2012
438	जेसी529143एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा सिंह	01.11.2012
439	जेसी528904वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगत सिंह	01.10.2012
440	जेसी528743एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नागमल सिंह	01.10.2012
441	जेसी529171एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजबर सिंह	01.10.2012
442	जेसी529104एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	यशपाल सिंह	01.09.2012
443	जेसी530392डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भुपेन्द्र सिंह	01.01.2013
444	जेसी530487डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशन दत्त	01.11.2012
445	जेसी530453एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयराज सिंह	01.10.2012
446	जेसी530261एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश पंचुरी	01.12.2012
447	जेसी530521एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजपाल सिंह रावत	01.09.2012
448	जेसी530296एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.12.2012
449	जेसी530016एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवा प्रसाद	01.09.2012
450	जेसी530370एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवराज सिंह	01.10.2012
451	जेसी530565एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विक्रम सिंह	01.11.2012

#### कुमाँउ रेजीमेंट

452	जेसी539192एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद सिंह अधिकारी	01.01.2013
-----	--------------	---------------------------------	----------------------	------------

453	जेसी538859एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह	01.10.2012
454	जेसी538764एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा प्रसाद	01.12.2012
455	जेसी538999एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर दयाल यादव	01.01.2013
456	जेसी539589एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद सिंह	01.09.2012
457	जेसी539743एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चामु सिंह	01.10.2012
458	जेसी539772डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र सिंह किराउला	01.09.2012
459	जेसी539820एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मेन्द्र सिंह	01.10.2012
460	जेसी539755डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगत सिंह	01.11.2012
461	जेसी539986एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जमन सिंह	01.12.2012
462	जेसी540029एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	01.09.2012
463	जेसी539822डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह	01.10.2012
464	जेसी540090एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन सिंह मेहता	01.10.2012
465	जेसी539900एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लिला धर पांडे	01.09.2012
466	जेसी540087एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माधव नन्द	01.09.2012
467	जेसी540200एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महादेव भट्ट	01.09.2012
468	जेसी539349डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.01.2013
469	जेसी539269वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नंदन सिंह	01.09.2012
470	जेसी540065वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेंद्र सिंह	01.09.2012
471	जेसी539971के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरपत सिंह	01.10.2012
472	जेसी539862एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.12.2012
473	जेसी540025एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पृथ्वी राज सिंह	01.11.2012

474	जेसी539896एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर सिंह खाती	01.10.2012
475	जेसी540145डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.01.2013
476	जेसी539792के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा सिंह	01.01.2013
477	जेसी540219ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूबे सिंह यादव	01.12.2012
478	जेसी539673एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश लाल साह	01.10.2012
479	जेसी539404एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वाइ सिंह	01.10.2012

#### आसाम रेजीमेंट

480	जेसी548629एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए बिनोए सिंघा	01.12.2012
481	जेसी548574एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	असविनी कुमार सिन्हा	01.11.2012
482	जेसी548514एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिनोद सिंह	01.11.2012
483	जेसी548549एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिनोए कुमार बोराह	01.09.2012
484	जेसी829164ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा सिंघा	01.09.2012
485	जेसी548463पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा सेना राजकुमार	01.12.2012
486	जेसी548464एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सरमा	01.10.2012
487	जेसी548744एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	के जेमस	01.12.2012
488	जेसी548512एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रा सिंघा	01.10.2012
489	जेसी548778वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शांती कुमार सिन्हा	01.10.2012
490	जेसी549381वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अग्नि बहादुर छत्री	01.09.2012
491	जेसी548996एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्ररुण चिसिम	01.10.2012
492	जेसी549042वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भुदेशवर देवरी	01.01.2013
493	जेसी549554एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भूपेन चेतिया	01.10.2012

494	जेसी549134एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीएस रिकोईसन अनल	01.01.2013
495	जेसी548987डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छाबीलाल थापा	01.01.2013
496	जेसी549214एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दल बहादुर दरलामी	01.01.2013
497	जेसी549333वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केएसएच मलाया सिंघा	01.12.2012
498	जेसी549209एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लैशराम भोरोत सिंह	01.11.2012
499	जेसी548856एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पायलट मारक	01.09.2012
500	जेसी549372एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पाया अनीघेर अनल	01.01.2013
501	जेसी172615डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पीएस जोर्ज	01.12.2012
502	जेसी548922एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एसआर हस्तिगोल अनल	01.01.2013
503	जेसी548867एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उधाब चंद्रा राजबोंगशी	01.12.2012

बिहार रेजीमेंट

504	जेसी558853एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खेदन सिंह	01.11.2012
505	जेसी558808वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश सिंह	01.01.2013
506	जेसी559259डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अंग्रीश बारिक	01.09.2012
507	जेसी559384ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबुली नायक	01.01.2013
508	जेसी559338एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिजया कुमार सामल	01.09.2012
509	जेसी558694वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धानू दूडू	01.09.2012
510	जेसी558978एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जीवार नाग	01.12.2012
511	जेसी559349एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन गिरि	01.09.2012
512	जेसी559458के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पासकल तोप्पो	01.11.2012
513	जेसी559653एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पितांबर बिरुवा	01.10.2012

514	जेसी559832एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नाथ ओरान	01.09.2012
-----	--------------	----------------------------	--------------	------------

महार रेजीमेंट

515	जेसी568610एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	काम्बले अशोक एस	01.10.2012
516	जेसी568702ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भन्डालकर किसान दादा	01.11.2012
517	जेसी568647पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दत्ताता सूर्यभान गवई	01.10.2012
518	जेसी568612वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुराने विजय शिवाजी	01.10.2012
519	जेसी569307वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलकार सिंह	01.11.2012
520	जेसी569554एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिमल च. बर्मन	01.12.2012
521	जेसी569329एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंचल सिंह	01.09.2012
522	जेसी569944पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.01.2013
523	जेसी569285एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन तमंग	01.12.2012
524	जेसी569973के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लिलामनी लामसल	01.10.2012
525	जेसी570202एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रवाकर लेनका	01.01.2013
526	जेसी569799एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरत सिंह बिष्ट	01.09.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

527	जेसी579219डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान सिंह	01.09.2012
528	जेसी579427एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी राम	01.11.2012
529	जेसी579495वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेम सिंह	01.01.2013
530	जेसी579586एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द	01.01.2013
531	जेसी579364एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोबा राम	01.01.2013
532	जेसी579491एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोहन लाल	01.09.2012



533	जेसी580483डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.09.2012
534	जेसी580030एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.09.2012
535	जेसी580287डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.09.2012
536	जेसी580178के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.11.2012
537	जेसी580683एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिसवा गुरंग	01.12.2012
538	जेसी580663वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी बहादुर थापा	01.01.2013
539	जेसी580444एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जागर सिंह	01.09.2012
540	जेसी580273डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगत सिंह	01.10.2012
541	जेसी580288वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल सिंह	01.10.2012
542	जेसी580043एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमलजीत सिंह	01.09.2012
543	जेसी580094डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरोत्तम सिंह	01.10.2012
544	जेसी579621ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल सिंह जामवाल	01.09.2012
545	जेसी580376पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम लाल	01.09.2012
546	जेसी580568एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोमेश चन्द	01.09.2012
547	जेसी579993एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर कुमार	01.09.2012

लद्दाख स्काउट

548	जेसी588279एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छेरिंग फुनचोक	01.10.2012
549	जेसी588266पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ताशी टुनदुप	01.11.2012
550	जेसी588234एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टी लोलदन	01.10.2012

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

551	जेसी592554वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.01.2013
-----	---------------	---------------------------------	---------------	------------

552	जेसी592762एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत पौल	01.01.2013
553	जेसी593513एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.01.2013
554	जेसी593389एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत राज	01.12.2012
555	जेसी592898एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देव राज	01.11.2012
556	जेसी593036एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फतेह सिंह	01.11.2012
557	जेसी592990डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी एच मोही दीन वाणी	01.10.2012
558	जेसी592830डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरबंस लाल	01.09.2012
559	जेसी593732एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह	01.12.2012
560	जेसी592799पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरकेश कुमार शर्मा	01.09.2012
561	जेसी593197एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरमिंदर पौल	01.09.2012
562	जेसी593138एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जागर राम	01.11.2012
563	जेसी592966ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.09.2012
564	जेसी593483पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.12.2012
565	जेसी593224एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खजान चन्द	01.11.2012
566	जेसी593359एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.11.2012
567	जेसी593091एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल हुसैन	01.12.2012
568	जेसी592775एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मंगत राम	01.11.2012
569	जेसी593011वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद इकबाल	01.01.2013
570	जेसी592812एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद सादिक	01.10.2012
571	जेसी593003ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर लाल	01.11.2012
572	जेसी593335के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद आसिफ	01.11.2012

573	जेसी593490एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरिंदर कुमार	01.10.2012
574	जेसी593306पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	01.01.2013
575	जेसी593545क	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघबीर सिंह	01.12.2012
576	जेसी593679एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कष्णन	01.01.2013
577	जेसी592996एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द	01.11.2012
578	जेसी593261ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन सिंह	01.10.2012
579	जेसी592897पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सागर सिंह	01.01.2013
580	जेसी593294एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत पाल	01.09.2012
581	जेसी592689ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाम लाल	01.11.2012
582	जेसी593318के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाम लाल	01.11.2012
583	जेसी593074एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर सिंह	01.11.2012
584	जेसी593710के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम लाल सैनी	01.11.2012
585	जेसी592995पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वेद प्रकाश	01.11.2012
586	जेसी592616एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.09.2012
587	जेसी593395वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.12.2012
588	जेसी593380डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीर भान	01.11.2012
589	जेसी593661एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योग राज	01.11.2012

#### 1 गोरखा राईफल्स

590	जेसी602782एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुल बहादुर श्रेष्ठा	01.10.2012
591	जेसी602682एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ताप बहादुर राना	01.10.2012

3 गोरखा राईफल्स

592	जेसी607135एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीम प्रसाद	01.01.2013
593	जेसी607479ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बुद्धि बहादुर गुरंग	01.12.2012
594	जेसी607710एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगत बहादुर थापा	01.09.2012

4 गोरखा राईफल्स

595	जेसी612366एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करण बहादुर थापा	01.12.2012
596	जेसी612591डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद कुमार	01.01.2013
597	जेसी612537एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापा राम गुरंग	01.11.2012
598	जेसी612574डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुल मान पुन	01.09.2012
599	जेसी612588डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समर विजय	01.09.2012
600	जेसी612548पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरके बहादुर राना	01.11.2012

5 गोरखा राईफल्स

601	जेसी617543ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गेन बहादुर गुरंग	01.11.2012
602	जेसी617528एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गनेश बहादुर थापा	01.09.2012
603	जेसी617444एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हिम लाल सिंगजाली	01.09.2012
604	जेसी617382एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा भराली	01.09.2012
605	जेसी617779पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार राना	01.09.2012
606	जेसी617859एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन बहादुर राना	01.12.2012
607	जेसी617566एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लिला धोज गुरंग	01.12.2012
608	जेसी617516डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोक बहादुर पुन	01.09.2012
609	जेसी617808वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नगेन्द्रा बहादुर थापा	01.01.2013

**8 गोरखा राईफल्स**

610	जेसी623300एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिशू थापा	01.01.2013
611	जेसी623582पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार गुरंग	01.09.2012
612	जेसी623699एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाल बहादुर रोका	01.12.2012
613	जेसी623479के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चेहक बहादुर गुरंग	01.11.2012
614	जेसी623600एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खरका बहादुर गुरंग	01.10.2012
615	जेसी623686डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.12.2012
616	जेसी623604एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मण राना	01.09.2012
617	जेसी623444एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पदम बहादुर प्रधान	01.09.2012

**9 गोरखा राईफल्स**

618	जेसी629844डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशू प्रसाद छत्री	01.11.2012
619	जेसी629563ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिल बहादुर थापा	01.01.2013
620	जेसी629880एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी बहादुर केसी	01.01.2013

**11 गोरखा राईफल्स**

621	जेसी634136एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल प्रसाद प्रधान	01.10.2012
622	जेसी634674एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनय राय	01.01.2013
623	जेसी634661के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत कुमार लोकटम	01.11.2012
624	जेसी634659एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह बिष्ट	01.10.2012
625	जेसी634592वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार राय	01.12.2012
626	जेसी634760एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार राय	01.12.2012

सेमा सेवा कोर दक्षिण

627	जेसी662258एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अलाउद्दीन खान	01.11.2012
628	जेसी641845एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आनन्दन ए	01.11.2012
629	जेसी640786एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह पटियाल	01.09.2012
630	जेसी640866पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.01.2013
631	जेसी641257एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देश राज जामवाल	01.01.2013
632	जेसी641073वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवेंदर सिंह	01.01.2013
633	जेसी641207एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कपूर कुमार शर्मा	01.10.2012
634	जेसी641505एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुकुन्दन पी	01.09.2012
635	जेसी641230ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर सिंह	01.12.2012
636	जेसी138178पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूरन चंद्रा जोशी	01.12.2012
637	जेसी641822के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर के एस सिंघा	01.10.2012
638	जेसी640864के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम दत्ता सिंह	01.10.2012
639	जेसी663957एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार झा	01.01.2013
640	जेसी663622एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत सिंह	01.12.2012
641	जेसी664030डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्र पाल	01.10.2012
642	जेसी641114एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरीश चंद्र	01.09.2012
643	जेसी663848वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जग राम सिंह	01.12.2012
644	जेसी664140एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	01.12.2012
645	जेसी641545के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन चरण स्वेन	01.09.2012
646	जेसी664203एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर	01.11.2012

647	जेसी663326एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम पाल	01.10.2012
648	जेसी663326एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आर पांडि	01.09.2012
649	जेसी663852एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम दत्त भट्ट	01.10.2012
650	जेसी663358एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सकल भगत	01.12.2012
651	जेसी663893एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द यादव	01.01.2013
652	जेसी643024पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर दत्ताता द्विवेदी	01.10.2012
653	जेसी664976एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राठोड़ तेज सिंह	01.01.2013
654	जेसी663536एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस मुनि राजू	01.09.2012
655	जेसी665049एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरत चंद्रा मोहंती	01.12.2012
656	जेसी642740एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतबीर सिंह	01.01.2013
657	जेसी664312पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबोध कुमार सक्सेना	01.10.2012

सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन

658	जेसी680855एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा सिंह	01.12.2012
659	जेसी680827वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	जगत चंद्रा मोहंती	01.09.2012
660	जेसी680824एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मन्नू सिंह	01.09.2012
661	जेसी680757एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद अकबर अली	01.12.2012
662	जेसी680841एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नवल किशोर चौधरी	01.11.2012
663	जेसी680854एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रमा कांत	01.12.2012
664	जेसी680939वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रमा सुथान कौ	01.09.2012
665	जेसी680882पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	शिवू गुरु रौय	01.09.2012
666	जेसी681008एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	वी केशवन	01.08.2012

सेना चिकित्सा कोर

667	जेसी692598एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.11.2012
668	जेसी694334एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलदेव राज	01.10.2012
669	जेसी694014एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाज्जी रेडी रवीन्द्र रेडी	01.10.2012
670	जेसी693540ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा शेखर सिंह नेगी	01.12.2012
671	जेसी693424एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छात्रा सिंह मेहरा	01.12.2012
672	जेसी693614के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरदयाल सिंह	01.09.2012
673	जेसी691279एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरदीप सिंह	01.12.2012
674	जेसी694345पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महीपाल सिंह	01.01.2013
675	जेसी694320एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन लाल	01.11.2012
676	जेसी690532डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम पिल्लई पी	01.12.2012
677	जेसी161067के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेंद्र नाथ तिवारी	01.09.2012
678	जेसी691650डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओमबसे अशोक धर्माजी	01.11.2012
679	जेसी693354के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रबी नारायण पंडा	01.01.2013
680	जेसी693011एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम रतन	01.12.2012
681	जेसी148702एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर प्रसाद बबली	01.01.2013
682	जेसी692581एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोमा शेखरन पिल्लई एम	01.09.2012
683	जेसी694010एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्री कांत मिश्रा	01.01.2013
684	जेसी695329के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह	01.10.2012
685	जेसी695398ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भानु प्रताप	01.09.2012
686	जेसी696175पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्र सिंह	01.10.2012



687	जेसी695454एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छोटू राम जंगल	01.12.2012
688	जेसी695351पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हनुमंथू रमा कृष्णा राव	01.09.2012
689	जेसी693033एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जया कुमार पी बी	01.09.2012
690	जेसी693870वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.10.2012
691	जेसी695374डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मन्जे गोड़ एमटी	01.09.2012
692	जेसी693706डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम यादव	01.11.2012
693	जेसी695594ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र प्रसाद नदीया	01.09.2012
694	जेसी695452एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ऋषि केश राय	01.12.2012
695	जेसी695597एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विनोद कुमार भट्ट	01.10.2012

#### सेना आयुध कोर

696	जेसी723638एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आसिफ अली खान	01.09.2012
697	जेसी723726एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल चंद्रा बाला	01.11.2012
698	जेसी723641एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन टी	01.01.2013
699	जेसी723662एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुन्नी लाल	01.11.2012
700	जेसी723906के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राय सिंह	01.10.2012
701	जेसी725925एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश सिंह	01.09.2012
702	जेसी723901एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.09.2012
703	जेसी722986ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार सिंह	01.10.2012
704	जेसी723825के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ताजवर सिंह	01.11.2012
705	जेसी131921डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	टी राम खनकरियाल	01.11.2012
706	जेसी726490एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अग्ने कुमार	01.09.2012

707	जेसी726660एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भिर्गु नाथ यादव	01.01.2013
708	जेसी726563के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश चंद्रा दास	01.10.2012
709	जेसी726945एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपीनाथन पिल्लई वी	01.12.2012
710	जेसी725725एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हनुमान राम	01.01.2013
711	जेसी727176एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करुण सिंह	01.01.2013
712	जेसी726578एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कोल्लाबाथूला जन्ना रत्नम	01.09.2012
713	जेसी726475एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहानन आर	01.09.2012
714	जेसी726544वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	01.10.2012
715	जेसी727383एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मृदुल बोरा आइ	01.11.2012
716	जेसी726640एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नज़र मोहम्मद	01.01.2013
717	जेसी727132के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश्वर ठाकुर	01.09.2012
718	जेसी727636एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम एक्बाल चौधरी	01.09.2012
719	जेसी726510एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य वीर सिंह	01.09.2012
720	जेसी726541एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरीश पाल	01.10.2012
721	जेसी726474एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यू सिंह इनडे	01.09.2012

कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

722	जेसी749338एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अरुण कुमार पांडे	01.11.2012
723	जेसी749179पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बी लक्ष्मी चेन्ना केषवा राव	01.12.2012
724	जेसी754137एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बच्छा प्रसाद सिंह	01.12.2012
725	जेसी753816एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भराथा कुमारन सी	01.12.2012
726	जेसी752970के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हिमांशु शेखर पात्रा	01.09.2012

727	जेसी753168ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ज्वाला प्रसाद	01.09.2012
728	जेसी478762एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कैलाश चंद्र भट्ट	01.11.2012
729	जेसी753097के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खिम सिंह	01.10.2012
730	जेसी753385डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	के दत्तातात्रिया बाबन राव	01.12.2012
731	जेसी752880एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नवीन कुमार	01.12.2012
732	जेसी146676डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चंद्रा पंत	01.09.2012
733	जेसी751529पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रविन्द्र पाल सिंह	01.11.2012
734	जेसी753346एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार	01.12.2012
735	जेसी753719ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोबरन सिंह	01.12.2012
736	जेसी754280वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुलखान सिंह	01.01.2013
737	जेसी752210एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुल्तान सिंह पोरिया	01.11.2012
738	जेसी753651के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह रावत	01.12.2012
739	जेसी146674एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश प्रसाद त्रिपाठी	01.09.2012
740	जेसी762817एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.10.2012
741	जेसी762456एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्विन्द कुमार सिन्हा	01.10.2012
742	जेसी755879वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भोला झा	01.12.2012
743	जेसी760368वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनोद बिहारी	01.01.2013
744	जेसी762871पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनोदे बिहारी दास	01.01.2013
745	जेसी762814एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्र सिंह	01.01.2013
746	जेसी760214एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बोरासे गुलाबराव	01.12.2012
747	जेसी755444डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बोरासे पांडुरंग राजाराम	01.12.2012

748	जेसी751924एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सी अरोचिया दोस	01.09.2012
749	जेसी754497एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा दत्ता शर्मा	01.12.2012
750	जेसी761794वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा मोहन सिंह	01.09.2012
751	जेसी754589पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दादन तिवारी	01.09.2012
752	जेसी762819एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दया नन्द	01.10.2012
753	जेसी755192पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देश राम	01.10.2012
754	जेसी751916के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एलांगुवान के	01.09.2012
755	जेसी754020एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरीश च. नाथ	01.11.2012
756	जेसी761696वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हंस राज तिवारी	01.12.2012
757	जेसी762461वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जग मोहन सिंह	01.12.2012
758	जेसी755625एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय भगवान	01.01.2013
759	जेसी760221एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जया राजन के एम	01.12.2012
760	जेसी760187एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कामेश्वर ठाकुर	01.09.2012
761	जेसी760162एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृशनाधन सिंघा	01.09.2012
762	जेसी752386एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के दास	01.09.2012
763	जेसी760513एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महालिंगम टी	01.10.2012
764	जेसी762810एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन चन्द	01.12.2012
765	जेसी762873ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	01.01.2013
766	जेसी760480एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुकेश बाबू	01.12.2012
767	जेसी760227के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्हें लाल लोधी	01.12.2012
768	जेसी760670एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नीलकंठ मनी सिन्हा	01.12.2012

769	जेसी757650वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरिपेन चंद्रा मालाकर	01.10.2012
770	जेसी760188डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी पदमाजन नायर	01.09.2012
771	जेसी755148एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रवाकर त्रिवेदी	01.09.2012
772	जेसी762923ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार सिंह	01.09.2012
773	जेसी755372एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामामूर्ति ए	01.12.2012
774	जेसी760197एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेन्द्र नाथ शाह	01.10.2012
775	जेसी754553डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा यादव	01.10.2012
776	जेसी755877एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राहिताश्व लाम्बा	01.12.2012
777	जेसी762789ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समीर कुमार मैटी	01.10.2012
778	जेसी755280एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतेंद्र सिंह बैस	01.10.2012
779	जेसी761028एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाजी मैथ्यूज	01.09.2012
780	जेसी755621एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुधीर पाल जदाउन	01.01.2013
781	जेसी760539ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखविंदर सिंह	01.10.2012
782	जेसी763170एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चन्द	01.12.2012
783	जेसी753188एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमेश कुमार झा	01.01.2013
784	जेसी756267एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वेद प्रकाश	01.12.2012
785	जेसी755104एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विरेन्द्र सिंह यादव	01.10.2012
786	जेसी760202एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र कुमार पांडे	01.11.2012
787	जेसी753857एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डब्ल्यू हेतराम तुलसीराम	01.10.2012

#### सेना शिक्षा कोर

788	जेसी802509एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कोमल सिंह	01.01.2013
-----	--------------	---------------------------------	-----------	------------

789	जेसी802207ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमेश सिंह	01.09.2012
790	जेसी803379एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह चौहान	01.01.2013
791	जेसी803338एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.09.2012
792	जेसी803142के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलजीत कुमार	01.01.2013
793	जेसी802676एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खेम चन्द थालोर	01.12.2012
794	जेसी802665डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनवीर शर्मा	01.12.2012
795	जेसी803601एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश द्विवेदी	01.01.2013
796	जेसी803135एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.01.2013
797	जेसी802947पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमेश बाबू	01.11.2012

#### रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

798	जेसी797392एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मोहिन्दर सिंह	01.12.2012
799	जेसी797376पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	प्रसाद सी के	01.10.2012

#### आसुचना कोर

800	जेसी810103एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह महारा	01.09.2012
801	जेसी810123एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सिंगारा सिंह	01.01.2013
802	जेसी810735वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दालबीर चन्द राना	01.01.2013
803	जेसी810723के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघुवीर सिंह यादव	01.11.2012
804	जेसी810699वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रण विजय सिंह	01.09.2012
805	जेसी810593एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रवण कुमार	01.11.2012
806	जेसी810697एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रवण सिंह चौहान	01.09.2012
807	जेसी810710एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिशु पौल	01.11.2012

808	जेसी810755एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तस्बीर सिंह	01.01.2013
809	जेसी810719एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यादव चन्द	01.11.2012
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
810	जेसी818733एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजन वी के	01.11.2012
811	जेसी818347डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन दियोनिस तिकेई	01.10.2012
812	जेसी819151पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन ठाकुर	01.11.2012
813	जेसी818953एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश लाल जखर	01.01.2013
814	जेसी819181एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश प्रसाद यादव	01.09.2012
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				
815	जेसी826093वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.09.2012
<u>पायोनियर कोर</u>				
816	जेसी829331एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बी प्रसाद पाण्डे	01.01.2013
817	जेसी829365वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चन्द	01.11.2012
<u>सेना डाक सेवा</u>				
818	जेसी834254एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरज पाल यादव	01.11.2012
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
819	जेसी841253एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम कानन	01.11.2013
820	जेसी841153ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.11.2012
<u>प्रदेशिक सेना</u>				
821	टीजे4221के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देस राज	01.01.2013
822	टीजे4887एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गजन लाल	01.01.2013
823	टीजे3640एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेन्द्र सिंह	01.09.2012

824	टीजे4308एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फूल सिंह	01.10.2012
825	टीजे4189ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साईदास वानखेडे	01.10.2012
826	टीजे4837एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द	01.12.2012
827	टीजे4355एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय प्रताप	01.09.2012

क्योत्तिर मंजूरी 01 फरवरी 2007 से अवैतनिक कप्तान के रूप में  
(सेवा निवृत्ति पर)

### राजपूत रेजीमेंट

1. जेसी-218259 एच एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट किरन पाल सिंह  
अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के रूप में

### आर्मड कोर

1	जेसी238694वाइ	रिसालदार मेजर	अमीर हासन	01.09.2012
2	जेसी239589पी	रिसालदार मेजर	कुलभू सिंह	01.12.2012
3	जेसी239732डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	महेंद्र सिंह	01.09.2012
4	जेसी239097डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	मुख्त्यार सिंह	01.01.2013
5	जेसी140401एम	रिसालदार मेजर	राजेंद्र सिंह	01.12.2012
6	जेसी239684एफ	रिसालदार मेजर	रमेश कुमार	01.11.2012
7	जेसी152322के	रिसालदार मेजर	शिव सरन शर्मा	01.11.2012
8	जेसी239318एक्स	रिसालदार मेजर	श्याम मुरारी	01.01.2013
9	जेसी240366के	रिसालदार मेजर	सुरेन्द्रा कुमार	01.12.2012
10	जेसी239044एक्स	रिसालदार मेजर	विजय कुमार	01.01.2013

### आर्टिलरी रेजीमेंट

11	जेसी259803एन	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह बिस्ट	01.09.2012
12	जेसी259370एफ	सुबेदार मेजर	भागवत सुदाम विथल	01.09.2012
13	जेसी263130एफ	सुबेदार मेजर	बिशन सिंह	01.12.2012
14	जेसी261327वाइ	सुबेदार मेजर	देव कुमार पाल	01.10.2012
15	जेसी260452डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गौरा चंद्रा प्रधान	01.11.2012
16	जेसी257758एन	सुबेदार मेजर	ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी	01.01.2013
17	जेसी261330वाइ	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह	01.11.2012
18	जेसी259416वाइ	सुबेदार मेजर	जीवन राम मुनडल	01.09.2012
19	जेसी262323पी	सुबेदार मेजर	मधुसुधनन नायर के	01.11.2012
20	जेसी257030ए	सुबेदार मेजर	मुख्तार सिंह	01.11.2012
21	जेसी260813के	सुबेदार मेजर	नानक चन्द	01.09.2012
22	जेसी259983एफ	सुबेदार मेजर	नरिंदर सिंह गिल	01.09.2012
23	जेसी260083के	सुबेदार मेजर	पदम बहादुर बिस्ट	01.09.2012
24	जेसी260228के	सुबेदार मेजर	परलाद	01.12.2012
25	जेसी262482एम	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द	01.10.2012
26	जेसी260583एफ	सुबेदार मेजर	रघुबीर सिंह	01.12.2012



27	जेसी259807के	सुबेदार मेजर	राज कुमार राव	01.09.2012
28	जेसी259523ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा प्रसाद यादव	01.10.2012
29	जेसी259468पी	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	01.09.2012
30	जेसी263354एफ	सुबेदार मेजर	वेल्लाई छामी एस	01.10.2012
<u>सेना वायू सुरक्षा</u>				

31	जेसी297781के	सुबेदार मेजर	रामामूर्ति आर	01.11.2012
32	जेसी297553एफ	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार	01.10.2012

मद्रास इंजीनियर समूह

33	जेसी306588एफ	सुबेदार मेजर	ए राजेन्द्रन	01.01.2013
34	जेसी306824एक्स	सुबेदार मेजर	अजब सिंह यादव	01.09.2012
35	जेसी306841एक्स	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार एआर	01.01.2013
36	जेसी327588पी	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार सिन्हा	01.01.2013
37	जेसी306903एम	सुबेदार मेजर	बी मिश्रा	01.12.2012
38	जेसी306725पी	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह	01.11.2012
39	जेसी306842ए	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र सिंह तोमर	01.11.2012
40	जेसी306948एम	सुबेदार मेजर	जी. एलनो	01.01.2013
41	जेसी306831एन	सुबेदार मेजर	हवा सिंह	01.11.2012
42	जेसी306660एम	सुबेदार मेजर	आइ माथिआस	01.10.2012
43	जेसी306897के	सुबेदार मेजर	जगदेव कुमार	01.11.2012
44	जेसी327431पी	सुबेदार मेजर	ललन कुमार शर्मा	01.01.2013
45	जेसी306972एच	सुबेदार मेजर	एम लिंगेसन	01.01.2013
46	जेसी306427वाइ	सुबेदार मेजर	एमसीपी राजशेखर	01.09.2012
47	जेसी307620एक्स	सुबेदार मेजर	पी कथावरायण	01.09.2012
48	जेसी306870एम	सुबेदार मेजर	राजाराम यादव	01.12.2012
49	जेसी306736एफ	सुबेदार मेजर	रामचंद्र प्रसाद सिंह	01.10.2012
50	जेसी306726एक्स	सुबेदार मेजर	आर कुमार	01.10.2012
51	जेसी306896एफ	सुबेदार मेजर	एस डेविड	01.11.2012
52	जेसी306902के	सुबेदार मेजर	एस गणेशन	01.01.2013
53	जेसी327418एल	सुबेदार मेजर	शिव चरण	01.01.2013
54	जेसी306904पी	सुबेदार मेजर	सूरज भान	01.11.2012
55	जेसी330024एक्स	सुबेदार मेजर	सूरम चन्द	01.12.2012
56	जेसी326347एच	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार	01.01.2013
57	जेसी306669एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार अवस्थी	01.01.2013
58	जेसी306662एक्स	सुबेदार मेजर	उन्नीर्कशन्न उन्निथन	01.10.2012

बंगाल इंजीनियर समूह

59	जेसी165099के	सुबेदार मेजर	अभिमान्यु राय	01.09.2012
60	जेसी325844ए	सुबेदार मेजर	अजमेर सिंह	01.09.2012
61	जेसी199859एन	सुबेदार मेजर	अलताफ हुसैन	01.10.2012
62	जेसी325988एच	सुबेदार मेजर	ए तुलसी दास रेडी	01.11.2012
63	जेसी327809डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार	01.10.2012
64	जेसी327806एच	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01.09.2012
65	जेसी330173एल	सुबेदार मेजर	भाग सिंह	01.01.2013

66	जेसी326132के	सुबेदार मेजर	भागवत सिंह भाकुनी	01.10.2012
67	जेसी126271के	सुबेदार मेजर	भावेश कुमार चौधरी	01.09.2012
68	जेसी328316एफ	सुबेदार मेजर	भवन सिंह पंडा	01.12.2012
69	जेसी330107एच	सुबेदार मेजर	बिजेन्द्र सिंह	01.11.2012
70	जेसी165106पी	सुबेदार मेजर	बी कुमार	01.11.2012
71	जेसी327883एक्स	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा सिंह अस्वाल	01.09.2012
72	जेसी327443के	सुबेदार मेजर	चंद्रा शेखर नायर पी एन	01.11.2012
73	जेसी325851डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चौधरी विनायक माधव	01.01.2013
74	जेसी330053एम	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह	01.09.2012
75	जेसी330068पी	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह राठी	01.12.2012
76	जेसी326087एच	सुबेदार मेजर	धर्मवीर	01.09.2012
77	जेसी327370एच	सुबेदार मेजर	दिनेश पाल सिंह	01.09.2012
78	जेसी327789एन	सुबेदार मेजर	डी. आर संजी	01.10.2012
79	जेसी199977एफ	सुबेदार मेजर	गायकवाड समभाजी बालासाहेब	01.12.2012
80	जेसी327875वाइ	सुबेदार मेजर	गंगाधरन ए	01.09.2012
81	जेसी330089एल	सुबेदार मेजर	गंगुरदे किसान सामाराओ	01.12.2012
82	जेसी327872एल	सुबेदार मेजर	जोर्ज मेथ्यू	01.09.2012
83	जेसी327862एफ	सुबेदार मेजर	जी. राम राव जान राव	01.11.2012
84	जेसी330061एल	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह	01.11.2012
85	जेसी330077डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरचरण सिंह	01.12.2012
86	जेसी330051एफ	सुबेदार मेजर	हरदयाल सिंह	01.01.2013
87	जेसी325895एन	सुबेदार मेजर	हरेंद्र सिंह	01.09.2012
88	जेसी305533एल	सुबेदार मेजर	हरिदास ई वी	01.10.2012
89	जेसी326368वाइ	सुबेदार मेजर	हेमन्त कुमार पानी	01.10.2012
90	जेसी325957एच	सुबेदार मेजर	हिमा हज़ारिका	01.09.2012
91	जेसी326659वाइ	सुबेदार मेजर	इन्द्रा भानु सिंह	01.12.2012
92	जेसी326554पी	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह	01.10.2012
93	जेसी327197के	सुबेदार मेजर	जुबेर अहमद	01.09.2012
94	जेसी327798पी	सुबेदार मेजर	के मधुसूदन राव	01.11.2012
95	जेसी326673एल	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्रा पांडे	01.10.2012
96	जेसी327793डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कमलजीत सिंह	01.11.2012
97	जेसी326034के	सुबेदार मेजर	कान्हु चरण प्रधान	01.09.2012
98	जेसी326033एफ	सुबेदार मेजर	करुणाकर प्रधान	01.11.2012
99	जेसी327808एन	सुबेदार मेजर	के सिंह	01.10.2012
100	जेसी330071पी	सुबेदार मेजर	केशर सिंह	01.10.2012
101	जेसी327811एन	सुबेदार मेजर	केवल सिंह	01.09.2012
102	जेसी325924एक्स	सुबेदार मेजर	खरत शाहू भाउ	01.01.2013
103	जेसी327584वाइ	सुबेदार मेजर	किरन पाल शर्मा	01.01.2013
104	जेसी325997के	सुबेदार मेजर	कष्णन बहादुर गुरंग	01.09.2012
105	जेसी327125ए	सुबेदार मेजर	लखपत सिंह	01.10.2012
106	जेसी328301वाइ	सुबेदार मेजर	लाल सिंह	01.12.2012
107	जेसी325998एम	सुबेदार मेजर	लंकुश पाल	01.09.2012
108	जेसी330095वाइ	सुबेदार मेजर	एम ए अशोक कुमार	01.12.2012
109	जेसी327743एल	सुबेदार मेजर	माधवा नन्द पांडे	01.09.2012

110	जेसी327357वाइ	सुबेदार मेजर	मलकियत सिंह	01.09.2012
111	जेसी330083के	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	01.11.2012
112	जेसी330091एच	सुबेदार मेजर	मुना जी. सुधाकर राव	01.12.2012
113	जेसी330060एच	सुबेदार मेजर	नारायण पवार	01.12.2012
114	जेसी327339डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नारायणन के जी.	01.09.2012
115	जेसी325798डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा कुमार सत्यथी	01.12.2012
116	जेसी327864एम	सुबेदार मेजर	नित्या नन्द मंडल	01.10.2012
117	जेसी326035एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश सिंह	01.11.2012
118	जेसी327464ए	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01.12.2012
119	जेसी330064वाइ	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश माहाला	01.01.2013
120	जेसी325839पी	सुबेदार मेजर	पलविंदर सिंह	01.11.2012
121	जेसी326735ए	सुबेदार मेजर	पर्शोत्तम दास	01.01.2013
122	जेसी330122एक्स	सुबेदार मेजर	प्रसन्ना कुमारा एन आर	01.10.2012
123	जेसी325617ए	सुबेदार मेजर	पुष्कर सिंह	01.09.2012
124	जेसी325896डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह	01.09.2012
125	जेसी330117एम	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन के	01.11.2012
126	जेसी326030एन	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार अक्स्थी	01.12.2012
127	जेसी330056ए	सुबेदार मेजर	रमेश दत्त बी	01.10.2012
128	जेसी330092एल	सुबेदार मेजर	रमेश नदा पुरोहित	01.01.2013
129	जेसी191522डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रनबीर सिंह सैनी	01.01.2013
130	जेसी327885एच	सुबेदार मेजर	रशीद हासन	01.10.2012
131	जेसी325977डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आर सेकिआ	01.09.2012
132	जेसी327738ए	सुबेदार मेजर	एस कथिर्सेन	01.11.2012
133	जेसी327140पी	सुबेदार मेजर	सरदुल सिंह	01.09.2012
134	जेसी330066के	सुबेदार मेजर	शशि कुमार केपी	01.12.2012
135	जेसी327307एन	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार	01.09.2012
136	जेसी327414पी	सुबेदार मेजर	सत्यपाल सिंह	01.01.2013
137	जेसी327347पी	सुबेदार मेजर	सत्यवीर सिंह	01.01.2013
138	जेसी327788एल	सुबेदार मेजर	सावंत मोहन काशिनाथ	01.11.2012
139	जेसी327461एम	सुबेदार मेजर	सेवा सिंह	01.09.2012
140	जेसी327485डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	शिव राज	01.10.2012
141	जेसी327426के	सुबेदार मेजर	श्री भगवान	01.01.2013
142	जेसी327737एक्स	सुबेदार मेजर	सिद्धीकी पीए	01.09.2012
143	जेसी327352ए	सुबेदार मेजर	शिवदासन एम	01.09.2012
144	जेसी327158एल	सुबेदार मेजर	सुब्रमनिअन के वी	01.09.2012
145	जेसी327629एन	सुबेदार मेजर	टी शिवागुरुनाथन	01.10.2012
146	जेसी330050वाइ	सुबेदार मेजर	टी पांडुरंग सीता राम	01.09.2012
147	जेसी326511ए	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश शर्मा	01.12.2012
148	जेसी326024ए	सुबेदार मेजर	वीर सैन तोमर	01.09.2012
149	जेसी330096एफ	सुबेदार मेजर	यादव लक्ष्मन ध्यानु	01.12.2012
150	जेसी327805ए	सुबेदार मेजर	वाइ चान्द्राकान्त धोडिबा	01.09.2012

**बोम्बे इंजीनियर समूह**

151	जेसी348197एक्स	सुबेदार मेजर	अरविन्दाक्षन पिल्लई एन	01.01.2013
152	जेसी330238एन	सुबेदार मेजर	आजाद सिंह	01.01.2013

153	जेसी348118एक्स	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह गुलेरिया	01.12.2012
154	जेसी347981वाइ	सुबेदार मेजर	भूमि सिंह	01.09.2012
155	जेसी348099एक्स	सुबेदार मेजर	चंदगी राम यादव	01.11.2012
156	जेसी348179पी	सुबेदार मेजर	डी. हरी भाउ मारुति	01.11.2012
157	जेसी347973ए	सुबेदार मेजर	केवल कुमार	01.10.2012
158	जेसी348060एल	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा कुमार	01.10.2012
159	जेसी348077वाइ	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द योगी	01.09.2012
160	जेसी348144वाइ	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन पिल्लई एस	01.12.2012
161	जेसी348000डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रमेशन नायर पीएस	01.11.2012
162	जेसी348109डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र	01.09.2012
163	जेसी327437डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार	01.01.2013
164	जेसी348145एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा	01.01.2013
165	जेसी140506डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	डब्ल्यू	01.01.2013

### सिग्नल्स कोर

166	जेसी368978एम	सुबेदार मेजर	बालाप्पा पाटिल	01.01.2013
167	जेसी371005एफ	सुबेदार मेजर	दिगम्बर सूर्यभान एस	01.01.2013
168	जेसी371298एक्स	सुबेदार मेजर	हरजिन्द्र सिंह	01.10.2012
169	जेसी369327एच	सुबेदार मेजर	हवा सिंह	01.01.2013
170	जेसी367943के	सुबेदार मेजर	हिकम टी	01.10.2012
171	जेसी369246एच	सुबेदार मेजर	जे हरेन्द्र सिंह रावत	01.10.2012
172	जेसी369245ए	सुबेदार मेजर	जयवीर सिंह	01.09.2012
173	जेसी367934एच	सुबेदार मेजर	जनार्दनन एम के	01.10.2012
174	जेसी368523डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जोगिंदर पाल	01.09.2012
175	जेसी370078एफ	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह नेगी	01.09.2012
176	जेसी367938वाइ	सुबेदार मेजर	एन कुमार मिशार	01.09.2012
177	जेसी369247एल	सुबेदार मेजर	पद्मनाभन पी	01.10.2012
178	जेसी368885एक्स	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह	01.10.2012
179	जेसी368106के	सुबेदार मेजर	राम कुमार	01.09.2012
180	जेसी371312वाइ	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र सिंह	01.11.2012
181	जेसी367949एल	सुबेदार मेजर	सधन भौमिक	01.09.2012
182	जेसी371322एच	सुबेदार मेजर	सामी मोहम्मद	01.01.2013
183	जेसी371302पी	सुबेदार मेजर	सरदारी लाल	01.10.2012
184	जेसी369244एक्स	सुबेदार मेजर	सत्य पाल	01.09.2012
185	जेसी367941वाइ	सुबेदार मेजर	सत्यपाल सिंह नेगी	01.09.2012
186	जेसी367946एक्स	सुबेदार मेजर	सत्यावीर सिंह	01.10.2012
187	जेसी372127एक्स	सुबेदार मेजर	श्री राम	01.09.2012
188	जेसी367954डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सीताराम शर्मा	01.12.2012
189	जेसी372449एक्स	सुबेदार मेजर	सुब्रह्मण्यम पी	01.10.2012
190	जेसी371304ए	सुबेदार मेजर	विजयन पिल्लई के सी	01.10.2012
191	जेसी371316पी	सुबेदार मेजर	वाखरे रामदास गेनू	01.11.2012

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

192	जेसी402515एम	सुबेदार मेजर	भोला प्रसाद सिन्हा	01.09.2012
193	जेसी402524एन	सुबेदार मेजर	के राम	01.09.2012

पैराशूट रेजीमेंट

194	जेसी412739ए	सुबेदार मेजर	राम सिंह के	01.01.2013
-----	-------------	--------------	-------------	------------

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

195	जेसी418851एच	सुबेदार मेजर	ध्यान सिंह	01.11.2012
196	जेसी418392पी	सुबेदार मेजर	दिये परमेश्वर बजरंग	01.09.2012
197	जेसी418589एल	सुबेदार मेजर	गणपति पिल्लई	01.12.2012
198	जेसी419331के	सुबेदार मेजर	गुमान सिंह थापा	01.10.2012
199	जेसी419028एच	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह पारासर	01.12.2012
200	जेसी418169एल	सुबेदार मेजर	पीवी संबात कुमार	01.09.2012
201	जेसी418629एफ	सुबेदार मेजर	रामजी राम	01.11.2012

पंजाब रेजीमेंट

202	जेसी428930एल	सुबेदार मेजर	बीरबल सिंह	01.10.2012
203	जेसी429117पी	सुबेदार मेजर	देविन्द्र कुमार परीद	01.11.2012
204	जेसी429112डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल	01.12.2012
205	जेसी428902वाइ	सुबेदार मेजर	रोमेश सिंह	01.11.2012
206	जेसी428977डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार	01.12.2012

ग्रेनेडियर्स

207	जेसी448561ए	सुबेदार मेजर	हरदयाल सिंह	01.11.2012
208	जेसी448941वाइ	सुबेदार मेजर	श्री राम सिंह	01.12.2012

मराठा लघु सेना

209	जेसी458408एक्स	सुबेदार मेजर	मोईदीन कुट्टी एस	01.12.2012
-----	----------------	--------------	------------------	------------

राजपूत रेजीमेंट

210	जेसी478621वाइ	सुबेदार मेजर	जय वीर सिंह	01.12.2012
211	जेसी478836एक्स	सुबेदार मेजर	कप्तान सिंह	01.10.2012
212	जेसी478408वाइ	सुबेदार मेजर	मोती लाल जी.	01.01.2013

जाट रेजीमेंट

213	जेसी489059ए	सुबेदार मेजर	धर्म पाल	01.01.2013
214	जेसी488937वाइ	सुबेदार मेजर	राम देवा राम	01.11.2012
215	जेसी488731एफ	सुबेदार मेजर	रामवीर सिंह	01.11.2012

सिख लघु पैदल सेना

216	जेसी508700एल	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01.11.2012
217	जेसी508545पी	सुबेदार मेजर	भोला सिंह	01.11.2012
218	जेसी508670वाइ	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	01.01.2013

डोगरा रेजीमेंट

219	जेसी519255एक्स	सुबेदार मेजर	बख्शी राम	01.09.2012
-----	----------------	--------------	-----------	------------

गढ़वाल राईफल्स

220	जेसी529076एल	सुबेदार मेजर	रामेंदर सिंह बिष्ट	01.09.2012
-----	--------------	--------------	--------------------	------------

महार रेजीमेंट

221	जेसी568416वाइ	सुबेदार मेजर	बाजीराव शामराव सौनुने	01.10.2012
222	जेसी568607एन	सुबेदार मेजर	हवल तानाजी शिवाजी	01.11.2012
223	जेसी568681पी	सुबेदार मेजर	काम्बले चंद्र कृष्णा	01.11.2012
224	जेसी568571ए	सुबेदार मेजर	तेजरो महादेव आर	01.01.2013

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

225	जेसी579404के	सुबेदार मेजर	जगदीश चन्द	01.12.2012
226	जेसी579439ए	सुबेदार मेजर	विपिन कुमार कोशल	01.01.2013

लद्दाख स्काउट

227	जेसी588132डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लोबजंग छेरिंग	01.12.2012
228	जेसी588104के	सुबेदार मेजर	फुनचोक नमगैल	01.11.2012
229	जेसी588176एन	सुबेदार मेजर	ताशी दोर्जे	01.11.2012

1 गोरखा राईफल्स

230	जेसी602155एल	सुबेदार मेजर	जनक चन्द राजन	01.11.2012
-----	--------------	--------------	---------------	------------

4 गोरखा राईफल्स

231	जेसी612455ए	सुबेदार मेजर	चंद्रा बहादुर गुरंग	01.01.2013
-----	-------------	--------------	---------------------	------------

9 गोरखा राईफल्स

232	जेसी629593एक्स	सुबेदार मेजर	बिसनु बहादुर छत्री	01.12.2012
233	जेसी629567डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लील बहादुर थापा	01.12.2012
234	जेसी629485एन	सुबेदार मेजर	संजय पुन	01.10.2012

सेना सेवा कोर दक्षिण

235	जेसी641347वाइ	सुबेदार मेजर	अर्विन्द कुमार	01.01.2013
236	जेसी641224एम	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह	01.12.2012
237	जेसी640756ए	सुबेदार मेजर	बोस एनवी	01.12.2012

238	जेसी641229एल	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह राना	01.12.2012
239	जेसी640787ए	सुबेदार मेजर	गंगा सिंह	01.09.2012
240	जेसी640857एन	सुबेदार मेजर	के राम	01.10.2012
241	जेसी640736एम	सुबेदार मेजर	लक्ष्मी शंकर यादव	01.09.2012
242	जेसी662316एम	सुबेदार मेजर	लल्लन तिवारी	01.12.2012
243	जेसी641067एल	सुबेदार मेजर	मधुकर पाटिल	01.12.2012
244	जेसी640848एम	सुबेदार मेजर	महीपाल सिंह	01.12.2012
245	जेसी640868ए	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01.01.2013
246	जेसी662318एक्स	सुबेदार मेजर	परशु राम	01.01.2013
247	जेसी640746डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राघवन नायर आर के	01.10.2012
248	जेसी642216ए	सुबेदार मेजर	राम निवास रहार	01.09.2012
249	जेसी680029एल	सुबेदार मेजर	राम सिंह	01.12.2012
250	जेसी640489के	सुबेदार मेजर	एस यादव	01.09.2012
251	जेसी640741एक्स	सुबेदार मेजर	शेष धर मिश्रा	01.09.2012
252	जेसी640789एल	सुबेदार मेजर	श्री भगवान सिंह	01.01.2013
253	जेसी640897पी	सुबेदार मेजर	एस कुमार	01.11.2012
254	जेसी662326डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सूर्या भाग्य	01.12.2012
<u>सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन</u>				
255	जेसी680629एन	रिसालदार मेजर	मुख्त्यार सिंह	01.01.2013
256	जेसी680524के	रिसालदार मेजर	पी कुरा डे	01.12.2012
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>				
257	जेसी693571ए	सुबेदार मेजर	अभे मन्त कुमार	01.01.2013
258	जेसी693423पी	सुबेदार मेजर	बिजेश्वर मिश्रा	01.10.2012
259	जेसी693860पी	सुबेदार मेजर	जया मल्ली सी	01.01.2013
260	जेसी692562एम	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	01.01.2013
<u>सेना आयुध कोर</u>				
261	जेसी723968के	सुबेदार मेजर	भगवत शरण सारस्वत	01.12.2012
262	जेसी723941एम	सुबेदार मेजर	जी. बालाकृष्ण	01.11.2012
263	जेसी723907एम	सुबेदार मेजर	जे सिंह	01.12.2012
264	जेसी726030एफ	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	01.10.2012
<u>कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>				
265	जेसी753037पी	सुबेदार मेजर	ए सिल्वाराज पीटर	01.12.2012
266	जेसी750952एच	सुबेदार मेजर	अमर नाथ मिश्रा	01.12.2012
267	जेसी749160डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ई वेयिरमाणी	01.09.2012
268	जेसी753169एच	सुबेदार मेजर	जी. बराथन	01.09.2012
269	जेसी753696के	सुबेदार मेजर	गंगाधरहिया बी आर	01.12.2012
270	जेसी751328डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जंग सिंह	01.10.2012
271	जेसी753193वाइ	सुबेदार मेजर	लोकपाल सिंह बिष्ट	01.09.2012

272	जेसी752891पी	सुबेदार मेजर	मदन मोहन ओझा	01.09.2012
273	जेसी751355ए	सुबेदार मेजर	मोहानन वी	01.10.2012
274	जेसी750887एन	सुबेदार मेजर	ओमबीर सिंह	01.11.2012
275	जेसी753601वाइ	सुबेदार मेजर	पूरन सिंह रावत	01.11.2012
276	जेसी751366एम	सुबेदार मेजर	प्रेम नाथ सोनी	01.12.2012
277	जेसी753035के	सुबेदार मेजर	रावेश चन्द	01.09.2012
278	जेसी753650एफ	सुबेदार मेजर	राम निवास	01.12.2012
279	जेसी753293के	सुबेदार मेजर	शीश राम गुर्जर	01.10.2012
280	जेसी749178एम	सुबेदार मेजर	सुदेवन एवी	01.09.2012
281	जेसी753803ए	सुबेदार मेजर	सुशील कुमार सिंह	01.01.2013
282	जेसी757473के	सुबेदार मेजर	वन्ना सिंह पनवर	01.10.2012

#### आसुचना कोर

283	जेसी810122वाइ	सुबेदार मेजर	गुरचरण सिंह	01.12.2012
284	जेसी810099डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतवीन्द्र सिंह	01.12.2012

#### सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

285	जेसी826096एम	सुबेदार मेजर	एसआर गुनाजी	01.12.2012
-----	--------------	--------------	-------------	------------

#### पायोनियर कोर

286	जेसी829245ए	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार	01.10.2012
287	जेसी829224के	सुबेदार मेजर	तिलक राज	01.09.2012

#### रक्षा सुरक्षा कोर

288	जेसी841023एक्स	सुबेदार मेजर	सी भुवनेन्द्रन	01.11.2012
289	जेसी840669डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोविंदन कुट्टी के	01.10.2012
290	जेसी840471एक्स	सुबेदार मेजर	मनोहरन पिल्लई पी	01.12.2012
291	जेसी840983के	सुबेदार मेजर	थंकाचन्न डी.	01.12.2012

### अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

#### 72 आर्मड रेजीमेंट

1	जेसी244186वाइ	रिसालदार	धर्मवीर	01.08.2012
---	---------------	----------	---------	------------

#### आर्मड कोर

2	जेसी243080ए	रिसालदार	अभे सिंह	01.11.2012
3	जेसी242689एल	रिसालदार	अजीत सिंह	01.09.2012
4	जेसी242699पी	रिसालदार	अमरजीत सिंह	01.10.2012
5	जेसी242834एक्स	रिसालदार	ए रेडी ब्रमा रेडी	01.01.2013
6	जेसी241150पी	रिसालदार	आसफ अली	01.09.2012



7	जेसी242411के	रिसालदार	आशीश कुमार	01.11.2012
8	जेसी242064डब्ल्यू	रिसालदार	अशोक कुमार	01.12.2012
9	जेसी243055एफ	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.10.2012
10	जेसी242359एम	रिसालदार	बलदेव सिंह	01.11.2012
11	जेसी242281एम	रिसालदार	बलेश्वर यादव	01.11.2012
12	जेसी243085वाइ	रिसालदार	बलकार सिंह	01.01.2013
13	जेसी241718एच	रिसालदार	भोगेस्वर सेकिआ	01.09.2012
14	जेसी242565डब्ल्यू	रिसालदार	भोला यादव	01.12.2012
15	जेसी243440एल	रिसालदार	भूप सिंह	01.01.2013
16	जेसी241714एम	रिसालदार	भुपिन्द्र सिंह	01.10.2012
17	जेसी240780एच	रिसालदार	बिजेन्दर कुमार शर्मा	01.11.2012
18	जेसी240580एम	रिसालदार	बीर सिंह	01.10.2012
19	जेसी243267एम	रिसालदार	बी सिंह	01.11.2012
20	जेसी242942एफ	रिसालदार	बोदू राम	01.09.2012
21	जेसी243262एन	रिसालदार	चंदूलाल शर्मा	01.12.2012
22	जेसी242606पी	रिसालदार	दलीप सिंह यादवा	01.09.2012
23	जेसी243084डब्ल्यू	रिसालदार	डेनिअल एम	01.12.2012
24	जेसी243273ए	रिसालदार	दर्शन कुमार	01.01.2013
25	जेसी242833पी	रिसालदार	डी. सिंह राठोर	01.10.2012
26	जेसी242499वाइ	रिसालदार	देश राज	01.11.2012
27	जेसी242504वाइ	रिसालदार	देवेंद्र कुमार सिंह	01.11.2012
28	जेसी243195एन	रिसालदार	धर्मवीर	01.12.2012
29	जेसी242873डब्ल्यू	रिसालदार	धरमाना सूर्यनारायण	01.01.2013
30	जेसी242778के	रिसालदार	दिलबाग सिंह	01.01.2013
31	जेसी240789एक्स	रिसालदार	जी. जी. कृष्णा मूर्ती	01.01.2013
32	जेसी242959पी	रिसालदार	गजेन्दर सिंह	01.12.2012
33	जेसी242878पी	रिसालदार	गजराज सिंह	01.09.2012
34	जेसी242520डब्ल्यू	रिसालदार	गनेश चंद्रा पंडा	01.10.2012
35	जेसी241957एक्स	रिसालदार	गौतम प्रसाद	01.11.2012
36	जेसी242808डब्ल्यू	रिसालदार	गोपा कुमार के	01.12.2012
37	जेसी242142एच	रिसालदार	गोपेन्द्रा सिन्हा	01.12.2012
38	जेसी242609एच	रिसालदार	गुगन राम	01.01.2013
39	जेसी240539डब्ल्यू	रिसालदार	गुलाब सिंह	01.01.2013
40	जेसी239866पी	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.11.2012
41	जेसी242448एल	रिसालदार	गुरनाम सिंह	01.11.2012
42	जेसी242345एम	रिसालदार	गुरतेज सिंह	01.11.2012
43	जेसी241879एल	रिसालदार	ज्ञान भास्कर शर्मा	01.11.2012
44	जेसी243109एक्स	रिसालदार	हंस राज	01.12.2012
45	जेसी243271पी	रिसालदार	हरक सिंह बिष्ट	01.01.2013
46	जेसी242984एन	रिसालदार	हरभजन सिंह	01.01.2013

47	जेसी243218के	रिसालदार	हरदयाल सिंह	01.01.2013
48	जेसी241065एम	रिसालदार	हरीबन्स सिंह	01.12.2012
49	जेसी243217एफ	रिसालदार	हरीपाल सिंह	01.01.2013
50	जेसी241759एम	रिसालदार	जे टी नामदेव	01.10.2012
51	जेसी241837वाइ	रिसालदार	जगत सिंह	01.10.2012
52	जेसी242671पी	रिसालदार	जगबीर सिंह	01.01.2013
53	जेसी240639एफ	रिसालदार	जगदीश	01.01.2013
54	जेसी243039के	रिसालदार	जगरूप सिंह	01.11.2012
55	जेसी243732एन	रिसालदार	जय भगवान	01.11.2012
56	जेसी243159एच	रिसालदार	जय करन	01.10.2012
57	जेसी243907एल	रिसालदार	जय प्रकाश सिंह	01.10.2012
58	जेसी243325एल	रिसालदार	जयबीर	01.01.2013
59	जेसी242255एल	रिसालदार	जनार्दनन टी	01.01.2013
60	जेसी242358के	रिसालदार	जरनैल सिंह	01.11.2012
61	जेसी242506के	रिसालदार	जरनैल सिंह	01.12.2012
62	जेसी243113ए	रिसालदार	जसदेव सिंह	01.12.2012
63	जेसी243749एफ	रिसालदार	जसवीर सिंह	01.10.2012
64	जेसी240540एल	रिसालदार	जितेन्दर सिंह	01.01.2013
65	जेसी242734एम	रिसालदार	के लक्ष्मणन	01.12.2012
66	जेसी242246के	रिसालदार	के डब्ल्यू एसएस शेशागरि राव	01.12.2012
67	जेसी243006वाइ	रिसालदार	कर्मवीर	01.09.2012
68	जेसी242801एम	रिसालदार	कर्मवीर सिंह	01.09.2012
69	जेसी241871वाइ	रिसालदार	करन सिंह कुशवाह	01.11.2012
70	जेसी241544एन	रिसालदार	खोट विथल सदासिव	01.10.2012
71	जेसी243237पी	रिसालदार	कृष्णापाल सिंह	01.12.2012
72	जेसी242430पी	रिसालदार	कण्णन लाल	01.10.2012
73	जेसी241698ए	रिसालदार	कुर्णा चंद्रा जैना	01.09.2012
74	जेसी242662एन	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.10.2012
75	जेसी242508पी	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.12.2012
76	जेसी242687ए	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.09.2012
77	जेसी241278ए	रिसालदार	कुलवंत	01.10.2012
78	जेसी243373एल	रिसालदार	लखविंदर सिंह	01.01.2013
79	जेसी242395एक्स	रिसालदार	एल पी ए	01.12.2012
80	जेसी241874एम	रिसालदार	लेखा राम	01.12.2012
81	जेसी242394पी	रिसालदार	एम के बालाकृष्णन	01.01.2013
82	जेसी242588एक्स	रिसालदार	एम मुनियां	01.01.2013
83	जेसी241964एन	रिसालदार	महेश सिंह	01.12.2012
84	जेसी242507एम	रिसालदार	मल्खान सिंह	01.12.2012
85	जेसी243784के	रिसालदार	मल्कीत सिंह	01.09.2012
86	जेसी241838एफ	रिसालदार	मानन रौय	01.09.2012

87	जेसी242845के	रिसालदार	मंगत राम	01.10.2012
88	जेसी243093एक्स	रिसालदार	मनजीत सिंह	01.01.2013
89	जेसी243100एच	रिसालदार	मिथलेश कुमार झा	01.10.2012
90	जेसी243733डब्ल्यू	रिसालदार	मुन्ना सिंह	01.12.2012
91	जेसी242174एल	रिसालदार	नन्द कुमार	01.01.2013
92	जेसी242591एक्स	रिसालदार	नारंग सिंह	01.12.2012
93	जेसी243030पी	रिसालदार	एन सिंह	01.10.2012
94	जेसी243345वाइ	रिसालदार	निर्मल सिंह	01.01.2013
95	जेसी242503डब्ल्यू	रिसालदार	निशान सिंह	01.11.2012
96	जेसी242028एल	रिसालदार	ओ पी डी. सिंघा	01.12.2012
97	जेसी243114एच	रिसालदार	ओम प्रकाश	01.12.2012
98	जेसी240576के	रिसालदार	ओम प्रकाश पांडे	01.09.2012
99	जेसी241755डब्ल्यू	रिसालदार	पी अशोकन	01.01.2013
100	जेसी241524ए	रिसालदार	पी डेनीसेन	01.10.2012
101	जेसी241976एच	रिसालदार	पी राय	01.11.2012
102	जेसी243244एल	रिसालदार	प्रकाश चन्द	01.01.2013
103	जेसी243077ए	रिसालदार	पाटिल राजाराम बंदू	01.11.2012
104	जेसी242590पी	रिसालदार	पवित्र के	01.01.2013
105	जेसी242643एच	रिसालदार	पीसी रेजी	01.01.2013
106	जेसी241681एम	रिसालदार	फूल सिंह	01.09.2012
107	जेसी243341एच	रिसालदार	पृथ्वी सिंह	01.12.2012
108	जेसी242817एक्स	रिसालदार	पुशपिंदर सिंह	01.10.2012
109	जेसी242517डब्ल्यू	रिसालदार	आर नाथ मंडल	01.09.2012
110	जेसी243243एच	रिसालदार	राज कुमार सिंह	01.12.2012
111	जेसी242783पी	रिसालदार	राज सिंह छिल्लर	01.10.2012
112	जेसी242031एल	रिसालदार	राजेंद्रा सिंह गूजर	01.01.2013
113	जेसी243718एफ	रिसालदार	रज्जन सिंह	01.10.2012
114	जेसी243203एफ	रिसालदार	राकेश कुमार यादव	01.10.2012
115	जेसी241845एक्स	रिसालदार	राम बचन राम	01.09.2012
116	जेसी242141ए	रिसालदार	राम बिनोद प्रसाद	01.11.2012
117	जेसी241711वाइ	रिसालदार	राम दास सिंह	01.10.2012
118	जेसी241883एन	रिसालदार	राम निवास	01.11.2012
119	जेसी242611ए	रिसालदार	राम निवास	01.01.2013
120	जेसी243503एच	रिसालदार	राम स्वरूप	01.11.2012

121	जेसी242811डब्ल्यू	रिसालदार	रामचन्द्रन नायर पीएन	01.01.2013
122	जेसी241894ए	रिसालदार	रमेश चन्द सैनी	01.10.2012
123	जेसी242607एक्स	रिसालदार	रमेश कुमार	01.12.2012
124	जेसी242623पी	रिसालदार	रमेश कुमार	01.09.2012
125	जेसी241866एन	रिसालदार	रामराज वर्मा	01.10.2012
126	जेसी243076एक्स	रिसालदार	रामवीर सिंह	01.10.2012
127	जेसी243044पी	रिसालदार	रनबीर सिंह	01.01.2013
128	जेसी242914पी	रिसालदार	रणधीर सिंह	01.11.2012
129	जेसी243516ए	रिसालदार	रणधीर सिंह	01.11.2012
130	जेसी242505एफ	रिसालदार	रंजीत सिंह	01.11.2012
131	जेसी243272एक्स	रिसालदार	रंजीत सिंह	01.01.2013
132	जेसी242412एम	रिसालदार	रंतेज बहादुर सिंह	01.11.2012
133	जेसी241791एफ	रिसालदार	रति राम	01.01.2013
134	जेसी243101एल	रिसालदार	रवीन्द्र सिंह	01.10.2012
135	जेसी243216वाइ	रिसालदार	रवीन्द्र सिंह	01.01.2013
136	जेसी243118वाइ	रिसालदार	रिछपाल राय	01.09.2012
137	जेसी242608ए	रिसालदार	रोहित ए यादव	01.12.2012
138	जेसी240425एल	रिसालदार	एस बालास्वामी	01.01.2013
139	जेसी243047एच	रिसालदार	एस महालिंगम	01.01.2013
140	जेसी242795के	रिसालदार	एस रमा स्वामी	01.01.2013
141	जेसी243082एल	रिसालदार	साजन सिंह	01.01.2013
142	जेसी242679एफ	रिसालदार	सरवर नबी	01.12.2012
143	जेसी242675एल	रिसालदार	सतनाम सिंह	01.09.2012
144	जेसी240083एच	रिसालदार	सतपाल सिंह	01.12.2012
145	जेसी240395वाइ	रिसालदार	सतपाल सिंह	01.09.2012
146	जेसी242726एन	रिसालदार	शमशेर सिंह	01.12.2012
147	जेसी243245एन	रिसालदार	एस सिंह	01.01.2013
148	जेसी241388पी	रिसालदार	शेन्डाजे तानाजी अनंता	01.09.2012
149	जेसी241840वाइ	रिसालदार	शिव कुमार पांडे	01.09.2012
150	जेसी242036के	रिसालदार	शेर सिंह	01.11.2012
151	जेसी243081एच	रिसालदार	शेर सिंह	01.01.2013
152	जेसी243522एन	रिसालदार	शिव दत्ता	01.01.2013
153	जेसी241620पी	रिसालदार	शिव कुमार सिंह राठौर	01.12.2012
154	जेसी243029ए	रिसालदार	शिवदान सिंह हाडा	01.10.2012
155	जेसी243194एल	रिसालदार	श्री राम यादव	01.12.2012
156	जेसी240860ए	रिसालदार	श्री भगवान	01.09.2012
157	जेसी241825के	रिसालदार	श्री राम	01.09.2012
158	जेसी242410एफ	रिसालदार	सोहन सिंह	01.11.2012
159	जेसी243079एल	रिसालदार	सुभाष चन्द	01.11.2012
160	जेसी243160एक्स	रिसालदार	सुभाष चन्द	01.01.2013
161	जेसी243375डब्ल्यू	रिसालदार	सुभाष के वी	01.01.2013
162	जेसी243102एन	रिसालदार	सुख पाल	01.10.2012

163	जेसी242792डब्ल्यू	रिसालदार	सूरत सिंह जाट	01.01.2013
164	जेसी240703एन	रिसालदार	सुरेंद्र सिंह	01.09.2012
165	जेसी243228एन	रिसालदार	सुरेंद्र सिंह	01.11.2012
166	जेसी241804एन	रिसालदार	सुरेश चन्द शर्मा	01.09.2012
167	जेसी243150एन	रिसालदार	सुरेश कुमार	01.09.2012
168	जेसी243374एन	रिसालदार	सुरेश कुमार वी	01.01.2013
169	जेसी243360एन	रिसालदार	सुरेश सिंह	01.11.2012
170	जेसी242951एच	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2012
171	जेसी243519एन	रिसालदार	सुरजीत सिंह	01.10.2012
172	जेसी241415एन	रिसालदार	स्वामी नाथ राम	01.11.2012
173	जेसी242610एक्स	रिसालदार	थावर सिंह यादव	01.01.2013
174	जेसी242062एल	रिसालदार	तुकाराम कुम्हार	01.11.2012
175	जेसी242017वाइ	रिसालदार	टीयूएन टीयूएन सिंह	01.10.2012
176	जेसी240971एक्स	रिसालदार	उदयवीर सिंह	01.01.2013
177	जेसी240638वाइ	रिसालदार	उज्ज्वल कुमार पोद्दार	01.01.2013
178	जेसी242093एल	रिसालदार	उत्तातम कुमार नाथ	01.11.2012
179	जेसी240490एल	रिसालदार	वेद प्रकाश यादव	01.12.2012
180	जेसी242945पी	रिसालदार	वीर सिंह	01.12.2012
181	जेसी238422वाइ	रिसालदार	वीर सिंह यादव	01.10.2012
182	जेसी243295वाइ	रिसालदार	वी एस	01.12.2012
183	जेसी242973एफ	रिसालदार	विजय पाल सिंह	01.12.2012
184	जेसी243731एल	रिसालदार	योगेंद्र सिंह	01.10.2012
185	जेसी243035एन	रिसालदार	वाइ सिंह	01.11.2012

आर्टिलरी रेजीमेंट

186	जेसी272261एन	सुबेदार	भरत सिंह	01.10.2012
187	जेसी269505एल	सुबेदार	अब्बास मिया	01.09.2012
188	जेसी269291ए	सुबेदार	आभी राम यादव	01.10.2012
189	जेसी269723के	सुबेदार	अभेय सिंह यादव	01.01.2013
190	जेसी272331एफ	सुबेदार	अभिमनु कुमार सिंह	01.11.2012
191	जेसी263148एक्स	सुबेदार	अहिबरन सिंह	01.11.2012
192	जेसी265436एच	सुबेदार	अजया कुमार प्रधान	01.10.2012
193	जेसी268822ए	सुबेदार	अजीत राम	01.12.2012
194	जेसी264598एफ	सुबेदार	अकबर अली मंडल	01.09.2012
195	जेसी268411एफ	सुबेदार	अखिलेश बाबू	01.12.2012
196	जेसी270355एम	सुबेदार	अमर नाथ सिंह यादव	01.12.2012
197	जेसी268697एफ	सुबेदार	अमर सिंह	01.09.2012
198	जेसी267716पी	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.01.2013
199	जेसी270739एफ	सुबेदार	आनन्दन एम	01.09.2012
200	जेसी271950एच	सुबेदार	अंग्रेज सिंह	01.12.2012
201	जेसी270443एच	सुबेदार	अनिल कुमार	01.12.2012
202	जेसी271884एल	सुबेदार	अनिल मंडल	01.09.2012

203	जेसी272580ए	सुबेदार	अरसु ई	01.01.2013
204	जेसी267913एक्स	सुबेदार	अर्जुन मुरलीधर पवार	01.09.2012
205	जेसी263553पी	सुबेदार	अशोक कुमार	01.11.2012
206	जेसी269969एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.12.2012
207	जेसी272377के	सुबेदार	अशोक कुमार पूर्ति	01.09.2012
208	जेसी270855के	सुबेदार	अतुल आईपी	01.11.2012
209	जेसी269529पी	सुबेदार	बचन सिंह	01.09.2012
210	जेसी269684डब्ल्यू	सुबेदार	बच्छा राम यादव	01.10.2012
211	जेसी270530डब्ल्यू	सुबेदार	बादशाह सिंह सैंगर	01.10.2012
212	जेसी269576एम	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.12.2012
213	जेसी272221एम	सुबेदार	बाज सिंह	01.10.2012
214	जेसी271321एल	सुबेदार	बक्शीश सिंह	01.12.2012
215	जेसी270124डब्ल्यू	सुबेदार	बाल राज	01.11.2012
216	जेसी269758ए	सुबेदार	बाला मुरुगन टी	01.01.2013
217	जेसी270995डब्ल्यू	सुबेदार	बाला राम	01.10.2012
218	जेसी267881ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.10.2012
219	जेसी269689पी	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2013
220	जेसी271546एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.12.2012
221	जेसी272828वाइ	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.12.2012
222	जेसी258192एक्स	सुबेदार	बी सिंह	01.10.2012
223	जेसी275127एन	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2012
224	जेसी270242के	सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2013
225	जेसी269080एक्स	सुबेदार	बलराम सिंह	01.09.2012
226	जेसी268844वाइ	सुबेदार	बलवान सिंह	01.09.2012
227	जेसी269926एन	सुबेदार	बलवान सिंह	01.09.2012
228	जेसी269408एन	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.12.2012
229	जेसी271901ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2013
230	जेसी269308एच	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2012
231	जेसी270596एम	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.09.2012
232	जेसी270245एक्स	सुबेदार	बी राम	01.09.2012
233	जेसी270482एफ	सुबेदार	बनवारी लाल	01.09.2012
234	जेसी270830एक्स	सुबेदार	बासप्पा के	01.01.2013
235	जेसी260152पी	सुबेदार	भाग सिंह	01.11.2012
236	जेसी271073ए	सुबेदार	भगा राम बिश्नोई	01.09.2012
237	जेसी262071एन	सुबेदार	भरत यादव	01.09.2012
238	जेसी269678एच	सुबेदार	भूवनेश्वर यादव	01.01.2013
239	जेसी271092एल	सुबेदार	विभूति ओझा	01.09.2012
240	जेसी271065एफ	सुबेदार	बिहारी सिंह	01.01.2013
241	जेसी270047एम	सुबेदार	बिजय पाल सिंह नेगी	01.12.2012
242	जेसी272173एक्स	सुबेदार	बिजय प्रकाश पांडे	01.01.2013
243	जेसी266128पी	सुबेदार	बिजया कुमार सेठी	01.10.2012
244	जेसी269828एन	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.11.2012

245	जेसी271636पी	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.11.2012
246	जेसी269488डब्ल्यू	सुबेदार	बिकाश दत्ता	01.09.2012
247	जेसी271224एन	सुबेदार	बिक्कार सिंह	01.12.2012
248	जेसी270765एच	सुबेदार	बिक्रम बहादुर सिंह	01.10.2012
249	जेसी270109एफ	सुबेदार	बिनय कुमार मंडल	01.01.2013
250	जेसी266334वाइ	सुबेदार	बिनोद कुमार स्वेन	01.09.2012
251	जेसी269087एफ	सुबेदार	बीर पाल	01.12.2012
252	जेसी265859डब्ल्यू	सुबेदार	बीर सिंह	01.11.2012
253	जेसी266598ए	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.09.2012
254	जेसी268523एफ	सुबेदार	ब्रह्मा नंदा जैना	01.11.2012
255	जेसी269017एच	सुबेदार	ब्रजनन्दन सिंह	01.11.2012
256	जेसी267471के	सुबेदार	बूटे विजय कुमार वामन राव	01.01.2013
257	जेसी270566पी	सुबेदार	चर्का नारायण भगवन्त पुंडलिक	01.10.2012
258	जेसी270620एक्स	सुबेदार	चमन लाल	01.10.2012
259	जेसी271025ए	सुबेदार	चमन लाल	01.10.2012
260	जेसी273382एफ	सुबेदार	चमन लाल जे	01.10.2012
261	जेसी269483एक्स	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.01.2013
262	जेसी267381एच	सुबेदार	चंद्रा पाल सिंह	01.10.2012
263	जेसी269653डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रेश्वर सिंह	01.10.2012
264	जेसी271665के	सुबेदार	चरण सिंह	01.09.2012
265	जेसी272603डब्ल्यू	सुबेदार	चतुर्भुज साहू	01.11.2012
266	जेसी272589पी	सुबेदार	सी सिंह	01.09.2012
267	जेसी267760वाइ	सुबेदार	सी मेघवाल	01.11.2012
268	जेसी268790एच	सुबेदार	छोटे लाल	01.01.2013
269	जेसी269791एक्स	सुबेदार	छोटे लाल मिश्रा	01.12.2012
270	जेसी264661एल	सुबेदार	छीदान्नन्दा मूर्ती	01.10.2012
271	जेसी268261डब्ल्यू	सुबेदार	चिमन सिंह	01.09.2012
272	जेसी267238डब्ल्यू	सुबेदार	चितरन्जन मंडल	01.11.2012
273	जेसी268006के	सुबेदार	डी. दत्ताथार्या केरबा	01.10.2012
274	जेसी273193एक्स	सुबेदार	दल सिंह इनडे	01.09.2012
275	जेसी264736एक्स	सुबेदार	डी. सिंह	01.10.2012
276	जेसी269135डब्ल्यू	सुबेदार	दलविन्दर सिंह	01.12.2012
277	जेसी272813डब्ल्यू	सुबेदार	डी. रेडी श्रीनिवास रेडी	01.09.2012
278	जेसी271631डब्ल्यू	सुबेदार	दशरथ पी खोट	01.12.2012
279	जेसी266888एक्स	सुबेदार	दया चन्द	01.12.2012
280	जेसी270169डब्ल्यू	सुबेदार	देव करन	01.09.2012
281	जेसी269430वाइ	सुबेदार	देवा नन्द	01.10.2012
282	जेसी271795एम	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार कटारे	01.10.2012
283	जेसी266794ए	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार शर्मा	01.01.2013
284	जेसी270891पी	सुबेदार	धन पाती	01.01.2013
285	जेसी272492के	सुबेदार	धनंजय कुमार सिंह	01.01.2013
286	जेसी269909एन	सुबेदार	धर्म पाल	01.01.2013

287	जेसी271777के	सुबेदार	धर्म पाल	01.09.2012
288	जेसी272138पी	सुबेदार	धर्म पाल	01.09.2012
289	जेसी271188एन	सुबेदार	धर्म वीर सिंह	01.01.2013
290	जेसी265293एन	सुबेदार	धर्मा नाथ साह	01.10.2012
291	जेसी272293डब्ल्यू	सुबेदार	धीरेन्द्र कुमार	01.11.2012
292	जेसी270487ए	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.10.2012
293	जेसी273415एफ	सुबेदार	दिलीप कुमार द्विवेदी	01.09.2012
294	जेसी267829एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार ज्ञान	01.10.2012
295	जेसी269917एम	सुबेदार	दीना नाथ सिंह	01.12.2012
296	जेसी271897एच	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.09.2012
297	जेसी271555पी	सुबेदार	दिनेश कुमार धामाई	01.11.2012
298	जेसी271105एक्स	सुबेदार	डी. सुभाष नाना	01.10.2012
299	जेसी269313एन	सुबेदार	डी. सोनवाने	01.09.2012
300	जेसी270056एन	सुबेदार	एलुमलाई ए	01.12.2012
301	जेसी269845एन	सुबेदार	गजानन प्रसाद मिश्रा	01.12.2012
302	जेसी270465एफ	सुबेदार	जी. आर	01.09.2012
303	जेसी267558एल	सुबेदार	गंगा दर्शन कुमार	01.09.2012
304	जेसी268235पी	सुबेदार	गंगा प्रसाद	01.10.2012
305	जेसी270165ए	सुबेदार	गौतम मिश्रा	01.09.2012
306	जेसी271854एन	सुबेदार	जोर्ज वरघेसे	01.11.2012
307	जेसी272292एन	सुबेदार	घासी राम	01.09.2012
308	जेसी271096एफ	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.12.2012
309	जेसी271022एम	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.09.2012
310	जेसी270240वाइ	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.12.2012
311	जेसी270360एक्स	सुबेदार	गोविंद सिंह सामंत	01.10.2012
312	जेसी269136वाइ	सुबेदार	गुलाब सिंह	01.10.2012
313	जेसी270321वाइ	सुबेदार	गुरभेज सिंह	01.09.2012
314	जेसी268969डब्ल्यू	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.12.2012
315	जेसी269586डब्ल्यू	सुबेदार	गुरपाल सिंह	01.01.2013
316	जेसी272208एच	सुबेदार	गुरवैल सिंह	01.12.2012
317	जेसी266774एम	सुबेदार	हनुमंत सिंह आरयूआर सिंह शेखावत	01.12.2012
318	जेसी264902ए	सुबेदार	हरी सिंह	01.09.2012
319	जेसी266955ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा यादव	01.09.2012
320	जेसी271926एम	सुबेदार	हरमेश सिंह	01.11.2012
321	जेसी272332के	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.10.2012
322	जेसी270619एच	सुबेदार	हिसाम सिंह	01.12.2012
323	जेसी271228के	सुबेदार	होशियार सिंह	01.01.2013
324	जेसी269517ए	सुबेदार	हृदया एल	01.11.2012
325	जेसी268777वाइ	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.09.2012
326	जेसी270979वाइ	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.10.2012
327	जेसी268646एन	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.10.2012



328	जेसी270455एक्स	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.09.2012
329	जेसी272410डब्ल्यू	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.01.2013
330	जेसी269748डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.10.2012
331	जेसी271409पी	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.11.2012
332	जेसी263503के	सुबेदार	जगदीश प्रसाद यादव	01.01.2013
333	जेसी269588एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.12.2012
334	जेसी273138एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.01.2013
335	जेसी270453एम	सुबेदार	जगतार सिंह	01.11.2012
336	जेसी273262एच	सुबेदार	जगतार सिंह	01.10.2012
337	जेसी266250एल	सुबेदार	जानकी प्रसाद तिवारी	01.11.2012
338	जेसी273159एक्स	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.10.2012
339	जेसी273307एक्स	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.09.2012
340	जेसी271483डब्ल्यू	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.01.2013
341	जेसी267823डब्ल्यू	सुबेदार	जय नारायण	01.10.2012
342	जेसी269384पी	सुबेदार	जीरू बी	01.12.2012
343	जेसी270954एम	सुबेदार	झंडू सिंह	01.09.2012
344	जेसी270932एन	सुबेदार	जीतराम ओ	01.10.2012
345	जेसी269216डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.10.2012
346	जेसी271225डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2013
347	जेसी264445एक्स	सुबेदार	जोज़ थामस पी	01.09.2012
348	जेसी269381एफ	सुबेदार	कैलाश सिंह	01.10.2012
349	जेसी269812एच	सुबेदार	कमल नारायण सिंह	01.12.2012
350	जेसी271952एन	सुबेदार	कामता प्रसाद यादव	01.10.2012
351	जेसी268965ए	सुबेदार	कंचन सिंह	01.10.2012
352	जेसी260631डब्ल्यू	सुबेदार	करन सिंह	01.09.2012
353	जेसी267712वाइ	सुबेदार	कर्णजीत सिंह	01.09.2012
354	जेसी270054एच	सुबेदार	करुणाकरन जी.	01.10.2012
355	जेसी265821एम	सुबेदार	कस्तूरी लाल शर्मा	01.11.2012
356	जेसी264596डब्ल्यू	सुबेदार	किशोरी लाल चौहान	01.09.2012
357	जेसी268356डब्ल्यू	सुबेदार	कोरगांवकर पांडुरंग सदासिव	01.09.2012
358	जेसी269796डब्ल्यू	सुबेदार	कष्णन दत्त शुक्ल	01.11.2012
359	जेसी270093एफ	सुबेदार	कष्णन गोपाल शर्मा	01.11.2012
360	जेसी268570वाइ	सुबेदार	कष्णन लाल	01.10.2012
361	जेसी271383एल	सुबेदार	कष्णन लाल	01.10.2012
362	जेसी261113एच	सुबेदार	कुलबीर सिंह	01.12.2012
363	जेसी268142ए	सुबेदार	कुलबीर सिंह	01.11.2012
364	जेसी272498एल	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.11.2012
365	जेसी271668एक्स	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.10.2012
366	जेसी269047ए	सुबेदार	कुंवर बहादुर सिंह	01.09.2012
367	जेसी269594पी	सुबेदार	कुंवर पाल सिंह	01.10.2012
368	जेसी270016एम	सुबेदार	लक्खा सिंह	01.09.2012
369	जेसी268435एल	सुबेदार	लखन सिंह	01.10.2012

370	जेसी269244एच	सुबेदार	लखन सिंह	01.11.2012
371	जेसी270352वाइ	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.09.2012
372	जेसी271514एल	सुबेदार	लाल सिंह	01.12.2012
373	जेसी268254ए	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह बी	01.12.2012
374	जेसी269610एफ	सुबेदार	एल दिलीप गनपत राव	01.10.2012
375	जेसी269431एफ	सुबेदार	एम मणिकांतन	01.12.2012
376	जेसी271459ए	सुबेदार	मदन सिंह राठौर	01.09.2012
377	जेसी270884वाइ	सुबेदार	मधुकर नानू के	01.09.2012
378	जेसी266433एफ	सुबेदार	महादेव राम जाट	01.01.2013
379	जेसी270380एल	सुबेदार	महावीर यादव	01.01.2013
380	जेसी271388के	सुबेदार	महेंद्र सिंह चौहान	01.10.2012
381	जेसी269813एल	सुबेदार	महेंद्र पाल सिंह	01.09.2012
382	जेसी270581के	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद सिंह	01.09.2012
383	जेसी269900वाइ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.10.2012
384	जेसी268013ए	सुबेदार	महेंद्र सिंह एस	01.11.2012
385	जेसी268128एन	सुबेदार	महेश प्रसाद सिंह	01.10.2012
386	जेसी270919के	सुबेदार	महेश सिंह	01.01.2013
387	जेसी261448ए	सुबेदार	मल्खान सिंह परिहार	01.01.2013
388	जेसी270226एम	सुबेदार	एम सिंह एस	01.01.2013
389	जेसी269469एल	सुबेदार	मान सिंह	01.09.2012
390	जेसी269774एक्स	सुबेदार	मंडल लाल	01.10.2012
391	जेसी270195एक्स	सुबेदार	माने बापू लक्ष्मन	01.10.2012
392	जेसी269166डब्ल्यू	सुबेदार	मैनेजर प्रसाद सिंह	01.01.2013
393	जेसी269955एच	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.12.2012
394	जेसी270869के	सुबेदार	मन्नु लाल	01.01.2013
395	जेसी266028के	सुबेदार	मंसा राम	01.01.2013
396	जेसी270273के	सुबेदार	मोहम्मद अब्दुर रॉफ	01.10.2012
397	जेसी270305एफ	सुबेदार	एमईडी. सिंह राजपूत	01.01.2013
398	जेसी266895एन	सुबेदार	मोहन लाल	01.12.2012
399	जेसी269710एम	सुबेदार	मोहन लाल	01.11.2012
400	जेसी265933एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.11.2012
401	जेसी272489के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2012
402	जेसी272865एम	सुबेदार	एम सिंह	01.01.2013
403	जेसी269018एल	सुबेदार	मूरत सिंह	01.11.2012
404	जेसी269837पी	सुबेदार	नामे सिंह	01.11.2012
405	जेसी263272वाइ	सुबेदार	नरेंद्र कुमार	01.09.2012
406	जेसी270931एल	सुबेदार	नरेश कुमार	01.01.2013
407	जेसी267737एल	सुबेदार	निभय सिंह	01.10.2012
408	जेसी268885एच	सुबेदार	ओम प्रकाश भगत	01.10.2012
409	जेसी273667एन	सुबेदार	पाल सिंह	01.10.2012
410	जेसी268557पी	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.09.2012
411	जेसी272431एम	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.01.2013

412	जेसी268742एच	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.10.2012
413	जेसी272871ए	सुबेदार	परमेश्वर सिंह चौहान	01.01.2013
414	जेसी268412के	सुबेदार	प्रवीन चन्द	01.10.2012
415	जेसी265434एक्स	सुबेदार	पटवाल सुरेन्द्रा सिंह त्रिलोक सिंह	01.09.2012
416	जेसी271060एच	सुबेदार	पवार बी टतयाब	01.09.2012
417	जेसी270398एफ	सुबेदार	पी सी के	01.11.2012
418	जेसी271051एफ	सुबेदार	प्रहलाद पाठक	01.09.2012
419	जेसी269771के	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.09.2012
420	जेसी269039एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.09.2012
421	जेसी266963डब्ल्यू	सुबेदार	प्रवीन सिंह	01.09.2012
422	जेसी269702एन	सुबेदार	प्रीत सिंह	01.01.2013
423	जेसी266248एन	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.12.2012
424	जेसी270703एच	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.01.2013
425	जेसी269231एल	सुबेदार	प्रेम चंद्रा तिवारी	01.11.2012
426	जेसी267959ए	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.01.2013
427	जेसी271024एक्स	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.10.2012
428	जेसी273306पी	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.12.2012
429	जेसी269506एन	सुबेदार	पूरन चंद्र एन	01.09.2012
430	जेसी273202एन	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.10.2012
431	जेसी272248के	सुबेदार	रघुवीर पी शर्मा	01.10.2012
432	जेसी272047एल	सुबेदार	राज बहादुर सिंह	01.10.2012
433	जेसी270640एल	सुबेदार	राज बीर	01.01.2013
434	जेसी260947एच	सुबेदार	राज कुमार	01.11.2012
435	जेसी271401एच	सुबेदार	राज कुमार	01.12.2012
436	जेसी268994पी	सुबेदार	राज पाल	01.10.2012
437	जेसी266483एम	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.12.2012
438	जेसी269239एक्स	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2012
439	जेसी271159वाइ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह यादव	01.01.2013
440	जेसी269288ए	सुबेदार	राजेंद्रा बहादुर सिंह	01.09.2012
441	जेसी269849के	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.10.2012
442	जेसी267108एन	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.10.2012
443	जेसी268721एम	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह चाहर	01.10.2012
444	जेसी268726एल	सुबेदार	राजेन्द्रन वी	01.09.2012
445	जेसी266566एक्स	सुबेदार	राजेश कुमार	01.09.2012
446	जेसी268328के	सुबेदार	राजपाल	01.12.2012
447	जेसी270976एल	सुबेदार	राम भगत	01.09.2012
448	जेसी268960एफ	सुबेदार	राम बृक्ष यादवा	01.12.2012
449	जेसी271813के	सुबेदार	राम किशोर शर्मा	01.10.2012
450	जेसी267536एम	सुबेदार	राम मेहर	01.12.2012
451	जेसी268157एच	सुबेदार	राम नरेश यादव	01.10.2012
452	जेसी269383एम	सुबेदार	राम निवास	01.12.2012

453	जेसी271123ए	सुबेदार	राम पाल प्रजापति	01.10.2012
454	जेसी269920एम	सुबेदार	राम प्रकाश	01.12.2012
455	जेसी272623के	सुबेदार	राम प्रकाश एल	01.11.2012
456	जेसी273950एफ	सुबेदार	राम प्रकाश तिवारी	01.12.2012
457	जेसी271732के	सुबेदार	राम पुकार मिश्रा	01.12.2012
458	जेसी266122एन	सुबेदार	रामचन्द्रन वी	01.09.2012
459	जेसी271103एम	सुबेदार	रमाकांत यादव	01.11.2012
460	जेसी271373एफ	सुबेदार	रामओतार	01.12.2012
461	जेसी270033एम	सुबेदार	रामायण चौहान	01.10.2012
462	जेसी269546पी	सुबेदार	रामेहर सिंह	01.10.2012
463	जेसी269545एम	सुबेदार	रामएकबाल सिंह यादव	01.11.2012
464	जेसी269006डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा प्रधान	01.12.2012
465	जेसी267769एन	सुबेदार	आर सिंह	01.10.2012
466	जेसी269401के	सुबेदार	रामपाल	01.10.2012
467	जेसी267661डब्ल्यू	सुबेदार	रामश्रीमोणी	01.12.2012
468	जेसी270351डब्ल्यू	सुबेदार	रामवीर सिंह	01.09.2012
469	जेसी266410ए	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.12.2012
470	जेसी269568एन	सुबेदार	रंजीत कुमार सिंह	01.11.2012
471	जेसी262139के	सुबेदार	रंजीत सिंह शेखावत	01.01.2013
472	जेसी269852के	सुबेदार	रंजीत सिंह यादव	01.12.2012
473	जेसी270508एल	सुबेदार	रंजीत सिंह राठोर	01.12.2012
474	जेसी268377एम	सुबेदार	रनसिंग बाबन दिनकर	01.10.2012
475	जेसी269512एफ	सुबेदार	रनवीर सिंह चौहान	01.10.2012
476	जेसी266580के	सुबेदार	रशपाल सिंह	01.01.2013
477	जेसी268475एम	सुबेदार	रविन्द्र सिंह यादव	01.10.2012
478	जेसी269399एक्स	सुबेदार	रवि दत्ता	01.10.2012
479	जेसी268932पी	सुबेदार	रविकरण सिंह	01.11.2012
480	जेसी271794के	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह चौहान	01.09.2012
481	जेसी270605एच	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह यादव	01.10.2012
482	जेसी271254एल	सुबेदार	रोशन लाल	01.11.2012
483	जेसी269343एल	सुबेदार	एस चंद्रन	01.12.2012
484	जेसी271054पी	सुबेदार	एस कानन्न	01.01.2013
485	जेसी266339एक्स	सुबेदार	एस उपाध्याय	01.12.2012
486	जेसी271982एल	सुबेदार	साकेश चंद्रा चाउरासिआ	01.09.2012
487	जेसी268371एल	सुबेदार	सलाम शान्ति सिंह	01.11.2012
488	जेसी270692एफ	सुबेदार	एस राजशेखर	01.10.2012
489	जेसी268781एफ	सुबेदार	समुंद्र सिंह	01.10.2012
490	जेसी274442एक्स	सुबेदार	संतोष कुमार	01.11.2012
491	जेसी262575एफ	सुबेदार	सरदार सिंह	01.09.2012
492	जेसी267579एफ	सुबेदार	शारदा नन्द	01.01.2013
493	जेसी270774के	सुबेदार	सरोज कुमार पाण्डेय	01.10.2012
494	जेसी269311एच	सुबेदार	सतबीर यादव	01.10.2012

495	जेसी269811ए	सुबेदार	सतीश कुमार	01.11.2012
496	जेसी270618ए	सुबेदार	सतीश निवरूती ए	01.11.2012
497	जेसी269329वाइ	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.09.2012
498	जेसी271405वाइ	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.09.2012
499	जेसी270395एन	सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.09.2012
500	जेसी271997एन	सुबेदार	सत्यपाल	01.12.2012
501	जेसी271217एक्स	सुबेदार	सहदेव सिंह	01.12.2012
502	जेसी269481एम	सुबेदार	शैतान सिंह	01.12.2012
503	जेसी269226ए	सुबेदार	शम्भू प्रसाद	01.11.2012
504	जेसी270148ए	सुबेदार	शामलाल शर्मा	01.01.2013
505	जेसी271280एम	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.10.2012
506	जेसी271170एक्स	सुबेदार	शशि भूषण कुमार	01.12.2012
507	जेसी266480वाइ	सुबेदार	शिंदे मल्हारी गनपत	01.12.2012
508	जेसी269970एक्स	सुबेदार	शीशपाल सिंह	01.12.2012
509	जेसी272066डब्ल्यू	सुबेदार	शिव चरण	01.09.2012
510	जेसी259710वाइ	सुबेदार	शिव कुमार	01.12.2012
511	जेसी268346एम	सुबेदार	शिव कुमार	01.09.2012
512	जेसी269527के	सुबेदार	शिव नाथ सिंह बी	01.10.2012
513	जेसी271210एन	सुबेदार	शिवालाल किसान के	01.01.2013
514	जेसी267785एल	सुबेदार	एस एफ पाटिल	01.01.2013
515	जेसी269131ए	सुबेदार	शिवपाल सिंह	01.12.2012
516	जेसी269318एम	सुबेदार	शिवताज सिंह	01.09.2012
517	जेसी269038वाइ	सुबेदार	श्याम कुमार	01.10.2012
518	जेसी270279एल	सुबेदार	एस मिश्रा	01.12.2012
519	जेसी270629एम	सुबेदार	सिंगार सिंह	01.10.2012
520	जेसी267743वाइ	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.10.2012
521	जेसी268423डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.10.2012
522	जेसी269290एक्स	सुबेदार	सुदर्शन कुमार	01.10.2012
523	जेसी268685एम	सुबेदार	सुधीर कुमार सिंह	01.01.2013
524	जेसी263412ए	सुबेदार	सुधीर कुमार वीएम	01.09.2012
525	जेसी269647एच	सुबेदार	सुखदेव राज	01.12.2012
526	जेसी269294एन	सुबेदार	सुखेन्दु विश्वास	01.10.2012
527	जेसी269680ए	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.09.2012
528	जेसी264287एन	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.10.2012
529	जेसी269386ए	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2013
530	जेसी259709के	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.09.2012
531	जेसी272003एन	सुबेदार	सुरेश कुमार डी.	01.09.2012
532	जेसी268934ए	सुबेदार	सुरेश कुमार राठी	01.01.2013
533	जेसी270266एन	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.10.2012
534	जेसी270393एच	सुबेदार	एस सिंह	01.01.2013
535	जेसी269353पी	सुबेदार	तानाजी रामचंद्र पाटिल	01.09.2012
536	जेसी271647एफ	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.01.2013

537	जेसी266846एल	सुबेदार	तेजा राम एम	01.11.2012
538	जेसी269086वाइ	सुबेदार	ठाकुर आर बापू	01.09.2012
539	जेसी267473पी	सुबेदार	उदय प्रताप सिंह गौतम	01.09.2012
540	जेसी270230पी	सुबेदार	उमेश चंद्रा कर	01.09.2012
541	जेसी271681एफ	सुबेदार	उमेश कुमार सिंह	01.10.2012
542	जेसी270180पी	सुबेदार	वैदीवाल	01.01.2013
543	जेसी268811एन	सुबेदार	वेद पाल	01.10.2012
544	जेसी271460पी	सुबेदार	वीरा सेकारन एस	01.09.2012
545	जेसी269385एक्स	सुबेदार	वीरेन्द्र कुमार सिंह	01.01.2013
546	जेसी267040एक्स	सुबेदार	विजय कुमार सना	01.09.2012
547	जेसी268674ए	सुबेदार	विजय पाल	01.10.2012
548	जेसी269808ए	सुबेदार	विजय सिंह	01.09.2012
549	जेसी259815एच	सुबेदार	विजयन जी.के.	01.10.2012
550	जेसी269904पी	सुबेदार	वी प्रकाश	01.10.2012
551	जेसी270941पी	सुबेदार	विजेन्द्रा सिंह	01.12.2012
552	जेसी269010वाइ	सुबेदार	विनोद कुमार पुथालथा	01.10.2012
553	जेसी271838डब्ल्यू	सुबेदार	विनोद कुमार राय	01.11.2012
554	जेसी270131एम	सुबेदार	विनोद सिंह	01.12.2012
555	जेसी269295डब्ल्यू	सुबेदार	वीर सिंह	01.10.2012
556	जेसी268602डब्ल्यू	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.09.2012
557	जेसी271427एक्स	सुबेदार	यश पाल	01.12.2012
558	जेसी269011एफ	सुबेदार	यतेन्द्र कुमार	01.12.2012
559	जेसी266426एल	सुबेदार	योगेश कुमार	01.12.2012

#### सेना वायू सुरक्षा

560	जेसी299509डब्ल्यू	सुबेदार	ऐन्डी एस	01.10.2012
561	जेसी299464एफ	सुबेदार	अंजू कुमार	01.09.2012
562	जेसी298739एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.01.2013
563	जेसी300145के	सुबेदार	अवधेश कुमार	01.01.2013
564	जेसी298506डब्ल्यू	सुबेदार	अवतार सिंह	01.09.2012
565	जेसी297796एम	सुबेदार	बाबू राम जानी	01.10.2012
566	जेसी298881एफ	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.10.2012
567	जेसी299600एम	सुबेदार	बलवान दास	01.01.2013
568	जेसी299540एच	सुबेदार	भंवर सिंह राठोर	01.12.2012
569	जेसी299522ए	सुबेदार	बीरबल राम	01.10.2012
570	जेसी298735एफ	सुबेदार	बीरेन राजखोवा	01.10.2012
571	जेसी301074ए	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.09.2012
572	जेसी299772एफ	सुबेदार	देबेसवर चंगमाई	01.11.2012
573	जेसी300542एच	सुबेदार	देवी प्रसाद	01.10.2012
574	जेसी299542एन	सुबेदार	धन्न राम	01.01.2013
575	जेसी299696ए	सुबेदार	धर्म सिंह	01.10.2012
576	जेसी297686एक्स	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.01.2013

577	जेसी298778के	सुबेदार	डी. रेडी श्रीनिवास रेडी	01.01.2013
578	जेसी298778डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश प्रताप सिंह	01.10.2012
579	जेसी300375एक्स	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.01.2013
580	जेसी300252एल	सुबेदार	गुरदयाल चन्द	01.10.2012
581	जेसी300169एन	सुबेदार	इश्वर दास	01.10.2012
582	जेसी298962एफ	सुबेदार	जय लाल	01.11.2012
583	जेसी298803के	सुबेदार	जय शंकर प्रसाद सिंह	01.01.2018
584	जेसी300215एक्स	सुबेदार	जय सिंह यादव	01.12.2012
585	जेसी297498डब्ल्यू	सुबेदार	जसवंत	01.10.2012
586	जेसी300345ए	सुबेदार	जयकुमार केआर	01.09.2012
587	जेसी299830ए	सुबेदार	जीवन चंद्रा	01.10.2012
588	जेसी298163एल	सुबेदार	कदम कृष्णा यमवती	01.11.2012
589	जेसी300149ए	सुबेदार	कलकल सिंह	01.12.2012
590	जेसी300368एफ	सुबेदार	काली चरण	01.01.2013
591	जेसी300225एफ	सुबेदार	केशव सिंह	01.01.2013
592	जेसी299442एच	सुबेदार	किशन लाल गुप्ता	01.09.2012
593	जेसी299516एम	सुबेदार	किशोर सिंह	01.10.2012
594	जेसी299625वाइ	सुबेदार	कृष्णा चंदन चंदे	01.11.2012
595	जेसी297850पी	सुबेदार	के सिंह	01.01.2013
596	जेसी300258एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.10.2012
597	जेसी298009एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
598	जेसी298531पी	सुबेदार	कुशाग्र सिंह जसवाल	01.10.2012
599	जेसी301203पी	सुबेदार	लक्ष्मण सिंह	01.01.2013
600	जेसी298544एम	सुबेदार	एल कलिका	01.10.2012
601	जेसी299932डब्ल्यू	सुबेदार	लक्ष्मी प्रताप गुप्ता	01.12.2012
602	जेसी300513एन	सुबेदार	मदन सिंह	01.10.2012
603	जेसी298393वाइ	सुबेदार	मदन चन्द	01.10.2012
604	जेसी299214ए	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.09.2012
605	जेसी299784डब्ल्यू	सुबेदार	मथार्थ डी	01.10.2012
606	जेसी299291पी	सुबेदार	मोहम्मद ए खान	01.10.2012
607	जेसी300173डब्ल्यू	सुबेदार	मेहर चन्द	01.10.2012
608	जेसी299824एम	सुबेदार	मोहिद्र सिंह	01.10.2012
609	जेसी299000के	सुबेदार	एम विजय डी	01.09.2012
610	जेसी300016के	सुबेदार	मुंशी लाल	01.10.2012
611	जेसी299564एम	सुबेदार	मुनू साप्पी शर्मा	01.01.2013
612	जेसी300402डब्ल्यू	सुबेदार	मुरली मोहन कृष्णा ए	01.10.2012
613	जेसी299647एक्स	सुबेदार	नारायण एल	01.01.2013
614	जेसी299212पी	सुबेदार	नारायण लेखिका	01.09.2012
615	जेसी299666एच	सुबेदार	नरेश चन्द यादव	01.01.2013
616	जेसी299541एल	सुबेदार	नरेश कुमार शर्मा	01.12.2012
617	जेसी299461एन	सुबेदार	नरिंदर सिंह एम	01.01.2013
618	जेसी297599के	सुबेदार	नाथू सिंह	01.09.2012

619	जेसी299725के	सुबेदार	नित्यानन्दा मोन्डल	01.10.2012
620	जेसी298035एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
621	जेसी298450पी	सुबेदार	ओम प्रकाश चौबे	01.11.2012
622	जेसी298262एन	सुबेदार	ओम प्रकाश चौधरी	01.09.2012
623	जेसी299775पी	सुबेदार	पाटिल सरजीराव रामु	01.09.2012
624	जेसी299181ए	सुबेदार	प्रमोद सिंह	01.09.2012
625	जेसी298321पी	सुबेदार	प्रताप सिंह मीना	01.01.2013
626	जेसी300127एफ	सुबेदार	आर अथीशीषन	01.10.2012
627	जेसी298997एक्स	सुबेदार	रबेन्द्र सिंह	01.12.2012
628	जेसी299370के	सुबेदार	रघबीर सिंह	01.10.2012
629	जेसी299199डब्ल्यू	सुबेदार	रघु राज	01.11.2012
630	जेसी298169एम	सुबेदार	राजमणि एस	01.01.2013
631	जेसी298432एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2012
632	जेसी299176पी	सुबेदार	राजवीर सिंह	01.01.2013
633	जेसी299062के	सुबेदार	राजवीर शर्मा	01.10.2012
634	जेसी297595एन	सुबेदार	राकेश कुमार	01.10.2012
635	जेसी300104ए	सुबेदार	राम आधार सिंह यादव	01.11.2012
636	जेसी299489एन	सुबेदार	राम औतार	01.10.2012
637	जेसी300056एल	सुबेदार	राम बहादुर	01.12.2012
638	जेसी299350डब्ल्यू	सुबेदार	राम केवल	01.01.2013
639	जेसी300031वाइ	सुबेदार	राम लखन यादव	01.01.2013
640	जेसी299769एफ	सुबेदार	राम पाल	01.12.2012
641	जेसी299563के	सुबेदार	राम राज सिंह	01.12.2012
642	जेसी300396एन	सुबेदार	रामदेओ सिंह	01.12.2012
643	जेसी299158एम	सुबेदार	रामसिया सिंह भदोरिया	01.10.2012
644	जेसी298954एच	सुबेदार	रवि श्रीनिवासन वी	01.10.2012
645	जेसी298543के	सुबेदार	ऋषि राज धनकर	01.09.2012
646	जेसी299783एन	सुबेदार	रोशन लाल	01.10.2012
647	जेसी297797पी	सुबेदार	रोशन लाल यादव	01.11.2012
648	जेसी299642वाइ	सुबेदार	रूप लाल	01.10.2012
649	जेसी300641एल	सुबेदार	संजीवी के	01.01.2013
650	जेसी300108डब्ल्यू	सुबेदार	सरदारी लाल	01.11.2012
651	जेसी298108पी	सुबेदार	सतेंद्र कुमार	01.10.2012
652	जेसी299839पी	सुबेदार	शिव कुमार शर्मा	01.10.2012
653	जेसी299510एल	सुबेदार	शेर सिंह	01.10.2012
654	जेसी299989एल	सुबेदार	शिव लाल प्रसाद गुप्ता	01.11.2012
655	जेसी299104एल	सुबेदार	शिव राम	01.11.2012
656	जेसी300212के	सुबेदार	श्याम बिहारी सिंह	01.10.2012
657	जेसी298904एक्स	सुबेदार	एस जाट	01.11.2012
658	जेसी300217एच	सुबेदार	सिधेश्वर प्रसाद	01.10.2012
659	जेसी300609डब्ल्यू	सुबेदार	श्री लक्ष्मन सिंह	01.10.2012
660	जेसी300276पी	सुबेदार	सुजातन नायर एस	01.10.2012



661	जेसी298891एल	सुबेदार	सुखदेव	01.10.2012
662	जेसी299086एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.11.2012
663	जेसी298862डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश बाबू	01.12.2012
664	जेसी298636वाइ	सुबेदार	स्वप्न कुमार मिस्त्री	01.01.2013
665	जेसी300747एक्स	सुबेदार	टी हरीनाद	01.01.2013
666	जेसी299796एल	सुबेदार	टी राजाराम जोतिबा	01.10.2012
667	जेसी298800डब्ल्यू	सुबेदार	तेजपाल शर्मा	01.10.2012
668	जेसी298929के	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	01.10.2012
669	जेसी299915वाइ	सुबेदार	उमेद सिंह	01.10.2012
670	जेसी298578ए	सुबेदार	विजय कुमार	01.09.2012
671	जेसी299318एफ	सुबेदार	विजय कुमार	01.09.2012
672	जेसी299481एफ	सुबेदार	विजय कुमार	01.10.2012
673	जेसी299319के	सुबेदार	याद राम	01.10.2012
674	जेसी299774एम	सुबेदार	योगेश कुमार	01.01.2013

मद्रास इंजीनियर समूह

675	जेसी308208डब्ल्यू	सुबेदार	ए जेम्स विलियम पीटर	01.12.2012
676	जेसी307848एन	सुबेदार	ए राजालिंगम	01.11.2012
677	जेसी308632वाइ	सुबेदार	ए सुन्दरा मूर्थी	01.10.2012
678	जेसी308653पी	सुबेदार	अल्ला साम्बी रेडी	01.09.2012
679	जेसी307213पी	सुबेदार	अमृत लाल	01.12.2012
680	जेसी308267एच	सुबेदार	अरुलन्दू सामी ए	01.10.2012
681	जेसी308479एन	सुबेदार	बालकृष्णा आर	01.01.2013
682	जेसी308668एक्स	सुबेदार	सी नंदन	01.09.2012
683	जेसी306005एन	सुबेदार	देवेन्द्र बेन गोस्वामी	01.09.2012
684	जेसी308047वाइ	सुबेदार	जी. कार्थीकेयन	01.01.2013
685	जेसी308347वाइ	सुबेदार	जी. कार्थीकेयन	01.01.2013
686	जेसी308265एक्स	सुबेदार	जी. उमानमेशरण	01.09.2012
687	जेसी327596एन	सुबेदार	गौरांग सुंदर प्रमानिक	01.10.2012
688	जेसी308222एच	सुबेदार	जी. एम राव	01.01.2013
689	जेसी308100वाइ	सुबेदार	जी. कामेश्वर राव	01.09.2012
690	जेसी308917एल	सुबेदार	जे पोरुमाई	01.10.2012
691	जेसी307561डब्ल्यू	सुबेदार	जगेश्वर राय	01.11.2012
692	जेसी308114वाइ	सुबेदार	के राजेन्द्रन	01.10.2012
693	जेसी307495वाइ	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.09.2012
694	जेसी307745पी	सुबेदार	मनोज पीए	01.10.2012
695	जेसी308596वाइ	सुबेदार	मोहम्मद जीलानी	01.10.2012
696	जेसी308322एन	सुबेदार	मोनीकांतन नायर वी	01.09.2012
697	जेसी308475एक्स	सुबेदार	एन पंडारीनाथन	01.10.2012
698	जेसी307749एल	सुबेदार	एन रविन्द्रन	01.09.2012
699	जेसी308232एम	सुबेदार	नदी आर अप्पाराव	01.01.2013
700	जेसी308923वाइ	सुबेदार	पी अरुमुगम	01.11.2012

701	जेसी308480एच	सुबेदार	पी नगेन्द्रा राव	01.09.2012
702	जेसी308306डब्ल्यू	सुबेदार	पी बाबू	01.09.2012
703	जेसी306998एक्स	सुबेदार	पारेश नारायण घोष	01.10.2012
704	जेसी308266ए	सुबेदार	पुरुषाथमन पी वी	01.09.2012
705	जेसी308496एन	सुबेदार	आर प्रकाश	01.09.2012
706	जेसी308570के	सुबेदार	आर राजेन्द्रन	01.09.2012
707	जेसी307913एच	सुबेदार	राघे श्याम कुशवाहा	01.12.2012
708	जेसी308835एच	सुबेदार	राजन पी कट्टील	01.10.2012
709	जेसी306697एन	सुबेदार	आर दास	01.10.2012
710	जेसी307534एम	सुबेदार	रामायण प्रसाद	01.12.2012
711	जेसी306270के	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.01.2013
712	जेसी308217एक्स	सुबेदार	एस पलानी छामी	01.10.2012
713	जेसी308805एल	सुबेदार	सजीवन पीएस	01.01.2013
714	जेसी308638ए	सुबेदार	संगप्पा सी	01.12.2012
715	जेसी307941पी	सुबेदार	सत्यपाल सिंह	01.01.2013
716	जेसी307881एल	सुबेदार	शिंदे कैलाश निवरुति	01.09.2012
717	जेसी308268एल	सुबेदार	सोमन पिल्लई के	01.01.2013
718	जेसी307373पी	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.09.2012
719	जेसी306148एन	सुबेदार	सुधाकरन बी	01.10.2012
720	जेसी308223एल	सुबेदार	एस प्रसाद	01.11.2012
721	जेसी307347एन	सुबेदार	सुरेश बाबू पीके	01.09.2012
722	जेसी307827एक्स	सुबेदार	सुशान्ता कुमार सरकार	01.09.2012
723	जेसी308430एक्स	सुबेदार	उप्पुतुरी आर प्रसाद	01.10.2012
724	जेसी308735एक्स	सुबेदार	वी वी सन्यासी राजू	01.12.2012
725	जेसी330639एच	सुबेदार	विजय कुमार	01.10.2012
726	जेसी308404डब्ल्यू	सुबेदार	विनसेट एस	01.12.2012

### बंगाल इंजीनियर समूह

727	जेसी329651एक्स	सुबेदार	अजय कुमार रौय	01.10.2012
728	जेसी329539एल	सुबेदार	आलम सिंह	01.10.2012
729	जेसी330046डब्ल्यू	सुबेदार	अमन कुमार	01.11.2012
730	जेसी140776एल	सुबेदार	अमरजीत सिंह नेगी	01.10.2012
731	जेसी326960पी	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.01.2013
732	जेसी329319एफ	सुबेदार	अनिल कुमार शर्मा	01.10.2012
733	जेसी329318वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.10.2012
734	जेसी328815डब्ल्यू	सुबेदार	अयोध्या कर्माकर	01.10.2012
735	जेसी329304वाइ	सुबेदार	बचन सिंह	01.09.2012
736	जेसी329554ए	सुबेदार	बाल गोपाल पात्रा	01.10.2012
737	जेसी329177पी	सुबेदार	बलदेव सिंह गुलेरिया	01.01.2013
738	जेसी329181एक्स	सुबेदार	बरुण देव घोषाल	01.01.2013
739	जेसी328269ए	सुबेदार	बसंत सिंह	01.01.2013
740	जेसी327735एम	सुबेदार	भगवन्त सिंह	01.10.2012

741	जेसी327382एक्स	सुबेदार	चर्कधर प्रसाद नैथानी	01.10.2012
742	जेसी329821डब्ल्यू	सुबेदार	चंचल सिंह	01.10.2012
743	जेसी329731के	सुबेदार	चंद्रा बाबू के	01.01.2013
744	जेसी328845एन	सुबेदार	छतर पाल	01.10.2012
745	जेसी326482डब्ल्यू	सुबेदार	दान सिंह	01.10.2012
746	जेसी329548एम	सुबेदार	देवेंदर सिंह	01.09.2012
747	जेसी328821के	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.10.2012
748	जेसी329779एच	सुबेदार	गाबार सिंह	01.01.2013
749	जेसी329524एच	सुबेदार	घनशाम सिंह	01.10.2012
750	जेसी326818एल	सुबेदार	गिरीजा प्रसन्ना मंडल	01.01.2013
751	जेसी338235पी	सुबेदार	गिरीश चंद्रा पांडे	01.01.2013
752	जेसी329788के	सुबेदार	गूजर सिंह	01.09.2012
753	जेसी326887एफ	सुबेदार	गुमान सिंह	01.11.2012
754	जेसी329123एन	सुबेदार	हनुमान सिंह	01.11.2012
755	जेसी330222एच	सुबेदार	हीरा लाल मिश्रा	01.01.2013
756	जेसी329024एल	सुबेदार	इमरत चन्द शर्मा	01.09.2012
757	जेसी140787एक्स	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.12.2012
758	जेसी329179ए	सुबेदार	जगन नाथ घोष	01.01.2013
759	जेसी329886के	सुबेदार	जय कृष्णा	01.10.2012
760	जेसी329716ए	सुबेदार	जे बनरा	01.01.2013
761	जेसी329692एफ	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.01.2013
762	जेसी326580डब्ल्यू	सुबेदार	जतिंदरपाल सिंह जी.	01.01.2013
763	जेसी326816ए	सुबेदार	जीत सिंह	01.12.2012
764	जेसी328843एच	सुबेदार	कल्याण शंकर मिश्रा	01.10.2012
765	जेसी328848एफ	सुबेदार	कन्हाई लाल	01.11.2012
766	जेसी326558एल	सुबेदार	कर्पींद्र जोशी	01.12.2012
767	जेसी329120ए	सुबेदार	करन सिंह	01.10.2012
768	जेसी329344ए	सुबेदार	केशव देव	01.11.2012
769	जेसी329175के	सुबेदार	कुलदीप सिंह राना	01.10.2012
770	जेसी329306के	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2012
771	जेसी329023एच	सुबेदार	एल पांडे	01.09.2012
772	जेसी329874पी	सुबेदार	मदन लाल बगोरिया	01.10.2012
773	जेसी329496एफ	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.11.2012
774	जेसी329992एच	सुबेदार	मंगल सिंह	01.12.2012
775	जेसी338400पी	सुबेदार	मनी शंकर द्विवेदी	01.10.2012
776	जेसी327138एक्स	सुबेदार	मोहम्मद अताउर रहमान	01.12.2012
777	जेसी329032के	सुबेदार	मेहमा सिंह बी	01.10.2012
778	जेसी329484एम	सुबेदार	मोहन सिंह बिष्ट	01.11.2012
779	जेसी329125वाइ	सुबेदार	मोहन लाल अवस्थी	01.12.2012
780	जेसी130058एफ	सुबेदार	मुध्याला रवि कुमार	01.09.2012
781	जेसी329676के	सुबेदार	नन्द शंकर सिंह राठौर	01.01.2013
782	जेसी326819एन	सुबेदार	नासबदन कुट्टी एम	01.01.2013

783	जेसी326394ए	सुबेदार	नरेश कुमार	01.09.2012
784	जेसी325692के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
785	जेसी329030वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.10.2012
786	जेसी329116एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश तिवारी	01.10.2012
787	जेसी328849के	सुबेदार	ओमकार दत्त शर्मा	01.11.2012
788	जेसी329180पी	सुबेदार	प्रभाकर लाल	01.01.2013
789	जेसी329757के	सुबेदार	प्रमोद तिग्गा	01.09.2012
790	जेसी329122एल	सुबेदार	प्रेम नारायण	01.11.2012
791	जेसी329550के	सुबेदार	प्रोबीर कुमार विश्वास	01.09.2012
792	जेसी326817एच	सुबेदार	रबीन्द्र नाथ तिवारी	01.01.2013
793	जेसी328841एक्स	सुबेदार	राधा कृष्णन नायर सी के	01.10.2012
794	जेसी329309एक्स	सुबेदार	राज कुमार सिवाच	01.12.2012
795	जेसी329677एम	सुबेदार	राजे सिंह	01.01.2013
796	जेसी137459वाइ	सुबेदार	राकेश कुमार अग्रवाल	01.01.2013
797	जेसी328206एम	सुबेदार	राम दरास यादव	01.10.2012
798	जेसी325986एक्स	सुबेदार	राम दास	01.10.2012
799	जेसी328844एल	सुबेदार	राम नाथ	01.10.2012
800	जेसी326813एम	सुबेदार	राम प्रकाश सिंह वर्मा	01.11.2012
801	जेसी327401एक्स	सुबेदार	राम सिंह	01.10.2012
802	जेसी329704एल	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.10.2012
803	जेसी329124डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार	01.11.2012
804	जेसी330109एन	सुबेदार	रामेश्वर दास	01.12.2012
805	जेसी329815एच	सुबेदार	रामजी प्रसाद केसरी	01.01.2013
806	जेसी326700के	सुबेदार	रण विजय सिंह	01.09.2012
807	जेसी329178एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.01.2013
808	जेसी326890एफ	सुबेदार	सधन कुमार चक्रवर्ती	01.01.2013
809	जेसी329031एफ	सुबेदार	सतीश चंद्रा यादव	01.10.2012
810	जेसी327733एफ	सुबेदार	सत्येन्द्र राय	01.09.2012
811	जेसी329848एन	सुबेदार	शाम लाल डोगरा	01.09.2012
812	जेसी329652ए	सुबेदार	शिव चरण सिंह नेगी	01.10.2012
813	जेसी325897वाइ	सुबेदार	सिद्धार्थ सिंह चौहान	01.10.2012
814	जेसी327478ए	सुबेदार	सुब्रता विश्वास	01.10.2012
815	जेसी326261के	सुबेदार	सुखदेव राम	01.09.2012
816	जेसी338064एन	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.12.2012
817	जेसी329121एच	सुबेदार	सूरज पाल	01.10.2012
818	जेसी328850वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2013
819	जेसी328837पी	सुबेदार	सुरेश कुमार कौशिक	01.10.2012
820	जेसी137403एम	सुबेदार	सुशील कुमार के	01.10.2012
821	जेसी329119एल	सुबेदार	तुहिन एस बैंग	01.10.2012
822	जेसी329127के	सुबेदार	उमेश सिंह	01.10.2012
823	जेसी330248एक्स	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.11.2012
824	जेसी329553एक्स	सुबेदार	विशान सिंह रावत	01.10.2012

बोम्बे इंजीनियर समूह

825	जेसी348802ए	सुबेदार	अमरजीत सिंह	01.10.2012
826	जेसी350655एफ	सुबेदार	असारफ अली	01.12.2012
827	जेसी348622एक्स	सुबेदार	अशफी लाल	01.10.2012
828	जेसी350142एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.09.2012
829	जेसी348635पी	सुबेदार	भूप सिंह यादव	01.10.2012
830	जेसी348599पी	सुबेदार	बिधा सिंह	01.10.2012
831	जेसी350509एफ	सुबेदार	चरण सिंह	01.01.2013
832	जेसी349506एफ	सुबेदार	धाने शिवाजी शंकर	01.10.2012
833	जेसी348595वाइ	सुबेदार	धर्मबीर त्यागी	01.01.2013
834	जेसी348198ए	सुबेदार	दिलीप दोलत चव्हाण	01.09.2012
835	जेसी350236के	सुबेदार	गुलेर चन्द	01.01.2013
836	जेसी350114ए	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.12.2012
837	जेसी350037डब्ल्यू	सुबेदार	हरक सिंह मेहता	01.01.2013
838	जेसी350676एक्स	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.01.2013
839	जेसी348555एक्स	सुबेदार	होशियार सिंह	01.10.2012
840	जेसी350063एक्स	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.01.2013
841	जेसी349966एच	सुबेदार	जाधव राजाराम बाबू राव	01.09.2012
842	जेसी349752एम	सुबेदार	जाधव एस माधवराव	01.09.2012
843	जेसी350941एच	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.12.2012
844	जेसी350123एफ	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.10.2012
845	जेसी348542ए	सुबेदार	जसवीर सिंह	01.09.2012
846	जेसी350339एच	सुबेदार	जविया जमनादास धांजी	01.12.2012
847	जेसी350054डब्ल्यू	सुबेदार	कदम मानिकराव दामींदर	01.10.2012
848	जेसी350386ए	सुबेदार	काले नंदराव रघुनाथ	01.09.2012
849	जेसी348577डब्ल्यू	सुबेदार	कमल देव	01.10.2012
850	जेसी350332वाइ	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.10.2012
851	जेसी349570वाइ	सुबेदार	माम चन्द	01.10.2012
852	जेसी350073एफ	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.09.2012
853	जेसी349880के	सुबेदार	एम संजीव हरीबा	01.01.2013
854	जेसी350599एन	सुबेदार	मुनीर अहमद खान	01.01.2013
855	जेसी350158एक्स	सुबेदार	मुरलीधरन के	01.12.2012
856	जेसी350440एच	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.10.2012
857	जेसी350230एच	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.01.2013
858	जेसी350222के	सुबेदार	पाटिल दिनाकर रमा	01.01.2013
859	जेसी350150एल	सुबेदार	पवार चान्द्राकान्त दादाजी	01.10.2012
860	जेसी350065एच	सुबेदार	पीर अली	01.09.2012
861	जेसी350346वाइ	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा वर्मा	01.11.2012
862	जेसी348567एम	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.10.2012
863	जेसी348496डब्ल्यू	सुबेदार	राकेश चंद्र कोठारी	01.09.2012
864	जेसी347130एम	सुबेदार	राम सरन गुप्ता	01.01.2013

865	जेसी348663एफ	सुबेदार	राम सेवक	01.09.2012
866	जेसी350088के	सुबेदार	रामबीर	01.01.2013
867	जेसी348549के	सुबेदार	रेवाधर प्रसाद	01.09.2012
868	जेसी350617एल	सुबेदार	सतवीन्द्र सिंह	01.10.2012
869	जेसी348589एल	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.10.2012
870	जेसी350428एफ	सुबेदार	शिव नारायण श्रीवास	01.01.2013
871	जेसी349221पी	सुबेदार	शिव राज सिंह	01.01.2013
872	जेसी350858एल	सुबेदार	सिरमोर सिंह	01.01.2013
873	जेसी348994एच	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.01.2013
874	जेसी350338ए	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.10.2012
875	जेसी350020एच	सुबेदार	सुनील कुमार	01.11.2012
876	जेसी348594डब्ल्यू	सुबेदार	विष्णु कांत तिवारी	01.10.2012

### सिग्नल्स कोर

877	जेसी377565के	सुबेदार	अधिकारी सुभाष कमल बहादुर	01.11.2012
878	जेसी377279एच	सुबेदार	ए हक	01.10.2012
879	जेसी374992पी	सुबेदार	अक्षय कुमार साहू	01.09.2012
880	जेसी375422एल	सुबेदार	अमर नारायण	01.10.2012
881	जेसी375370ए	सुबेदार	आशीस कुमार मैती	01.09.2012
882	जेसी372602एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2013
883	जेसी373364एन	सुबेदार	बाई पल्ली रमा राव	01.01.2013
884	जेसी376953पी	सुबेदार	बैजू आर	01.12.2012
885	जेसी376134एल	सुबेदार	बलबीर चन्द	01.10.2012
886	जेसी376634एच	सुबेदार	भदोरिया रामसवरूप शिव सिंह	01.09.2012
887	जेसी374873वाइ	सुबेदार	भजन सिंह	01.10.2012
888	जेसी376310एक्स	सुबेदार	भंवर सिंह राठोर	01.11.2012
889	जेसी375527पी	सुबेदार	भरत भूषण	01.10.2012
890	जेसी376307एक्स	सुबेदार	भरत रतन सरन	01.10.2012
891	जेसी376640डब्ल्यू	सुबेदार	भरत सिंह	01.09.2012
892	जेसी369638डब्ल्यू	सुबेदार	भीम सिंह यादव	01.09.2012
893	जेसी377122एच	सुबेदार	बिदयुत रंजन देब	01.11.2012
894	जेसी374835एच	सुबेदार	बिजय पाल	01.10.2012
895	जेसी376283वाइ	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.10.2012
896	जेसी373798एन	सुबेदार	बीजू पी सी	01.10.2012
897	जेसी376837एम	सुबेदार	बिकाश ब्रमा	01.10.2012
898	जेसी376809ए	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.01.2013
899	जेसी376394डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्रा प्रसाद चोबे	01.10.2012
900	जेसी375372एल	सुबेदार	सी मनोकरण	01.12.2012
901	जेसी375774एच	सुबेदार	छोटन महतो	01.10.2012
902	जेसी373949एफ	सुबेदार	देवेंद्र सिंह	01.09.2012
903	जेसी377071ए	सुबेदार	दया शंकर यादव	01.12.2012
904	जेसी372054डब्ल्यू	सुबेदार	देसे आर कल्लप्पा	01.10.2012

905	जेसी376734एन	सुबेदार	डी. ठाकुर	01.09.2012
906	जेसी376802डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.11.2012
907	जेसी372041वाइ	सुबेदार	धनंजय पाती	01.10.2012
908	जेसी375103वाइ	सुबेदार	धर्म चन्द	01.10.2012
909	जेसी375238ए	सुबेदार	धर्मपाल	01.09.2012
910	जेसी375279के	सुबेदार	धर्मवीर	01.01.2013
911	जेसी376304के	सुबेदार	दिलीप मुखोपाध्याय	01.09.2012
912	जेसी373255एफ	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.11.2012
913	जेसी375982एक्स	सुबेदार	दुग्गेपोगू विजया कुमार	01.12.2012
914	जेसी377136एच	सुबेदार	गनेश प्रसाद	01.12.2012
915	जेसी372827एल	सुबेदार	घनशाम सिंह यादव	01.09.2012
916	जेसी375237एक्स	सुबेदार	गोपीनाथन जे	01.12.2012
917	जेसी374616एफ	सुबेदार	जी. राम शर्मा	01.01.2013
918	जेसी374949एन	सुबेदार	जी. अब्दुल एच	01.12.2012
919	जेसी375823ए	सुबेदार	गुलजार सिंह	01.09.2012
920	जेसी377836डब्ल्यू	सुबेदार	एच प्रसाद	01.10.2012
921	जेसी369583एक्स	सुबेदार	हरी ओम	01.09.2012
922	जेसी375966ए	सुबेदार	हरिदासन खीजूर आह	01.12.2012
923	जेसी376154वाइ	सुबेदार	हिसाम सिंह	01.01.2013
924	जेसी373660वाइ	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.01.2013
925	जेसी375929एम	सुबेदार	जाधव बिल्लाल शंकर	01.09.2012
926	जेसी372974एन	सुबेदार	जगन नारायण तिवारी	01.11.2012
927	जेसी373644एफ	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.09.2012
928	जेसी377220एच	सुबेदार	जसवीर सिंह	01.09.2012
929	जेसी375239एच	सुबेदार	जोगिंदर पौल	01.10.2012
930	जेसी375979एक्स	सुबेदार	ज्योती प्रोबेस मंडल	01.01.2013
931	जेसी374622पी	सुबेदार	कैलाश चंद	01.09.2012
932	जेसी377142डब्ल्यू	सुबेदार	काशी प्रसाद मिश्र	01.01.2013
933	जेसी375844डब्ल्यू	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.01.2013
934	जेसी376848वाइ	सुबेदार	कोशल कुमार सिंह	01.11.2012
935	जेसी374932ए	सुबेदार	कविन्द्रा महतो	01.01.2013
936	जेसी376709पी	सुबेदार	केवल कण्ठन	01.01.2013
937	जेसी373658एफ	सुबेदार	खजान सिंह शर्मा	01.01.2013
938	जेसी375980एम	सुबेदार	ख्याली राम	01.10.2012
939	जेसी372056एफ	सुबेदार	किशोरी लाल शर्मा	01.10.2012
940	जेसी376396एफ	सुबेदार	कृष्णा कुमार दिबेदी	01.10.2012
941	जेसी372683एन	सुबेदार	कुष्णा चंद्रा जैना	01.10.2012
942	जेसी375834एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.10.2012
943	जेसी377628एफ	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
944	जेसी377653ए	सुबेदार	लक्ष्मी नारायण	01.12.2012
945	जेसी377126वाइ	सुबेदार	लाल बिहारी	01.11.2012

946	जेसी376790एम	सुबेदार	लाला साब फकीरा साब ईनदिगनल	01.10.2012
947	जेसी375901एम	सुबेदार	लल्लन पांडे	01.10.2012
948	जेसी374553के	सुबेदार	मदन मोहन सिंह	01.10.2012
949	जेसी377651पी	सुबेदार	मदन प्रसाद	01.12.2012
950	जेसी375806ए	सुबेदार	माधव पांडे	01.12.2012
951	जेसी376313एल	सुबेदार	महाबीर सिंह	01.01.2013
952	जेसी377497एफ	सुबेदार	महातम	01.11.2012
953	जेसी371158एल	सुबेदार	महावीर सिंह	01.11.2012
954	जेसी377297ए	सुबेदार	महेंद्र प्रसाद सिंह	01.09.2012
955	जेसी377277एक्स	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.11.2012
956	जेसी373433वाइ	सुबेदार	मान सिंह	01.01.2013
957	जेसी376239पी	सुबेदार	एम कुमार	01.01.2013
958	जेसी377249एल	सुबेदार	मोहम्मद बशीर ए	01.01.2013
959	जेसी377134एक्स	सुबेदार	मोहन चन्द	01.12.2012
960	जेसी375963एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.10.2012
961	जेसी374652एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह गुलेरिया	01.01.2013
962	जेसी375958एफ	सुबेदार	एन कुमारन	01.11.2012
963	जेसी374967डब्ल्यू	सुबेदार	नरेन्द्रा नारायण रौय	01.10.2012
964	जेसी372059पी	सुबेदार	नरेश चंद्र	01.10.2012
965	जेसी378436डब्ल्यू	सुबेदार	नरेश पौल	01.12.2012
966	जेसी377609डब्ल्यू	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.09.2012
967	जेसी376148एल	सुबेदार	नेक मोहम्मद	01.01.2013
968	जेसी377125डब्ल्यू	सुबेदार	ओम दत्ता शर्मा	01.11.2012
969	जेसी375047एल	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2012
970	जेसी377437एम	सुबेदार	पी सन्थानम	01.09.2012
971	जेसी370502वाइ	सुबेदार	पदम सिंह	01.11.2012
972	जेसी377588एल	सुबेदार	पंचु राम	01.12.2012
973	जेसी372922एक्स	सुबेदार	परमानन्द पंडा	01.01.2013
974	जेसी376240के	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.01.2013
975	जेसी375004डब्ल्यू	सुबेदार	पाटिल विजय सिंग भीम सिंग	01.01.2013
976	जेसी375908डब्ल्यू	सुबेदार	फुल सिंह	01.01.2013
977	जेसी370239वाइ	सुबेदार	प्यार चन्द	01.12.2012
978	जेसी377311एम	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार जैना	01.10.2012
979	जेसी376648एच	सुबेदार	प्रमोद कुमार पाली	01.09.2012
980	जेसी370233एक्स	सुबेदार	प्राणबंधु प्रधान	01.10.2012
981	जेसी375869एच	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.09.2012
982	जेसी376107एफ	सुबेदार	पृथ्वी सिंह	01.10.2012
983	जेसी373253डब्ल्यू	सुबेदार	पी नायक	01.10.2012
984	जेसी376115ए	सुबेदार	आर रवि	01.12.2012
985	जेसी375777डब्ल्यू	सुबेदार	रबीन्द्र प्रसाद	01.01.2013



986	जेसी376715एच	सुबेदार	राधा मोहन सिंह	01.12.2012
987	जेसी377060एन	सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई आर	01.12.2012
988	जेसी374872डब्ल्यू	सुबेदार	राधे लाल	01.10.2012
989	जेसी369594के	सुबेदार	राधे श्याम	01.12.2012
990	जेसी370522एम	सुबेदार	रघुविन्दर सिंह चंदेल	01.09.2012
991	जेसी375846एफ	सुबेदार	राय सिंह	01.11.2012
992	जेसी369269के	सुबेदार	राजा राम	01.01.2013
993	जेसी376498एक्स	सुबेदार	राजन वाइ	01.10.2012
994	जेसी372055वाइ	सुबेदार	राजबीर	01.10.2012
995	जेसी375196वाइ	सुबेदार	राजबीर	01.12.2012
996	जेसी375919एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2012
997	जेसी377123एल	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2012
998	जेसी373256के	सुबेदार	राजेश कुमार	01.11.2012
999	जेसी378127एन	सुबेदार	राजेश कुमार	01.10.2012
1000	जेसी377607एल	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.11.2012
1001	जेसी376088एफ	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.12.2012
1002	जेसी376302वाइ	सुबेदार	राम बृक्ष सिंह यादव	01.01.2013
1003	जेसी375842एल	सुबेदार	राम चंद्रा	01.12.2012
1004	जेसी374935एन	सुबेदार	राम चरण	01.01.2013
1005	जेसी377963एल	सुबेदार	राम दत्त	01.09.2012
1006	जेसी376404पी	सुबेदार	राम कुमार	01.01.2013
1007	जेसी376201एल	सुबेदार	राम निवास वैशनव	01.12.2012
1008	जेसी367956एफ	सुबेदार	राम प्रकाश	01.01.2013
1009	जेसी375448ए	सुबेदार	राम प्रताप तिवारी	01.01.2013
1010	जेसी374092एल	सुबेदार	राम सिंह	01.01.2013
1011	जेसी376211पी	सुबेदार	रमा शंकर यादव	01.09.2012
1012	जेसी376615एक्स	सुबेदार	रामहित	01.09.2012
1013	जेसी373024एल	सुबेदार	रामलाल वर्मा	01.12.2012
1014	जेसी377351एन	सुबेदार	रामलुभईया	01.09.2012
1015	जेसी372923ए	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.01.2013
1016	जेसी375660एक्स	सुबेदार	राश बिहारी सिंह	01.01.2013
1017	जेसी374445ए	सुबेदार	रेवती प्रसाद	01.10.2012
1018	जेसी376497पी	सुबेदार	रोहताश कुमार	01.10.2012
1019	जेसी372925एल	सुबेदार	रोमेश कुमार	01.01.2013
1020	जेसी374043एच	सुबेदार	एस अरोकियादोस	01.11.2012
1021	जेसी375957वाइ	सुबेदार	एस थाम्बी राज	01.10.2012
1022	जेसी376535ए	सुबेदार	साधु राम पुंदीर	01.10.2012
1023	जेसी375840ए	सुबेदार	सागर मल	01.09.2012
1024	जेसी375988वाइ	सुबेदार	शशि एन ए	01.12.2012
1025	जेसी373385के	सुबेदार	एस एवी	01.12.2012
1026	जेसी376352के	सुबेदार	सत पाल	01.01.2013
1027	जेसी377601के	सुबेदार	सतीश चंद्रा यादव	01.10.2012

1028	जेसी374996एल	सुबेदार	सतीश कुमार	01.12.2012
1029	जेसी374787एन	सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.10.2012
1030	जेसी370235एच	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.10.2012
1031	जेसी372015एक्स	सुबेदार	एस लाल	01.10.2012
1032	जेसी376275ए	सुबेदार	शशि कांत ओझा	01.01.2013
1033	जेसी376468एल	सुबेदार	एस शिवाजी नारायण राव	01.10.2012
1034	जेसी375637के	सुबेदार	शीश राम	01.10.2012
1035	जेसी377309पी	सुबेदार	शिव शंकर झा	01.09.2012
1036	जेसी377135ए	सुबेदार	शिवजी तिवारी	01.12.2012
1037	जेसी373390पी	सुबेदार	श्यामल कुमार दास	01.01.2013
1038	जेसी376536एच	सुबेदार	एस कुमार	01.10.2012
1039	जेसी377537एक्स	सुबेदार	एस डगडंग	01.10.2012
1040	जेसी375790ए	सुबेदार	सुबाष कुमार कौशिक	01.11.2012
1041	जेसी375661ए	सुबेदार	सुधीर कुमार बेहेरा	01.01.2013
1042	जेसी376708एम	सुबेदार	सुजान कुमार गरई	01.09.2012
1043	जेसी377610एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.10.2012
1044	जेसी372691एम	सुबेदार	सूरज भान	01.12.2012
1045	जेसी375636एफ	सुबेदार	एस कांत तिवारी	01.10.2012
1046	जेसी373257एम	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार शर्मा	01.01.2013
1047	जेसी376865वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.10.2012
1048	जेसी377244एम	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2013
1049	जेसी369258एक्स	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.10.2012
1050	जेसी376192पी	सुबेदार	स्वामी नाथ सिंह	01.12.2012
1051	जेसी376380डब्ल्यू	सुबेदार	तपन चंद्रा देबनाथ	01.10.2012
1052	जेसी376273पी	सुबेदार	तापश चंद्रा मंडल	01.01.2013
1053	जेसी377538ए	सुबेदार	तारा दत्त	01.12.2012
1054	जेसी376675एम	सुबेदार	उदय शंकर सिंह	01.11.2012
1055	जेसी373712के	सुबेदार	उदयभान सिंह	01.11.2012
1056	जेसी375564एच	सुबेदार	उमा शंकर	01.01.2013
1057	जेसी376681ए	सुबेदार	उमेद सिंह	01.09.2012
1058	जेसी374494एच	सुबेदार	वी वेंकट नगेन्द्रा	01.01.2013
1059	जेसी372599एन	सुबेदार	वेद प्रकाश शर्मा	01.12.2012
1060	जेसी372486एल	सुबेदार	विजय कुमार चौधरी	01.01.2013
1061	जेसी375373एन	सुबेदार	विजय सिंह यादव	01.01.2013
1062	जेसी376910ए	सुबेदार	विजया चंद्रन ए	01.01.2013
1063	जेसी375981पी	सुबेदार	विजेन्द्र कुमार	01.10.2012
1064	जेसी376400वाइ	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.01.2013
1065	जेसी369047पी	सुबेदार	वीरेंद्र प्रसाद	01.01.2013
1066	जेसी376077पी	सुबेदार	वाइ केदार ईश्वर	01.10.2012
1067	जेसी376395वाइ	सुबेदार	यमुना शंकर त्रिवेदी	01.11.2012
1068	जेसी377300ए	सुबेदार	योगेन्द्रा कुमार	01.12.2012
1069	जेसी376216एन	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.01.2013

ब्रिगेड आफ गार्डस

1070	जेसी403487एक्स	सुबेदार	अखलेश कुमार	01.12.2012
1071	जेसी403858पी	सुबेदार	अलोईस. एक्साएक्सा	01.09.2012
1072	जेसी403052पी	सुबेदार	अमर चंद्रा	01.12.2012
1073	जेसी403953एफ	सुबेदार	अमृत नारायण कुमार	01.10.2012
1074	जेसी404046एन	सुबेदार	आनंद पुरी	01.11.2012
1075	जेसी403512एल	सुबेदार	चन्द सिंह	01.10.2012
1076	जेसी403576डब्ल्यू	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.11.2012
1077	जेसी403963एल	सुबेदार	गोमती सिंह	01.11.2012
1078	जेसी404138ए	सुबेदार	गोपी चन्द	01.09.2012
1079	जेसी403199एल	सुबेदार	गुलाब चन्द सिंह यादव	01.01.2013
1080	जेसी403744के	सुबेदार	कुलबीर सिंह	01.12.2012
1081	जेसी403577वाइ	सुबेदार	लक्ष्मी कान्त	01.11.2012
1082	जेसी404231एफ	सुबेदार	मेजार सिंह	01.12.2012
1083	जेसी403312पी	सुबेदार	मनिन्दर सिंह	01.09.2012
1084	जेसी402941ए	सुबेदार	मोहम्मद अजहर अली	01.10.2012
1085	जेसी403839के	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.11.2012
1086	जेसी403930ए	सुबेदार	नरेश सिंह	01.11.2012
1087	जेसी403566एम	सुबेदार	नरपत सिंह	01.11.2012
1088	जेसी403605ए	सुबेदार	नेत्रा पाल	01.12.2012
1089	जेसी403421एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.11.2012
1090	जेसी402875एच	सुबेदार	प्रेम बल्लभ भट्ट	01.12.2012
1091	जेसी403209के	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद चतुर्वेदी	01.10.2012
1092	जेसी403514डब्ल्यू	सुबेदार	राजपाल सिंह चाहर	01.12.2012
1093	जेसी403882एल	सुबेदार	राम निवास	01.11.2012
1094	जेसी403657डब्ल्यू	सुबेदार	राम प्रकाश सिंह यादव	01.09.2012
1095	जेसी403503के	सुबेदार	रनबीर	01.09.2012
1096	जेसी404235एक्स	सुबेदार	रोहिताश यादव	01.10.2012
1097	जेसी403618एक्स	सुबेदार	समय सिंह	01.12.2012
1098	जेसी403741डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह	01.11.2012
1099	जेसी404232के	सुबेदार	शिव दत्ता शर्मा	01.12.2012
1100	जेसी403531डब्ल्यू	सुबेदार	शिव शंकर	01.12.2012
1101	जेसी403586ए	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.12.2012
1102	जेसी403437एम	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.12.2012
1103	जेसी403587एच	सुबेदार	उमा शंकर सिंह	01.11.2012
1104	जेसी403467के	सुबेदार	विजय कुमार शर्मा	01.11.2012
1105	जेसी404256एन	सुबेदार	विरेश कुमार शर्मा	01.12.2012

पैराशूट रेजीमेंट

1106	जेसी413253एफ	सुबेदार	अजमेर सिंह	01.09.2012
1107	जेसी412972एन	सुबेदार	अनूप राय	01.01.2013

1108	जेसी413106वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.11.2012
1109	जेसी413100एक्स	सुबेदार	दीपक सिंह	01.12.2012
1110	जेसी412969एन	सुबेदार	हेम राज	01.12.2012
1111	जेसी412919एच	सुबेदार	जगदीश कुमार	01.10.2012
1112	जेसी412945के	सुबेदार	करतार सिंह	01.11.2012
1113	जेसी413101ए	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.11.2012
1114	जेसी413084एल	सुबेदार	नंदा बल्लभ	01.12.2012
1115	जेसी413046पी	सुबेदार	रबींद्र कुमार	01.10.2012
1116	जेसी412980एम	सुबेदार	राम निवास एस	01.10.2012
1117	जेसी413062एम	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.11.2012
<b>मैकेमाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट</b>				

1118	जेसी420477के	सुबेदार	अजमेर सिंह	01.11.2012
1119	जेसी419466एल	सुबेदार	अखिला कुमार पाती	01.09.2012
1120	जेसी420384पी	सुबेदार	अमर सिंह	01.09.2012
1121	जेसी420516एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.01.2013
1122	जेसी420694ए	सुबेदार	अमर सिंह	01.12.2012
1123	जेसी421124डब्ल्यू	सुबेदार	अमर सिंह रावत	01.11.2012
1124	जेसी420031पी	सुबेदार	अमीन चन्द	01.01.2013
1125	जेसी420350एफ	सुबेदार	अनिल कुमार	01.11.2012
1126	जेसी419518डब्ल्यू	सुबेदार	ए कुमार	01.11.2012
1127	जेसी420213एच	सुबेदार	आशा राम	01.01.2013
1128	जेसी420715एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2013
1129	जेसी419919एल	सुबेदार	बाबू लाल	01.10.2012
1130	जेसी419959एम	सुबेदार	बाबू लाल	01.10.2012
1131	जेसी420594पी	सुबेदार	बाबू राजन के.एस	01.12.2012
1132	जेसी420161एक्स	सुबेदार	बाल बहादुर	01.09.2012
1133	जेसी420208एक्स	सुबेदार	बी सिंह	01.12.2012
1134	जेसी420140एफ	सुबेदार	बसवराज नंदी	01.01.2013
1135	जेसी420195एल	सुबेदार	भरत सिंह	01.10.2012
1136	जेसी420095ए	सुबेदार	भीखम चन्द	01.12.2012
1137	जेसी420664एच	सुबेदार	भूप सिंह	01.10.2012
1138	जेसी419787एच	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.01.2013
1139	जेसी420600एक्स	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.09.2012
1140	जेसी420713ए	सुबेदार	बीर सिंह	01.01.2013
1141	जेसी419942वाइ	सुबेदार	बीरबल सिंह ढाका	01.09.2012
1142	जेसी420568एन	सुबेदार	बुद्धी बहादुर गुरंग	01.12.2012
1143	जेसी420530के	सुबेदार	चनप्पन ए	01.01.2013
1144	जेसी420935पी	सुबेदार	सी त्रिरुपति	01.01.2013
1145	जेसी419893एफ	सुबेदार	कृस्तू दास ए	01.01.2013
1146	जेसी419608एक्स	सुबेदार	दलबीर	01.01.2013
1147	जेसी420668वाइ	सुबेदार	देश राज	01.01.2013

1148	जेसी420216डब्ल्यू	सुबेदार	देवानन्द शर्मा	01.10.2012
1149	जेसी420396के	सुबेदार	धर्मा नन्द भट्ट	01.01.2013
1150	जेसी420043के	सुबेदार	धूप सिंह	01.09.2012
1151	जेसी419936एल	सुबेदार	दिगम्बर सिंह	01.09.2012
1152	जेसी4200663ए	सुबेदार	जी. सिंह	01.10.2012
1153	जेसी419226एन	सुबेदार	गोविंद राम	01.09.2012
1154	जेसी420209ए	सुबेदार	हंस नाथ	01.01.2013
1155	जेसी420534ए	सुबेदार	हरबंस लाल	01.11.2012
1156	जेसी419680एन	सुबेदार	हेम लाल	01.09.2012
1157	जेसी420472एल	सुबेदार	हेम राज	01.09.2012
1158	जेसी420621एन	सुबेदार	हेमा राम जाट	01.10.2012
1159	जेसी420981के	सुबेदार	होम बहादुर थापा	01.01.2013
1160	जेसी420275एच	सुबेदार	होशियार सिंह जेठी	01.01.2013
1161	जेसी420246एन	सुबेदार	इंद्र प्रसाद	01.09.2012
1162	जेसी420457डब्ल्यू	सुबेदार	जगत सिंह	01.01.2013
1163	जेसी420030एम	सुबेदार	जगदीश राम	01.11.2012
1164	जेसी421382डब्ल्यू	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.01.2013
1165	जेसी419938डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.10.2012
1166	जेसी420361एन	सुबेदार	के गोविंद सिंग जी. सिंग	01.11.2012
1167	जेसी419939वाइ	सुबेदार	कमल सिंह	01.10.2012
1168	जेसी420302एफ	सुबेदार	कन्हैया सिंह	01.09.2012
1169	जेसी419619के	सुबेदार	करन सिंह	01.12.2012
1170	जेसी420618एन	सुबेदार	करतार सिंह	01.10.2012
1171	जेसी418790डब्ल्यू	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.11.2012
1172	जेसी420509एफ	सुबेदार	कुलदीप	01.01.2013
1173	जेसी420449एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.12.2012
1174	जेसी420371एक्स	सुबेदार	कुवर पाल सिंह	01.01.2013
1175	जेसी420444वाइ	सुबेदार	लाला राम	01.10.2012
1176	जेसी420637वाइ	सुबेदार	लोटन सिंह	01.10.2012
1177	जेसी420062पी	सुबेदार	मदन लाल	01.10.2012
1178	जेसी420327एन	सुबेदार	मदन सिंह	01.01.2013
1179	जेसी420440एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह राठौर	01.10.2012
1180	जेसी420187एम	सुबेदार	मल्खान सिंह	01.09.2012
1181	जेसी419637एम	सुबेदार	मान मोहन सिंह	01.09.2012
1182	जेसी419510के	सुबेदार	मान सिंह	01.09.2012
1183	जेसी420660एम	सुबेदार	मान सिंह	01.11.2012
1184	जेसी419669पी	सुबेदार	एम तुकाराम एन	01.10.2012
1185	जेसी420336पी	सुबेदार	एम राज सिंह	01.11.2012
1186	जेसी420221एफ	सुबेदार	मोहन सिंह	01.09.2012
1187	जेसी420045पी	सुबेदार	मोनापा पाटिल	01.10.2012
1188	जेसी420317के	सुबेदार	नन्द लाल	01.01.2013
1189	जेसी420251वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.01.2013

1190	जेसी420256एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.01.2013
1191	जेसी420482पी	सुबेदार	प्रभात सिंह	01.11.2012
1192	जेसी420235एफ	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.11.2012
1193	जेसी420613पी	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.11.2012
1194	जेसी420029एक्स	सुबेदार	प्रदीप कुमार जायसवाल	01.01.2013
1195	जेसी419844वाइ	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.01.2013
1196	जेसी420453ए	सुबेदार	पूर्णा सिंह गुरंग	01.12.2012
1197	जेसी420408एन	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.09.2012
1198	जेसी420596ए	सुबेदार	राज किशोर सामल	01.01.2013
1199	जेसी420524डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार	01.11.2012
1200	जेसी420622डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र	01.01.2013
1201	जेसी419534एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.09.2012
1202	जेसी420527के	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.10.2012
1203	जेसी420287एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह पाल	01.11.2012
1204	जेसी420565ए	सुबेदार	राजिन्दर कुमार मेहता	01.10.2012
1205	जेसी420220वाइ	सुबेदार	राजपाल	01.01.2013
1206	जेसी420702एन	सुबेदार	राम चंद्र	01.01.2013
1207	जेसी420420पी	सुबेदार	राम दर्शन शुक्ला	01.10.2012
1208	जेसी420348के	सुबेदार	राम दास शर्मा	01.01.2013
1209	जेसी419866एक्स	सुबेदार	राम किशन	01.11.2012
1210	जेसी420079एच	सुबेदार	राम निवास	01.09.2012
1211	जेसी420514एम	सुबेदार	राम सिंह	01.01.2013
1212	जेसी419909एफ	सुबेदार	रमा शंकर द्विवेदी	01.11.2012
1213	जेसी420342एच	सुबेदार	रमन लाल दयाल	01.09.2012
1214	जेसी420552एच	सुबेदार	रमेश	01.01.2013
1215	जेसी420059पी	सुबेदार	रमेश चन्द	01.01.2013
1216	जेसी419700डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.12.2012
1217	जेसी419573एम	सुबेदार	रमेश कुमार	01.11.2012
1218	जेसी420382के	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.09.2012
1219	जेसी420714एच	सुबेदार	रवि सिंह	01.01.2013
1220	जेसी421301एल	सुबेदार	रविन्द्रन नायर के.एस	01.01.2013
1221	जेसी419743एल	सुबेदार	संतोष कुमार सिंह	01.10.2012
1222	जेसी420107के	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.01.2013
1223	जेसी420466एक्स	सुबेदार	शिकें मोहन बाजीराव	01.12.2012
1224	जेसी420834एफ	सुबेदार	शिव चन्द महतो	01.10.2012
1225	जेसी419830वाइ	सुबेदार	शिवा पुत्रप्पा इराप्पा	01.10.2012
1226	जेसी420072वाइ	सुबेदार	श्याम मोहन	01.09.2012
1227	जेसी420499एच	सुबेदार	सुजीत कुमार पाल	01.01.2013
1228	जेसी420357एल	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.01.2013
1229	जेसी420193ए	सुबेदार	सुखवीर सिंह चौहान	01.01.2013
1230	जेसी420659एक्स	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.10.2012
1231	जेसी420082एच	सुबेदार	सुकराम पाल	01.11.2012

1232	जेसी419715वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2013
1233	जेसी420154एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.11.2012
1234	जेसी420379के	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.01.2013
1235	जेसी420611के	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.11.2012
1236	जेसी420076पी	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.01.2013
1237	जेसी420084एन	सुबेदार	टीकू राम	01.01.2013
1238	जेसी420129एच	सुबेदार	यू सुरेश महादु	01.11.2012
1239	जेसी420442एन	सुबेदार	विद्या लाल	01.12.2012
1240	जेसी419577एच	सुबेदार	वजीर सिंह	01.01.2013
1241	जेसी420412डब्ल्यू	सुबेदार	युमनाम एल सिंह	01.11.2012

पंजाब रेजीमेंट

1242	जेसी429170ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2013
1243	जेसी429058एन	सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2013
1244	जेसी429576एन	सुबेदार	बांके लाल राम	01.09.2012
1245	जेसी430059एच	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.10.2012
1246	जेसी430026एक्स	सुबेदार	चंद्र पाल	01.12.2012
1247	जेसी430152के	सुबेदार	चेत्र सिंह	01.12.2012
1248	जेसी429770एच	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.09.2012
1249	जेसी429406के	सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.10.2012
1250	जेसी429558एक्स	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.01.2013
1251	जेसी430074एक्स	सुबेदार	हंस राज	01.11.2012
1252	जेसी429794एम	सुबेदार	जागीर सिंह	01.09.2012
1253	जेसी429626एन	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.09.2012
1254	जेसी429066एम	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.01.2013
1255	जेसी429250एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2013
1256	जेसी430103एफ	सुबेदार	के राम रेना	01.09.2012
1257	जेसी429695के	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.01.2013
1258	जेसी430118के	सुबेदार	महेर सिंह	01.11.2012
1259	जेसी429097एम	सुबेदार	मान सिंह	01.11.2012
1260	जेसी430128एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.12.2012
1261	जेसी429784एच	सुबेदार	रगबीर सिंह	01.12.2012
1262	जेसी429999एफ	सुबेदार	राज कुमार	01.01.2013
1263	जेसी429835एल	सुबेदार	राज पाल	01.12.2012
1264	जेसी429948एन	सुबेदार	रामपाल सिंह राना	01.09.2012
1265	जेसी429871डब्ल्यू	सुबेदार	रण सिंह	01.01.2013
1266	जेसी429683पी	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.12.2012
1267	जेसी430212एन	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.01.2013
1268	जेसी430231वाइ	सुबेदार	संजीव सरकार	01.10.2012
1269	जेसी429820एच	सुबेदार	सत राम	01.09.2012
1270	जेसी429982एन	सुबेदार	शिव कुमार	01.12.2012
1271	जेसी430142ए	सुबेदार	सिकंदर लाल	01.12.2012

1272	जेसी430104के	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.12.2012
1273	जेसी429997के	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.01.2013
1274	जेसी429860के	सुबेदार	यश पाल सिंह	01.12.2012

मद्रास रेजीमेंट

1275	जेसी439412एल	सुबेदार	बिनय कुमार सिंह	01.10.2012
1276	जेसी439595एम	सुबेदार	बूपालन के	01.11.2012
1277	जेसी439763ए	सुबेदार	गोपाल सी	01.11.2012
1278	जेसी439902एल	सुबेदार	के राजी रेडी	01.12.2012
1279	जेसी439633एम	सुबेदार	कमल सिंह	01.12.2012
1280	जेसी439578एम	सुबेदार	के गरी गंगी रेडी	01.11.2012
1281	जेसी439737वाइ	सुबेदार	एम महाराजन	01.12.2012
1282	जेसी439764एच	सुबेदार	माधवन पीएस	01.12.2012
1283	जेसी439491एल	सुबेदार	महादेव एन	01.12.2012
1284	जेसी439641डब्ल्यू	सुबेदार	मारुति बी राव पी	01.12.2012
1285	जेसी439285एफ	सुबेदार	एन शम्भुगमै	01.09.2012
1286	जेसी440003के	सुबेदार	पी फ्रांसेस जेवियर	01.01.2013
1287	जेसी439368एम	सुबेदार	पी रेड्डीप्पा रेडी	01.01.2013
1288	जेसी439123डब्ल्यू	सुबेदार	आर सगयानाथन	01.11.2012
1289	जेसी439510एल	सुबेदार	राजन पी	01.11.2012
1290	जेसी438974डब्ल्यू	सुबेदार	राजप्पा एसपी	01.09.2012
1291	जेसी439740वाइ	सुबेदार	टी सीता रामुलु	01.11.2012
1292	जेसी439650एस	सुबेदार	एन्नीर्वशन्न पीके	01.01.2013
1293	जेसी439640एन	सुबेदार	वी नरसिम्हा रेडी	01.12.2012

ग्रेनेडियर्स

1294	जेसी450371एम	सुबेदार	दर्शन कुमार	01.01.2013
1295	जेसी450177एच	सुबेदार	धरुव सिंह	01.01.2013
1296	जेसी450461एन	सुबेदार	गोपाल सिंह अत्री	01.01.2013
1297	जेसी448855एन	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.09.2012
1298	जेसी450433एम	सुबेदार	जे सिंह	01.09.2012
1299	जेसी450377एल	सुबेदार	कमलेश पण्डित	01.10.2012
1300	जेसी450377एल	सुबेदार	कर्नल सिंह	01.01.2013
1301	जेसी450377एल	सुबेदार	मान सिंह	01.11.2012
1302	जेसी450377एल	सुबेदार	नरेश कुमार	01.10.2012
1303	जेसी450079एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2012
1304	जेसी449910एल	सुबेदार	पूरन सिंह	01.09.2012
1305	जेसी449878पी	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.09.2012
1306	जेसी449845पी	सुबेदार	आर सिंह	01.01.2013
1307	जेसी450519ए	सुबेदार	सिराजुद्दीन	01.12.2012



मराठा ल सेना

1308	जेसी459370एल	सुबेदार	ए इस्माइल	01.11.2012
1309	जेसी459199एक्स	सुबेदार	अली	01.09.2012
1310	जेसी459742एल	सुबेदार	दीपक जयराम चव्हाण	01.01.2013
1311	जेसी459292वाइ	सुबेदार	गजराज सिंह	01.11.2012
1312	जेसी458728एम	सुबेदार	कुलामनी बिस्वाल	01.09.2012
1313	जेसी459775डब्ल्यू	सुबेदार	कुमार गावडे विथल रामचंद्र	01.11.2012
1314	जेसी459394पी	सुबेदार	लिलाधार नाथ	01.12.2012
1315	जेसी459452एन	सुबेदार	महेर बाबूलाल विठल	01.01.2013
1316	जेसी459468वाइ	सुबेदार	पाटिल बालकृशना सीताराम	01.09.2012
1317	जेसी459588एक्स	सुबेदार	पाटिल गमपति रंगराओ	01.01.2013
1318	जेसी459405डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश बबली गावडे	01.01.2013
1319	जेसी458920डब्ल्यू	सुबेदार	सलीम पीएच	01.09.2012

राजपूताना राईफल्स

1320	जेसी469611एन	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.12.2012
1321	जेसी469728एम	सुबेदार	हेम सिंह	01.09.2012
1322	जेसी470111एच	सुबेदार	नव रतन सिंह तोमर	01.12.2012
1323	जेसी468947एफ	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.12.2012
1324	जेसी470091एफ	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.10.2012
1325	जेसी470138ए	सुबेदार	राज पाल	01.01.2013
1326	जेसी469898डब्ल्यू	सुबेदार	राम लखन सिंह राजोड़	01.01.2013
1327	जेसी470117के	सुबेदार	रतन सिंह	01.01.2013
1328	जेसी469660डब्ल्यू	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.09.2012
1329	जेसी469727के	सुबेदार	वी पाल सिंह	01.09.2012

राजपूत रेजीमेंट

1330	जेसी479553एच	सुबेदार	बिंदा सिंह	01.10.2012
1331	जेसी480099ए	सुबेदार	दया राम	01.09.2012
1332	जेसी479716एल	सुबेदार	जी.यू.जी. संकर	01.09.2012
1333	जेसी479911एच	सुबेदार	हुकम सिंह	01.10.2012
1334	जेसी479518वाइ	सुबेदार	जितेन्द्रा सिंह	01.11.2012
1335	जेसी479761एक्स	सुबेदार	करन सिंह	01.01.2013
1336	जेसी479935एम	सुबेदार	किरण च. दास	01.01.2013
1337	जेसी479809ए	सुबेदार	नगर मल	01.10.2012
1338	जेसी479421पी	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह राजपूत	01.09.2012
1339	जेसी479942एच	सुबेदार	राकेश कुमार	01.10.2012
1340	जेसी480014वाइ	सुबेदार	रति राम	01.12.2012
1341	जेसी480154एल	सुबेदार	शम्भू सिंह राजावत	01.09.2012
1342	जेसी479754एफ	सुबेदार	विशान सिंह भाटी	01.01.2013

जाट रेजीमेंट

1343	जेसी490187के	सुबेदार	दल बीर	01.10.2012
1344	जेसी489729डब्ल्यू	सुबेदार	देवेंदर पाल	01.11.2012
1345	जेसी489580ए	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.11.2012
1346	जेसी489452एच	सुबेदार	हनुमान सिंह	01.09.2012
1347	जेसी489943वाइ	सुबेदार	जगमहेन्द्र	01.10.2012
1348	जेसी489199एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2012
1349	जेसी489890एल	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.10.2012
1350	जेसी490140वाइ	सुबेदार	राम निवास	01.09.2012
1351	जेसी490084एल	सुबेदार	रमन लाल	01.10.2012
1352	जेसी489191ए	सुबेदार	आर सिंह	01.12.2012
1353	जेसी490164एच	सुबेदार	रनवीर सिंह	01.01.2013
1354	जेसी489793एन	सुबेदार	सत्यबीर	01.11.2012
1355	जेसी489955एन	सुबेदार	सत्यवान	01.11.2012
1356	जेसी489846एफ	सुबेदार	सुख लाल	01.09.2012
1357	जेसी489343डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.09.2012
1358	जेसी489530पी	सुबेदार	वजीर सिंह	01.09.2012

सिख लघु पैदल सेना

1359	जेसी509572एल	सुबेदार	अशोक कुमार यादव	01.10.2012
1360	जेसी508523डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.09.2012
1361	जेसी509033पी	सुबेदार	बिकर सिंह	01.10.2012
1362	जेसी509043वाइ	सुबेदार	चन्द सिंह	01.10.2012
1363	जेसी509602एक्स	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.09.2012
1364	जेसी508947एम	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.10.2012
1365	जेसी509496के	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.10.2012
1366	जेसी508875एन	सुबेदार	धर्मवीर सिंह	01.10.2012
1367	जेसी509311एक्स	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.01.2013
1368	जेसी509269के	सुबेदार	हाकम सिंह	01.10.2012
1369	जेसी508842एच	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.09.2012
1370	जेसी509335एफ	सुबेदार	हीरा सिंह	01.12.2012
1371	जेसी509085एल	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.01.2013
1372	जेसी509152एल	सुबेदार	जगतार सिंह	01.09.2012
1373	जेसी509629पी	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.09.2012
1374	जेसी509347डब्ल्यू	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.10.2012
1375	जेसी509415वाइ	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.11.2012
1376	जेसी508879के	सुबेदार	जीवन सिंह	01.10.2012
1377	जेसी509213एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	01.10.2012
1378	जेसी509542एन	सुबेदार	करनैल सिंह	01.01.2013
1379	जेसी508798के	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.09.2012
1380	जेसी508773एक्स	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.10.2012

1381	जेसी508788ए	सुबेदार	मलकियत सिंह	01.10.2012
1382	जेसी508729एन	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.10.2012
1383	जेसी508897एम	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.09.2012
1384	जेसी509282एन	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2012
1385	जेसी508911एन	सुबेदार	मुख्त्यार सिंह	01.09.2012
1386	जेसी508878एफ	सुबेदार	निर्भय सिंह	01.10.2012
1387	जेसी508938एल	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.09.2012
1388	जेसी509092एफ	सुबेदार	राजेंद्रा किशोर सिंह	01.01.2013
1389	जेसी508805पी	सुबेदार	राम सिंह	01.09.2012
1390	जेसी509437एक्स	सुबेदार	राम सिंह	01.09.2012
1391	जेसी509120एच	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.10.2012
1392	जेसी508917पी	सुबेदार	रेशम सिंह	01.10.2012
1393	जेसी508529एक्स	सुबेदार	शेर सिंह	01.10.2012
1394	जेसी509109के	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.01.2013
1395	जेसी508863वाइ	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.09.2012
1396	जेसी509049ए	सुबेदार	तेजपाल	01.01.2013

डोगरा रेजीमेंट

1397	जेसी520417के	सुबेदार	अछार सिंह	01.11.2012
1398	जेसी520239एम	सुबेदार	बालीकरण कुम्हार	01.10.2012
1399	जेसी519768एम	सुबेदार	गोवर्धन सिंह	01.11.2012
1400	जेसी520642वाइ	सुबेदार	हंस राज	01.11.2012
1401	जेसी520723वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
1402	जेसी520385एम	सुबेदार	प्रभाती लाल	01.10.2012
1403	जेसी520106डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश चन्द धीमान	01.11.2012
1404	जेसी520587एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.12.2012
1405	जेसी520356एक्स	सुबेदार	राकेश कुमार	01.11.2012
1406	जेसी520180एक्स	सुबेदार	राकेश सिंह	01.10.2012
1407	जेसी520261एक्स	सुबेदार	शिव कुमार	01.09.2012
1408	जेसी520586एल	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.10.2012
1409	जेसी520815एल	सुबेदार	सुभाष चन्द ठाकुर	01.10.2012
1410	जेसी520871के	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.12.2012
1411	जेसी520222वाइ	सुबेदार	सुखवीर सिंह राठौर	01.10.2012
1412	जेसी520813ए	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.10.2012
1413	जेसी520744पी	सुबेदार	सुरिन्दर पौल	01.12.2012
1414	जेसी520374ए	सुबेदार	सुशील कुमार	01.11.2012

गढ़वाल राईफल्स

1415	जेसी530554डब्ल्यू	सुबेदार	अनिल कुमार	01.11.2012
1416	जेसी530178एन	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.11.2012
1417	जेसी529832एम	सुबेदार	बिजड़ सिंह	01.12.2012
1418	जेसी530427एफ	सुबेदार	चंद्रा मोहन	01.11.2012

1419	जेसी530242ए	सुबेदार	चंद्रा प्रकाश	01.12.2012
1420	जेसी530409वाइ	सुबेदार	धाम सिंह बिस्ट	01.10.2012
1421	जेसी530472एन	सुबेदार	धन सिंह	01.11.2012
1422	जेसी530350के	सुबेदार	दिल सिंह	01.12.2012
1423	जेसी530280डब्ल्यू	सुबेदार	हरी कृष्णाष्णा	01.09.2012
1424	जेसी530106के	सुबेदार	हरी सिंह	01.10.2012
1425	जेसी530330डब्ल्यू	सुबेदार	हरी सिंह	01.10.2012
1426	जेसी530386एच	सुबेदार	जालम सिंह	01.11.2012
1427	जेसी530283के	सुबेदार	जमन सिंह नेगी	01.12.2012
1428	जेसी530768एम	सुबेदार	जीवा नन्द	01.11.2012
1429	जेसी530334एम	सुबेदार	कलाम सिंह	01.01.2013
1430	जेसी530379एम	सुबेदार	खुशाल सिंह	01.10.2012
1431	जेसी530546एक्स	सुबेदार	ललिता प्रसाद	01.10.2012
1432	जेसी530304पी	सुबेदार	मदन सिंह	01.01.2013
1433	जेसी529844एफ	सुबेदार	माधव नन्द	01.11.2012
1434	जेसी530553एन	सुबेदार	महावीर सिंह	01.11.2012
1435	जेसी530582एच	सुबेदार	मंगल सिंह	01.01.2013
1436	जेसी530667वाइ	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.10.2012
1437	जेसी530179डब्ल्यू	सुबेदार	नरोम सिंह	01.11.2012
1438	जेसी530326एन	सुबेदार	पान सिंह	01.10.2012
1439	जेसी530000एक्स	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.11.2012
1440	जेसी530525एफ	सुबेदार	प्यारे लाल	01.11.2012
1441	जेसी530095एच	सुबेदार	राकेश सिंह	01.10.2012
1442	जेसी530428के	सुबेदार	राम चरण सिंह	01.12.2012
1443	जेसी530141एम	सुबेदार	राम कुमार ओ	01.01.2013
1444	जेसी530387एल	सुबेदार	साबर सिंह	01.01.2013
1445	जेसी529668पी	सुबेदार	सम्पत सिंह	01.09.2012
1446	जेसी530169एम	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.11.2012
1447	जेसी529946एक्स	सुबेदार	सुंदर सिंह	01.09.2012
1448	जेसी530613एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा लाल	01.12.2012
1449	जेसी530471एल	सुबेदार	उदय सिंह	01.09.2012
1450	जेसी530475एफ	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार	01.11.2012
1451	जेसी530372एच	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.11.2012

**कुमोउ रेजीमेंट**

1452	जेसी539581एफ	सुबेदार	आनंद सिंह जीना	01.09.2012
1453	जेसी540003वाइ	सुबेदार	ब्रिजेश्वर सिंह	01.01.2013
1454	जेसी539719एल	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.12.2012
1455	जेसी540239एन	सुबेदार	हंसा दत्त	01.10.2012
1456	जेसी539839के	सुबेदार	हर सिंह	01.09.2012
1457	जेसी540099एम	सुबेदार	कुंवर सिंह	01.09.2012
1458	जेसी539907एम	सुबेदार	महताब सिंह	01.12.2012

1459	जेसी539709एफ	सुबेदार	मानबार् सिंह	01.01.2013
1460	जेसी540642ए	सुबेदार	पूरन सिंह	01.12.2012
1461	जेसी539860एम	सुबेदार	रमेश सिंह राठोड़	01.11.2012
1462	जेसी540252एक्स	सुबेदार	शिवेंद्र सिंह	01.11.2012
1463	जेसी540091ए	सुबेदार	तारा सिंह	01.01.2013
1464	जेसी540118एम	सुबेदार	तारा सिंह	01.11.2012

आसाम रेजीमेंट

1465	जेसी549638वाइ	सुबेदार	अतुल चंद्रा बनिया	01.09.2012
1466	जेसी549146ए	सुबेदार	बाकुल चंद्रा सेकिआ	01.12.2012
1467	जेसी549321के	सुबेदार	भुपेन्द्र कुमार सिन्हा	01.12.2012
1468	जेसी549461डब्ल्यू	सुबेदार	बिकेश कुमार नरजारी	01.09.2012
1469	जेसी549519एच	सुबेदार	चंद्रा बहादुर गुरंग	01.09.2012
1470	जेसी549212एक्स	सुबेदार	चरण चंद्रा दास	01.01.2013
1471	जेसी549340पी	सुबेदार	जयबीर	01.01.2013
1472	जेसी549564पी	सुबेदार	जतगन एन	01.11.2012
1473	जेसी549176एक्स	सुबेदार	कैलाश नाथ द्विवेदी	01.10.2012
1474	जेसी549587डब्ल्यू	सुबेदार	के पंसा	01.11.2012
1475	जेसी549300एन	सुबेदार	के अनल	01.01.2013
1476	जेसी548904ए	सुबेदार	एलपी टी	01.12.2012
1477	जेसी549297वाइ	सुबेदार	एम के आर	01.12.2012
1478	जेसी549302वाइ	सुबेदार	नगोमन एन	01.11.2012
1479	जेसी549243एक्स	सुबेदार	नीला कांता डेका	01.10.2012
1480	जेसी549239पी	सुबेदार	पी लौहुवुम	01.11.2012
1481	जेसी549403एम	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार रौय	01.01.2013
1482	जेसी549324एक्स	सुबेदार	रोंगेना कोनलुन अनल	01.01.2013
1483	जेसी549373ए	सुबेदार	समरजीत सिन्हा	01.01.2013
1484	जेसी549138एफ	सुबेदार	उत्तातम सिन्हा	01.09.2012
1485	जेसी549446एफ	सुबेदार	डब्ल्यू वंगसा	01.11.2012

बिहार रेजीमेंट

1486	जेसी559586एफ	सुबेदार	बशीर अहमद ए	01.09.2012
1487	जेसी559815एफ	सुबेदार	बिनय कुमार नायक	01.09.2012
1488	जेसी559687पी	सुबेदार	दयानन्द प्रसाद	01.11.2012
1489	जेसी559048एन	सुबेदार	फराम मुंडा	01.12.2012
1490	जेसी559536डब्ल्यू	सुबेदार	हरिहर प्रसाद राय	01.09.2012
1491	जेसी559455डब्ल्यू	सुबेदार	हीरा लाल यादव	01.11.2012
1492	जेसी559197एफ	सुबेदार	जमादार सोरन	01.10.2012
1493	जेसी559739ए	सुबेदार	ललन यादव	01.01.2013
1494	जेसी559456वाइ	सुबेदार	विद्या नन्द प्रसाद यादव	01.09.2012

महाराष्ट्र रेजीमेंट

1495	जेसी569321एल	सुबेदार	सुरवासे वी लक्ष्मन	01.12.2012
1496	जेसी569514एल	सुबेदार	बक्शीश सिंह	01.09.2012
1497	जेसी569390एफ	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.10.2012
1498	जेसी569517वाइ	सुबेदार	जगताप दत्तू सोपान	01.10.2012
1499	जेसी569256डब्ल्यू	सुबेदार	जंगबीर सिंह	01.12.2012
1500	जेसी568989एच	सुबेदार	जीत सिंह	01.12.2012
1501	जेसी569482एन	सुबेदार	काम्बले शिव एल मानिक	01.12.2012
1502	जेसी569375एम	सुबेदार	लिला धर	01.10.2012
1503	जेसी569336एन	सुबेदार	एन चान्द्राकान्त राजाराम	01.12.2012
1504	जेसी570012पी	सुबेदार	नित्यानंद	01.11.2012
1505	जेसी569788डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.12.2012
1506	जेसी569311एफ	सुबेदार	परगत सिंह	01.12.2012
1507	जेसी569308एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.12.2012
1508	जेसी569300पी	सुबेदार	पुरुषोत्तम सिंह	01.10.2012
1509	जेसी570015एच	सुबेदार	रघुनाथ प्रसाद	01.01.2013
1510	जेसी569942के	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.09.2012
1511	जेसी569943एम	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2012
1512	जेसी569382एच	सुबेदार	सहदेव बाबूराव काते	01.12.2012
1513	जेसी569703पी	सुबेदार	समुद्र सिंह	01.11.2012
1514	जेसी569325एफ	सुबेदार	सतीश कुमार	01.10.2012
1515	जेसी569733एम	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.10.2012
1516	जेसी570311एन	सुबेदार	सत्यपाल	01.09.2012
1517	जेसी569339एफ	सुबेदार	श्रीकांत पाण्डेय	01.09.2012
1518	जेसी569479एन	सुबेदार	सोबन सिंह	01.12.2012
1519	जेसी569018के	सुबेदार	सुभाष शंकर पवार	01.09.2012
1520	जेसी569221ए	सुबेदार	यदू नाथ सिंह	01.09.2012
1521	जेसी569572पी	सुबेदार	यशवंत सिंह भंडारी	01.10.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल

1522	जेसी580015डब्ल्यू	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.10.2012
1523	जेसी580239डब्ल्यू	सुबेदार	दीपक कुमार मल	01.11.2012
1524	जेसी580452डब्ल्यू	सुबेदार	केहर सिंह	01.01.2013
1525	जेसी580001डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर राना	01.09.2012
1526	जेसी580225डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.11.2012
1527	जेसी579905के	सुबेदार	राज कुमार	01.09.2012
1528	जेसी580673एच	सुबेदार	सत पाल सिंह	01.09.2012
1529	जेसी580050वाइ	सुबेदार	शिव दर्शन सिंह	01.09.2012
1530	जेसी580392एम	सुबेदार	सुभाष कुमार	01.09.2012
1531	जेसी580028एन	सुबेदार	सुरेश कुमार थापा	01.11.2012
1532	जेसी580257वाइ	सुबेदार	टाक बहादुर	01.11.2012

1533	जेसी588194एक्स	सुबेदार	तिका राम छत्री	01.11.2012
<u>लद्दाख स्काउट</u>				
1534	जेसी588194डब्ल्यू	सुबेदार	अमर सिंह	01.11.2012
1535	जेसी588193एन	सुबेदार	छेरिंग दोर्जे	01.10.2012
1536	जेसी588311डब्ल्यू	सुबेदार	क्षेवांग मुतुप	01.10.2012
1537	जेसी588271ए	सुबेदार	क्षेवांग चंबा	01.10.2012
1538	जेसी588277एफ	सुबेदार	दोर्जे फुनचोक	01.01.2013
1539	जेसी588215एफ	सुबेदार	केहर सिंह	01.11.2012
1540	जेसी588300के	सुबेदार	कण्णन लाल	01.11.2012
1541	जेसी588253एक्स	सुबेदार	लोबजंग दोर्जे	01.10.2012
1542	जेसी588250के	सुबेदार	मोहम्मद रजा	01.01.2013
1543	जेसी588356डब्ल्यू	सुबेदार	पी दावा	01.09.2012
1544	जेसी58822एक्स	सुबेदार	पशोत्तम लाल शर्मा	01.12.2012
1545	जेसी588177डब्ल्यू	सुबेदार	पी नमगेल	01.11.2012
1546	जेसी588243एन	सुबेदार	शाम लाल	01.11.2012
1547	जेसी588263एफ	सुबेदार	एस दोर्जे	01.09.2012
1548	जेसी588270एक्स	सुबेदार	सोन्म पी	01.01.2013
1549	जेसी588192एल	सुबेदार	ताशी अंगमीक	01.10.2012
1550	जेसी588204एक्स	सुबेदार	ताशी अंगमीक	01.12.2012
1551	जेसी588355एन	सुबेदार	ताशी अंगमू	01.10.2012
1552	जेसी588335ए	सुबेदार	टी सन्तूमा	01.10.2012
1553	जेसी588334एक्स	सुबेदार	तेरिंग मुल्लम	01.10.2012
1554	जेसी588223ए	सुबेदार	विजय सिंह ज्योतीतिया	01.12.2012

नागा रेजीमेंट

1555	जेसी590169डब्ल्यू	सुबेदार	के हिप्पूमी सोमा	01.10.2012
1556	जेसी590184एल	सुबेदार	मुन्ना सिंह तल्लमा	01.11.2012

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

1557	जेसी593246एल	सुबेदार	अब गनी नाट	01.01.2013
1558	जेसी593363डब्ल्यू	सुबेदार	अब्दुल सकार नाजार	01.11.2012
1559	जेसी593418पी	सुबेदार	चैन सिंह	01.12.2012
1560	जेसी592949ए	सुबेदार	चमन लाल	01.11.2012
1561	जेसी593070एल	सुबेदार	चमन लाल	01.11.2012
1562	जेसी593185वाइ	सुबेदार	गहारा लाल	01.12.2012
1563	जेसी593391एच	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.01.2013
1564	जेसी593680एक्स	सुबेदार	हक एन	01.11.2012
1565	जेसी592755एक्स	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.10.2012
1566	जेसी593094पी	सुबेदार	जगदीश लाल	01.12.2012
1567	जेसी593081एक्स	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.12.2012
1568	जेसी593405एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2012

1569	जेसी593265डब्ल्यू	सुबेदार	कमल जीत सिंह	01.11.2012
1570	जेसी593233एन	सुबेदार	केवल सिंह	01.12.2012
1571	जेसी593449पी	सुबेदार	कुलदीप राज	01.12.2012
1572	जेसी593448एम	सुबेदार	मोहम्मद अकबर गनई	01.11.2012
1573	जेसी593212एक्स	सुबेदार	मोहम्मद असगर	01.11.2012
1574	जेसी593674के	सुबेदार	मोहम्मद इशफाक	01.11.2012
1575	जेसी593043एफ	सुबेदार	मोहम्मद सादिक	01.11.2012
1576	जेसी593339ए	सुबेदार	नारायण दत्ता	01.11.2012
1577	जेसी593607वाइ	सुबेदार	नसीब सिंह	01.10.2012
1578	जेसी593643के	सुबेदार	नसरीन अहमद मीर	01.01.2013
1579	जेसी593044के	सुबेदार	नाथू राम	01.11.2012
1580	जेसी593222एफ	सुबेदार	ओमकार सिंह	01.12.2012
1581	जेसी593006एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.11.2012
1582	जेसी593135एन	सुबेदार	पवन कुमार	01.12.2012
1583	जेसी593346डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.11.2012
1584	जेसी593296डब्ल्यू	सुबेदार	पी लाल	01.01.2013
1585	जेसी593617एच	सुबेदार	रहमतुल्लाह खान	01.11.2012
1586	जेसी593193एक्स	सुबेदार	राज कुमार	01.11.2012
1587	जेसी593257एक्स	सुबेदार	राजेश कुमार	01.09.2012
1588	जेसी593718डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.11.2012
1589	जेसी593305एम	सुबेदार	राम लाल शर्मा	01.12.2012
1590	जेसी592992एफ	सुबेदार	रमेश सिंह	01.10.2012
1591	जेसी593867के	सुबेदार	ऋषी कुमार	01.01.2013
1592	जेसी593245एच	सुबेदार	रोमेश चंद्र	01.12.2012
1593	जेसी593016एक्स	सुबेदार	आर पाल सिंह चौहान	01.12.2012
1594	जेसी592634डब्ल्यू	सुबेदार	सत पाल	01.11.2012
1595	जेसी593005एल	सुबेदार	शबीर अहमद	01.11.2012
1596	जेसी593264एन	सुबेदार	शान्ति सरूप	01.11.2012
1597	जेसी593342ए	सुबेदार	सुबाष चंद्र	01.12.2012
1598	जेसी593071एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.11.2012
1599	जेसी592624एम	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2012
1600	जेसी593220डब्ल्यू	सुबेदार	तारिक मेहमूद	01.11.2012
1601	जेसी593340पी	सुबेदार	विजय कुमार	01.11.2012
1602	जेसी593638वाइ	सुबेदार	यश पौल	01.01.2013
1603	जेसी593167डब्ल्यू	सुबेदार	जाफर इकबाल	01.11.2012

#### 1 गोरखा राईफल्स

1604	जेसी602653एक्स	सुबेदार	ए गुरंग	01.11.2012
1605	जेसी602674एन	सुबेदार	भागी मान गुरंग	01.01.2013
1606	जेसी602597के	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.01.2013
1607	जेसी602662वाइ	सुबेदार	बीर बहादुर गुरंग	01.09.2012
1608	जेसी602685ए	सुबेदार	चर्का बहादुर राना	01.01.2013



1609	जेसी602781पी	सुबेदार	चर्का बहादुर थापा	01.10.2012
1610	जेसी602681के	सुबेदार	गगन सिंह थापा मगर	01.10.2012
1611	जेसी602675डब्ल्यू	सुबेदार	हीरा बहादुर थापा	01.01.2013
1612	जेसी602742डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.11.2012
1613	जेसी602661डब्ल्यू	सुबेदार	जीत बहादुर थापा	01.10.2012
1614	जेसी602709वाइ	सुबेदार	कुम बहादुर थापा	01.09.2012
1615	जेसी602650के	सुबेदार	लाल बहादुर गुरंग	01.09.2012
1616	जेसी602690एल	सुबेदार	मलिखान सिंह	01.09.2012
1617	जेसी602651एम	सुबेदार	मनोज कुमार श्रेष्ठा	01.12.2012
1618	जेसी602630डब्ल्यू	सुबेदार	मेख बहादुर थापा	01.09.2012
1619	जेसी602715एम	सुबेदार	न प्रसाद पुन	01.01.2013
1620	जेसी602541एक्स	सुबेदार	नगेन्द्रा माल	01.12.2012
1621	जेसी602560एच	सुबेदार	निरंजन थापा	01.12.2012
1622	जेसी602652पी	सुबेदार	आरयूके बहादुर गुरंग	01.09.2012
1623	जेसी602668ए	सुबेदार	संजय कुमार गुरंग	01.12.2012
1624	जेसी602592एल	सुबेदार	दुल बहादुर थापा	01.12.2012

3 गोरखा राईफल्स

1625	जेसी607592पी	सुबेदार	अएता मान गुरंग	01.11.2012
1626	जेसी607624एम	सुबेदार	धन प्रसाद पुन	01.01.2013
1627	जेसी607551एल	सुबेदार	मान बहादुर थापा	01.11.2012
1628	जेसी607714एन	सुबेदार	नरेश कुमार गुरंग	01.09.2012
1629	जेसी607585वाइ	सुबेदार	पीएएम बहादुर गुरंग	01.09.2012
1630	जेसी607633एन	सुबेदार	राम धनी यादव	01.09.2012
1631	जेसी607636एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह पुंदीर	01.09.2012
1632	जेसी607536डब्ल्यू	सुबेदार	टी बहादुर रोका	01.12.2012

4 गोरखा राईफल्स

1633	जेसी612542एन	सुबेदार	बुद्धीमान गुरंग	01.09.2012
1634	जेसी612563के	सुबेदार	हुम बहादुर गुरंग	01.12.2012
1635	जेसी612651ए	सुबेदार	माह बहादुर गुरंग	01.09.2012
1636	जेसी612540एच	सुबेदार	मिंगमा टी शेरपा	01.01.2013
1637	जेसी612583एक्स	सुबेदार	पितांबर अले	01.10.2012
1638	जेसी612560डब्ल्यू	सुबेदार	रेशम बहादुर थापा	01.11.2012
1639	जेसी612482के	सुबेदार	टाम बहादुर गुरंग	01.11.2012
1640	जेसी612575वाइ	सुबेदार	विजय गुरंग	01.12.2012

5 गोरखा राईफल्स

1641	जेसी617702एम	सुबेदार	बुधी प्रसाद गुरंग	01.12.2012
1642	जेसी617700एफ	सुबेदार	दान बहादुर सिंह	01.09.2012
1643	जेसी617765एफ	सुबेदार	देब बहादुर मगर	01.09.2012
1644	जेसी617699एक्स	सुबेदार	दिल बहादुर गुरंग	01.09.2012

1645	जेसी617688एल	सुबेदार	दुर्गा बहादुर गुरंग	01.12.2012
1646	जेसी617701के	सुबेदार	इन्द्रा बहादुर थापा	01.11.2012
1647	जेसी617660एल	सुबेदार	कल्याण गुरंग	01.01.2013
1648	जेसी617812एफ	सुबेदार	एम बहादुर पुन	01.01.2013
1649	जेसी617716एम	सुबेदार	आर बहादुर गुरंग	01.12.2012
1650	जेसी617795एम	सुबेदार	तेज बहादुर कचमचा	01.11.2012
1651	जेसी617799एच	सुबेदार	तोप बहादुर थापा	01.11.2012
1652	जेसी617687एच	सुबेदार	विजय गुरंग	01.12.2012

## 8 गोरखा राईफल्स

1653	जेसी623571एच	सुबेदार	बाल बहादुर अले	01.11.2012
1654	जेसी623588के	सुबेदार	चंद्रा मान गुरंग	01.01.2013
1655	जेसी623728एक्स	सुबेदार	गम बहादुर गुरंग	01.01.2013
1656	जेसी623583एक्स	सुबेदार	होम बहादुर गुरंग	01.10.2012
1657	जेसी623557डब्ल्यू	सुबेदार	नंदा लाल गुरंग	01.09.2012
1658	जेसी623752एन	सुबेदार	पुशकर चन्द	01.10.2012
1659	जेसी623765एल	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह थापा	01.10.2012
1660	जेसी623703एल	सुबेदार	थम बहादुर गुरंग	01.10.2012
1661	जेसी530646एच	सुबेदार	विनोद सिंह	01.01.2013

## 9 गोरखा राईफल्स

1662	जेसी629454एन	सुबेदार	अर्जुन बहादुर थापा	01.12.2012
1663	जेसी629741एक्स	सुबेदार	अशोक बहादुर खत्री छत्री	01.01.2013
1664	जेसी629736एम	सुबेदार	बसंत बहादुर बनिया	01.09.2012
1665	जेसी629702वाइ	सुबेदार	बिशू बहादुर छत्री	01.09.2012
1666	जेसी629726एच	सुबेदार	बिसनु बहादुर शाही	01.10.2012
1667	जेसी629738एक्स	सुबेदार	चंद्रा बहादुर माल	01.11.2012
1668	जेसी629752के	सुबेदार	चेत बहादुर थापा	01.11.2012
1669	जेसी629840ए	सुबेदार	दान बहादुर छत्री	01.09.2012
1670	जेसी629814वाइ	सुबेदार	देव बहादुर माल	01.11.2012
1671	जेसी629704के	सुबेदार	डी. बहादुर रिमल	01.11.2012
1672	जेसी629784एम	सुबेदार	गम बहादुर मल्ला	01.09.2012
1673	जेसी629737पी	सुबेदार	गोविंद बहादुर छत्री	01.10.2012
1674	जेसी629739ए	सुबेदार	हुम बहादुर राय माझी	01.11.2012
1675	जेसी629852पी	सुबेदार	इन्द्रा कुमार थापा	01.12.2012
1676	जेसी629755एक्स	सुबेदार	जे बहादुर बसनत	01.01.2013
1677	जेसी629620डब्ल्यू	सुबेदार	खेम बहादुर केसी	01.11.2012
1678	जेसी629839एल	सुबेदार	लक्ष्मन पराजुली	01.09.2012
1679	जेसी629729डब्ल्यू	सुबेदार	महेन्द्र बहादुर मल्ला	01.10.2012
1680	जेसी629884एक्स	सुबेदार	मुकित बहादुर केसी	01.01.2013
1681	जेसी629845वाइ	सुबेदार	प्रेम बहादुर शाही	01.12.2012
1682	जेसी629740पी	सुबेदार	राम बहादुर भंडारी	01.11.2012

1683	जेसी629751एफ	सुबेदार	रेशम बहादुर बसनत	01.09.2012
1684	जेसी629787ए	सुबेदार	टेक बहादुर थापा	01.09.2012
11 गोरखा राईफल्स				
1685	जेसी634487एल	सुबेदार	बिंदा प्रसाद राय	01.12.2012
1686	जेसी634425एच	सुबेदार	बिशू सज राय	01.12.2012
1687	जेसी634656वाइ	सुबेदार	बिश्व राज एफ	01.01.2013
1688	जेसी634733एच	सुबेदार	बोली राज एस	01.11.2012
1689	जेसी634757एम	सुबेदार	चंद्रा प्रसाद टी	01.09.2012
1690	जेसी634665ए	सुबेदार	धन राज जिम्बू	01.11.2012
1691	जेसी634870एल	सुबेदार	दिप्ती प्रसाद राय	01.12.2012
1692	जेसी634669डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश चंद्र राय	01.12.2012
1693	जेसी634761पी	सुबेदार	करुण बहादुर प्रधान	01.11.2012
1694	जेसी634634ए	सुबेदार	कृष्ण राय	01.01.2013
1695	जेसी634719डब्ल्यू	सुबेदार	कुल बहादुर तमंग	01.01.2013
1696	जेसी634628एम	सुबेदार	लाल बहादुर राय	01.01.2013
1697	जेसी634627के	सुबेदार	लक्ष्मी बहादुर	01.11.2012
1698	जेसी634762एक्स	सुबेदार	लोक बहादुर	01.12.2012
1699	जेसी634590एन	सुबेदार	मिलन तमंग	01.01.2013
1700	जेसी634712एम	सुबेदार	नैना लाल राय	01.12.2012
1701	जेसी634734एल	सुबेदार	प्रधान राय	01.10.2012
1702	जेसी634582पी	सुबेदार	प्रेम बहादुर जिम्बू	01.01.2013
1703	जेसी634616एक्स	सुबेदार	पूरन राय	01.11.2012
1704	जेसी634614एम	सुबेदार	राम कुमार राय, एसएम	01.01.2013
1705	जेसी634547एम	सुबेदार	रण बहादुर जिम्बू	01.11.2012
1706	जेसी634800एच	सुबेदार	श्याम कुमार राय	01.12.2012
1707	जेसी634780ए	सुबेदार	सुभा राज राय	01.12.2012
1708	जेसी634717एल	सुबेदार	तिका बहादुर थापा	01.09.2012
सेना सेवा कोर दक्षिण				

1709	जेसी664318डब्ल्यू	सुबेदार	ए जॉनसन	01.12.2012
1710	जेसी665009ए	सुबेदार	अभिजीत घोष	01.12.2012
1711	जेसी641709पी	सुबेदार	अभिजित सिंह	01.01.2013
1712	जेसी664707डब्ल्यू	सुबेदार	अक्षया कुमार	01.01.2013
1713	जेसी643005के	सुबेदार	अमल कुमार बागची	01.10.2012
1714	जेसी642024एच	सुबेदार	अमीर हक	01.10.2012
1715	जेसी642350एल	सुबेदार	अनंद बहादुर जेसी	01.11.2012
1716	जेसी642351एम	सुबेदार	अनंद राय	01.10.2012
1717	जेसी642352एच	सुबेदार	ए कुमार जिम्बू	01.10.2012
1718	जेसी642353के	सुबेदार	अनिल सिंह	01.11.2012
1719	जेसी642354ए	सुबेदार	अनिल राय	01.01.2013
1720	जेसी663834वाइ	सुबेदार	अनिल प्रधान	01.10.2012

1721	जेसी663170ए	सुबेदार	अरुण कुमार	01.11.2012
1722	जेसी664679पी	सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.01.2013
1723	जेसी663572एन	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.11.2012
1724	जेसी664122एच	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.11.2012
1725	जेसी663701एच	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2012
1726	जेसी642767एल	सुबेदार	अशोक कुमार तिवारी	01.09.2012
1727	जेसी643105पी	सुबेदार	अशवनी कुमार	01.10.2012
1728	जेसी664936एफ	सुबेदार	असविनी तालुकदार	01.11.2012
1729	जेसी642841एफ	सुबेदार	अवध राज शर्मा	01.09.2012
1730	जेसी664259पी	सुबेदार	बदन सिंह	01.10.2012
1731	जेसी663175पी	सुबेदार	बाल राम	01.10.2012
1732	जेसी643007पी	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.10.2012
1733	जेसी663429एफ	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.11.2011
1734	जेसी663349के	सुबेदार	बाने सिंह मालवीय	01.10.2012
1735	जेसी663389एल	सुबेदार	बसंता कुमार मिश्रा	01.10.2012
1736	जेसी663772के	सुबेदार	भगवान भगत	01.01.2013
1737	जेसी642080एफ	सुबेदार	भूपेन्द्र कुशवाहा	01.11.2012
1738	जेसी663399पी	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.10.2012
1739	जेसी663895डब्ल्यू	सुबेदार	बिजय कुमार रौय	01.01.2013
1740	जेसी663533पी	सुबेदार	बिमल चंद्रा बरुयह	01.09.2012
1741	जेसी664162के	सुबेदार	बीरबल सिंह	01.10.2012
1742	जेसी641581पी	सुबेदार	बीरी सिंह	01.01.2013
1743	जेसी663475डब्ल्यू	सुबेदार	बिशन सिंह	01.10.2012
1744	जेसी664317एन	सुबेदार	ब्रज किशोर साहू	01.10.2012
1745	जेसी663748एन	सुबेदार	ब्रजपाल सिंह	01.01.2013
1746	जेसी664622ए	सुबेदार	बी प्रधान	01.11.2012
1747	जेसी663729एच	सुबेदार	चंद्र मोहन	01.12.2012
1748	जेसी664204एल	सुबेदार	चंद्रा भान	01.01.2013
1749	जेसी680392एफ	सुबेदार	चंद्रा भान यादव	01.09.2012
1750	जेसी641729एच	सुबेदार	दल चन्द	01.01.2013
1751	जेसी664590एच	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.12.2012
1752	जेसी664069एच	सुबेदार	देश राज वर्मा	01.11.2012
1753	जेसी640134वाइ	सुबेदार	देवानंद दिवेदी	01.11.2012
1754	जेसी643213वाइ	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार	01.10.2012
1755	जेसी663539डब्ल्यू	सुबेदार	देवी सिंह	01.10.2012
1756	जेसी663227ए	सुबेदार	धनी राम	01.10.2012
1757	जेसी663601एक्स	सुबेदार	धीर सिंह	01.12.2012
1758	जेसी663749डब्ल्यू	सुबेदार	ध्रुव सिंह	01.01.2013
1759	जेसी663434एच	सुबेदार	गंगा राम	01.12.2012
1760	जेसी665045एल	सुबेदार	घनशाम यादव	01.01.2013
1761	जेसी663315डब्ल्यू	सुबेदार	गिरधर कुशवाहा	01.12.2012
1762	जेसी642845एक्स	सुबेदार	गोपाल कृष्णन नायर वी	01.10.2012

1763	जेसी643026ए	सुबेदार	गोपीनाथन पिल्लई जी.	01.10.2012
1764	जेसी663390ए	सुबेदार	गौरांग चरण साहू	01.10.2012
1765	जेसी664476एल	सुबेदार	जी. नाथ	01.01.2013
1766	जेसी642950एन	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.09.2012
1767	जेसी664959एच	सुबेदार	हरी कुमार पीवी	01.01.2013
1768	जेसी642864एच	सुबेदार	हरी नंदन रौय	01.10.2012
1769	जेसी664326पी	सुबेदार	हरी सिंह	01.01.2013
1770	जेसी664967एफ	सुबेदार	हरी सिंह	01.12.2012
1771	जेसी642470के	सुबेदार	एच सिंह	01.10.2012
1772	जेसी663394डब्ल्यू	सुबेदार	एच हासन एस	01.01.2013
1773	जेसी641559के	सुबेदार	हुकम सिंह	01.10.2012
1774	जेसी643139एच	सुबेदार	इशाम सिंह चौधरी	01.01.2013
1775	जेसी663057एफ	सुबेदार	इस्लाम खान	01.12.2012
1776	जेसी663498एक्स	सुबेदार	इस्लाम मोहम्मद	01.10.2012
1777	जेसी663753वाइ	सुबेदार	जगदीश चन्द	01.01.2013
1778	जेसी663319एम	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.10.2012
1779	जेसी643137एक्स	सुबेदार	जगदीश सिंह धपोला	01.01.2013
1780	जेसी663351एफ	सुबेदार	जगराम सिंह	01.12.2012
1781	जेसी663746एच	सुबेदार	जय कुमार सिंह	01.01.2013
1782	जेसी641713एक्स	सुबेदार	जय पाल सिंह	01.10.2012
1783	जेसी663537एल	सुबेदार	जय प्रकाश	01.12.2012
1784	जेसी641934के	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह कुशवाहा	01.12.2012
1785	जेसी663309एच	सुबेदार	जयनारायण	01.09.2012
1786	जेसी643216एम	सुबेदार	जीव धारी सिंह यादव	01.11.2012
1787	जेसी643151के	सुबेदार	जुगेन्द्र सिंह तोमर	01.09.2012
1788	जेसी665182के	सुबेदार	के श्रीनिवासुलु	01.01.2013
1789	जेसी664687एन	सुबेदार	काले एस किसान	01.12.2012
1790	जेसी663484एक्स	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.12.2012
1791	जेसी642867डब्ल्यू	सुबेदार	कमल कुमार रौय	01.10.2012
1792	जेसी664930ए	सुबेदार	कमल मंडल	01.11.2012
1793	जेसी641471ए	सुबेदार	कानन्न एस	01.12.2012
1794	जेसी663457एन	सुबेदार	के नन्द जोशी	01.10.2012
1795	जेसी664397डब्ल्यू	सुबेदार	केदार नाथ चौधरी	01.12.2012
1796	जेसी641743पी	सुबेदार	केदार नाथ सिंह	01.01.2013
1797	जेसी643001एन	सुबेदार	केशव दयाल	01.10.2012
1798	जेसी663602ए	सुबेदार	केशव दत्त	01.10.2012
1799	जेसी642100के	सुबेदार	किशोर चन्द	01.01.2013
1800	जेसी643131डब्ल्यू	सुबेदार	किशोर चंद्रा दकुआ	01.10.2012
1801	जेसी663356ए	सुबेदार	कष्णन पाल	01.12.2012
1802	जेसी663311ए	सुबेदार	कष्णन प्रसाद	01.10.2012
1803	जेसी643133एफ	सुबेदार	कृष्णा दत्त	01.12.2012
1804	जेसी643098के	सुबेदार	कुदूस अंसारी	01.11.2012

1805	जेसी663485ए	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.10.2012
1806	जेसी663743पी	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह खेरियत	01.01.2013
1807	जेसी641553एच	सुबेदार	लाल सिंह	01.12.2012
1808	जेसी642871वाइ	सुबेदार	मदन प्रसाद सिंह यादव	01.10.2012
1809	जेसी663623डब्ल्यू	सुबेदार	मधु सूदन कर्माकर	01.12.2012
1810	जेसी643134के	सुबेदार	महेंद्र कुमार	01.12.2012
1811	जेसी663587डब्ल्यू	सुबेदार	महेश्वर मिश्रा	01.01.2013
1812	जेसी665011ए	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.01.2013
1813	जेसी663277एल	सुबेदार	मान पाल सिंह	01.01.2013
1814	जेसी643103के	सुबेदार	मनोहरन पिल्लई जी.	01.12.2012
1815	जेसी663971एक्स	सुबेदार	मनोरंजन सोखंती	01.01.2013
1816	जेसी641593के	सुबेदार	मोहम्मद एस खल्लाह	01.01.2013
1817	जेसी642046एफ	सुबेदार	मोहन दास खी	01.09.2012
1818	जेसी663162एक्स	सुबेदार	मोहन लाल	01.12.2012
1819	जेसी641735डब्ल्यू	सुबेदार	एम एस जीवा	01.09.2012
1820	जेसी643008एक्स	सुबेदार	मोहम्मद आर	01.10.2012
1821	जेसी664142डब्ल्यू	सुबेदार	मुनेनदर सिंह	01.10.2012
1822	जेसी642293पी	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.11.2012
1823	जेसी664541ए	सुबेदार	मुरलीधर साहू	01.01.2013
1824	जेसी663477एफ	सुबेदार	नमो नारायण त्रिपाठी	01.12.2012
1825	जेसी664677के	सुबेदार	नारायण लाल रेगार	01.01.2013
1826	जेसी663310एक्स	सुबेदार	नारायण सिंह मेहरा	01.10.2012
1827	जेसी643152एम	सुबेदार	नरदेव सुयल	01.01.2013
1828	जेसी663752डब्ल्यू	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार फंडा	01.01.2013
1829	जेसी642738डब्ल्यू	सुबेदार	नरेश चन्द स्थांगी	01.09.2012
1830	जेसी642546वाइ	सुबेदार	नेगी राकेश मंगल सिंह	01.12.2012
1831	जेसी641468ए	सुबेदार	नेकी राम शर्मा	01.11.2012
1832	जेसी663673एफ	सुबेदार	निहाल सिंह	01.01.2013
1833	जेसी663696एच	सुबेदार	निशी कुमार दास	01.12.2012
1834	जेसी663625एफ	सुबेदार	पवन सिंह राना	01.12.2012
1835	जेसी643006एम	सुबेदार	प्रबल सिंह	01.10.2012
1836	जेसी664112वाइ	सुबेदार	प्रभु नाथ चौधरी	01.10.2012
1837	जेसी643214एफ	सुबेदार	प्रदीप सिंह	01.12.2012
1838	जेसी642997वाइ	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा यादव	01.10.2012
1839	जेसी663745ए	सुबेदार	प्रकाश कुमार दास	01.01.2013
1840	जेसी663432एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.12.2012
1841	जेसी664207वाइ	सुबेदार	प्रीतम सिंह राना	01.10.2012
1842	जेसी663230ए	सुबेदार	पूरन लाल	01.10.2012
1843	जेसी664684ए	सुबेदार	पूरन प्रसाद	01.12.2012
1844	जेसी641687एफ	सुबेदार	पूरन सिंह	01.10.2012
1845	जेसी664185एल	सुबेदार	रघुनाथन नायर एम आर	01.09.2012
1846	जेसी663352के	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.12.2012

1847	जेसी641897एल	सुबेदार	राज करन पटेल	01.11.2012
1848	जेसी641897एफ	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.10.2012
1849	जेसी641462वाइ	सुबेदार	राज पाल	01.11.2012
1850	जेसी642840वाइ	सुबेदार	राजवीर सिंह यादव	01.09.2012
1851	जेसी663404पी	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.10.2012
1852	जेसी663706एफ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.12.2012
1853	जेसी663479एम	सुबेदार	राजू एम	01.12.2012
1854	जेसी663164एन	सुबेदार	राजवीर	01.11.2012
1855	जेसी663391एच	सुबेदार	राजविन्दर पाल सिंह	01.10.2012
1856	जेसी663357एम	सुबेदार	राक्ष पाल सिंह	01.12.2012
1857	जेसी664708वाइ	सुबेदार	राम बहादुर	01.12.2012
1858	जेसी663736वाइ	सुबेदार	राम चंद्र	01.01.2013
1859	जेसी664160वाइ	सुबेदार	राम सी. शर्मा	01.11.2012
1860	जेसी6632739वाइ	सुबेदार	राम कुंवर	01.10.2012
1861	जेसी663766डब्ल्यू	सुबेदार	राम एम. यादव	01.10.2012
1862	जेसी641566ए	सुबेदार	राम निरंजन	01.10.2012
1863	जेसी643094एन	सुबेदार	राम पाल सिंह	01.11.2012
1864	जेसी663476वाइ	सुबेदार	राम प्रकाश	01.12.2012
1865	जेसी664127एफ	सुबेदार	राम पुष्कर पाल	01.12.2012
1866	जेसी663597ए	सुबेदार	राम सागर सिंह	01.12.2012
1867	जेसी663480एफ	सुबेदार	राम आ. शर्मा	01.12.2013
1868	जेसी663314एन	सुबेदार	रामेन चंद्र यादव	01.11.2012
1869	जेसी663540एल	सुबेदार	रमेश चंद्र यादव	01.10.2012
1870	जेसी641412एन	सुबेदार	रनवीर सिंह	01.01.2013
1871	जेसी642954के	सुबेदार	रतन चंद्र पौल	01.10.2012
1872	जेसी642811के	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.10.2012
1873	जेसी642877ए	सुबेदार	रोशन लाल	01.11.2012
1874	जेसी643154एक्स	सुबेदार	साही रमेश	01.01.2013
1875	जेसी643095डब्ल्यू	सुबेदार	शक्ति चंद्र मोहन	01.11.2012
1876	जेसी643100डब्ल्यू	सुबेदार	सरदार सिद्धिन्माटी	01.11.2012
1877	जेसी664504एम	सुबेदार	सरजिन्दर सिंह	01.10.2012
1878	जेसी663574वाइ	सुबेदार	सत पौल	01.10.2012
1879	जेसी663312एच	सुबेदार	सतीश चन्द्र शर्मा	01.10.2012
1880	जेसी642357पी	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.01.2013
1881	जेसी663683एल	सुबेदार	सत्यपाल सिंह चौहान	01.12.2012
1882	जेसी663628पी	सुबेदार	सत्यवीर यादव	01.12.2012
1883	जेसी664388पी	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.12.2012
1884	जेसी643091ए	सुबेदार	शेख एस युसुफ	01.10.2012
1885	जेसी664396एन	सुबेदार	शम्भू चौधरी	01.12.2012
1886	जेसी663869पी	सुबेदार	शिबा प्रसाद सिंह महापात्रा	01.11.2012
1887	जेसी664941एम	सुबेदार	शिव लाल	01.01.2013
1888	जेसी662997ए	सुबेदार	शिव नंदन शर्मा	01.10.2012

1889	जेसी642553पी	सुबेदार	शिव सागर पांडे	01.12.2012
1890	जेसी664026एन	सुबेदार	शिवा कांत	01.12.2012
1891	जेसी642472पी	सुबेदार	शिवप्पा एस ए	01.12.2012
1892	जेसी663996के	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.11.2012
1893	जेसी663507एन	सुबेदार	सीता राम सिंह	01.12.2012
1894	जेसी641579एक्स	सुबेदार	सोहन लाल	01.01.2013
1895	जेसी642866एन	सुबेदार	श्रीनिवासुलु एस	01.10.2012
1896	जेसी642097पी	सुबेदार	सुभाष चंद्रा शर्मा	01.09.2012
1897	जेसी663056वाइ	सुबेदार	शुभ्रा विश्वास	01.10.2012
1898	जेसी470043ए	सुबेदार	सुधीर कुमार गौतम	01.09.2012
1899	जेसी663671डब्ल्यू	सुबेदार	सुकदेव सिंह	01.01.2013
1900	जेसी664321डब्ल्यू	सुबेदार	सुख पाल	01.01.2013
1901	जेसी663626के	सुबेदार	सुरेन्द्रा पांडे	01.12.2012
1902	जेसी680414पी	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.10.2012
1903	जेसी663327एल	सुबेदार	सुरेश चंद्रा बेहेरा	01.09.2012
1904	जेसी663403एम	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2013
1905	जेसी642545डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार पांडे	01.09.2012
1906	जेसी664056एल	सुबेदार	सुरेश पांडे	01.01.2013
1907	जेसी642809एम	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.09.2012
1908	जेसी641879वाइ	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.01.2013
1909	जेसी664066पी	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.01.2013
1910	जेसी664183ए	सुबेदार	एसवी एस	01.12.2012
1911	जेसी642775के	सुबेदार	सैयद शौकत हुसैन	01.09.2012
1912	जेसी663737एफ	सुबेदार	तपन कुमार गांगुली	01.01.2013
1913	जेसी663620एच	सुबेदार	तारा चन्द	01.11.2012
1914	जेसी663670एन	सुबेदार	तरसेम लाल	01.09.2012
1915	जेसी641704डब्ल्यू	सुबेदार	तेज सिंह	01.01.2013
1916	जेसी663863एन	सुबेदार	तेज सिंह	01.10.2012
1917	जेसी642108डब्ल्यू	सुबेदार	टेक पाल	01.09.2012
1918	जेसी664934डब्ल्यू	सुबेदार	त्रिभुवन सिंह	01.01.2013
1919	जेसी664905एफ	सुबेदार	उदय भान प्रसाद	01.01.2013
1920	जेसी664814एक्स	सुबेदार	उदय नारायण सिंह	01.12.2012
1921	जेसी663767वाइ	सुबेदार	उमेश सिंह	01.12.2012
1922	जेसी664828एक्स	सुबेदार	वकील सिंह सैनी	01.01.2013
1923	जेसी642296एच	सुबेदार	विद्या सागर शर्मा	01.11.2012
1924	जेसी664395एल	सुबेदार	विजय कृष्णन	01.01.2013
1925	जेसी664067एक्स	सुबेदार	विजय कुमार उपाध्याय	01.12.2012
1926	जेसी643215के	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.01.2013
1927	जेसी642808के	सुबेदार	विनायक रामचंद्र सेट्टी	01.09.2012
1928	जेसी642442एक्स	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.10.2012
1929	जेसी663329डब्ल्यू	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.10.2012
1930	जेसी664833एच	सुबेदार	विरेंद्र सिंह आर	01.11.2012



1931	जेसी213647डब्ल्यू	सुबेदार	यतीश चंद्रा बी	01.10.2012
1932	जेसी642101एम	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.01.2013
<u>सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन</u>				
1933	जेसी680859एफ	रिसालदार	दीवान सिंह	01.12.2012
1934	जेसी680828एफ	रिसालदार	काबल सिंह	01.10.2012
1935	जेसी680913के	रिसालदार	महेश कुमार	01.10.2012
1936	जेसी680826डब्ल्यू	रिसालदार	श्याम करन यादव	01.09.2012
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>				
1937	जेसी695940एल	सुबेदार	एन दुबे	01.01.2013
1938	जेसी693445एन	सुबेदार	आनंद सिंह राठोर	01.11.2012
1939	जेसी695669एम	सुबेदार	आनंदा के एस	01.12.2012
1940	जेसी694243वाइ	सुबेदार	अरुण कुमार	01.12.2012
1941	जेसी692142एम	सुबेदार	अरुण कुमार पांडे	01.10.2012
1942	जेसी691957एफ	सुबेदार	अशोक कुमार राजपाल	01.01.2013
1943	जेसी694803ए	सुबेदार	ए कुमार	01.09.2012
1944	जेसी696222एफ	सुबेदार	बी जेसू राजन	01.10.2012
1945	जेसी695554वाइ	सुबेदार	बालमुकंद शर्मा	01.10.2012
1946	जेसी695706पी	सुबेदार	बी रौय	01.11.2012
1947	जेसी694555पी	सुबेदार	भूवन चंदा पंत	01.01.2013
1948	जेसी691808एन	सुबेदार	बिबेक नंदा मोहाप	01.01.2013
1949	जेसी695477पी	सुबेदार	बिकाश कुमार विश्वास	01.01.2013
1950	जेसी693775एम	सुबेदार	बिनोदा बिहारी नाथ	01.01.2013
1951	जेसी695243एल	सुबेदार	ब्रम दत्ता	01.01.2013
1952	जेसी694378ए	सुबेदार	चंद्रा कांत शर्मा	01.12.2012
1953	जेसी693126एफ	सुबेदार	छेदी लाल पटेल	01.09.2012
1954	जेसी696401एफ	सुबेदार	धीरेन कुमार सिंघा	01.12.2012
1955	जेसी695085एफ	सुबेदार	दिनेश कुमार शर्मा	01.12.2012
1956	जेसी695682डब्ल्यू	सुबेदार	फतेह सिंह	01.11.2012
1957	जेसी694854एन	सुबेदार	जी. गंगा राजू	01.12.2012
1958	जेसी695609एक्स	सुबेदार	घीसा सिंह तनवर	01.09.2012
1959	जेसी696012एफ	सुबेदार	गिरीश प्रसाद तिवारी	01.10.2012
1960	जेसी696698एन	सुबेदार	गोपीनाथन ए	01.12.2012
1961	जेसी694825वाइ	सुबेदार	हरद्वारी लाल खटाना	01.12.2012
1962	जेसी694544एच	सुबेदार	हरी बाबू	01.10.2012
1963	जेसी694459ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.01.2013
1964	जेसी694377एक्स	सुबेदार	जगत्तर सिंह	01.09.2012
1965	जेसी694678एफ	सुबेदार	जगतार सिंह	01.01.2013
1966	जेसी695741एक्स	सुबेदार	जुनस नाइक	01.12.2012
1967	जेसी695678एन	सुबेदार	कादूबा लक्ष्मन वाइ	01.12.2012
1968	जेसी693709के	सुबेदार	कलाम सिंह	01.09.2012

1969	जेसी694545एल	सुबेदार	करतार सिंह	01.10.2012
1970	जेसी694458के	सुबेदार	केशर सिंह	01.01.2013
1971	जेसी692489वाइ	सुबेदार	केके सिंह	01.01.2013
1972	जेसी694460पी	सुबेदार	कुशल सिंह बिष्ट	01.01.2013
1973	जेसी691907डब्ल्यू	सुबेदार	लखन लाल	01.01.2013
1974	जेसी691768एक्स	सुबेदार	लाल चन्द	01.01.2013
1975	जेसी694675एन	सुबेदार	महावीर सिंह	01.10.2012
1976	जेसी695534एल	सुबेदार	मेजर सिंह	01.10.2012
1977	जेसी691785एक्स	सुबेदार	मौजी राम	01.01.2013
1978	जेसी695275एन	सुबेदार	मोहम्मद गोलम आर गाजी	01.09.2012
1979	जेसी693702ए	सुबेदार	एमएम सिंह काकी	01.10.2012
1980	जेसी694376पी	सुबेदार	मोहर सिंह चौहान	01.12.2012
1981	जेसी695461के	सुबेदार	एम जयावन्त खोट	01.10.2012
1982	जेसी695322ए	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार पांडे	01.01.2013
1983	जेसी694554एम	सुबेदार	नवीन सिंह	01.01.2013
1984	जेसी695653एफ	सुबेदार	नीरज थापा	01.12.2012
1985	जेसी694543ए	सुबेदार	नीरज	01.10.2012
1986	जेसी694455के	सुबेदार	एनपी यादव	01.01.2013
1987	जेसी695475के	सुबेदार	एन मिश्रा	01.11.2012
1988	जेसी695552एन	सुबेदार	पण्डित राम शर्मा	01.01.2013
1989	जेसी694851ए	सुबेदार	प्रदीप कुमार शर्मा	01.11.2012
1990	जेसी695276डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश वीर शर्मा	01.09.2012
1991	जेसी695453एल	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार सीडी.	01.12.2012
1992	जेसी696038डब्ल्यू	सुबेदार	रबी राम दास	01.09.2012
1993	जेसी692647एच	सुबेदार	राधा किशन	01.09.2012
1994	जेसी692646ए	सुबेदार	राधा कृष्ण वी जी	01.09.2012
1995	जेसी695567डब्ल्यू	सुबेदार	राधे श्याम	01.10.2012
1996	जेसी695379पी	सुबेदार	राधे मोहन यादवा	01.09.2012
1997	जेसी694559एल	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.01.2013
1998	जेसी694859एम	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.11.2012
1999	जेसी695455डब्ल्यू	सुबेदार	राकेश कुमार	01.10.2012
2000	जेसी691450ए	सुबेदार	राम दिनेश्वर शर्मा	01.09.2012
2001	जेसी691451एच	सुबेदार	राम एकवाल भारती	01.10.2012
2002	जेसी695626एक्स	सुबेदार	राम झुलान	01.11.2012
2003	जेसी694674एल	सुबेदार	राम लखन	01.11.2012
2004	जेसी694726डब्ल्यू	सुबेदार	राम लराते	01.01.2013
2005	जेसी694408एम	सुबेदार	राम मेहर	01.12.2012
2006	जेसी695667एफ	सुबेदार	राम नाशयण	01.09.2012
2007	जेसी695426एफ	सुबेदार	रमा चंद्रा स्वेन	01.01.2013
2008	जेसी692218एफ	सुबेदार	रमा कांत पांडे	01.10.2012
2009	जेसी695549एन	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.10.2012
2010	जेसी695676एच	सुबेदार	रहमत अली	01.09.2012

2011	जेसी694457पी	सुबेदार	सत्या पाल सिंह	01.01.2013
2012	जेसी691449एल	सुबेदार	शेख सेराजूद्दीन	01.01.2013
2013	जेसी695464एक्स	सुबेदार	शाम लाल	01.09.2012
2014	जेसी695596एल	सुबेदार	शिवा शंकर नाविक	01.10.2012
2015	जेसी695885पी	सुबेदार	श्री कानतन नायर बी	01.09.2012
2016	जेसी694424के	सुबेदार	श्री राम सिंह	01.10.2012
2017	जेसी694437एफ	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.01.2013
2018	जेसी694241एन	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.11.2012
2019	जेसी694553के	सुबेदार	सुनील कुमार	01.01.2013
2020	जेसी694382एच	सुबेदार	सूरत सिंह	01.01.2013
2021	जेसी694184के	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.09.2012
2022	जेसी694829पी	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.10.2012
2023	जेसी695476एम	सुबेदार	सुशील कुमार मिश्रा	01.12.2012
2024	जेसी693497के	सुबेदार	टोमी सिमिस्टियन	01.12.2012
2025	जेसी695330वाइ	सुबेदार	उदयन राय	01.10.2012
2026	जेसी693707वाइ	सुबेदार	उदयबीर सिंह	01.12.2012
2027	जेसी695995पी	सुबेदार	उन्नी कृष्णन के	01.09.2012
2028	जेसी695281एफ	सुबेदार	विनीत कुमार चोर्स	01.09.2012
<b>सेना आयुध कोर</b>				
2029	जेसी726562एफ	सुबेदार	आबिद सोहेल	01.10.2012
2030	जेसी726148एच	सुबेदार	अजया कुमार प्रधान	01.12.2012
2031	जेसी727459एच	सुबेदार	ए वेनकप्पा भिमाप्पा	01.11.2012
2032	जेसी727096के	सुबेदार	अक्षय कुमार मोहंती	01.12.2012
2033	जेसी726548पी	सुबेदार	अरुण कुमार झा	01.09.2012
2034	जेसी726514एफ	सुबेदार	अरुण कुमार तिवारी	01.10.2012
2035	जेसी726763ए	सुबेदार	अवधेश कुमार गिरि	01.01.2013
2036	जेसी726909एच	सुबेदार	बैकुण्ठ नाथ साहू	01.11.2012
2037	जेसी726626एफ	सुबेदार	बलबीर एस शेखावत	01.12.2012
2038	जेसी726481एफ	सुबेदार	बी सिंह सैंगर	01.10.2012
2039	जेसी726573एन	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.12.2012
2040	जेसी725155एम	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.12.2012
2041	जेसी727027एन	सुबेदार	बी राम	01.12.2012
2042	जेसी725147एन	सुबेदार	भगवती प्रसाद	01.12.2012
2043	जेसी726678एक्स	सुबेदार	भरमाप्पा एच	01.09.2012
2044	जेसी726597एक्स	सुबेदार	भीष्मा पाल सिंह	01.10.2012
2045	जेसी726650एक्स	सुबेदार	ब्रजेश बहादुर सिंह	01.01.2013
2046	जेसी726666एफ	सुबेदार	चंद्रेश्वर मिश्रा	01.12.2012
2047	जेसी726975एल	सुबेदार	चमू राम चंद्रा बी	01.12.2012
2048	जेसी726674एफ	सुबेदार	देव प्रसाद डे	01.01.2013
2049	जेसी726782एल	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार सिंह	01.01.2013
2050	जेसी726874एक्स	सुबेदार	दुर्ब कुमार राय	01.09.2012

2051	जेसी727280पी	सुबेदार	दिलावर सिंह	01.01.2013
2052	जेसी726648ए	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.01.2013
2053	जेसी726565पी	सुबेदार	दीपक कुमार मंडल	01.10.2012
2054	जेसी726604एच	सुबेदार	जी. के बाबू	01.12.2012
2055	जेसी726492एन	सुबेदार	गुलाब सिंह	01.09.2012
2056	जेसी726600एम	सुबेदार	जी. सिंह	01.11.2012
2057	जेसी726542एन	सुबेदार	हकीम सिंह	01.10.2012
2058	जेसी726972एक्स	सुबेदार	हरी राम अहीरवर	01.11.2012
2059	जेसी726889ए	सुबेदार	हरी स्वरूप	01.11.2012
2060	जेसी727140एच	सुबेदार	हवलदार सिंह	01.09.2012
2061	जेसी726946डब्ल्यू	सुबेदार	हरुदानन्दन मलिक	01.12.2012
2062	जेसी726525एन	सुबेदार	हुसैन अहमद लश्कर	01.10.2012
2063	जेसी726464एफ	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.09.2012
2064	जेसी727205एल	सुबेदार	जे नाथ	01.11.2012
2065	जेसी726970एम	सुबेदार	के देवराजू रेडी	01.09.2012
2066	जेसी726673वाइ	सुबेदार	काली चरण	01.09.2012
2067	जेसी726480वाइ	सुबेदार	खजान सिंह	01.10.2012
2068	जेसी726473एच	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.09.2012
2069	जेसी727025एच	सुबेदार	एम लोगन	01.09.2012
2070	जेसी726971पी	सुबेदार	माधव बी टेकम	01.10.2012
2071	जेसी727206एन	सुबेदार	महेश्वर प्रधान	01.12.2012
2072	जेसी726627के	सुबेदार	मल सिंह शेखावत	01.12.2012
2073	जेसी726602एक्स	सुबेदार	मल्लिकार्जुन बासप्पा एल	01.11.2012
2074	जेसी726973ए	सुबेदार	मनोरंजन ढल	01.11.2012
2075	जेसी726637एन	सुबेदार	नाइक सुरेश भाई बाबू भाई	01.01.2013
2076	जेसी726638डब्ल्यू	सुबेदार	नामदेव हरी डब्ल्यू	01.01.2013
2077	जेसी724134के	सुबेदार	नारायणन सी	01.11.2012
2078	जेसी725392डब्ल्यू	सुबेदार	नरेंद्र पाल सिंह	01.01.2013
2079	जेसी727137एच	सुबेदार	पंछान्न सिंह	01.12.2012
2080	जेसी723990पी	सुबेदार	पाटिल लालासाहिब दत्तत्रे	01.11.2012
2081	जेसी726870एफ	सुबेदार	पतीत कुमार दाश	01.09.2012
2082	जेसी726753डब्ल्यू	सुबेदार	पुशकर दत्ता शर्मा	01.11.2012
2083	जेसी726906पी	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.11.2012
2084	जेसी727026एल	सुबेदार	राजेंद्र मंडल	01.11.2012
2085	जेसी727353डब्ल्यू	सुबेदार	राम कुमार सिंह	01.09.2012
2086	जेसी726498पी	सुबेदार	राम मिलन प्रसाद	01.09.2012
2087	जेसी726564एम	सुबेदार	राम निवास राम	01.10.2012
2088	जेसी726586एल	सुबेदार	राम रूप यादव	01.10.2012
2089	जेसी726543डब्ल्यू	सुबेदार	रमन कांत सिंह	01.10.2012
2090	जेसी726497एम	सुबेदार	रंजीत कुमार स्वेन	01.09.2012
2091	जेसी726714एक्स	सुबेदार	रूप सिंह	01.09.2012
2092	जेसी726951एफ	सुबेदार	समशेर सिंह	01.01.2013

2093	जेसी726636एल	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.12.2012
2094	जेसी723991एक्स	सुबेदार	शिवायनामा	01.12.2012
2095	जेसी726493डब्ल्यू	सुबेदार	शिवदान सिंह	01.09.2012
2096	जेसी726339एक्स	सुबेदार	श्री प्रकाश सिंह	01.01.2013
2097	जेसी726716एच	सुबेदार	सोमन नायर जी.	01.12.2012
2098	जेसी726495एफ	सुबेदार	सुबाष सिंह	01.09.2012
2099	जेसी726549एक्स	सुबेदार	सुभाशी बन्धोपाध्याय	01.09.2012
2100	जेसी726601पी	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.11.2012
2101	जेसी726969एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार तिवारी	01.09.2012
2102	जेसी726670एल	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.11.2012
2103	जेसी727243एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2013
2104	जेसी726996एफ	सुबेदार	वी राम	01.09.2012
2105	जेसी727064एफ	सुबेदार	वीजेन्द्र कुमार द्विवेदी	01.10.2012

कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

2106	जेसी755719वाइ	सुबेदार	अबानी आचार्य	01.09.2012
2107	जेसी760674एन	सुबेदार	अबिनाश चंद्रा कुंडू	01.12.2012
2108	जेसी754524एफ	सुबेदार	आदेश कुमार	01.12.2012
2109	जेसी755873एक्स	सुबेदार	अगरकर सुभाष डब्ल्यू	01.12.2012
2110	जेसी755484एक्स	सुबेदार	अजीत कुमार दास	01.09.2012
2111	जेसी754305ए	सुबेदार	अजय थापा	01.01.2013
2112	जेसी756069एच	सुबेदार	अकबर अली	01.01.2013
2113	जेसी761569के	सुबेदार	अमृत कुमार राय	01.10.2012
2114	जेसी753659डब्ल्यू	सुबेदार	अमृत प्रधान	01.10.2012
2115	जेसी755496एम	सुबेदार	अनिल कुमार	01.01.2013
2116	जेसी756529वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार	01.11.2012
2117	जेसी760675डब्ल्यू	सुबेदार	अनिल कुमार ए	01.12.2012
2118	जेसी763172डब्ल्यू	सुबेदार	अरविन्दाक्षन पी	01.01.2013
2119	जेसी758198एफ	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.12.2012
2120	जेसी760413ए	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.09.2012
2121	जेसी754892डब्ल्यू	सुबेदार	अरुण कर्माकर	01.09.2012
2122	जेसी754754पी	सुबेदार	अरुण कुमार शर्मा	01.09.2012
2123	जेसी758886ए	सुबेदार	अर्विन्द कुमार	01.10.2012
2124	जेसी754561पी	सुबेदार	आशीस कुमार दास	01.12.2012
2125	जेसी755793ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2013
2126	जेसी757297एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	01.10.2012
2127	जेसी759662एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.12.2012
2128	जेसी751990एल	सुबेदार	अशोक कुमार दीक्षित	01.10.2012
2129	जेसी761463एक्स	सुबेदार	अशोके कुमार पाल	01.11.2012
2130	जेसी761464ए	सुबेदार	असित कुमार दत्ताता	01.11.2012
2131	जेसी755727एक्स	सुबेदार	अतर सिंह	01.01.2013
2132	जेसी755731ए	सुबेदार	अउद्धेश कुमार	01.01.2013

2133	जेसी757377पी	सुबेदार	बाबू पिल्लई आर	01.11.2012
2134	जेसी760602के	सुबेदार	बदारी प्रसाद यादव	01.01.2013
2135	जेसी760230के	सुबेदार	बहादुर चन्द	01.01.2013
2136	जेसी756504एम	सुबेदार	बाला सुब्रमनिअन एच	01.11.2012
2137	जेसी754857एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.11.2012
2138	जेसी754391डब्ल्यू	सुबेदार	बी पीडी कुशवाहा	01.10.2012
2139	जेसी755006एन	सुबेदार	बलराम	01.12.2012
2140	जेसी755792एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2013
2141	जेसी755568एल	सुबेदार	बी विजय कुमार सरमन	01.10.2012
2142	जेसी761148एफ	सुबेदार	बंसीधर	01.10.2012
2143	जेसी762813एल	सुबेदार	बसंता कुमार स्केन	01.01.2013
2144	जेसी754916पी	सुबेदार	भागवत प्रसाद	01.11.2012
2145	जेसी761949एच	सुबेदार	भजन सिंह	01.12.2012
2146	जेसी760220ए	सुबेदार	भाकर राम के	01.12.2012
2147	जेसी756689वाइ	सुबेदार	भानु प्रताप सिंह	01.01.2013
2148	जेसी761460के	सुबेदार	भरत सिंह	01.11.2012
2149	जेसी761570वाइ	सुबेदार	भवानी शंकर शर्मा	01.11.2012
2150	जेसी755622एन	सुबेदार	भवानी सिंह राठोर	01.01.2013
2151	जेसी761693एल	सुबेदार	भीम शंकर छाबे	01.12.2012
2152	जेसी752282एल	सुबेदार	भीम सिंह	01.12.2012
2153	जेसी754557एम	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.12.2012
2154	जेसी757222ए	सुबेदार	बिजय कृष्णा देब नाथ	01.01.2013
2155	जेसी761695डब्ल्यू	सुबेदार	बिकाश चंद्रा मंडल	01.12.2012
2156	जेसी756266एल	सुबेदार	बिक्रम दास	01.11.2012
2157	जेसी761465एच	सुबेदार	बिमल विश्वास	01.11.2012
2158	जेसी760596एफ	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.12.2012
2159	जेसी755283वाइ	सुबेदार	बिरेन्द्रा पाल	01.11.2012
2160	जेसी758956एन	सुबेदार	बिरेन्द्रा साहा	01.01.2013
2161	जेसी761576ए	सुबेदार	बी प्रमाणिक	01.12.2012
2162	जेसी760225वाइ	सुबेदार	बिसवा नाथ ओरान	01.12.2012
2163	जेसी755730एक्स	सुबेदार	बिश्वनाथ घोष	01.01.2013
2164	जेसी754945के	सुबेदार	बृज लाल	01.09.2012
2165	जेसी760365एल	सुबेदार	बृज लाल	01.01.2013
2166	जेसी757378एक्स	सुबेदार	बी लाल	01.10.2012
2167	जेसी760671ए	सुबेदार	बुध्दा राम	01.12.2012
2168	जेसी762070एन	सुबेदार	सी थिरुप्पथी	01.01.2013
2169	जेसी761279एम	सुबेदार	चंद्रा भान सिंह	01.10.2012
2170	जेसी760535के	सुबेदार	चंद्रा सिंह	01.10.2012
2171	जेसी762075एम	सुबेदार	चंद्रकांता सिन्हा	01.01.2013
2172	जेसी757906डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रशेखरन एस	01.10.2012
2173	जेसी760366एन	सुबेदार	चरणजीत राज	01.12.2012
2174	जेसी763294ए	सुबेदार	छतुरधन महतो	01.01.2013

2175	जेसी753245के	सुबेदार	सी भाडु	01.09.2012
2176	जेसी753245के	सुबेदार	छोटे लाल	01.11.2012
2177	जेसी755212एक्स	सुबेदार	चिंत राम	01.10.2012
2178	जेसी760189वाइ	सुबेदार	डेविड सुंदर राज	01.09.2012
2179	जेसी761578एल	सुबेदार	दयानन्द सिंह	01.09.2012
2180	जेसी754303पी	सुबेदार	डिप्टी मल	01.01.2013
2181	जेसी762820एफ	सुबेदार	देश बंधु	01.12.2012
2182	जेसी762812एच	सुबेदार	देवेंदर कुमार	01.01.2013
2183	जेसी760594डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार शर्मा	01.11.2012
2184	जेसी754985एल	सुबेदार	धनराज सिंह	01.10.2012
2185	जेसी752078एम	सुबेदार	धर्मेन्द्र कुमार	01.11.2012
2186	जेसी751915एफ	सुबेदार	धीरा नंदा रौय	01.09.2012
2187	जेसी762288ए	सुबेदार	धीरेन्द्र	01.10.2012
2188	जेसी758114एच	सुबेदार	धीरेन्द्र नाथ डे	01.11.2012
2189	जेसी756790वाइ	सुबेदार	धीरेन्द्र सिंह	01.11.2012
2190	जेसी754687पी	सुबेदार	दीनानन्द प्रसाद	01.01.2013
2191	जेसी757204एक्स	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.10.2012
2192	जेसी759676एम	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.01.2013
2193	जेसी754983ए	सुबेदार	दिनेश कुमार मैथी	01.10.2012
2194	जेसी758328वाइ	सुबेदार	दिनेश कुमार धी	01.01.2013
2195	जेसी754977एम	सुबेदार	दीपक कुमार दास	01.10.2012
2196	जेसी755869पी	सुबेदार	दुलाल कुमार विश्वास	01.11.2012
2197	जेसी757617एफ	सुबेदार	दुंगा राम कास्वन	01.11.2012
2198	जेसी756034एम	सुबेदार	दुर्योधन सिंह	01.01.2013
2199	जेसी751995के	सुबेदार	द्विजेंद्र सिंघा	01.11.2012
2200	जेसी761025पी	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह बोरा	01.09.2012
2201	जेसी758326एन	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह तोमर	01.10.2012
2202	जेसी761952एच	सुबेदार	गनेश सिंह	01.12.2012
2203	जेसी761572के	सुबेदार	गंगा प्रसाद शर्मा	01.11.2012
2204	जेसी758292एल	सुबेदार	जी. हीरामठ	01.12.2012
2205	जेसी761950एक्स	सुबेदार	जी. चरण दास	01.12.2012
2206	जेसी760205एल	सुबेदार	घनशाम	01.11.2012
2207	जेसी755618एल	सुबेदार	गिरधारी सिंह राठौर	01.12.2012
2208	जेसी761947एक्स	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	01.12.2012
2209	जेसी751925एल	सुबेदार	जी.एम गोविंदरावामी	01.10.2012
2210	जेसी758992वाइ	सुबेदार	गोपाल दत्त	01.01.2013
2211	जेसी754973डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.10.2012
2212	जेसी755628के	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.01.2013
2213	जेसी760226एफ	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.12.2012
2214	जेसी760192वाइ	सुबेदार	जी. हरीबा सिदराया	01.09.2012
2215	जेसी756000वाइ	सुबेदार	एच रहमान	01.12.2012
2216	जेसी754242एच	सुबेदार	हंस राज	01.09.2012

2217	जेसी751664एच	सुबेदार	हनुमाना राम गोदारा	01.09.2012
2218	जेसी751649एन	सुबेदार	हारा प्रसाद घोष	01.09.2012
2219	जेसी753888एफ	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.10.2012
2220	जेसी759703एल	सुबेदार	हरे राम प्रसाद	01.09.2012
2221	जेसी751648एल	सुबेदार	एच कुमार	01.09.2012
2222	जेसी755105डब्ल्यू	सुबेदार	हरी बिलास सिंह	01.10.2012
2223	जेसी760511ए	सुबेदार	हरी धनी सिंघा	01.11.2012
2224	जेसी754647एन	सुबेदार	हरी राम जाट	01.10.2012
2225	जेसी759761पी	सुबेदार	हरीश चंद्रा चौहान	01.12.2012
2226	जेसी755273पी	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.11.2012
2227	जेसी754738एक्स	सुबेदार	हसबे जी. महादेव	01.01.2013
2228	जेसी762875एल	सुबेदार	हेम राज	01.01.2013
2229	जेसी754027एक्स	सुबेदार	एच इन्द्रजीत पण्डित राव	01.12.2012
2230	जेसी761026एक्स	सुबेदार	आइ सिन्हा	01.09.2012
2231	जेसी762076पी	सुबेदार	इंद्र पाल सिंह	01.01.2013
2232	जेसी760195एम	सुबेदार	इन्द्रजीत सिंह यादवा	01.10.2012
2233	जेसी762238पी	सुबेदार	जैकब वरघेसे	01.10.2012
2234	जेसी755279डब्ल्यू	सुबेदार	जगत नारायण	01.10.2012
2235	जेसी752485पी	सुबेदार	जगत सिंह नगर	01.10.2012
2236	जेसी755791पी	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2013
2237	जेसी760090एच	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.12.2012
2238	जेसी753711एन	सुबेदार	जगदीश सिंह जदाउन	01.01.2013
2239	जेसी753799एच	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.10.2012
2240	जेसी759931एन	सुबेदार	जगराम सिंह	01.12.2012
2241	जेसी758697डब्ल्यू	सुबेदार	जय कृष्णा राय	01.09.2012
2242	जेसी757765एम	सुबेदार	जय मंगल प्रसाद	01.09.2012
2243	जेसी761492एम	सुबेदार	जय प्रकाश	01.01.2013
2244	जेसी762600एक्स	सुबेदार	जयकिशन बागड़िया	01.01.2013
2245	जेसी752183एच	सुबेदार	जनक सिंह	01.10.2012
2246	जेसी756062वाइ	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.11.2012
2247	जेसी755573डब्ल्यू	सुबेदार	जवाहर सिंह	01.12.2012
2248	जेसी755084एल	सुबेदार	जय करन	01.10.2012
2249	जेसी757689एल	सुबेदार	जितेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.10.2012
2250	जेसी760215पी	सुबेदार	जोगेन पाठक	01.12.2012
2251	जेसी758678एल	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2012
2252	जेसी753211डब्ल्यू	सुबेदार	के कंडासामी	01.09.2012
2253	जेसी755917के	सुबेदार	कैलाश चंद्रा नायक	01.12.2012
2254	जेसी759140डब्ल्यू	सुबेदार	कैलाश लाल साह	01.10.2012
2255	जेसी755001पी	सुबेदार	के रवि बाबू	01.12.2012
2256	जेसी755008वाइ	सुबेदार	कालू राम	01.01.2013
2257	जेसी755883एफ	सुबेदार	कालू राम माली	01.01.2013
2258	जेसी755916एफ	सुबेदार	कल्याण चन्द	01.01.2013



2259	जेसी754588एम	सुबेदार	कमल कुमार	01.09.2012
2260	जेसी754306एच	सुबेदार	कमल रंजन एच रौय	01.01.2013
2261	जेसी761462पी	सुबेदार	कमला लोचन मोहंती	01.11.2012
2262	जेसी760966डब्ल्यू	सुबेदार	कमलेश कुमार चोबे	01.12.2012
2263	जेसी752265एल	सुबेदार	कामता प्रसाद	01.11.2012
2264	जेसी762597एच	सुबेदार	कनक चंद्रा नाथ	01.09.2012
2265	जेसी755271के	सुबेदार	करतार चन्द	01.11.2012
2266	जेसी754831वाइ	सुबेदार	कार्तिक चंद्रा घोष	01.09.2012
2267	जेसी760005पी	सुबेदार	काशी नरेश चौहान	01.10.2012
2268	जेसी755323पी	सुबेदार	काशीनाथ आर	01.12.2012
2269	जेसी755911एच	सुबेदार	के अंकुश रूपचन्द	01.11.2012
2270	जेसी756591एल	सुबेदार	केदार राम	01.01.2013
2271	जेसी762156एम	सुबेदार	केवल कृष्णन	01.11.2012
2272	जेसी752616पी	सुबेदार	के.एच जोयनल हक	01.01.2013
2273	जेसी752088डब्ल्यू	सुबेदार	किशाना राम सरन	01.10.2012
2274	जेसी760936वाइ	सुबेदार	के वी पी बापू	01.01.2013
2275	जेसी760580डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णन मुरारी	01.12.2012
2276	जेसी754740पी	सुबेदार	कृष्णा कुमार	01.01.2013
2277	जेसी761147वाइ	सुबेदार	कुमार सिंह	01.10.2012
2278	जेसी757550एन	सुबेदार	एल सिंह	01.01.2013
2279	जेसी759779एल	सुबेदार	एल पेदादा	01.12.2012
2280	जेसी761730एन	सुबेदार	लाल बहादुर शर्मा	01.12.2012
2281	जेसी756373एम	सुबेदार	ललन सिंह यादव	01.01.2013
2282	जेसी751667डब्ल्यू	सुबेदार	एम चंद्रन	01.09.2012
2283	जेसी759490एच	सुबेदार	एम फ्रांसेस पौल सुंदर राज	01.09.2012
2284	जेसी754653एफ	सुबेदार	मदन लाल	01.01.2013
2285	जेसी755627एम	सुबेदार	महावीर सिंह	01.01.2013
2286	जेसी755871एम	सुबेदार	महेंद्र नाथ मंडी	01.11.2012
2287	जेसी754301के	सुबेदार	महेंद्र राम	01.01.2013
2288	जेसी755034ए	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.10.2012
2289	जेसी762072वाइ	सुबेदार	महेन्द्रापाल गौतम	01.01.2013
2290	जेसी754936एन	सुबेदार	महेश कुमार	01.10.2012
2291	जेसी761574पी	सुबेदार	महेश्वरी प्रसाद चतुर्वेदी	01.12.2012
2292	जेसी756464डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर सिंह संधू	01.01.2013
2293	जेसी761722पी	सुबेदार	मानबार् सिंह	01.10.2012
2294	जेसी761466एल	सुबेदार	मनमधन टी	01.11.2012
2295	जेसी758437एल	सुबेदार	मनोहरन पीपी	01.11.2012
2296	जेसी754976के	सुबेदार	मनोजित कुमार कर	01.10.2012
2297	जेसी761383ए	सुबेदार	मती लाल देब	01.11.2012
2298	जेसी756846ए	सुबेदार	मोहम्मद असलम खान	01.01.2013
2299	जेसी754656पी	सुबेदार	मोहम्मद हसीब अली	01.01.2013
2300	जेसी757351ए	सुबेदार	मोहम्मद कुदरत हुसैन	01.10.2012

2301	जेसी762236के	सुबेदार	मीनिया सिंह	01.10.2012
2302	जेसी763293एक्स	सुबेदार	मीर ए	01.01.2013
2303	जेसी761496एच	सुबेदार	मोतीलाल गुप्ता	01.01.2013
2304	जेसी760229पी	सुबेदार	मुकेशवर दयाल	01.01.2013
2305	जेसी755720एन	सुबेदार	एन मुस्ली धरन	01.10.2012
2306	जेसी760938के	सुबेदार	एन पी बी पात्रा	01.11.2012
2307	जेसी754193एल	सुबेदार	नैन सिंह	01.12.2012
2308	जेसी755865वाइ	सुबेदार	नान एम	01.11.2012
2309	जेसी755422एक्स	सुबेदार	नानी गोपाल देब	01.12.2012
2310	जेसी758032ए	सुबेदार	नारायण सीपी	01.12.2012
2311	जेसी756070एक्स	सुबेदार	नरेश पाल पनवर	01.01.2013
2312	जेसी761734के	सुबेदार	नसीब सिंह	01.01.2013
2313	जेसी760231एम	सुबेदार	नीलकंठ कांता सिंघा	01.12.2012
2314	जेसी756094एफ	सुबेदार	एन वेंकटेश्वर राव	01.12.2012
2315	जेसी761728डब्ल्यू	सुबेदार	नीरज प्रसाद सिंह	01.12.2012
2316	जेसी760182पी	सुबेदार	निरंजन सिंह	01.01.2013
2317	जेसी761222एक्स	सुबेदार	निर्मल चंद्रा पुहन	01.09.2012
2318	जेसी754662एच	सुबेदार	निर्मल मल्लिक	01.09.2012
2319	जेसी753796पी	सुबेदार	ओम सिंह	01.01.2013
2320	जेसी755071एन	सुबेदार	ओमवीर सिंह गहलोत	01.01.2013
2321	जेसी755277एल	सुबेदार	पी सिल्वाराज	01.09.2012
2322	जेसी754884एक्स	सुबेदार	पदमा लोचन दसाधिकारी	01.01.2013
2323	जेसी760873एफ	सुबेदार	पदमा लोचन महंता	01.01.2013
2324	जेसी756283एल	सुबेदार	पी विजयाभास्कर	01.09.2012
2325	जेसी757278एम	सुबेदार	पी पांडुरंग श्रीपति	01.01.2013
2326	जेसी760883एल	सुबेदार	पौल जोसफ	01.12.2012
2327	जेसी754816के	सुबेदार	पवन कुमार	01.12.2012
2328	जेसी760164एम	सुबेदार	पवन कुमार शर्मा	01.11.2012
2329	जेसी756288के	सुबेदार	पी वेंकट रमन	01.12.2012
2330	जेसी755868एम	सुबेदार	प्रदीप पटेल	01.11.2012
2331	जेसी753407के	सुबेदार	प्रदीप कुमार दास	01.09.2012
2332	जेसी754984एच	सुबेदार	पी भट्टाचार्य	01.10.2012
2333	जेसी757878पी	सुबेदार	पुरुषाथम	01.09.2012
2334	जेसी755760पी	सुबेदार	आर गुना चंद्रन	01.12.2012
2335	जेसी757798एक्स	सुबेदार	आर राजन	01.12.2012
2336	जेसी754669एम	सुबेदार	आर रवि चंद्रन	01.01.2013
2337	जेसी755870के	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.11.2012
2338	जेसी753887वाइ	सुबेदार	रघुनाथ सिंह	01.10.2012
2339	जेसी760194के	सुबेदार	रघुपति ए	01.09.2012
2340	जेसी761144एल	सुबेदार	रगु नाथ बिरवा	01.09.2012
2341	जेसी762074के	सुबेदार	राज बहादुर	01.01.2013
2342	जेसी756715पी	सुबेदार	राज करन	01.10.2012

2343	जेसी763028एफ	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.12.2012
2344	जेसी754936एच	सुबेदार	राज कुमार प्रधान	01.09.2012
2345	जेसी755973एच	सुबेदार	राज कुमार शर्मा	01.01.2013
2346	जेसी763292पी	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.01.2013
2347	जेसी752313ए	सुबेदार	राजा राम	01.12.2012
2348	जेसी755155एफ	सुबेदार	राजा राम	01.09.2012
2349	जेसी761951ए	सुबेदार	राजाकृष्ण पी	01.12.2012
2350	जेसी761731डब्ल्यू	सुबेदार	राजप्पन पिल्लई एस	01.12.2012
2351	जेसी758590एफ	सुबेदार	रजत कुमार विश्वास	01.12.2012
2352	जेसी754845वाइ	सुबेदार	रजत कुमार घोष	01.09.2012
2353	जेसी752304वाइ	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.12.2012
2354	जेसी762811ए	सुबेदार	राजेंद्र बहादुर सिंह	01.12.2012
2355	जेसी755880एन	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.12.2012
2356	जेसी760968एफ	सुबेदार	राजेंद्र पाल	01.01.2013
2357	जेसी756542एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2012
2358	जेसी756203एच	सुबेदार	राजिन्दर सिंह राना	01.01.2013
2359	जेसी755299के	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.11.2012
2360	जेसी761500ए	सुबेदार	राम बिछार दुबे	01.12.2012
2361	जेसी760228एम	सुबेदार	राम चंद्रा प्रजापति	01.01.2013
2362	जेसी760836एन	सुबेदार	राम चंद्रा वर्मा	01.11.2012
2363	जेसी755109एम	सुबेदार	राम कुमार	01.11.2012
2364	जेसी762457डब्ल्यू	सुबेदार	राम कुवर यादव	01.10.2012
2365	जेसी760488एक्स	सुबेदार	राम लाल	01.01.2013
2366	जेसी762591एफ	सुबेदार	राम लाल बी	01.11.2012
2367	जेसी755005एल	सुबेदार	राम निवास	01.12.2012
2368	जेसी755423ए	सुबेदार	राम पाल	01.09.2012
2369	जेसी754844डब्ल्यू	सुबेदार	राम पाल खजूरी	01.09.2012
2370	जेसी758152वाइ	सुबेदार	राम प्रकाश शर्मा	01.10.2012
2371	जेसी761946पी	सुबेदार	राम प्रसाद	01.12.2012
2372	जेसी757242एन	सुबेदार	राम प्रताप वर्मा	01.01.2013
2373	जेसी755282डब्ल्यू	सुबेदार	राम रतन	01.11.2012
2374	जेसी753793एफ	सुबेदार	रमा शंकर	01.11.2012
2375	जेसी752080के	सुबेदार	रामचंद्र एल	01.12.2012
2376	जेसी761726एल	सुबेदार	रामचन्द्रन एस	01.12.2012
2377	जेसी756613वाइ	सुबेदार	रमाकांत पलाइ	01.11.2012
2378	जेसी761626ए	सुबेदार	आर दुबे	01.12.2012
2379	जेसी755756एम	सुबेदार	रामबाबू शर्मा	01.12.2012
2380	जेसी759928एच	सुबेदार	रमेश बाबू	01.11.2012
2381	जेसी752076एफ	सुबेदार	रमेश चंद शर्मा	01.11.2012
2382	जेसी761278के	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.10.2012
2383	जेसी754911डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा घोष	01.11.2012
2384	जेसी759485एक्स	सुबेदार	रमेश राज	01.11.2012

2385	जेसी757990एफ	सुबेदार	रामजी लाल	01.11.2012
2386	जेसी763173वाइ	सुबेदार	रामजी प्रसाद	01.01.2013
2387	जेसी755420एम	सुबेदार	रण बीर सिंह	01.12.2012
2388	जेसी755029पी	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.10.2012
2389	जेसी757530ए	सुबेदार	राव बालचन्द्रन	01.11.2012
2390	जेसी760931ए	सुबेदार	रत्ना कुमार के वी	01.12.2012
2391	जेसी762220वाइ	सुबेदार	रतनेश्वर ठाकुर	01.10.2012
2392	जेसी754948एक्स	सुबेदार	रतन सिंह	01.10.2012
2393	जेसी754975एफ	सुबेदार	राधे श्याम	01.10.2012
2394	जेसी754957वाइ	सुबेदार	आर इस्लाम	01.01.2013
2395	जेसी755110एफ	सुबेदार	रोहन सिंह	01.11.2012
2396	जेसी756694के	सुबेदार	रोहिताश कुमार	01.09.2012
2397	जेसी754956डब्ल्यू	सुबेदार	रूप लाल	01.01.2013
2398	जेसी751987एल	सुबेदार	एस नोरेन्द्र सिंघा चौधुरी	01.09.2012
2399	जेसी757302एक्स	सुबेदार	सचिन्द्र नाथ डी.	01.10.2012
2400	जेसी759066ए	सुबेदार	सदा नंदा बोरा	01.12.2012
2401	जेसी757548डब्ल्यू	सुबेदार	सदा शिवान पिल्लई	01.01.2013
2402	जेसी755326एच	सुबेदार	सदानन्द सालुंके	01.12.2012
2403	जेसी754855एच	सुबेदार	समय सिंह	01.10.2012
2404	जेसी758657पी	सुबेदार	सनत कुमार तिवारी	01.12.2012
2405	जेसी761573एम	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.09.2012
2406	जेसी762872एक्स	सुबेदार	संजीत सिंघा रौय	01.01.2013
2407	जेसी755115ए	सुबेदार	संकर पी संकर	01.09.2012
2408	जेसी760208वाइ	सुबेदार	सान्तनु मंडल	01.11.2012
2409	जेसी754626एक्स	सुबेदार	सांवल राम चोपड़ा	01.11.2012
2410	जेसी754755एक्स	सुबेदार	सनवंत राम	01.09.2012
2411	जेसी762778एन	सुबेदार	एस कुमारन उन्निथन आर	01.10.2012
2412	जेसी763300एच	सुबेदार	सरोज कुमार शर्मा	01.01.2013
2413	जेसी754129एन	सुबेदार	ससिधरन के	01.09.2012
2414	जेसी757401ए	सुबेदार	सत पौल	01.01.2013
2415	जेसी754244एन	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.12.2012
2416	जेसी755728ए	सुबेदार	सतबीर सिंह कुंडू	01.01.2013
2417	जेसी754231डब्ल्यू	सुबेदार	सतेंद्र सिंह	01.12.2012
2418	जेसी757691एच	सुबेदार	सतेंद्र सिंह	01.12.2012
2419	जेसी756653ए	सुबेदार	एस कुमार ए	01.10.2012
2420	जेसी760165पी	सुबेदार	सतींद्र कुमार सिंह	01.11.2012
2421	जेसी756269वाइ	सुबेदार	सतीश चंद्र	01.01.2013
2422	जेसी755106वाइ	सुबेदार	सत्या नारायण	01.10.2012
2423	जेसी761571एफ	सुबेदार	सत्य भान शर्मा	01.11.2012
2424	जेसी754998एच	सुबेदार	सत्य देव	01.10.2012
2425	जेसी755102एच	सुबेदार	सत्यदेव प्रसाद पाल	01.10.2012
2426	जेसी761461एम	सुबेदार	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.11.2012

2427	जेसी761624पी	सुबेदार	सेथु के	01.11.2012
2428	जेसी755111के	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.11.2012
2429	जेसी760721ए	सुबेदार	शंकर प्रसाद यादव	01.01.2013
2430	जेसी760222एल	सुबेदार	श्रवण कुमार बिश्नोई	01.12.2012
2431	जेसी760598एम	सुबेदार	शशि कांत पांडे	01.01.2013
2432	जेसी761381पी	सुबेदार	शशिधरन के	01.09.2012
2433	जेसी756163एम	सुबेदार	शीश राम	01.09.2012
2434	जेसी762874एच	सुबेदार	शियोजी राम	01.01.2013
2435	जेसी757856डब्ल्यू	सुबेदार	शिकार चन्द	01.10.2012
2436	जेसी756067एक्स	सुबेदार	शिव चरण	01.01.2013
2437	जेसी755157एम	सुबेदार	शिव दीन	01.01.2013
2438	जेसी751676एक्स	सुबेदार	शिव कुमार	01.10.2012
2439	जेसी761384एच	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.11.2012
2440	जेसी761283पी	सुबेदार	शिव मंगल सिंह	01.10.2012
2441	जेसी760201पी	सुबेदार	शिव मुनि राम	01.10.2012
2442	जेसी760367डब्ल्यू	सुबेदार	शिव शंकर प्रसाद सिंह	01.01.2013
2443	जेसी754040एफ	सुबेदार	शिवाजी पाटिल	01.12.2012
2444	जेसी754592पी	सुबेदार	शिवजी लाल नगर	01.01.2013
2445	जेसी760224डब्ल्यू	सुबेदार	शिव भगत	01.12.2012
2446	जेसी754452एच	सुबेदार	शिवा राम कुशवाहा	01.12.2012
2447	जेसी760491एक्स	सुबेदार	श्याम बिहारी	01.11.2012
2448	जेसी761145एन	सुबेदार	श्याम किशोर	01.09.2012
2449	जेसी752312एक्स	सुबेदार	श्याम लाल शर्मा	01.12.2012
2450	जेसी753657एल	सुबेदार	श्याम सिंह दागुड़	01.01.2013
2451	जेसी755270एफ	सुबेदार	श्यामल विश्वास	01.11.2012
2452	जेसी761280एफ	सुबेदार	एस सिंह	01.10.2012
2453	जेसी757849ए	सुबेदार	सिराजुद्दीन	01.10.2012
2454	जेसी753656एच	सुबेदार	एस अहमद	01.09.2012
2455	जेसी753409वाइ	सुबेदार	सोमेश्वर मिश्रा	01.10.2012
2456	जेसी755483पी	सुबेदार	एस चक्रवर्ती	01.09.2012
2457	जेसी755725एम	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.01.2013
2458	जेसी754022वाइ	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.11.2012
2459	जेसी761146डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद्र डी.	01.09.2012
2460	जेसी755542डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.11.2012
2461	जेसी754571वाइ	सुबेदार	सुभाष चंद्रा राय	01.01.2013
2462	जेसी762230एच	सुबेदार	सुभाष चंद्रा यादव	01.09.2012
2463	जेसी755867के	सुबेदार	सुभाष सरकार	01.11.2012
2464	जेसी758541वाइ	सुबेदार	सुभासीस घटक	01.01.2013
2465	जेसी755774पी	सुबेदार	सुघार लाल पाल	01.11.2012
2466	जेसी755193एक्स	सुबेदार	सुखदेव के	01.09.2012
2467	जेसी760597के	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.12.2012
2468	जेसी754651डब्ल्यू	सुबेदार	एस सिंघा	01.12.2012

2469	जेसी754564एच	सुबेदार	सुनील कुमार	01.01.2013
2470	जेसी759057वाइ	सुबेदार	सुनील कुमार रौय	01.01.2013
2471	जेसी751887ए	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.09.2012
2472	जेसी762229एन	सुबेदार	सुरेश चंद्रा शर्मा	01.09.2012
2473	जेसी755147एच	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.10.2012
2474	जेसी755510एन	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.09.2012
2475	जेसी760217ए	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.12.2012
2476	जेसी755421पी	सुबेदार	सुसंता कुमार दास	01.12.2012
2477	जेसी755971एक्स	सुबेदार	सुशील कुमार यादव	01.12.2012
2478	जेसी760669एच	सुबेदार	तपन कुमार डे	01.12.2012
2479	जेसी755020ए	सुबेदार	टी लक्ष्मन विथल	01.01.2013
2480	जेसी754978पी	सुबेदार	तारकेशवर ओझा	01.10.2012
2481	जेसी757366एम	सुबेदार	टी हुसैन	01.11.2012
2482	जेसी754039एम	सुबेदार	तवनदीकर अशोक चान्द्राकान्त	01.12.2012
2483	जेसी757481एच	सुबेदार	तेजेन्दर सिंह	01.10.2012
2484	जेसी756064के	सुबेदार	थ्यागा राजन एल	01.01.2013
2485	जेसी758450पी	सुबेदार	थिरुपथि सी	01.01.2013
2486	जेसी761023के	सुबेदार	उदय कुमार सिंह	01.09.2012
2487	जेसी754026पी	सुबेदार	उमा शंकर सिंह	01.12.2012
2488	जेसी760935डब्ल्यू	सुबेदार	उमा शंकर सिंह	01.01.2013
2489	जेसी752077के	सुबेदार	उमाकान्ता टी	01.11.2012
2490	जेसी754041के	सुबेदार	उमाले दीपक विशराम	01.01.2013
2491	जेसी754023एफ	सुबेदार	उमेश कुमार	01.09.2012
2492	जेसी760216एक्स	सुबेदार	उमेश कुमार ककाद	01.12.2012
2493	जेसी756605ए	सुबेदार	युष्मादा टी	01.01.2013
2494	जेसी755103एल	सुबेदार	उत्तातम चन्द राना	01.10.2012
2495	जेसी757005के	सुबेदार	यू कुमार घोष	01.12.2012
2496	जेसी759792पी	सुबेदार	वी बाला रमन	01.12.2012
2497	जेसी760534एफ	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.11.2012
2498	जेसी755281एन	सुबेदार	वीरपाल सिंह	01.11.2012
2499	जेसी752087एन	सुबेदार	विरेन्दर चन्द	01.10.2012
2500	जेसी761030ए	सुबेदार	विद्या राम	01.09.2012
2501	जेसी761382एक्स	सुबेदार	विद्यानंद झा	01.11.2012
2502	जेसी754498एल	सुबेदार	विजय भान सिंह	01.01.2013
2503	जेसी752785डब्ल्यू	सुबेदार	विजय कुमार	01.01.2013
2504	जेसी760218एच	सुबेदार	विजय कुमार सिंह	01.12.2012
2505	जेसी759480वाइ	सुबेदार	विजय नारायण सी	01.10.2012
2506	जेसी760673एल	सुबेदार	विजय थापा	01.12.2012
2507	जेसी756033के	सुबेदार	विजयेन्द्रा एम वी	01.01.2013
2508	जेसी755778एल	सुबेदार	विमल कुमार	01.09.2012
2509	जेसी761282एम	सुबेदार	विनोद कुमार	01.10.2012
2510	जेसी754946एम	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार	01.09.2012

2511	जेसी763299वाइ	सुबेदार	विष्णु दत्ता	01.01.2013
2512	जेसी763171एन	सुबेदार	याद राम	01.12.2012
2513	जेसी755324एक्स	सुबेदार	यलप्पा एन	01.12.2012
2514	जेसी758313डब्ल्यू	सुबेदार	यतेन्दर कुमार सिंह	01.11.2012
सेना शिक्षा कोर				
2515	जेसी803337पी	सुबेदार	ए अदयकलाम	01.12.2012
2516	जेसी803165एल	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.01.2013
2517	जेसी802672एम	सुबेदार	भैरव प्रकाश मिश्रा	01.12.2012
2518	जेसी803328एन	सुबेदार	भास्कर चातेजी	01.01.2013
2519	जेसी802663एल	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.12.2012
2520	जेसी803234डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रज किशोर	01.09.2012
2521	जेसी803339ए	सुबेदार	दामोदर	01.11.2012
2522	जेसी802661ए	सुबेदार	धनपाल सिंह	01.12.2012
2523	जेसी803268के	सुबेदार	धर्म चन्द	01.01.2013
2524	जेसी803192पी	सुबेदार	धिरी सिंह	01.01.2013
2525	जेसी802681एन	सुबेदार	दिनेश कुमार मिश्रा	01.12.2012
2526	जेसी802656पी	सुबेदार	डोरी लाल	01.12.2012
2527	जेसी803132ए	सुबेदार	गोर्धन सिंह खेड़ावत	01.01.2013
2528	जेसी803263एल	सुबेदार	कमल सिंह बलवादे	01.01.2013
2529	जेसी803162एक्स	सुबेदार	कृष्णापा शंकर सिंह	01.01.2013
2530	जेसी803228एच	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
2531	जेसी803204वाइ	सुबेदार	कुशाल पाल सिंह	01.01.2013
2532	जेसी802865एम	सुबेदार	मोहन सिंह	01.12.2012
2533	जेसी802671के	सुबेदार	मोहम्मद ए अंसारी	01.12.2012
2534	जेसी803223के	सुबेदार	मोती राम	01.01.2013
2535	जेसी803127पी	सुबेदार	मुकेश कुमार मिश्रा	01.01.2013
2536	जेसी803369एक्स	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.01.2013
2537	जेसी803118एन	सुबेदार	पितांबर झा	01.01.2013
2538	जेसी803140वाइ	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार दीक्षित	01.01.2013
2539	जेसी803238एम	सुबेदार	राज करन	01.01.2013
2540	जेसी803119डब्ल्यू	सुबेदार	राजा राम स्कन्ही	01.01.2013
2541	जेसी802943वाइ	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार यादव	01.12.2012
2542	जेसी803121एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह खबत	01.01.2013
2543	जेसी803340पी	सुबेदार	राम चंद्रा सिंह	01.01.2013
2544	जेसी803293एच	सुबेदार	राम कण्ठन	01.01.2013
2545	जेसी803488एन	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.01.2013
2546	जेसी802772एक्स	सुबेदार	रामदेव सिंह के	01.12.2012
2547	जेसी803242पी	सुबेदार	सुबीर कुमार चातेजी	01.01.2013
2548	जेसी802694एल	सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.12.2012
2549	जेसी803602ए	सुबेदार	यू सिंह	01.01.2013
2550	जेसी802667एफ	सुबेदार	उमराव सिंह	01.12.2012
2551	जेसी802985एल	सुबेदार	विजय पाल	01.12.2012

2552	जेसी803311ए	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.01.2013
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
2553	जेसी797079एफ	रिसालदार	ब्रिजेश कुमार पांडे	01.12.2012
2554	जेसी797360के	रिसालदार	जे जयचन्द्रन पिल्लई	01.09.2012
2555	जेसी797365एच	रिसालदार	एल चंगमाई	01.12.2012
2556	जेसी797319एन	रिसालदार	महाबीर सिंह	01.09.2012
2557	जेसी797384एन	रिसालदार	मनी कांत सिंह	01.09.2012
2558	जेसी797414ए	रिसालदार	आर अरोकिया स्वामी	01.09.2012
2559	जेसी797331पी	रिसालदार	सुकुमार राय	01.10.2012
<u>आसुचना कोर</u>				
2560	जेसी810752वाइ	सुबेदार	अमर बहादुर सिंह	01.01.2013
2561	जेसी810705एफ	सुबेदार	अतर सिंह	01.10.2012
2562	जेसी810396के	सुबेदार	बलवान सिंह	01.10.2012
2563	जेसी810564एक्स	सुबेदार	भागीरथ मल कुल्हाड़ी	01.09.2012
2564	जेसी811091डब्ल्यू	सुबेदार	बिजया गुरंग	01.01.2013
2565	जेसी810803एफ	सुबेदार	ब्रह्मपाल सिंह काजला	01.01.2013
2566	जेसी811186डब्ल्यू	सुबेदार	बी मिश्रा	01.09.2012
2567	जेसी810725पी	सुबेदार	देव राम	01.12.2012
2568	जेसी810724एम	सुबेदार	धर्मवीर सिंह	01.12.2012
2569	जेसी810716एन	सुबेदार	दिल बहादुर थापा	01.11.2012
2570	जेसी810706के	सुबेदार	गुरबचन सिंह	01.10.2012
2571	जेसी810852के	सुबेदार	जे सिबस्टियन	01.12.2012
2572	जेसी810764एन	सुबेदार	कमलेश कुमार चौधरी	01.09.2012
2573	जेसी810785के	सुबेदार	कप्तान सिंह	01.09.2012
2574	जेसी810589के	सुबेदार	कुलजीत चन्द कटोच	01.09.2012
2575	जेसी810531एम	सुबेदार	कुमार बहादुर यादव	01.01.2013
2576	जेसी810590वाइ	सुबेदार	मंगला राम जाट	01.09.2012
2577	जेसी810726एक्स	सुबेदार	माता प्रसाद	01.12.2012
2578	जेसी810711पी	सुबेदार	मोहम्मद नसीम अख्तर	01.11.2012
2579	जेसी810701एल	सुबेदार	एम सिंह	01.09.2012
2580	जेसी810708पी	सुबेदार	मोहन सिंह	01.10.2012
2581	जेसी810715एल	सुबेदार	नार बहादुर थापा	01.11.2012
2582	जेसी810756पी	सुबेदार	पाटिल जयावन्त निवृति	01.11.2012
2583	जेसी810743एक्स	सुबेदार	राज सिंह	01.09.2012
2584	जेसी810585एन	सुबेदार	राम प्रसाद रौय	01.10.2012
2585	जेसी810709एक्स	सुबेदार	शेख अब्दुल हकीम इब्राहिम	01.11.2012
2586	जेसी810933के	सुबेदार	सैयद अफज़ल अली	01.09.2012



सेना पुलिस कोर

2587	जेसी819226एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार सांसद	01.09.2012
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				

2588	जेसी826169एन	सुबेदार	हेम सिंह	01.01.2013
2589	जेसी826196एक्स	सुबेदार	प्रेम राम	01.01.2013
<u>पायोनियर कोर</u>				

2590	जेसी829386पी	सुबेदार	भवानी दत्त	01.10.2012
2591	जेसी829374ए	सुबेदार	किशन सिंह	01.10.2012
2592	जेसी829391ए	सुबेदार	पेरिस बी	01.12.2012
2593	जेसी829376एल	सुबेदार	प्रहलाद मीना	01.01.2013
2594	जेसी829353के	सुबेदार	ऋषि पाल सिंह	01.09.2012
2595	जेसी829375एच	सुबेदार	सहाजी शंकर कोली	01.11.2012
2596	जेसी829358एच	सुबेदार	एस दीन	01.10.2012

रक्षा सुरक्षा कोर

2597	जेसी842223ए	सुबेदार	अमर नाथ प्रसाद	01.11.2012
2598	जेसी842014एच	सुबेदार	बालाकृष्णन पीटी	01.11.2012
2599	जेसी842113एल	सुबेदार	चरण सिंह	01.12.2012
2600	जेसी841711डब्ल्यू	सुबेदार	दिलावर सिंह	01.01.2013
2601	जेसी842001एल	सुबेदार	गणेशन जी.	01.01.2013
2602	जेसी841318एन	सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.01.2013
2603	जेसी842182एफ	सुबेदार	हरी दत्त	01.01.2013
2604	जेसी840711के	सुबेदार	एम वी सोमन	01.12.2012
2605	जेसी841500एन	सुबेदार	पीएम एच पिल्लई	01.12.2012
2606	जेसी841580डब्ल्यू	सुबेदार	रमेशन एस	01.11.2012
2607	जेसी842083वाइ	सुबेदार	रवीन्द्रन पीपी	01.11.2012
2608	जेसी841775एफ	सुबेदार	आर पुष्करन	01.12.2012
2609	जेसी842048डब्ल्यू	सुबेदार	एससी बच्चू बी	09.2012
2610	जेसी841361पी	सुबेदार	तीरथ राम	01.01.2013

प्रदेशिक सेना

2611	टिजे4926डब्ल्यू	सुबेदार	ए गुरंग शून्य	1.01.2013
2612	टिजे3400एक्स	सुबेदार	बनवारी सिंह राव	01.10.2012
2613	टिजे3495एच	सुबेदार	डी. बापू बाबू	01.10.2012
2614	टिजे4471एल	सुबेदार	गनेश चंद्रा सामल	01.12.2012
2615	टिजे4339एल	सुबेदार	गोविंद सिंह राजावत	01.09.2012
2616	टिजे4621डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा कुमार	01.10.2012
2617	टिजे4566एल	सुबेदार	मशालकर रमना शिदराप्पा	01.10.2012
2618	टिजे4340वाइ	सुबेदार	प्रभाकर एन	01.10.2012
2619	टिजे4644एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.10.2012
2620	टिजे4207एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश	01.10.2012
2621	टिजे4253एम	सुबेदार	एस गोवर्धन	01.01.2013

2622	टिजे4194एल	सुबेदार	सुभाष चक्रवर्ती	01.09.2012
2623	टिजे4336एक्स	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.10.2012
2624	टिजे4254पी	सुबेदार	उन्नी कृष्णन ईसी	01.12.2012

अवैतनिक रिसालदार / सुबेदार के रूप में

आर्मड कोर

1	जेसी244703एल	नायब रिसालदार	आशीम कुमार चंदा	01.01.2013
2	जेसी243445के	नायब रिसालदार	कैलाश सिंह यादव	01.01.2013
3	जेसी243826एल	नायब रिसालदार	कृष्णन के	01.12.2012
4	जेसी243852एम	नायब रिसालदार	एन कुमार सिंह	01.11.2012
5	जेसी244133ए	नायब रिसालदार	संजय कुमार विश्वास	01.01.2013

आर्टिलरी रेजीमेंट

6	जेसी275831के	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.12.2012
7	जेसी272800वाइ	नायब सुबेदार	ए मोहन राव	01.09.2012
8	जेसी273564पी	नायब सुबेदार	अनूप कुमार पौल	01.09.2012
9	जेसी274238वाइ	नायब सुबेदार	अशोक कुमार यादव	01.12.2012
10	जेसी277974एच	नायब सुबेदार	बलदेव सिंह	01.09.2012
11	जेसी275368एन	नायब सुबेदार	बलवान सिंह	01.01.2013
12	जेसी273340पी	नायब सुबेदार	भरत कुमार	01.12.2012
13	जेसी273114एक्स	नायब सुबेदार	धर्म चन्द	01.09.2012
14	जेसी274719एल	नायब सुबेदार	धर्म वीर	01.09.2012
15	जेसी272766के	नायब सुबेदार	गयाद सिंह	01.09.2012
16	जेसी273388एच	नायब सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.01.2013
17	जेसी274154एल	नायब सुबेदार	जबार सिंह	01.09.2012
18	जेसी274038एच	नायब सुबेदार	जाधव राजाभाउ तात्याराव	01.11.2012
19	जेसी272989एफ	नायब सुबेदार	जनक राज	01.11.2012
20	जेसी275164एफ	नायब सुबेदार	झम्मन सिंह	01.10.2012
21	जेसी274845एक्स	नायब सुबेदार	के नागेस्वर राव	01.01.2013
22	जेसी275516एन	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
23	जेसी274269वाइ	नायब सुबेदार	एम एम	01.11.2012
24	जेसी275745वाइ	नायब सुबेदार	एम सिंह	01.01.2013
25	जेसी273103एल	नायब सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.11.2012
26	जेसी273500के	नायब सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.10.2012
27	जेसी273946वाइ	नायब सुबेदार	मान सिंह	01.10.2012
28	जेसी273600पी	नायब सुबेदार	एम कादूबा महादु	01.10.2012
29	जेसी273220डब्ल्यू	नायब सुबेदार	निहाल सिंह	01.01.2013
30	जेसी273396एफ	नायब सुबेदार	निरंजन जैना	01.09.2012
31	जेसी273151एल	नायब सुबेदार	प्रताप सिंह	01.12.2012
32	जेसी276091एम	नायब सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.12.2012
33	जेसी274648पी	नायब सुबेदार	राजू कुमार	01.09.2012
34	जेसी275518वाइ	नायब सुबेदार	राकेश कुमार	01.09.2012
35	जेसी274785एन	नायब सुबेदार	रामजी प्रसाद	01.10.2012
36	जेसी273130पी	नायब सुबेदार	रणधीर सिंह	01.09.2012

37	जेसी273834वाइ	नायब सुबेदार	रूप सिंह	01.11.2012
38	जेसी274729पी	नायब सुबेदार	सच्चिदानंद शुक्ला	01.11.2012
39	जेसी274832ए	नायब सुबेदार	सरताज सिंह	01.11.2012
40	जेसी274956पी	नायब सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.10.2012
41	जेसी275344के	नायब सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह	01.01.2013
42	जेसी272931के	नायब सुबेदार	शेक गफार	01.10.2012
43	जेसी273219वाइ	नायब सुबेदार	शेख मोहम्मद अब्दुस सलाम	01.09.2012
44	जेसी274954के	नायब सुबेदार	शिव राम	01.10.2012
45	जेसी274120एक्स	नायब सुबेदार	एस महाखुद	01.09.2012
46	जेसी274089डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा राय	01.12.2012
47	जेसी272978पी	नायब सुबेदार	सुरेश चंद्रा पंडा	01.09.2012
48	जेसी274799एन	नायब सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.01.2013
49	जेसी275992एम	नायब सुबेदार	विजय कुमार	01.01.2013
50	जेसी273941ए	नायब सुबेदार	यम नारायण पटेल	01.10.2012

सेना वायु सुरक्षा

51	जेसी301386डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बेगमसज सिंह	01.11.2012
52	जेसी301299एच	नायब सुबेदार	जोगिंदर कुमार	01.09.2012
53	जेसी301103के	नायब सुबेदार	कनी राम ओएलए	01.09.2012
54	जेसी301447एच	नायब सुबेदार	राम प्रवेश सिंह	01.12.2012
55	जेसी301456के	नायब सुबेदार	साजी मेथ्यू	01.04.2012
56	जेसी301448एल	नायब सुबेदार	विजय सिंह चौहान	01.09.2012

मद्रास इंजीनियर समूह

57	जेसी309557एम	नायब सुबेदार	ए एम अलंगाराम	01.01.2013
58	जेसी309527पी	नायब सुबेदार	ए सगायराज	01.10.2012
59	जेसी309546ए	नायब सुबेदार	ए वी नायडू	01.11.2012
60	जेसी309460एफ	नायब सुबेदार	अब्राहम एम	01.01.2013
61	जेसी309747वाइ	नायब सुबेदार	अनिल कुमार सी	01.12.2012
62	जेसी308748पी	नायब सुबेदार	अनिल कुमार यादव	01.11.2012
63	जेसी308741एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.09.2012
64	जेसी309556के	नायब सुबेदार	बट्टू वेंकट रमना	01.01.2013
65	जेसी308739एन	नायब सुबेदार	बी महतो	01.10.2012
66	जेसी308722ए	नायब सुबेदार	भुवनेश्वर महंता	01.10.2012
67	जेसी309617डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बोरा सांता मूर्ती	01.10.2012
68	जेसी309550एच	नायब सुबेदार	सी राठीनवेलू	01.10.2012
69	जेसी309750वाइ	नायब सुबेदार	जी. पेरुमल	01.01.2013
70	जेसी308750एम	नायब सुबेदार	गोवर्धन प्रसाद कला	01.10.2012
71	जेसी308988एफ	नायब सुबेदार	जी. प्रमोदरा	01.10.2012
72	जेसी309545एक्स	नायब सुबेदार	हनुमान एम	01.09.2012
73	जेसी308588ए	नायब सुबेदार	हरी प्रसाद एस	01.01.2013
74	जेसी309552एन	नायब सुबेदार	जयशीलन	01.11.2012

75	जेसी309723पी	नायब सुबेदार	जोहन मेथ्यू सी एम	01.10.2012
76	जेसी308848ए	नायब सुबेदार	कृष्णामूर्ती एम	01.11.2012
77	जेसी309692ए	नायब सुबेदार	के टी मुथु कुमार	01.11.2012
78	जेसी309551एल	नायब सुबेदार	मोहम्मद इस्माइल	01.10.2012
79	जेसी310223के	नायब सुबेदार	नवाब जॉन ए	01.10.2012
80	जेसी309558पी	नायब सुबेदार	पिचकानी ई	01.01.2013
81	जेसी309727एल	नायब सुबेदार	प्रसन्ना कुमार सी	01.01.2013
82	जेसी309611पी	नायब सुबेदार	पी अप्पान्ना	01.09.2012
83	जेसी309638एम	नायब सुबेदार	आर सैथिल	01.12.2012
84	जेसी309457एफ	नायब सुबेदार	राधाकृष्ण टीके	01.11.2012
85	जेसी309724एक्स	नायब सुबेदार	रामासिद्धप्पा जे	01.01.2013
86	जेसी309725ए	नायब सुबेदार	रवि कुमार एन	01.01.2013
87	जेसी310034ए	नायब सुबेदार	एस डी. नायडू	01.12.2012
88	जेसी309555एफ	नायब सुबेदार	सम्पथ आर	01.11.2012
89	जेसी309549एन	नायब सुबेदार	सथियन पी	01.10.2012
90	जेसी308747एम	नायब सुबेदार	सत्य नारायण सिंह	01.10.2012
91	जेसी309739ए	नायब सुबेदार	सुब्रमण्यम आर	01.12.2012
92	जेसी309696डब्ल्यू	नायब सुबेदार	थुलासिधरन पीके	01.12.2012
93	जेसी309459एम	नायब सुबेदार	वासुदेवन ई	01.12.2012

**बंगाल इंजीनियर समूह**

94	जेसी339320के	नायब सुबेदार	गोरे लाल मोन्डल	01.01.2013
95	जेसी338919एल	नायब सुबेदार	एच सिंह	01.12.2012
96	जेसी339148एन	नायब सुबेदार	एच यादवा	01.12.2012
97	जेसी338023के	नायब सुबेदार	जैकब के जी.	01.11.2012
98	जेसी339325एच	नायब सुबेदार	कमलेश कुमार पांडे	01.12.2012
99	जेसी338935एच	नायब सुबेदार	मनोहर सिंह कन्याल	01.09.2012
100	जेसी339199एफ	नायब सुबेदार	मोहन चंद्रा भट्ट	01.10.2012
101	जेसी338825एन	नायब सुबेदार	ओमपाल सिंह	01.10.2012
102	जेसी339305पी	नायब सुबेदार	राम इकबाल सिंह	01.12.2012
103	जेसी3389912एफ	नायब सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2012
104	जेसी329600के	नायब सुबेदार	वेनूकुटन पिल्लई आर	01.10.2012

**बोम्बे इंजीनियर समूह**

105	जेसी351329एल	नायब सुबेदार	बख्शीश सिंह	01.09.2012
106	जेसी351213पी	नायब सुबेदार	बलदेव सिंह	01.01.2013
107	जेसी350989डब्ल्यू	नायब सुबेदार	चंद्रा प्रकाश वर्मा	01.01.2013
108	जेसी350952पी	नायब सुबेदार	गोकुल सिंह	01.10.2012
109	जेसी351320डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.10.2012
110	जेसी351703एच	नायब सुबेदार	इसाक डब्ल्यू	01.11.2012
111	जेसी351334डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जगपाल सिंह	01.09.2012
112	जेसी351326एक्स	नायब सुबेदार	जगतार सिंह	01.01.2013

113	जेसी351460एच	नायब सुबेदार	किशन सिंह लोचन	01.11.2012
114	जेसी351323के	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
115	जेसी351321वाइ	नायब सुबेदार	माखन सिंह	01.11.2012
116	जेसी351580एफ	नायब सुबेदार	परमजीत सिंह	01.10.2012
117	जेसी351322एफ	नायब सुबेदार	राम बहादुर सिंह	01.12.2012
118	जेसी351549पी	नायब सुबेदार	राम देव	01.01.2013

सिग्नल्स कोर

119	जेसी379733डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अब्दुल खलेक	01.01.2013
120	जेसी379642एम	नायब सुबेदार	अब्दुल निज़ार	01.01.2013
121	जेसी380033पी	नायब सुबेदार	अक्षया लाल प्रसाद	01.10.2012
122	जेसी379634एन	नायब सुबेदार	अमीर सिंह	01.11.2012
123	जेसी380012वाइ	नायब सुबेदार	अनिक चंद्रा नाथ	01.09.2012
124	जेसी379722के	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.11.2012
125	जेसी370032एम	नायब सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.10.2012
126	जेसी370021ए	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2013
127	जेसी379741पी	नायब सुबेदार	अशोक कुमार जदाउन	01.10.2012
128	जेसी379685एफ	नायब सुबेदार	अशोक कुमार शाह	01.09.2012
129	जेसी379485एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2012
130	जेसी379678एल	नायब सुबेदार	बी एस शेखावत	01.09.2012
131	जेसी379473डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बाबुल चंद्रा दास	01.11.2012
132	जेसी380440एक्स	नायब सुबेदार	बदन सिंह	01.11.2012
133	जेसी379864एफ	नायब सुबेदार	बलेश्वर चौधरी	01.12.2012
134	जेसी380118एल	नायब सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2013
135	जेसी378855एन	नायब सुबेदार	बसंत कुमार मिश्रा	01.09.2012
136	जेसी380436पी	नायब सुबेदार	बेचू यादव	01.01.2013
137	जेसी378240एच	नायब सुबेदार	बीर बहादुर	01.01.2013
138	जेसी378441एफ	नायब सुबेदार	बी पुटा	01.09.2012
139	जेसी380220एन	नायब सुबेदार	बिश्वजीत सूत्राधर	01.01.2013
140	जेसी380059के	नायब सुबेदार	चाला रमना राव	01.09.2012
141	जेसी379645ए	नायब सुबेदार	चंद्रशेखरन एन	01.01.2013
142	जेसी380259ए	नायब सुबेदार	दलजीत सिंह	01.01.2013
143	जेसी379689एक्स	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार शो	01.10.2012
144	जेसी379860एल	नायब सुबेदार	दिनेश चंद्रा उपाध्याय	01.12.2012
145	जेसी379693ए	नायब सुबेदार	जी. सिंह बलवान	01.10.2012
146	जेसी380067एच	नायब सुबेदार	हरीश चंद्रा सिंह	01.01.2013
147	जेसी380122एन	नायब सुबेदार	इस्माइल एम	01.01.2013
148	जेसी380197एल	नायब सुबेदार	जाधव सम्पत जयवंत	01.01.2013
149	जेसी379688पी	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा बहादुर सिंह	01.10.2012
150	जेसी378180वाइ	नायब सुबेदार	जीतुल सेकिआ	01.11.2012
151	जेसी378937डब्ल्यू	नायब सुबेदार	के एस रवीशंकर	01.11.2012
152	जेसी379112एक्स	नायब सुबेदार	कालाधरन के वी	01.11.2012

153	जेसी380035ए	नायब सुबेदार	कन्हैया लाल यादव	01.12.2012
154	जेसी379637एफ	नायब सुबेदार	करुणानिधि के	01.12.2012
155	जेसी381228एम	नायब सुबेदार	काशिनाथ सिंह यादव	01.09.2012
156	जेसी379687एम	नायब सुबेदार	कुसुम लाल यादव	01.10.2012
157	जेसी380036एच	नायब सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.11.2012
158	जेसी379000एक्स	नायब सुबेदार	मधु ए	01.12.2012
159	जेसी380257पी	नायब सुबेदार	महेंद्र कुमार तिवारी	01.01.2013
160	जेसी379958वाइ	नायब सुबेदार	मकवाना दिनेश कुमार सोमा भाई	01.12.2012
161	जेसी380489एन	नायब सुबेदार	एन लाल गुप्ता	01.12.2012
162	जेसी379752एफ	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.11.2012
163	जेसी379692एक्स	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
164	जेसी379721एफ	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.11.2012
165	जेसी379865के	नायब सुबेदार	पारस नाथ यादव	01.01.2013
166	जेसी380236वाइ	नायब सुबेदार	परशुराम सिंह यादव	01.01.2013
167	जेसी379644एक्स	नायब सुबेदार	पारेश चंद्रा कलिता	01.12.2012
168	जेसी380202एल	नायब सुबेदार	पर्गत सिंह	01.01.2013
169	जेसी379734वाइ	नायब सुबेदार	पाटिल शंकर बी	01.09.2012
170	जेसी379862डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रसन्ना देब नाथ	01.12.2012
171	जेसी379858एन	नायब सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.12.2012
172	जेसी379863वाइ	नायब सुबेदार	राजा किशोर स्वेन	01.01.2013
173	जेसी379691पी	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.10.2012
174	जेसी379859डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राजेश कुमार सिंह	01.12.2012
175	जेसी380031के	नायब सुबेदार	राम सरन यादव	01.09.2012
176	जेसी379996पी	नायब सुबेदार	राम स्वरूप सिंह	01.10.2012
177	जेसी380256एम	नायब सुबेदार	रमेश सिंह	01.01.2013
178	जेसी379750डब्ल्यू	नायब सुबेदार	आर विथल भौराव	01.10.2012
179	जेसी379307एच	नायब सुबेदार	एस आर चंद्रा आर	01.12.2012
180	जेसी379686के	नायब सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.10.2012
181	जेसी379742एक्स	नायब सुबेदार	सरोज कुमार झा	01.10.2012
182	जेसी380019एच	नायब सुबेदार	सर्तेंद्र शर्मा	01.10.2012
183	जेसी379327डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.10.2012
184	जेसी379549एल	नायब सुबेदार	एस यादव	01.09.2012
185	जेसी380022एच	नायब सुबेदार	शब्बीर अहमद	01.01.2013
186	जेसी379079एल	नायब सुबेदार	शेक आइ	01.11.2012
187	जेसी379856एच	नायब सुबेदार	शैलेश कुमार मिश्रा	01.12.2012
188	जेसी380020एक्स	नायब सुबेदार	शंकर प्रसाद सिंह	01.01.2013
189	जेसी370121एल	नायब सुबेदार	शशि भूसेन दुबे	01.01.2013
190	जेसी379110एम	नायब सुबेदार	शिर प्रकाश	01.09.2012
191	जेसी379414के	नायब सुबेदार	शिव पूजन यादव	01.11.2012
192	जेसी379723एम	नायब सुबेदार	शिशिर कुमार मित्रा	01.12.2012
193	जेसी379654एफ	नायब सुबेदार	सुदर्शन मुदली	01.10.2012
194	जेसी380235डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुदेश कुमार	01.01.2013

195	जेसी379680एच	नायब सुबेदार	सुधीर प्रसाद सिंह	01.09.2012
196	जेसी380255के	नायब सुबेदार	सुनील कुमार	01.01.2013
197	जेसी380120एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र प्रसाद शर्मा	01.01.2013
198	जेसी378784एक्स	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.09.2012
199	जेसी380023एल	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2013
200	जेसी379690एम	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.10.2012
201	जेसी379198एफ	नायब सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.09.2012
202	जेसी379681एल	नायब सुबेदार	उपेंद्र रौय	01.09.2012
203	जेसी379610के	नायब सुबेदार	वी काशीनाथ	01.01.2013
204	जेसी375130एच	नायब सुबेदार	वी शांतीलाल लक्ष्मन	01.10.2012
205	जेसी380078पी	नायब सुबेदार	विलागा नरेन्द्रा बाबू	01.10.2012
206	जेसी380119एन	नायब सुबेदार	विद्या सागर चोबे	01.01.2013
207	जेसी379857एल	नायब सुबेदार	विद्याधरन के	01.12.2012
<u>ब्रिगेड आफ गार्ड्स</u>				
208	जेसी404550एन	नायब सुबेदार	चंद्र सिंह बोहरा	01.10.2012
<u>मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट</u>				
209	जेसी421611डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गुरु प्रसाद मेधी	01.09.2012
<u>पंजाब रेजीमेंट</u>				
210	जेसी430696वाइ	नायब सुबेदार	अमरजीत सिंह	01.11.2012
211	जेसी430420एच	नायब सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.09.2012
212	जेसी430686पी	नायब सुबेदार	जी. सिंह	01.11.2012
213	जेसी430318ए	नायब सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.12.2012
<u>मद्रास रेजीमेंट</u>				
214	जेसी440399वाइ	नायब सुबेदार	ए राजेन्द्रन	01.11.2012
215	जेसी440044एन	नायब सुबेदार	दारा जय कुमार	01.09.2012
216	जेसी580843एफ	नायब सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.01.2013
217	जेसी439912एच	नायब सुबेदार	संजय कुमार के	01.09.2012
<u>ग्रेनेडियर्स</u>				
218	जेसी404494ए	नायब सुबेदार	अजमेर सिंह	01.11.2012
219	जेसी404612एच	नायब सुबेदार	दिनेश कुमार चंडे	01.10.2012
220	जेसी404400एक्स	नायब सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा	01.11.2012
221	जेसी404671पी	नायब सुबेदार	रामवीर सिंह	01.01.2013
222	जेसी450971पी	नायब सुबेदार	ऋषि पाल	01.11.2012
223	जेसी451093डब्ल्यू	नायब सुबेदार	शाम सिंह मन्हास	01.11.2012
224	जेसी450894एल	नायब सुबेदार	शिव करन बाबल	01.11.2012

मराठा लघु सेना

225	जेसी460066एन	नायब सुबेदार	पाटिल हनमंत सोपान	01.11.2012
226	जेसी460125पी	नायब सुबेदार	शेख एम	01.10.2012

राजपूताना राईफल्स

227	जेसी470664वाइ	नायब सुबेदार	ब्रजपाल सिंह	01.12.2012
228	जेसी470240एच	नायब सुबेदार	केशर सिंह	01.10.2012
229	जेसी470684एम	नायब सुबेदार	कृष्णन बलदेव सिंह	01.11.2012
230	जेसी470444पी	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.01.2013
231	जेसी470548डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रेम सिंह	01.09.2012
232	जेसी470276एफ	नायब सुबेदार	राम दास	01.09.2012
233	जेसी470801एम	नायब सुबेदार	सुमेर सिंह	01.12.2012

राजपूत रेजीमेंट

234	जेसी480601के	नायब सुबेदार	जे सिंह	01.12.2012
235	जेसी480508एच	नायब सुबेदार	जीवन लाल एस	01.10.2012
236	जेसी480422एफ	नायब सुबेदार	पूरन चन्द	01.09.2012
237	जेसी480421एफ	नायब सुबेदार	आर श्रीनिवासन	01.09.2012
238	जेसी480547एफ	नायब सुबेदार	राम औतार	01.01.2013

जाट रेजीमेंट

239	जेसी490382एफ	नायब सुबेदार	जय करन	01.12.2012
240	जेसी490509वाइ	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार गुप्ता	01.10.2012
241	जेसी490330एल	नायब सुबेदार	महा सिंह	01.11.2012

सिख रेजीमेंट

242	जेसी499714एफ	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.10.2012
-----	--------------	--------------	------------	------------

सिख लघु पैदल सेना

243	जेसी509970एम	नायब सुबेदार	बलजीत सिंह	01.01.2013
-----	--------------	--------------	------------	------------

डोगरा रेजीमेंट

244	जेसी520713पी	नायब सुबेदार	जीसस आर फलैरो	01.10.2012
245	जेसी521287वाइ	नायब सुबेदार	नसीब सिंह	01.11.2012
246	जेसी521043एल	नायब सुबेदार	तुलसी दास	01.12.2012
247	जेसी520816एन	नायब सुबेदार	विजय सिंह	01.10.2012

गढ़वाल राईफल्स

248	जेसी530738पी	नायब सुबेदार	साहब सिंह	01.09.2012
-----	--------------	--------------	-----------	------------



कुमाँउ रेजीमेंट

249	जेसी540824एन	नायब सुबेदार	चन्दन सिंह दिअप्पा	01.09.2012
250	जेसी540415ए	नायब सुबेदार	गनेश राम	01.09.2012
251	जेसी540613एल	नायब सुबेदार	जीवन सिंह	01.09.2012
252	जेसी540915एक्स	नायब सुबेदार	कुन्दन सिंह	01.01.2013
253	जेसी540812वाइ	नायब सुबेदार	लक्ष्मी दत्त जोशी	01.10.2012
254	जेसी540798वाइ	नायब सुबेदार	नबाब सिंह कुशवाह	01.12.2012
255	जेसी540813एफ	नायब सुबेदार	नरेंद्र सिंह बिष्ट	01.10.2012
256	जेसी540432ए	नायब सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.10.2012

आसाम रेजीमेंट

257	जेसी549812ए	नायब सुबेदार	बाबू राम बोरो	01.10.2012
258	जेसी549620एच	नायब सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.09.2012

बिहार रेजीमेंट

259	जेसी560381वाइ	नायब सुबेदार	खरादी लिम्बू भाई नरसिंह	01.09.2012
-----	---------------	--------------	-------------------------	------------

महार रेजीमेंट

260	जेसी570282के	नायब सुबेदार	काम्बले पुंदलिक नारायण	01.12.2012
-----	--------------	--------------	------------------------	------------

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

261	जेसी580840एन	नायब सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2013
262	जेसी581059ए	नायब सुबेदार	सांवर सिंह	01.01.2013

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

263	जेसी593673एफ	नायब सुबेदार	बलकार राम	01.12.2012
264	जेसी593863एन	नायब सुबेदार	मंजूर अहमद जी.	01.09.2012
265	जेसी593906एक्स	नायब सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.12.2012
266	जेसी593750एल	नायब सुबेदार	यश पौल	01.09.2012

3 गोरखा राईफलस

267	जेसी607807एच	नायब सुबेदार	भाटी खिमाजी एस	01.09.2012
-----	--------------	--------------	----------------	------------

5 गोरखा राईफलस

268	जेसी617918एन	नायब सुबेदार	एस थिरुगननम	01.10.2012
-----	--------------	--------------	-------------	------------

8 गोरखा राईफलस

269	जेसी623903एफ	नायब सुबेदार	बीर बहादुर काकी	01.11.2012
270	जेसी623943एच	नायब सुबेदार	केशर बहादुर गुरंग	01.01.2013

सेना सेवा कोर दक्षिण

271	जेसी665814के	नायब सुबेदार	अबुल कलाम एन अली	01.09.2012
272	जेसी667443एल	नायब सुबेदार	अजय पाल सिंह महार	01.01.2013
273	जेसी665938वाइ	नायब सुबेदार	आज़ाद साह	01.01.2013
274	जेसी668179पी	नायब सुबेदार	बाबर ताटया साहेब शिवा राम	01.10.2012
275	जेसी667010एन	नायब सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2012
276	जेसी667408एच	नायब सुबेदार	बिरेन्द्र कुमार	01.01.2013
277	जेसी643028एल	नायब सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह राघव	01.09.2012
278	जेसी667020एक्स	नायब सुबेदार	बिश्वजीत मोन्डल	01.11.2012
279	जेसी667748एल	नायब सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.09.2012
280	जेसी667393एल	नायब सुबेदार	जय नारायणा यादव	01.01.2013
281	जेसी667567ए	नायब सुबेदार	जापान सिंह	01.09.2012
282	जेसी665570एफ	नायब सुबेदार	के श्रीकांत विठल	01.08.2012
283	जेसी667142एफ	नायब सुबेदार	करुणानिधि एन	01.01.2013
284	जेसी668206एन	नायब सुबेदार	किशोर कुमार सेन	01.11.2012
285	जेसी667284वाइ	नायब सुबेदार	मानेबेन्द्रा रौय	01.10.2012
286	जेसी665249एक्स	नायब सुबेदार	मोहम्मद एम खान	01.09.2012
287	जेसी665943के	नायब सुबेदार	नगेन्द्रा नाथ सिंह	01.01.2013
288	जेसी668020के	नायब सुबेदार	नारायण लाल	01.01.2013
289	जेसी667302डब्ल्यू	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.10.2012
290	जेसी667671एन	नायब सुबेदार	निजामुरदीन बरभुईया	01.10.2012
291	जेसी667268एफ	नायब सुबेदार	पदम सिंह शिसोदिया	01.09.2012
292	जेसी667172वाइ	नायब सुबेदार	प्रसाद कुमार डे	01.11.2012
293	जेसी667234एन	नायब सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.09.2012
294	जेसी667233एल	नायब सुबेदार	राजेन्द्रन नायर वी	01.12.2012
295	जेसी667390एक्स	नायब सुबेदार	राम बाबू शर्मा	01.01.2013
296	जेसी667132एक्स	नायब सुबेदार	राम सिंह यादव	01.01.2013
297	जेसी664758के	नायब सुबेदार	रामजस गोस्वामी	01.10.2012
298	जेसी665811डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सलोखे अनिल रामचंद्र	01.09.2012
299	जेसी667994डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संजोय कुमार बासु	01.10.2012
300	जेसी665391एफ	नायब सुबेदार	शेख बरकत अली	01.01.2013
301	जेसी667131पी	नायब सुबेदार	शिव दयाल सिंह	01.01.2013
302	जेसी667828एच	नायब सुबेदार	टी महेश मधुकर	01.09.2012
303	जेसी667015एम	नायब सुबेदार	थोमसन टी पी	01.11.2012
304	जेसी667332एन	नायब सुबेदार	उमा आर आर	01.12.2012
305	जेसी665812वाइ	नायब सुबेदार	उत्तातम कुमार घोष	01.09.2012

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

306	जेसी681209ए	नायब रिसालदार	अभिमान्यु बारिक	01.01.2013
307	जेसी681153वाइ	नायब रिसालदार	मोहम्मद असीरुद्दीन	01.09.2012
308	जेसी681095ए	नायब रिसालदार	मोहम्मद यासीन	01.01.2013

309	जेसी681186के	नायब रिसालदार	नीलकंठ माधव मोन्डल	01.10.2012
310	जेसी681210पी	नायब रिसालदार	रण सिंह	01.09.2012
311	जेसी681075एम	नायब रिसालदार	सुरेश कुमार शर्मा	01.09.2012
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>				
312	जेसी696759ए	नायब सुबेदार	अजय कुमार वर्मा	01.09.2012
313	जेसी696932वाइ	नायब सुबेदार	अनिल कुमार पांडे	01.09.2012
314	जेसी697044डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अनुज कुमार पांडे	01.09.2012
315	जेसी697301एच	नायब सुबेदार	अरुण कुमार मंडल	01.09.2012
316	जेसी697505पी	नायब सुबेदार	असगर अली मुल्ला	01.12.2012
317	जेसी696781एल	नायब सुबेदार	अशोक प्रसाद	01.10.2012
318	जेसी697219एन	नायब सुबेदार	बबू पी टी	01.09.2012
319	जेसी697299डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बसिष्ठ सिंह	01.09.2012
320	जेसी696934के	नायब सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.12.2012
321	जेसी697480एन	नायब सुबेदार	बिजेंद्र सिंह	01.01.2013
322	जेसी697154एल	नायब सुबेदार	बिमोन बोसह	01.11.2012
323	जेसी696783डब्ल्यू	नायब सुबेदार	ब्रज किशोर सेनापती	01.10.2012
324	जेसी697547एफ	नायब सुबेदार	चंद्रा मोहन सिंह	01.01.2013
325	जेसी695974वाइ	नायब सुबेदार	चौहान जयन्ती भाई पंजा भाई	01.10.2012
326	जेसी697550एफ	नायब सुबेदार	डेल सिंह	01.01.2013
327	जेसी696963वाइ	नायब सुबेदार	डी. यादव	01.12.2012
328	जेसी697548के	नायब सुबेदार	देश राज	01.01.2013
329	जेसी696772के	नायब सुबेदार	धानावादे एस सी	01.10.2012
330	जेसी697690एन	नायब सुबेदार	धर्म चन्द	01.11.2012
331	जेसी697047के	नायब सुबेदार	डी. कुमार पांडे	01.10.2012
332	जेसी697678एम	नायब सुबेदार	दिल बैग सिंह	01.01.2013
333	जेसी697501वाइ	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार गोगोई	01.09.2012
334	जेसी697549एम	नायब सुबेदार	दिनेश कुमार	01.01.2013
335	जेसी696959डब्ल्यू	नायब सुबेदार	दीपक दयाल पांडे	01.10.2012
336	जेसी697224वाइ	नायब सुबेदार	दु कुमार	01.12.2012
337	जेसी696768एफ	नायब सुबेदार	गंगा सिंह	01.09.2012
338	जेसी697034एम	नायब सुबेदार	जोर्ज के सी	01.12.2012
339	जेसी697300ए	नायब सुबेदार	गोलाय कलिता	01.09.2012
340	जेसी697156डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जी. चंद्रा हल्दर	01.12.2012
341	जेसी697563वाइ	नायब सुबेदार	हरेन्द्र प्रसाद यादव	01.01.2013
342	जेसी697503के	नायब सुबेदार	हरी नारायण शर्मा	01.10.2012
343	जेसी697985के	नायब सुबेदार	हरी शंकर बिष्ट	01.01.2013
344	जेसी696935एम	नायब सुबेदार	जगदीश कुमार	01.12.2012
345	जेसी696786के	नायब सुबेदार	जय मूर्ती सिंह यादव	01.10.2012
346	जेसी696794एच	नायब सुबेदार	जय प्रकाश	01.12.2012
347	जेसी697046एफ	नायब सुबेदार	जय सिंह लाम्बा	01.10.2012
348	जेसी697552एम	नायब सुबेदार	जसबीर सिंह	01.01.2013

349	जेसी697560एल	नायब सुबेदार	जया किशोर सिंह	01.01.2013
350	जेसी696769के	नायब सुबेदार	जे रौय	01.10.2012
351	जेसी696791पी	नायब सुबेदार	जितेन्दर सिंह	01.11.2012
352	जेसी697039एल	नायब सुबेदार	जॉय गोपाल रौय	01.12.2012
353	जेसी696782एन	नायब सुबेदार	के गजानन सूर्यभान	01.09.2012
354	जेसी697561एन	नायब सुबेदार	कमलेश प्रसाद	01.01.2013
355	जेसी697557एल	नायब सुबेदार	कवल सिंह	01.11.2012
356	जेसी696683एल	नायब सुबेदार	केदार नाथ बिशोई	01.09.2012
357	जेसी697478डब्ल्यू	नायब सुबेदार	खजान सिंह	01.09.2012
358	जेसी697544एन	नायब सुबेदार	कृष्णा मोहन सिंह	01.12.2012
359	जेसी697502एफ	नायब सुबेदार	एल बी कुशवाहा	01.10.2012
360	जेसी697551के	नायब सुबेदार	लज़ार मसीह	01.01.2013
361	जेसी697318डब्ल्यू	नायब सुबेदार	एम रवि	01.12.2012
362	जेसी697298एन	नायब सुबेदार	मदन लाल	01.09.2012
363	जेसी696775एक्स	नायब सुबेदार	मदन मोहन सिंह	01.09.2012
364	जेसी697542एच	नायब सुबेदार	महाबीर	01.12.2012
365	जेसी697149ए	नायब सुबेदार	महेश्वरन डी.	01.12.2012
366	जेसी697303एन	नायब सुबेदार	मोहम्मद ए खान	01.12.2012
367	जेसी697679पी	नायब सुबेदार	मेराज खान	01.10.2012
368	जेसी697485एम	नायब सुबेदार	मोहन लाल	01.09.2012
369	जेसी697006ए	नायब सुबेदार	मोहन सिंह नेगी	01.12.2012
370	जेसी696785एफ	नायब सुबेदार	मोहाना कुमार डी.	01.10.2012
371	जेसी697374पी	नायब सुबेदार	मुरुगन टी	01.11.2012
372	जेसी697381एल	नायब सुबेदार	नगेन्द्रा चंद्रा राय	01.09.2012
373	जेसी696679एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.09.2012
374	जेसी697234एच	नायब सुबेदार	नवाब सिंह	01.09.2012
375	जेसी697541ए	नायब सुबेदार	नीलकांत सिंह	01.12.2012
376	जेसी697151एक्स	नायब सुबेदार	नीला निओग	01.12.2012
377	जेसी697456एक्स	नायब सुबेदार	निरंजन दास	01.09.2012
378	जेसी697458एच	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.10.2012
379	जेसी697736एल	नायब सुबेदार	पारसनाथ राम	01.12.2012
380	जेसी697244एम	नायब सुबेदार	पर्शोत्तम लाल	01.12.2012
381	जेसी697222एन	नायब सुबेदार	पवन कुमार	01.12.2012
382	जेसी697733एक्स	नायब सुबेदार	पवार अनिल दिवाकर राव	01.12.2012
383	जेसी697793एम	नायब सुबेदार	फूल चन्द जी.	01.12.2012
384	जेसी697153एच	नायब सुबेदार	प्रभु राम बेहर	01.10.2012
385	जेसी697375एक्स	नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार यादव	01.12.2012
386	जेसी697220एच	नायब सुबेदार	प्रसन्ना कुमार सेकिआ	01.12.2012
387	जेसी697032एफ	नायब सुबेदार	पी भोमिक	01.12.2012
388	जेसी697155एन	नायब सुबेदार	रबीन्द्र कुमार सिंह	01.11.2012
389	जेसी696784वाइ	नायब सुबेदार	राधाकृष्ण जी	01.10.2012
390	जेसी696795एल	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.12.2012

391	जेसी697546वाइ	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.01.2013
392	जेसी696936पी	नायब सुबेदार	राज सिंह	01.11.2012
393	जेसी696789एक्स	नायब सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.11.2012
394	जेसी697297एल	नायब सुबेदार	राकेश तिवारी	01.09.2012
395	जेसी696682एच	नायब सुबेदार	राम अयोध्या गिरि	01.10.2012
396	जेसी696678ए	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.09.2012
397	जेसी697036एक्स	नायब सुबेदार	रामवीर सिंह	01.12.2012
398	जेसी697902एन	नायब सुबेदार	रामवीर सिंह	01.01.2013
399	जेसी697376ए	नायब सुबेदार	रवि शंकर	01.12.2012
400	जेसी697558एन	नायब सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.01.2013
401	जेसी697459एल	नायब सुबेदार	रोहतास	01.12.2012
402	जेसी697545डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रोशन लाल	01.12.2012
403	जेसी697461एच	नायब सुबेदार	संत राम	01.12.2012
404	जेसी696792एक्स	नायब सुबेदार	सतेंद्र कुमार	01.11.2012
405	जेसी697462एल	नायब सुबेदार	सत्य नारायण	01.12.2012
406	जेसी696773एम	नायब सुबेदार	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	01.10.2012
407	जेसी698137एक्स	नायब सुबेदार	साहमबीर	01.12.2012
408	जेसी696937एक्स	नायब सुबेदार	शिव नारायण यादव	01.12.2012
409	जेसी697562डब्ल्यू	नायब सुबेदार	श्री बी सिंह	01.01.2013
410	जेसी697559डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सिधेश्वर प्रसाद	01.01.2013
411	जेसी694266ए	नायब सुबेदार	श्री कुमारन बी	01.12.2012
412	जेसी697543एल	नायब सुबेदार	सुभास चंद्र	01.12.2012
413	जेसी697504एम	नायब सुबेदार	सुधांगशू शेखर रौय	01.11.2012
414	जेसी697152ए	नायब सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.12.2012
415	जेसी696790एम	नायब सुबेदार	सुमेर सिंह	01.11.2012
416	जेसी697735एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र कुमार यादव	01.01.2013
417	जेसी697377एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र राय	01.09.2012
418	जेसी697349डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा नाथ तिवारी	01.01.2013
419	जेसी697500डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.01.2013
420	जेसी697038एच	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.12.2012
421	जेसी695310एल	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह रावत	01.09.2012
422	जेसी696960एल	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.12.2012
423	जेसी697037ए	नायब सुबेदार	एस अली	01.12.2012
424	जेसी697479वाइ	नायब सुबेदार	ताल केशवर यादव	01.10.2012
425	जेसी697041एच	नायब सुबेदार	तारक प्रसाद	01.12.2012
426	जेसी696681ए	नायब सुबेदार	उन्नी कृष्णा पिल्लई एम के	01.10.2012
427	जेसी697043एन	नायब सुबेदार	उपेंद्र राम	01.09.2012
428	जेसी697035पी	नायब सुबेदार	उत्तातम कुमार	01.12.2012
429	जेसी696933एफ	नायब सुबेदार	वेद प्रकाश	01.09.2012
430	जेसी697302एल	नायब सुबेदार	विजय कुमार	01.12.2012
431	जेसी697223डब्ल्यू	नायब सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.12.2012
432	जेसी696961एन	नायब सुबेदार	युद्धवीर सिंह	01.12.2012

सेना आयुध कोर

433	जेसी728894के	नायब सुबेदार	अखिलेश बहदुर सिंह	01.01.2013
434	जेसी729104डब्ल्यू	नायब सुबेदार	आशीस कुमार हल्दर	01.01.2013
435	जेसी728002एन	नायब सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.12.2012
436	जेसी729163एच	नायब सुबेदार	बिपिन चंद्रा बर्मन	01.01.2013
437	जेसी729179एन	नायब सुबेदार	बिसवा कुमार देबबर्मा	01.12.2012
438	जेसी728496एच	नायब सुबेदार	ब्रजनन्दन एल	01.11.2012
439	जेसी728659एल	नायब सुबेदार	गजेन्द्रन के	01.12.2012
440	जेसी728910डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गजराज सिंह गोड़	01.12.2012
441	जेसी728208एल	नायब सुबेदार	गनेश कुमार मीना	01.01.2013
442	जेसी727319डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गोपाल प्रसाद	01.01.2013
443	जेसी728660ए	नायब सुबेदार	हर गोविंद	01.01.2013
444	जेसी728893एफ	नायब सुबेदार	जगदीश चंद्रा जोशी	01.01.2013
445	जेसी728969डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जोगेन्द्र सिंह नेहरा	01.01.2013
446	जेसी728892वाइ	नायब सुबेदार	कुंवर पाल	01.01.2013
447	जेसी728786ए	नायब सुबेदार	लल्लन प्रसाद	01.12.2012
448	जेसी728158एल	नायब सुबेदार	माधो सिंह	01.11.2012
449	जेसी729095ए	नायब सुबेदार	मामिदी रवि कुमार	01.09.2012
450	जेसी728397ए	नायब सुबेदार	मंगल सिंह	01.09.2012
451	जेसी728690एक्स	नायब सुबेदार	एन थामस	01.11.2012
452	जेसी729260ए	नायब सुबेदार	नारायण पथ्य	01.01.2013
453	जेसी727436एफ	नायब सुबेदार	पी मुथु गणेशन ए	01.01.2013
454	जेसी729099डब्ल्यू	नायब सुबेदार	फूल सिंह	01.01.2013
455	जेसी728657ए	नायब सुबेदार	राजेंद्रा कुमार सिंह	01.10.2012
456	जेसी728559ए	नायब सुबेदार	राम चंद्रा राम	01.10.2012
457	जेसी728922एल	नायब सुबेदार	रमेश कुमार ठाकुर	01.10.2012
458	जेसी728257एन	नायब सुबेदार	रनबीर सिंह	01.01.2013
459	जेसी727264एक्स	नायब सुबेदार	रवीन्द्र के	01.12.2012
460	जेसी729081ए	नायब सुबेदार	रवीन्द्र सिंह भदोरिया	01.12.2012
461	जेसी728412के	नायब सुबेदार	एस मुर्गेशन	01.01.2013
462	जेसी729018एल	नायब सुबेदार	एस नल्लासुब्बू	01.10.2012
463	जेसी727695के	नायब सुबेदार	सरत कुमार बी	01.10.2012
464	जेसी728656एक्स	नायब सुबेदार	सुबाष चंद्रा भास्कर	01.09.2012
465	जेसी728891डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह यादवा	01.01.2013
466	जेसी728615एन	नायब सुबेदार	टी मा	01.11.2012
467	जेसी728681डब्ल्यू	नायब सुबेदार	त्रिलोकी नाथ चौबे	01.10.2012
468	जेसी728658एच	नायब सुबेदार	विनोद सिंह	01.11.2012

कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

469	जेसी765444के	नायब सुबेदार	आनंद सिंह नायल	01.12.2012
470	जेसी765270पी	नायब सुबेदार	अरविंद सिंह	01.09.2012

471	जेसी763920वाइ	नायब सुबेदार	ए बालासो शामराव	01.10.2012
472	जेसी765272ए	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.09.2012
473	जेसी765582एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2012
474	जेसी765522डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अतुल सी सेकिआ	01.12.2012
475	जेसी764808वाइ	नायब सुबेदार	अवधेश कुमार	01.10.2012
476	जेसी761295के	नायब सुबेदार	अवनीश कुमार	01.11.2012
477	जेसी765441डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अवधेश कुमार	01.12.2012
478	जेसी765288एल	नायब सुबेदार	बी पनीर सेलवम	01.10.2012
479	जेसी765289एन	नायब सुबेदार	बदारी कांत मिश्रा	01.10.2012
480	जेसी762579ए	नायब सुबेदार	बलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी	01.01.2013
481	जेसी763996वाइ	नायब सुबेदार	बेचन प्रजापति	01.10.2012
482	जेसी761114एन	नायब सुबेदार	भगवान सिंह	01.09.2012
483	जेसी763230पी	नायब सुबेदार	विभूति भूषण विश्वास	01.10.2012
484	जेसी765456वाइ	नायब सुबेदार	बिजय कुमार पंकज	01.12.2012
485	जेसी764645डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बिपिन कुमार प्रसाद	01.09.2012
486	जेसी765435एच	नायब सुबेदार	बिशू पांडा साहू	01.11.2012
487	जेसी765520एल	नायब सुबेदार	बिश्वजीत सिंह रौय	01.12.2012
488	जेसी764980ए	नायब सुबेदार	ब्रमा नन्द यादव	01.11.2012
489	जेसी761956वाइ	नायब सुबेदार	बी देहरी	01.09.2012
490	जेसी762629ए	नायब सुबेदार	चंद्र मोहन झा	01.11.2012
491	जेसी764810डब्ल्यू	नायब सुबेदार	छोटे लाल	01.11.2012
492	जेसी765273एच	नायब सुबेदार	दालू राम	01.11.2012
493	जेसी763907पी	नायब सुबेदार	डी. सिंह एस	01.11.2012
494	जेसी765653एफ	नायब सुबेदार	दत्ताता राम	01.12.2012
495	जेसी762048एच	नायब सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.10.2012
496	जेसी765287एच	नायब सुबेदार	दिनेश कुमार	01.10.2012
497	जेसी765523वाइ	नायब सुबेदार	गुरदास राम	01.12.2012
498	जेसी765189एच	नायब सुबेदार	हंस राज	01.09.2012
499	जेसी761647डब्ल्यू	नायब सुबेदार	हरी बंश यादव	01.11.2012
500	जेसी765521एन	नायब सुबेदार	हीरेन्द्र सिन्हा	01.12.2012
501	जेसी761831एफ	नायब सुबेदार	जगदीश सिंह	01.09.2012
502	जेसी760826के	नायब सुबेदार	जयचन्द्रन एन	01.12.2012
503	जेसी765457एफ	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा बहादुर सिंह	01.01.2013
504	जेसी765494पी	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार	01.12.2012
505	जेसी765464एक्स	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा प्रसाद	01.01.2013
506	जेसी760794एम	नायब सुबेदार	के परमेश	01.10.2012
507	जेसी765442वाइ	नायब सुबेदार	कलश चंद्रा सिंह	01.12.2012
508	जेसी764313एम	नायब सुबेदार	कामेश्वर जेन्न	01.11.2012
509	जेसी765294वाइ	नायब सुबेदार	किस्मत सिंह	01.10.2012
510	जेसी761104के	नायब सुबेदार	कृष्णन कुमार पांडे	01.12.2012
511	जेसी761214वाइ	नायब सुबेदार	लखन सिंह लोधी	01.01.2013
512	जेसी761040के	नायब सुबेदार	लक्ष्मन यादव	01.01.2013

513	जेसी764950एच	नायब सुबेदार	लाल चन्द यादव	01.11.2012
514	जेसी763282एल	नायब सुबेदार	एम वर्धाराजन	01.11.2012
515	जेसी761017डब्ल्यू	नायब सुबेदार	महेन्द्र पाल सिंह	01.10.2012
516	जेसी761240ए	नायब सुबेदार	एम वीएनएन श्रीनिवास राव	01.09.2012
517	जेसी760857के	नायब सुबेदार	मणिकंदन आर	01.11.2012
518	जेसी761710ए	नायब सुबेदार	मोहानन केके	01.01.2013
519	जेसी765463पी	नायब सुबेदार	मुख्तार यादव	01.01.2013
520	जेसी762834एफ	नायब सुबेदार	मुरुगन आर	01.12.2012
521	जेसी765434ए	नायब सुबेदार	नगीना चौधरी	01.11.2012
522	जेसी765446पी	नायब सुबेदार	नारायण	01.01.2013
523	जेसी761639एक्स	नायब सुबेदार	एन प्रसाद राव	01.01.2013
524	जेसी765524एफ	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश राव	01.01.2013
525	जेसी765024के	नायब सुबेदार	पाटिल अरुण रंगाराव	01.11.2012
526	जेसी761115डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पवन कुमार	01.11.2012
527	जेसी762560एफ	नायब सुबेदार	पवन कुमार आर	01.09.2012
528	जेसी765291एल	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार मोहंती	01.10.2012
529	जेसी765443एफ	नायब सुबेदार	पूरन चंद्रा पाठक	01.12.2012
530	जेसी765580ए	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह बिष्ट	01.12.2012
531	जेसी761250के	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिन्हा	01.01.2013
532	जेसी764232एम	नायब सुबेदार	राजेंद्रा यादव	01.09.2012
533	जेसी765240एक्स	नायब सुबेदार	राजेश कुमार	01.10.2012
534	जेसी762628एक्स	नायब सुबेदार	राजकेश्वर	01.11.2012
535	जेसी765302एम	नायब सुबेदार	राम भीशन वर्मा	01.12.2012
536	जेसी761645एल	नायब सुबेदार	राम किशोर	01.09.2012
537	जेसी765266एम	नायब सुबेदार	राम पाल सिंह	01.01.2013
538	जेसी761646एन	नायब सुबेदार	राम सिंह	01.10.2012
539	जेसी765581एच	नायब सुबेदार	रमेश कुमार	01.12.2012
540	जेसी761862एफ	नायब सुबेदार	रतन सिंह चौहान	01.11.2012
541	जेसी763754डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.10.2012
542	जेसी762801डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रोहतास सिंह	01.09.2012
543	जेसी765445एम	नायब सुबेदार	रुद्रा पाल सिंह	01.12.2012
544	जेसी765462एम	नायब सुबेदार	संजय कुमार पांडे	01.01.2013
545	जेसी762746एल	नायब सुबेदार	संजीव कुमार दत्ता	01.01.2013
546	जेसी763106एन	नायब सुबेदार	शेख ए तरफदार	01.10.2012
547	जेसी761036एफ	नायब सुबेदार	शेर सिंह	01.09.2012
548	जेसी765239एच	नायब सुबेदार	शिव मूरत पाल	01.10.2012
549	जेसी762171एफ	नायब सुबेदार	शिवे कुमार सिंह	01.11.2012
550	जेसी761018वाइ	नायब सुबेदार	शोभ नाथ सिंह यादव	01.12.2012
551	जेसी761215एफ	नायब सुबेदार	श्री निवास सिंह	01.01.2013
552	जेसी765156एक्स	नायब सुबेदार	श्याम किशोर	01.10.2012
553	जेसी765290एच	नायब सुबेदार	सीता राम सिंह	01.10.2012
554	जेसी761213डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुबाष चंद्र	01.12.2012



555	जेसी764666एम	नायब सुबेदार	सुभाष चंद्रा पांडे	01.10.2012
556	जेसी764620के	नायब सुबेदार	सुगंध पाल	01.09.2012
557	जेसी761300के	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.09.2012
558	जेसी761037के	नायब सुबेदार	सुरेश पाल सिंह	01.09.2012
559	जेसी765436एल	नायब सुबेदार	उमा शंकर पाल	01.11.2012
560	जेसी763877एच	नायब सुबेदार	उमेश कुमार	01.10.2012
561	जेसी763089वाइ	नायब सुबेदार	उमेश पुदार	01.11.2012
562	जेसी761085के	नायब सुबेदार	बिद्या राम	01.11.2012
563	जेसी765271एक्स	नायब सुबेदार	विजय नारायण पांडे	01.09.2012
564	जेसी765411वाइ	नायब सुबेदार	विजया शंकरा यादव	01.12.2012
565	जेसी760758एफ	नायब सुबेदार	यसुपथम डी.	01.01.2013

सेना शिक्षा कोर

566	जेसी803944एन	नायब सुबेदार	धिरेन्द्र कुमार	01.09.2012
567	जेसी803751एन	नायब सुबेदार	जगदीश पाल	01.09.2012
568	जेसी804350एल	नायब सुबेदार	परमार दलपत सिंह के	01.10.2012
569	जेसी803693पी	नायब सुबेदार	विलसन ता	01.09.2012

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

570	जेसी797508एक्स	नायब रिसालदार	अशोक कुमार उपाध्याय	01.01.2013
571	जेसी797558एच	नायब रिसालदार	गुलाब मोहम्मद	01.09.2012
572	जेसी797587एक्स	नायब रिसालदार	लोक मनी पांडे	01.11.2012
573	जेसी797544एच	नायब रिसालदार	प्रेम लाल पटेल	01.09.2012
574	जेसी797579वाइ	नायब रिसालदार	राज कुमार सिंह	01.01.2013

आसुचना कोर

575	जेसी811283एन	नायब सुबेदार	बी राम	01.01.2013
576	जेसी811323के	नायब सुबेदार	देवी चरण चंदेल	01.12.2012
577	जेसी811282एल	नायब सुबेदार	प्रकाश चंद्र	01.11.2012

सेना पुलिस कोर

578	जेसी819417डब्ल्यू	नायब सुबेदार	चर्का धारी सिंह	01.01.2013
579	जेसी819421वाइ	नायब सुबेदार	सरवन कुमार आर	01.01.2013

पायोनियर कोर

580	जेसी829482के	नायब सुबेदार	भारिया राम	01.09.2012
-----	--------------	--------------	------------	------------

सेना डाक सेवा

581	जेसी834902एच	नायब सुबेदार	राम बाबू सेन	01.10.2012
-----	--------------	--------------	--------------	------------

रक्षा सुरक्षा कोर

582	जेसी842706एक्स	नायब सुबेदार	अजीत राज	01.12.2012
-----	----------------	--------------	----------	------------

583	जेसी842773एच	नायब सुबेदार	अजीत सिंह	01.01.2013
584	जेसी842973वाइ	नायब सुबेदार	ए अनन्त	01.10.2012
585	जेसी842782के	नायब सुबेदार	बी सोमसेखरन नायर	01.11.2012
586	जेसी842728डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बाल गोविंद कुमी	01.10.2012
587	जेसी842447ए	नायब सुबेदार	बन्चे लाल	01.01.2013
588	जेसी842852एक्स	नायब सुबेदार	देव राज	01.11.2012
589	जेसी843105वाइ	नायब सुबेदार	गुलजारी लाल	01.09.2012
590	जेसी842666एफ	नायब सुबेदार	जगत नारायन	01.01.2013
591	जेसी842449एल	नायब सुबेदार	जसपाल सिंह	01.01.2013
592	जेसी842506एफ	नायब सुबेदार	कुन्ही कानन्न पी	01.09.2012
593	जेसी842316पी	नायब सुबेदार	माम राज	01.09.2012
594	जेसी842526पी	नायब सुबेदार	मेहर चन्द	01.10.2012
595	जेसी842914एम	नायब सुबेदार	मोहानन ओ	01.11.2012
596	जेसी842497एल	नायब सुबेदार	रामजी लाल	01.11.2012
597	जेसी842966एच	नायब सुबेदार	रामचन्द्रन केके	01.11.2012
598	जेसी842752एम	नायब सुबेदार	रवीन्द्र नाथन नायर	01.09.2012
599	जेसी842604एफ	नायब सुबेदार	शाहू लोंधे	01.01.2013
600	जेसी842406डब्ल्यू	नायब सुबेदार	ताहिर अहमद खान	01.01.2013
601	जेसी842964एक्स	नायब सुबेदार	विजयन के	01.12.2012
602	जेसी842994पी	नायब सुबेदार	वाइ वी बसपा	01.01.2013

[सं. बी/43432/आरडी-13/एजी/सीडब्ल्यू-2]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 02(E) dated 26th January, 2013.**— The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned Honorary Lieutenants and JCOs on the eve of Republic Day 2013 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

### TO BE HONORARY CAPTAINS

#### PRESIDENT'S BODY GUARD

1	JC 235034W	RIS MAJ & HONY LT	KALYAN SINGH	01-10-2012
---	------------	----------------------	--------------	------------

#### ARMoured CORPS

2	JC 239411Y	RIS MAJ & HONY LT	ATISH KUMAR DAS DEV SARMA	01-10-2012
3	JC 237806F	RIS MAJ & HONY LT	KHARADE JAGNATH PANDURANG	01-12-2012
4	JC 239293W	RIS MAJ & HONY LT	PYARE LAL	01-12-2012
5	JC 238579Y	RIS MAJ & HONY LT	RAMESH PRATAP SINGH	01-01-2013

6	JC 239783K	RIS MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH	01-01-2013
7	JC 239619F	RIS MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-11-2012
8	JC 241867W	RIS & HONY LT	BRIJESH KUMAR	01-10-2012
9	JC 241880A	RIS & HONY LT	GANGA PRASAD PANDEY	01-10-2012
10	JC 241858P	RIS & HONY LT	GANGA SINGH	01-10-2012
11	JC 242146Y	RIS & HONY LT	OMKAR SINGH CHAUHAN	01-12-2012
12	JC 240571L	RIS & HONY LT	POORAN LAL PALI	01-09-2012
13	JC 241772W	RIS & HONY LT	PRAHLAD RAM MEENA	01-10-2012
14	JC 241942P	RIS & HONY LT	PULIN CHANDRA DAS	01-09-2012
15	JC 243023Y	RIS & HONY LT	RAJ KUMAR	01-10-2012
16	JC 240976W	RIS & HONY LT	RUSIYA NAYAK	01-12-2012
17	JC 243027P	RIS & HONY LT	SATNAM SINGH	01-01-2013
18	JC 242186A	RIS & HONY LT	SHIV RAM SHARMA	01-01-2013
19	JC 243365M	RIS & HONY LT	SURENDRAN R	01-01-2013
20	JC 241619A	RIS & HONY LT	TEJ SINGH	01-09-2012
21	JC 243485L	RIS & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-01-2013
22	JC 241621X	RIS & HONY LT	VIJAY SINGH	01-09-2012
23	JC 243142P	RIS & HONY LT	VIJAY SINGH	01-11-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

24	JC 262447K	SUB MAJ & HONY LT	BALWAN SINGH	01-01-2013
25	JC 259478Y	SUB MAJ & HONY LT	GARJAN SINGH YADAV	01-10-2012
26	JC 261194N	SUB MAJ & HONY LT	GURMAIL SINGH	01-11-2012
27	JC 260641A	SUB MAJ & HONY LT	J GOVIDA RAJ	01-11-2012
28	JC 260718X	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER	01-10-2012
29	JC 260977A	SUB MAJ & HONY LT	MANPAL	01-11-2012

30	JC 263083P	SUB MAJ & HONY LT	NAGENDRA SINGH	01-12-2012
31	JC 262111K	SUB MAJ & HONY LT	PRAMOD KUMAR PANDEY	01-10-2012
32	JC 263128K	SUB MAJ & HONY LT	PREM PAL	01-10-2012
33	JC 261795Y	SUB MAJ & HONY LT	PRODYUT KUMAR DAS	01-11-2012
34	JC 142714K	SUB MAJ & HONY LT	RAM ACHAL PANDEY	01-01-2013
35	JC 261487Y	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN LAL	01-01-2013
36	JC 260031N	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR	01-10-2012
37	JC 260987K	SUB MAJ & HONY LT	VIJENDRA KUMAR	01-09-2012
38	JC 260979L	SUB MAJ & HONY LT	VISHWAKSEN TRIPATHI	01-11-2012
39	JC 268856N	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-01-2013
40	JC 261803M	SUB & HONY LT	ARSUL SANDIPAN BHAGWAN RAO	01-09-2012
41	JC 269040W	SUB & HONY LT	B CHINNA NARASIMHULU	01-10-2012
42	JC 272308N	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-09-2012
43	JC 271194F	SUB & HONY LT	BASANT SINGH	01-10-2012
44	JC 270118H	SUB & HONY LT	BHOLA NATH	01-11-2012
45	JC 271509A	SUB & HONY LT	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-11-2012
46	JC 269389N	SUB & HONY LT	BISHAMBER SINGH RANA	01-10-2012
47	JC 273685W	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL	01-10-2012
48	JC 269793H	SUB & HONY LT	GANESH KUMAR	01-10-2012
49	JC 270142Y	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	01-09-2012
50	JC 270813X	SUB & HONY LT	GORDHAN RAM	01-11-2012
51	JC 271713Y	SUB & HONY LT	GURBAX SINGH	01-01-2013
52	JC 268410Y	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	01-09-2012
53	JC 269990L	SUB & HONY LT	GURNAM SINGH	01-09-2012
54	JC 267420W	SUB & HONY LT	INDERJIT SINGH	01-09-2012

55	JC 265828W	SUB & HONY LT	JAGDISH CHAND	01-10-2012
56	JC 268152K	SUB & HONY LT	JAI PAL SINGH	01-09-2012
57	JC 271090A	SUB & HONY LT	JANKAR SINGH	01-10-2012
58	JC 267542A	SUB & HONY LT	KAMLESH CHANDER	01-10-2012
59	JC 268915P	SUB & HONY LT	KAMLESHWAR PRASAD	01-01-2013
60	JC 265953A	SUB & HONY LT	KARAM BIR	01-01-2013
61	JC 263548K	SUB & HONY LT	KRISHAN MOHAN UPADHYAY	01-01-2013
62	JC 266275X	SUB & HONY LT	L SUBRAMANI	01-11-2012
63	JC 269645X	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH YADAV	01-10-2012
64	JC 267388M	SUB & HONY LT	MANOJ KUMAR I	01-12-2012
65	JC 269903M	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-09-2012
66	JC 272506Y	SUB & HONY LT	NANAK SINGH	01-10-2012
67	JC 269577P	SUB & HONY LT	NARAYAN SINGH	01-11-2012
68	JC 270287K	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH	01-10-2012
69	JC 271281P	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-09-2012
70	JC 268394M	SUB & HONY LT	PRASANNAN PILLAI V	01-09-2012
71	JC 274615K	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD SHARMA	01-01-2013
72	JC 270633P	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR	01-10-2012
73	JC 270231X	SUB & HONY LT	RAJINDER CHAND	01-11-2012
74	JC 267544L	SUB & HONY LT	RAM PRAKASH	01-10-2012
75	JC 272802K	SUB & HONY LT	RAMA KANT BASHETAKAR	01-09-2012
76	JC 267957P	SUB & HONY LT	RAMESHWAR	01-12-2012
77	JC 271453Y	SUB & HONY LT	RATNESWAR SAIKIA	01-11-2012
78	JC 267649P	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	01-11-2012
79	JC 269581X	SUB & HONY LT	SAGAR SINGH	01-11-2012
80	JC 269615A	SUB & HONY LT	SALUNKE TANAJI NATHOBA	01-11-2012

81	JC	268481A	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH	01-10-2012
82	JC	271135P	SUB & HONY LT	SATWANT SINGH	01-09-2012
83	JC	268474K	SUB & HONY LT	SAVENDRA SINGH	01-10-2012
84	JC	271484Y	SUB & HONY LT	SHAIKH SHIKANDAR YASIN	01-09-2012
85	JC	265791A	SUB & HONY LT	SHEESH RAM	01-01-2013
86	JC	268688A	SUB & HONY LT	SHIV DAYAL YADAV	01-01-2013
87	JC	268382X	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND	01-10-2012
88	JC	268624P	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND	01-09-2012
89	JC	269375N	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-10-2012
90	JC	269540N	SUB & HONY LT	VIDESH KUMAR	01-09-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

91	JC	296606H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER PRAKASH	01-09-2012
92	JC	297679F	SUB MAJ & HONY LT	GANGADHAR TIGADI	01-11-2012
93	JC	297155A	SUB MAJ & HONY LT	GURMEL SINGH	01-11-2012
94	JC	297453W	SUB MAJ & HONY LT	KARTHIKA ARAJAN PB	01-12-2012
95	JC	299875A	SUB & HONY LT	AKHLESH KUMAR PANDEY	01-11-2012
96	JC	299610W	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH	01-01-2013
97	JC	300105H	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-12-2012
98	JC	299511N	SUB & HONY LT	BRAHM SINGH	01-10-2012
99	JC	298791A	SUB & HONY LT	DHARAMVIR SINGH	01-09-2012
100	JC	299617A	SUB & HONY LT	MAHATIM SINGH YADAV	01-09-2012
101	JC	300531W	SUB & HONY LT	R SEENIVASAN	01-10-2012
102	JC	299861A	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM MEENA	01-10-2012
103	JC	297251P	SUB & HONY LT	S MURUGESAN	01-01-2013
104	JC	299906P	SUB & HONY LT	SABH SINGH	01-01-2013

105	JC	299881N	SUB & HONY LT	SHEELANAWAR HANAMANT RAMAPPA	01-10-2012
106	JC	298718F	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR	01-12-2012
107	JC	299977W	SUB & HONY LT	SWARN SINGH	01-10-2012
108	JC	300190W	SUB & HONY LT	TATVIR SINGH	01-10-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

109	JC	306443W	SUB MAJ & HONY LT	A ROBERT	01-09-2012
110	JC	306734W	SUB MAJ & HONY LT	DALJIT SINGH	01-12-2012
111	JC	306469L	SUB MAJ & HONY LT	GOPINADHAN NAIK	01-11-2012
112	JC	306618N	SUB MAJ & HONY LT	KUMAR N	01-12-2012
113	JC	306260A	SUB MAJ & HONY LT	L ACHUTHAN	01-09-2012
114	JC	306833Y	SUB MAJ & HONY LT	MANI P	01-12-2012
115	JC	306596A	SUB MAJ & HONY LT	R SAKER	01-11-2012
116	JC	306403P	SUB MAJ & HONY LT	SATERI KEDAR PATIL	01-10-2012
117	JC	306458Y	SUB MAJ & HONY LT	SATHYAN OR	01-11-2012
118	JC	307108Y	SUB MAJ & HONY LT	SRINIVASAN G	01-11-2012
119	JC	306455L	SUB MAJ & HONY LT	SUKUMARAN	01-10-2012
120	JC	330241N	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-01-2013
121	JC	308101F	SUB & HONY LT	CHENGAPPA YN	01-09-2012
122	JC	309035W	SUB & HONY LT	JAYARAJAN K	01-01-2013
123	JC	306782W	SUB & HONY LT	LOGANATHAN S	01-01-2013
124	JC	308413X	SUB & HONY LT	M GANESAN	01-09-2012
125	JC	308576L	SUB & HONY LT	MAKHTUMSAB MULLA	01-01-2013
126	JC	308102K	SUB & HONY LT	MALLAPPA HADIMANI	01-09-2012

127	JC	308111L	SUB & HONY LT	P JAYARAJ	01-09-2012
128	JC	308532N	SUB & HONY LT	P VENKATESAN	01-09-2012
129	JC	308429H	SUB & HONY LT	PARAMESWARAN KB	01-09-2012
130	JC	307374X	SUB & HONY LT	RACHAPALLE BHASKARA REDDY	01-11-2012
131	JC	308572P	SUB & HONY LT	S TAMILARASAN	01-01-2013
132	JC	308412P	SUB & HONY LT	SAJEEVAN VV	01-09-2012
133	JC	308042A	SUB & HONY LT	SARANGAN K	01-09-2012
134	JC	308103M	SUB & HONY LT	SATTARU DHARMARAO	01-09-2012
135	JC	308431A	SUB & HONY LT	SEKAR N	01-12-2012
136	JC	308880P	SUB & HONY LT	SHAIK MODIN	01-09-2012
137	JC	308043H	SUB & HONY LT	TR SEENIVASAN	01-09-2012
138	JC	308702M	SUB & HONY LT	U EASURAJAN	01-09-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

139	JC	325087W	SUB MAJ & HONY LT	BALJINDER SINGH	01-11-2012
140	JC	326542A	SUB MAJ & HONY LT	BOSE KULATHINKAL	01-11-2012
141	JC	327884A	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH SAROE	01-09-2012
142	JC	326572X	SUB MAJ & HONY LT	GHAN SHAYAM SINGH BHAKUNI	01-10-2012
143	JC	327887N	SUB MAJ & HONY LT	GOVIND SINGH	01-09-2012
144	JC	326526H	SUB MAJ & HONY LT	GURJANT SINGH	01-10-2012
145	JC	330090A	SUB MAJ & HONY LT	INDRA DEO GIRI	01-11-2012
146	JC	327807L	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER	01-11-2012
147	JC	327886L	SUB MAJ & HONY LT	KHEDKAR MURALIDHAR RAM RAO	01-09-2012
148	JC	326973M	SUB MAJ & HONY LT	KHEM RAJ	01-12-2012



149	JC	328265Y	SUB MAJ & HONY LT	KHUSHAL SINGH	01-10-2012
150	JC	327739H	SUB MAJ & HONY LT	PERUMAL P	01-12-2012
151	JC	325599H	SUB MAJ & HONY LT	PRAKRAM SINGH YADAV	01-10-2012
152	JC	327780Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMACHANDRAN K	01-10-2012
153	JC	327562A	SUB MAJ & HONY LT	SATYA NARAIN RAI	01-01-2013
154	JC	224824L	SUB MAJ & HONY LT	SHEO SAHAY	01-12-2012
155	JC	328259L	SUB MAJ & HONY LT	SUDHINDRA NATH BASAK	01-01-2013
156	JC	140994K	SUB MAJ & HONY LT	TIKA PRASAD BAMRARA	01-01-2013
157	JC	326029Y	SUB MAJ & HONY LT	VIDYA RAM	01-09-2012
158	JC	329311P	SUB & HONY LT	ANAND SINGH MEHTA	01-11-2012
159	JC	329312X	SUB & HONY LT	BAL KRISHAN RAM	01-12-2012
160	JC	162473W	SUB & HONY LT	DIGAMBAR PRASAD THAPLIYAL	01-09-2012
161	JC	338098F	SUB & HONY LT	DIPAK NATH	01-09-2012
162	JC	329310M	SUB & HONY LT	GIRISH CHAND JOSHI	01-12-2012
163	JC	329307M	SUB & HONY LT	KUNWAR SINGH	01-10-2012
164	JC	338240A	SUB & HONY LT	LAKHAN LAL	01-01-2013
165	JC	329478Y	SUB & HONY LT	LAL CHAND SINGH	01-01-2013
166	JC	329994N	SUB & HONY LT	LAXMI KANT	01-01-2013
167	JC	329556L	SUB & HONY LT	MD MOZIBER RAHMAN	01-01-2013
168	JC	328098N	SUB & HONY LT	NARAYAN SINGH	01-12-2012
169	JC	329990X	SUB & HONY LT	PARMA RAM	01-11-2012
170	JC	329301L	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDRA	01-09-2012
171	JC	329991A	SUB & HONY LT	RAMSIYA YADAV	01-11-2012

172	JC	327927K	SUB & HONY LT	SHRIKANT MISHRA	01-12-2012
<b><u>BOMBAY ENGINEER GROUP</u></b>					
173	JC	140997X	SUB MAJ & HONY LT	ACHUTANAND TRIPATHI	01-12-2012
174	JC	348189Y	SUB MAJ & HONY LT	AMIN CHAND	01-01-2013
175	JC	327429X	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR SINGH	01-01-2013
176	JC	348751X	SUB MAJ & HONY LT	CHARAN SINGH	01-12-2012
177	JC	348849L	SUB MAJ & HONY LT	HANIF AHMAD	01-11-2012
178	JC	348491X	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH	01-09-2012
179	JC	348519M	SUB MAJ & HONY LT	JADHAV PARSHARAM DATTARAM	01-10-2012
180	JC	348557H	SUB MAJ & HONY LT	JASBIR SINGH	01-10-2012
181	JC	348757Y	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-01-2013
182	JC	348624H	SUB MAJ & HONY LT	MOHITE RAJARAM	01-11-2012
183	JC	348471K	SUB MAJ & HONY LT	MOHMAD JANUDIN	01-09-2012
184	JC	330016Y	SUB MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH	01-01-2013
185	JC	349041M	SUB MAJ & HONY LT	PATIL VISHWAS RAO GANPAT RAO	01-10-2012
186	JC	347970M	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR TIWARI	01-10-2012
187	JC	348308K	SUB MAJ & HONY LT	SATYA NARAIN BHATHI	01-12-2012
188	JC	348913X	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSUDDIN	01-01-2013
189	JC	348434W	SUB MAJ & HONY LT	SRI NIBAS PANDEY	01-10-2012
190	JC	160399F	SUB MAJ & HONY LT	SURYA NATH SHUKLA	01-01-2013
191	JC	160401N	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA SHEKHAR TRIPATHI	01-11-2012
192	JC	350371X	SUB & HONY LT	ABAD MOHAMMAD	01-01-2013
193	JC	350038Y	SUB & HONY LT	GAIKWAD MARUTI RAMU	01-01-2013

194	JC 350449X	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	01-11-2012
195	JC 350310A	SUB & HONY LT	MAHIMAN SINGH THAPPA	01-01-2013
196	JC 350312L	SUB & HONY LT	SHEDEK KHAN	01-09-2012
197	JC 350126P	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-10-2012
<b><u>CORPS OF SIGNALS</u></b>				
198	JC 374915A	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR	01-01-2013
199	JC 376579X	SUB MAJ & HONY LT	ANUP SINGH	01-12-2012
200	JC 371309Y	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-10-2012
201	JC 371320X	SUB MAJ & HONY LT	ASHWANI KUMAR SHARMA	01-12-2012
202	JC 371313F	SUB MAJ & HONY LT	DALJIT RAY	01-10-2012
203	JC 367926K	SUB MAJ & HONY LT	DAYA KRISHNA PANDEY	01-09-2012
204	JC 369243P	SUB MAJ & HONY LT	DESH RAJ	01-09-2012
205	JC 373319F	SUB MAJ & HONY LT	GOPIMOHANAN V	01-01-2013
206	JC 367927M	SUB MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH	01-09-2012
207	JC 369920F	SUB MAJ & HONY LT	JAGAN SINGH	01-12-2012
208	JC 368541Y	SUB MAJ & HONY LT	JAI RAM OJHA	01-01-2013
209	JC 371512P	SUB MAJ & HONY LT	KANCHARLA JAYAPRAKASH	01-09-2012
210	JC 371211L	SUB MAJ & HONY LT	KRIPAL SINGH MEHTA	01-09-2012
211	JC 367909K	SUB MAJ & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-09-2012
212	JC 367953N	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH	01-11-2012
213	JC 371241H	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH	01-10-2012
214	JC 372067N	SUB MAJ & HONY LT	PALWINDER SINGH	01-01-2013
215	JC 367940W	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-09-2012

216	JC	369914N	SUB MAJ & HONY LT	RABINDRA KUMAR PATTNAYAK	01-01-2013
217	JC	367952L	SUB MAJ & HONY LT	RAGHBIR SINGH VERMA	01-11-2012
218	JC	371210H	SUB MAJ & HONY LT	RAJ SINGH	01-09-2012
219	JC	368984A	SUB MAJ & HONY LT	RAJPAL	01-10-2012
220	JC	367951H	SUB MAJ & HONY LT	RAVI CHAND DHARWAL	01-09-2012
221	JC	371334X	SUB MAJ & HONY LT	SUSHIL KUMAR SHARMA	01-12-2012
222	JC	370289K	SUB MAJ & HONY LT	YOGENDRA PAL SINGH	01-10-2012
223	JC	373464Y	SUB & HONY LT	BIKRAM SINGH	01-01-2013
224	JC	376282W	SUB & HONY LT	CHARAN SINGH	01-10-2012
225	JC	374727Y	SUB & HONY LT	DHARAMBIR	01-09-2012
226	JC	375836X	SUB & HONY LT	DHARAMVIR SINGH	01-10-2012
227	JC	377421F	SUB & HONY LT	DINESH CHANDER	01-10-2012
228	JC	377353Y	SUB & HONY LT	HARENDRA NATH GHOSH	01-09-2012
229	JC	373472X	SUB & HONY LT	HERGOVIND SINGH CHAUHAN	01-10-2012
230	JC	376645P	SUB & HONY LT	JAIVIR	01-09-2012
231	JC	375650N	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-01-2013
232	JC	377307K	SUB & HONY LT	KAILASH CHANDRA, SWAMI	01-01-2013
233	JC	376650A	SUB & HONY LT	LAUTU RAM	01-01-2013
234	JC	375795Y	SUB & HONY LT	MOHINDER PAL SINGH	01-10-2012
235	JC	376114X	SUB & HONY LT	NAGARAJA	01-12-2012
236	JC	375678N	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-10-2012
237	JC	375604Y	SUB & HONY LT	OM PRAKASH YADAV	01-12-2012
238	JC	376537L	SUB & HONY LT	PRITAM CHAND	01-10-2012

239	JC	375101N	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR SINGH	01-09-2012
240	JC	373673W	SUB & HONY LT	RAM CHARAN	01-10-2012
241	JC	377302L	SUB & HONY LT	RAVI DUTT	01-10-2012
242	JC	369900N	SUB & HONY LT	SANYASI NAIDU KANTAMU REDDI	01-11-2012
243	JC	375854A	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	01-10-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

244	JC	402869P	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR MISHRA	01-10-2012
245	JC	402887X	SUB MAJ & HONY LT	HARI SHANKAR YADAV	01-12-2012
246	JC	402611F	SUB MAJ & HONY LT	M SAMPATHU	01-11-2012
247	JC	403542H	SUB & HONY LT	BAJRANG SINGH	01-10-2012
248	JC	403979W	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASAD	01-11-2012
249	JC	403019X	SUB & HONY LT	PREM BAHADUR	01-09-2012
250	JC	404004F	SUB & HONY LT	RAJBIR SINGH PANWAR	01-11-2012
251	JC	403806Y	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-11-2012
252	JC	404181F	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	01-12-2012
253	JC	403568X	SUB & HONY LT	SULTAN SINGH	01-11-2012
254	JC	403859X	SUB & HONY LT	SURESH CHANDRA	01-11-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

255	JC	413044K	SUB & HONY LT	JANG BAHADUR THAPA	01-11-2012
256	JC	413087Y	SUB & HONY LT	KAMAL SINGH	01-11-2012
257	JC	413048A	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH RANA	01-12-2012
258	JC	412477P	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-09-2012
259	JC	412803M	SUB & HONY LT	UTTAM SINGH	01-09-2012

260	JC	412964P	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-12-2012
-----	----	---------	------------------	-------------	------------

### **THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

261	JC	418922Y	SUB MAJ & HONY LT	NAVAL KISHORE	01-11-2012
262	JC	418702P	SUB MAJ & HONY LT	NIRANJAN SINGH	01-09-2012
263	JC	419068K	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR SINGH	01-01-2013
264	JC	418894X	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH	01-10-2012
265	JC	420528M	SUB & HONY LT	HARBANS LAL	01-11-2012
266	JC	420767F	SUB & HONY LT	NEPAL SINGH	01-01-2013
267	JC	420205K	SUB & HONY LT	ONKAR SINGH	01-01-2013
268	JC	420467A	SUB & HONY LT	PARAMJIT SINGH	01-11-2012
269	JC	419570Y	SUB & HONY LT	RAJ DEO YADAV	01-09-2012
270	JC	419658H	SUB & HONY LT	RASHAN SHEEL	01-11-2012
271	JC	420581X	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR	01-12-2012
272	JC	419735M	SUB & HONY LT	SATYWAN	01-12-2012

### **THE PUNJAB REGIMENT**

273	JC	429187N	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH , SM	01-11-2012
274	JC	428836F	SUB MAJ & HONY LT	KARNAIL SINGH	01-11-2012
275	JC	429041A	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH DOGRA	01-01-2013
276	JC	429298L	SUB MAJ & HONY LT	RUP LAL	01-11-2012
277	JC	429234A	SUB MAJ & HONY LT	SAKATTAR SINGH	01-12-2012
278	JC	428936M	SUB MAJ & HONY LT	VIRINDER SHARMA	01-10-2012
279	JC	429978L	SUB & HONY LT	BUTI RAM	01-11-2012
280	JC	428620A	SUB & HONY LT	CHAMAN LAL	01-01-2013

281	JC	430008P	SUB & HONY LT	DHUP SINGH	01-01-2013
282	JC	429619X	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH	01-11-2012
283	JC	429672H	SUB & HONY LT	GURMEET SINGH	01-01-2013
284	JC	428478F	SUB & HONY LT	HAKAM SINGH	01-10-2012
285	JC	429880X	SUB & HONY LT	HARMESH KUMAR	01-09-2012
286	JC	429859P	SUB & HONY LT	JAGDISH CHAND	01-01-2013
287	JC	429554P	SUB & HONY LT	JAGIR SINGH	01-10-2012
288	JC	429929H	SUB & HONY LT	JANK SINGH	01-12-2012
289	JC	430107X	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-01-2013
290	JC	430311W	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-12-2012
291	JC	430010M	SUB & HONY LT	KAMAL KISHOR	01-11-2012
292	JC	430089A	SUB & HONY LT	KRISHAN CHAND	01-11-2012
293	JC	429746M	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH	01-01-2013
294	JC	429890F	SUB & HONY LT	MULKH RAJ	01-12-2012
295	JC	429413A	SUB & HONY LT	NAND KISHORE VERMA	01-12-2012
296	JC	429517F	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH	01-11-2012
297	JC	429509H	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-12-2012
298	JC	429694F	SUB & HONY LT	RABINDER SINGH	01-09-2012
299	JC	429733P	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-11-2012
300	JC	429064F	SUB & HONY LT	RESHAM SINGH	01-11-2012
301	JC	429192Y	SUB & HONY LT	ROOP SINGH	01-10-2012
302	JC	429964L	SUB & HONY LT	SAT PAL	01-01-2013
303	JC	429998Y	SUB & HONY LT	SATISH KUMAR	01-09-2012

304	JC	429875M	SUB & HONY LT	SUBASH CHANDER	01-12-2012
305	JC	430127L	SUB & HONY LT	SURINDER PAUL	01-12-2012
306	JC	430206A	SUB & HONY LT	TARSEM LAL	01-12-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

307	JC	438654F	SUB MAJ & HONY LT	BETTA GOWDS	01-09-2012
308	JC	438966X	SUB MAJ & HONY LT	GANESAN S	01-10-2012
309	JC	438844N	SUB MAJ & HONY LT	HAREENDRAN K	01-09-2012
310	JC	438595A	SUB MAJ & HONY LT	JOHN PL	01-11-2012
311	JC	438758H	SUB MAJ & HONY LT	SHRISHAILA SHILLEENAWAR	01-01-2013
312	JC	438675X	SUB MAJ & HONY LT	VIJAYAN H	01-11-2012
313	JC	439529K	SUB & HONY LT	ALBERT GANSALVES	01-09-2012
314	JC	439804Y	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR VG	01-11-2012
315	JC	439612F	SUB & HONY LT	B VELAYUDHAN	01-01-2013
316	JC	439164A	SUB & HONY LT	BAMMIDI KURMA RAO	01-11-2012
317	JC	439733H	SUB & HONY LT	KB RAMAKRISHNA	01-09-2012
318	JC	439195A	SUB & HONY LT	KOYYANI KRISHNA RAO	01-01-2013
319	JC	439520P	SUB & HONY LT	NANDAN KUMAR RS	01-11-2012
320	JC	439508N	SUB & HONY LT	P ESWAR KUMAR	01-11-2012
321	JC	439626F	SUB & HONY LT	RAJU BM	01-09-2012
322	JC	439530Y	SUB & HONY LT	VELAYUDAM E	01-01-2013
323	JC	160674W	SUB & HONY LT	VINAYAK BHAT	01-10-2012



**THE GRENADIERS**

324	JC	449656M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN LAL JAT	01-12-2012
325	JC	449345Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND	01-11-2012
326	JC	449181N	SUB MAJ & HONY LT	TARA SINGH	01-01-2013
327	JC	450679A	SUB & HONY LT	BIRJU SINGH RAJPUT	01-09-2012
328	JC	450377N	SUB & HONY LT	HARI PRATAP SINGH	01-12-2012
329	JC	450043Y	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-09-2012
330	JC	450414W	SUB & HONY LT	KISHORI LAL	01-12-2012
331	JC	450052A	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-09-2012
332	JC	449609P	SUB & HONY LT	LILA RAM KHATANA	01-10-2012
333	JC	450029M	SUB & HONY LT	MOTI SINGH	01-11-2012
334	JC	450144M	SUB & HONY LT	NIZAMUDDIN	01-10-2012
335	JC	450326A	SUB & HONY LT	PIARE RAM, SM	01-11-2012
336	JC	449611M	SUB & HONY LT	RAM BABU SINGH	01-09-2012
337	JC	450141Y	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDER	01-11-2012
338	JC	449961Y	SUB & HONY LT	RAVINDER	01-10-2012
339	JC	450207K	SUB & HONY LT	SASHI PAL SAINI	01-01-2013
340	JC	450660F	SUB & HONY LT	SATYVEER SINGH RAJPUT	01-09-2012
341	JC	449692X	SUB & HONY LT	SOLANKI MAGAN BHAI LAKHA BHAI	01-09-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

342	JC	458526L	SUB MAJ & HONY LT	CAHNDE SURESH NARAYAN	01-10-2012
343	JC	458784L	SUB MAJ & HONY LT	DILIP ISHWAR GAIKWAD	01-01-2013
344	JC	458455P	SUB MAJ & HONY LT	MAHAMUNKAR SRIRAM DAGADU	01-10-2012

345	JC	458358X	SUB MAJ & HONY LT	MARUTI HONAGEKAR	01-10-2012
346	JC	458696P	SUB MAJ & HONY LT	S MAHUTHUMEERAN	01-11-2012
347	JC	458396N	SUB MAJ & HONY LT	SAKARAM SHANKAR CHALKE	01-09-2012
348	JC	458657W	SUB & HONY LT	BARGE SUDAM SAMPAT	01-01-2013
349	JC	458897N	SUB & HONY LT	DHOLE SHIVNATH KUNDLIK	01-01-2013
350	JC	459548W	SUB & HONY LT	JADHAV SHANKAR NIVRUTTI	01-11-2012
351	JC	459371N	SUB & HONY LT	JAGTAP LAXMAN MANAJI	01-10-2012
352	JC	459333X	SUB & HONY LT	KADAV ASHOK NANA	01-11-2012
353	JC	459182K	SUB & HONY LT	KHAMAKAR BAJIRO SHANKAR	01-09-2012
354	JC	459294K	SUB & HONY LT	SHASHIKANT RAMCHANDRA MHOPADI	01-01-2013
355	JC	459383H	SUB & HONY LT	TAWTE DNYANDEV TUKARAM	01-11-2012
356	JC	459080N	SUB & HONY LT	VIJAI SINGH	01-12-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

357	JC	469208F	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH	01-01-2013
358	JC	468842X	SUB MAJ & HONY LT	DERAWAR SINGH	01-12-2012
359	JC	469191Y	SUB MAJ & HONY LT	GIRRAJ SINGH	01-09-2012
360	JC	468843A	SUB MAJ & HONY LT	SUMER SINGH	01-11-2012
361	JC	469886F	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-12-2012
362	JC	469734A	SUB & HONY LT	ATTAR SINGH	01-12-2012
363	JC	470198P	SUB & HONY LT	BABU LAL CHOUDHARY	01-12-2012
364	JC	469698A	SUB & HONY LT	HARI PAL SINGH	01-11-2012
365	JC	469726F	SUB & HONY LT	JAI PRAKASH	01-12-2012
366	JC	469385F	SUB & HONY LT	JAIMAL SINGH	01-09-2012

367	JC	470134K	SUB & HONY LT	KISHOR SINGH	01-12-2012
368	JC	469370Y	SUB & HONY LT	MAHENDRA KUMAR	01-01-2013
369	JC	470275Y	SUB & HONY LT	RAJ BIR	01-11-2012
370	JC	469939P	SUB & HONY LT	RAMESH BABU	01-09-2012
371	JC	469940K	SUB & HONY LT	RAVINDRA SINGH	01-09-2012
372	JC	469424P	SUB & HONY LT	ROTAN SINGH	01-01-2013
373	JC	469732P	SUB & HONY LT	SHER SINGH	01-12-2012
374	JC	469669L	SUB & HONY LT	SHYAM SINGH	01-01-2013
375	JC	469953F	SUB & HONY LT	SURENDER KUMAR	01-12-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

376	JC	478692A	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN PAL	01-11-2012
377	JC	478886H	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KISHORE	01-01-2013
378	JC	478961F	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM BABU SINGH	01-11-2012
379	JC	480081K	SUB & HONY LT	ALAM SINGH	01-01-2013
380	JC	480223W	SUB & HONY LT	ALLAH VASID	01-09-2012
381	JC	479710K	SUB & HONY LT	DINESH SINGH	01-12-2012
382	JC	480017M	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	01-11-2012
383	JC	480043N	SUB & HONY LT	MAHABIR SINGH	01-09-2012
384	JC	479717N	SUB & HONY LT	R KRISHNA MURTHI	01-09-2012
385	JC	480026N	SUB & HONY LT	SHIMBHU DAYAL YADAV	01-09-2012
386	JC	480117X	SUB & HONY LT	SIDHI NATH	01-09-2012
387	JC	479633A	SUB & HONY LT	SUSHIL KUMAR	01-09-2012

**THE JAT REGIMENT**

388	JC	488983N	SUB MAJ & HONY LT	JAG RAM SINGH	01-11-2012
389	JC	488902H	SUB MAJ & HONY LT	MOOL CHAND	01-11-2012
390	JC	488814M	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASH CHANDRA	01-12-2012
391	JC	489559X	SUB & HONY LT	GIRDHARI RAM	01-12-2012
392	JC	489656P	SUB & HONY LT	KHYALI RAM	01-12-2012
393	JC	489929M	SUB & HONY LT	LEKH RAJ	01-11-2012
394	JC	489344Y	SUB & HONY LT	RAM KALA	01-09-2012
395	JC	489990W	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	01-10-2012
396	JC	489891N	SUB & HONY LT	RAM NIWASH	01-10-2012
397	JC	489569F	SUB & HONY LT	RAMDEEN CHOUDHARY	01-01-2013
398	JC	489604Y	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-12-2012
399	JC	489931K	SUB & HONY LT	SATYAPAL SINGH	01-12-2012
400	JC	489932M	SUB & HONY LT	SONI KUMAR	01-01-2013
401	JC	489930F	SUB & HONY LT	SRIPAL SINGH	01-11-2012
402	JC	489691X	SUB & HONY LT	UTTAM SINGH	01-12-2012
403	JC	489935A	SUB & HONY LT	YUDH VIR	01-11-2012

**THE SIKH REGIMENT**

404	JC	498693K	SUB MAJ & HONY LT	JASWANT SINGH	01-10-2012
405	JC	498535P	SUB MAJ & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-01-2013
406	JC	498608W	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH	01-09-2012
407	JC	498771W	SUB MAJ & HONY LT	RANDHIR SINGH	01-10-2012
408	JC	498646M	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-10-2012

409	JC	499521F	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-10-2012
410	JC	499022M	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-12-2012
411	JC	499113W	SUB & HONY LT	BHUPINDER SINGH	01-10-2012
412	JC	499387F	SUB & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	01-12-2012
413	JC	499007X	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-12-2012
414	JC	499043H	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-10-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

415	JC	508760A	SUB MAJ & HONY LT	SUCHA SINGH	01-01-2013
416	JC	508351M	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH	01-10-2012
417	JC	509497M	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-12-2012
418	JC	508877Y	SUB & HONY LT	HARMAIL SINGH	01-10-2012
419	JC	509393L	SUB & HONY LT	MAJOR SINGH	01-10-2012
420	JC	508777N	SUB & HONY LT	PARAMJIT SINGH	01-10-2012
421	JC	509165H	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-09-2012
422	JC	508881F	SUB & HONY LT	SURINDER PAL SINGH	01-09-2012
423	JC	508731L	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-09-2012

**THE DOGRA REGIMENT**

424	JC	519550A	SUB MAJ & HONY LT	BALWAN SINGH	01-01-2013
425	JC	519461F	SUB MAJ & HONY LT	DINESH SINGH	01-10-2012
426	JC	520820W	SUB & HONY LT	ASWANI KUMAR	01-10-2012
427	JC	520824M	SUB & HONY LT	BRINDER SINGH	01-10-2012
428	JC	520583X	SUB & HONY LT	HEM RAJ	01-11-2012
429	JC	520867F	SUB & HONY LT	JOWAN LAL	01-12-2012

430	JC	520817W	SUB & HONY LT	KAMAL SINGH	01-11-2012
431	JC	520700X	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-10-2012
432	JC	520221W	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-09-2012
433	JC	520733H	SUB & HONY LT	PARSHOTTAM SINGH	01-10-2012
434	JC	520353K	SUB & HONY LT	PREM LAL	01-12-2012
435	JC	520663P	SUB & HONY LT	RAM SINGH SAINI	01-01-2013
436	JC	520818Y	SUB & HONY LT	SOM DUTT	01-01-2013

**THE GARHWAL RIFLES**

437	JC	528799N	SUB MAJ & HONY LT	BALENDRA SINGH	01-09-2012
438	JC	529143L	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA SINGH	01-11-2012
439	JC	528904Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGAT SINGH	01-10-2012
440	JC	528743F	SUB MAJ & HONY LT	NAGMAL SINGH	01-10-2012
441	JC	529171X	SUB MAJ & HONY LT	RAJBAR SINGH	01-10-2012
442	JC	529104M	SUB MAJ & HONY LT	YASHPAL SINGH	01-09-2012
443	JC	530392W	SUB & HONY LT	BHUPENDRA SINGH	01-01-2013
444	JC	530487W	SUB & HONY LT	BISHAN DATT	01-11-2012
445	JC	530453H	SUB & HONY LT	JAIRAJ SINGH	01-10-2012
446	JC	530261L	SUB & HONY LT	OM PRAKASH PANCHURI	01-12-2012
447	JC	530521L	SUB & HONY LT	RAJPAL SINGH RAWAT	01-09-2012
448	JC	530296F	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-12-2012
449	JC	530016H	SUB & HONY LT	SHIVA PRASAD	01-09-2012
450	JC	530370X	SUB & HONY LT	SHIVRAJ SINGH	01-10-2012
451	JC	530565H	SUB & HONY LT	VIKRAM SINGH	01-11-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

452	JC	539192F	SUB MAJ & HONY LT	PRAHLAD SINGH ADHIKARI	01-01-2013
453	JC	538859L	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-10-2012
454	JC	538764L	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA PRASAD	01-12-2012
455	JC	538999X	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR DAYAL YADAV	01-01-2013
456	JC	539589M	SUB & HONY LT	ANAND SINGH	01-09-2012
457	JC	539743F	SUB & HONY LT	CHAMU SINGH	01-10-2012
458	JC	539772W	SUB & HONY LT	CHANDER SINGH KIRLAULA	01-09-2012
459	JC	539820L	SUB & HONY LT	DHARMENDRA SINGH	01-10-2012
460	JC	539755W	SUB & HONY LT	JAGAT SINGH	01-11-2012
461	JC	539986M	SUB & HONY LT	JAMAN SINGH	01-12-2012
462	JC	540029N	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-09-2012
463	JC	539822W	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH	01-10-2012
464	JC	540090X	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH BERTA	01-10-2012
465	JC	539900H	SUB & HONY LT	LILA DHAR PANDEY	01-09-2012
466	JC	540087X	SUB & HONY LT	MADHVA NAND	01-09-2012
467	JC	540200F	SUB & HONY LT	MAHADEV BHATT	01-09-2012
468	JC	539349W	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-01-2013
469	JC	539269Y	SUB & HONY LT	NANDAN SINGH	01-09-2012
470	JC	540065Y	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH	01-09-2012
471	JC	539971K	SUB & HONY LT	NARPAT SINGH	01-10-2012
472	JC	539862X	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-12-2012
473	JC	540025X	SUB & HONY LT	PRITHAVI RAJ SINGH	01-11-2012

474	JC	539896L	SUB & HONY LT	RABIINDRA SINGH KHATI	01-10-2012
475	JC	540145W	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR	01-01-2013
476	JC	539792K	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	01-01-2013
477	JC	540219A	SUB & HONY LT	SUBE SINGH YADAV	01-12-2012
478	JC	539673N	SUB & HONY LT	SURESH LAL SAH	01-10-2012
479	JC	539404F	SUB & HONY LT	YABENDAR SINGH	01-10-2012

### THE ASSAM REGIMENT

480	JC	548629L	SUB MAJ & HONY LT	A BINOY SINGHA	01-12-2012
481	JC	548574M	SUB MAJ & HONY LT	ASWINI KUMAR SINHA	01-11-2012
482	JC	548514X	SUB MAJ & HONY LT	BINOD SINGH	01-11-2012
483	JC	548549N	SUB MAJ & HONY LT	BINOY KUMAR BORAH	01-09-2012
484	JC	829164A	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA SINGHA	01-09-2012
485	JC	548463P	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA SENA RAJKUMAR	01-12-2012
486	JC	548464X	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SARMAH	01-10-2012
487	JC	548744L	SUB MAJ & HONY LT	K JEMES	01-12-2012
488	JC	548512M	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDRA SINGHA	01-10-2012
489	JC	548778Y	SUB MAJ & HONY LT	SANTI KUMAR SINHA	01-10-2012
490	JC	549381Y	SUB & HONY LT	AGNI BAHADUR CHHETRI	01-09-2012
491	JC	548996X	SUB & HONY LT	BARUN CHISIM	01-10-2012
492	JC	549042Y	SUB & HONY LT	BHUDESWAR DEORI	01-01-2013
493	JC	549554L	SUB & HONY LT	BHUPEN CHETIA	01-10-2012
494	JC	549134L	SUB & HONY LT	BS RECOISON ANAL	01-01-2013
495	JC	548987W	SUB & HONY LT	CHABILAL THAPA	01-01-2013



496	JC	549214H	SUB & HONY LT	DAL BAHADUR DARLAMI	01-01-2013
497	JC	549333Y	SUB & HONY LT	KSH MALAYA SINGHA	01-12-2012
498	JC	549209X	SUB & HONY LT	LAISHRAM BHOROT SINGH	01-11-2012
499	JC	548856L	SUB & HONY LT	PAILOT MARAK	01-09-2012
500	JC	549372X	SUB & HONY LT	PAYA ANIVER ANAL	01-01-2013
501	JC	172615W	SUB & HONY LT	PS GEORGE	01-12-2012
502	JC	548922H	SUB & HONY LT	SR HRINGSHEL ANAL	01-01-2013
503	JC	548867X	SUB & HONY LT	UDHAB CHANDRA RAJBONGSHI	01-12-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

504	JC	558853L	SUB MAJ & HONY LT	KHEDAN SINGH	01-11-2012
505	JC	558808Y	SUB MAJ & HONY LT	SURESH SINGH	01-01-2013
506	JC	559259W	SUB & HONY LT	ANGRESH BARIK	01-09-2012
507	JC	559384A	SUB & HONY LT	BABULI NAYAK	01-01-2013
508	JC	559338L	SUB & HONY LT	BIJAYA KUMAR SAMAL	01-09-2012
509	JC	558694Y	SUB & HONY LT	DHANO TUDU	01-09-2012
510	JC	558978H	SUB & HONY LT	JIWAR NAG	01-12-2012
511	JC	559349X	SUB & HONY LT	LAKSHUMAN GIRI	01-09-2012
512	JC	559458K	SUB & HONY LT	PASCAL TOPPO	01-11-2012
513	JC	559653F	SUB & HONY LT	PITAMBAR BIRUWA	01-10-2012
514	JC	559832F	SUB & HONY LT	RAM NATH ORAON	01-09-2012

**THE MAHAR REGIMENT**

515	JC	568610N	SUB MAJ & HONY LT	KAMBLE ASHOK SAYABA	01-10-2012
516	JC	568702A	SUB MAJ & HONY LT	BHANDALKAR KISAN DADA	01-11-2012

517	JC	568647P	SUB MAJ & HONY LT	DATTA SURYABHAN GAWAI	01-10-2012
518	JC	568612Y	SUB MAJ & HONY LT	KURANE VIJAY SHIVAJI	01-10-2012
519	JC	569307Y	SUB & HONY LT	BALKAR SINGH	01-11-2012
520	JC	569554M	SUB & HONY LT	BIMAL CH BARMAN	<del>01-12-2012</del>
521	JC	569329X	SUB & HONY LT	CHANCHAL SINGH	01-09-2012
522	JC	569944P	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-01-2013
523	JC	569285L	SUB & HONY LT	LAXMAN TAMANG	01-12-2012
524	JC	569973K	SUB & HONY LT	LILAMANI LAMSAL	<del>01-10-2012</del>
525	JC	570202F	SUB & HONY LT	PRAVAKAR LENKA	01-01-2013
526	JC	569799H	SUB & HONY LT	SARAT SINGH BISHT	01-09-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

527	JC	579219W	SUB MAJ & HONY LT	GIAN SINGH	01-09-2012
528	JC	579427L	SUB MAJ & HONY LT	HARI RAM	<del>01-11-2012</del>
529	JC	579495Y	SUB MAJ & HONY LT	HEM SINGH	01-01-2013
530	JC	579586H	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN CHAND	<del>01-01-2013</del>
531	JC	579364N	SUB MAJ & HONY LT	SOBA RAM	01-01-2013
532	JC	579491H	SUB MAJ & HONY LT	SOHAN LAL	01-09-2012
533	JC	580483W	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-09-2012
534	JC	580030L	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-09-2012
535	JC	580287W	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-09-2012
536	JC	580178K	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-11-2012
537	JC	580683M	SUB & HONY LT	BISWA GURUNG	<del>01-12-2012</del>
538	JC	580663Y	SUB & HONY LT	HARI BAHADUR THAPA	01-01-2013

539	JC	580444X	SUB & HONY LT	JAGAR SINGH	01-09-2012
540	JC	580273W	SUB & HONY LT	JAGAT SINGH	01-10-2012
541	JC	580288Y	SUB & HONY LT	KAMAL SINGH	01-10-2012
542	JC	580043H	SUB & HONY LT	KAMALJIT SINGH	01-09-2012
543	JC	580094W	SUB & HONY LT	NAROTAM SINGH	01-10-2012
544	JC	579621A	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH JAMWAL	01-09-2012
545	JC	580376P	SUB & HONY LT	PREMLAL	01-09-2012
546	JC	580568M	SUB & HONY LT	ROMESH CHAND	01-09-2012
547	JC	579993L	SUB & HONY LT	SURINDER KUMAR	01-09-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

548	JC	588279M	SUB & HONY LT	CHHERING PHUNCHOK	01-10-2012
549	JC	588266P	SUB & HONY LT	TASHI TUNDUP	01-11-2012
550	JC	588234M	SUB & HONY LT	THUKJE LOLDAN	01-10-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

551	JC	592554Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-01-2013
552	JC	592762N	SUB MAJ & HONY LT	SAT PAUL	01-01-2013
553	JC	593513F	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-01-2013
554	JC	593389L	SUB & HONY LT	BALWANT RAJ	01-12-2012
555	JC	592898X	SUB & HONY LT	DEV RAJ	01-11-2012
556	JC	593036L	SUB & HONY LT	FATEH SINGH	01-11-2012
557	JC	592990W	SUB & HONY LT	GHIMOH DIN WANI	01-10-2012
558	JC	592830W	SUB & HONY LT	HARBANS LAL	01-09-2012
559	JC	593732H	SUB & HONY LT	HARJ SINGH	01-12-2012

560	JC	592799P	SUB & HONY LT	HARKESH KUMAR SHARMA	01-09-2012
561	JC	593197N	SUB & HONY LT	HARMINDER PAUL	01-09-2012
562	JC	593138F	SUB & HONY LT	JAGAR RAM	01-11-2012
563	JC	592966A	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-09-2012
564	JC	593483P	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-12-2012
565	JC	593224M	SUB & HONY LT	KHAZAN CHAND	01-11-2012
566	JC	593359N	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH	01-11-2012
567	JC	593091F	SUB & HONY LT	LAL HUSSAIN	01-12-2012
568	JC	592775L	SUB & HONY LT	MANGAT RAM	01-11-2012
569	JC	593011Y	SUB & HONY LT	MOHD IQBAL	01-01-2013
570	JC	592812N	SUB & HONY LT	MOHD SADIQ	01-10-2012
571	JC	593003A	SUB & HONY LT	MOHINDER LAL	01-11-2012
572	JC	593335K	SUB & HONY LT	MOHMAD ASIF	01-11-2012
573	JC	593490L	SUB & HONY LT	NARINDER KUMAR	01-10-2012
574	JC	593306P	SUB & HONY LT	PREM SINGH	01-01-2013
575	JC	593545K	SUB & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-12-2012
576	JC	593679H	SUB & HONY LT	RAJ KRISHAN	01-01-2013
577	JC	592996X	SUB & HONY LT	RATTAN CHAND	01-11-2012
578	JC	593261A	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH	01-10-2012
579	JC	592897P	SUB & HONY LT	SAGAR SINGH	01-01-2013
580	JC	593294L	SUB & HONY LT	SAT PAL	01-09-2012
581	JC	592689A	SUB & HONY LT	SHAM LAL	01-11-2012
582	JC	593318K	SUB & HONY LT	SHAM LAL	01-11-2012

583	JC	593074F	SUB & HONY LT	SURINDER SINGH	01-11-2012
584	JC	593710K	SUB & HONY LT	TARSEM LAL SAINI	01-11-2012
585	JC	592995P	SUB & HONY LT	VED PARKASH	01-11-2012
586	JC	592616N	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-09-2012
587	JC	593395Y	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-12-2012
588	JC	593380W	SUB & HONY LT	VIR BHAN	01-11-2012
589	JC	593661M	SUB & HONY LT	YOG RAJ	01-11-2012

**1 GORKHA RIFLES**

590	JC	602782X	SUB & HONY LT	KUL BAHADUR SHRESTHA	01-10-2012
591	JC	602682M	SUB & HONY LT	TAP BAHADUR RANA	01-10-2012

**3 GORKHA RIFLES**

592	JC	607135F	SUB MAJ & HONY LT	BHIM PRASAD	01-01-2013
593	JC	607479A	SUB & HONY LT	BUDDHI BAHADUR GURUNG	01-12-2012
594	JC	607710X	SUB & HONY LT	JAGAT BAHADUR THAPA	01-09-2012

**4 GORKHA RIFLES**

595	JC	612366F	SUB MAJ & HONY LT	KARNA BAHADUR THAPA	01-12-2012
596	JC	612591W	SUB & HONY LT	ANAND KUMAR	01-01-2013
597	JC	612537H	SUB & HONY LT	KRIPA RAM GURUNG	01-11-2012
598	JC	612574W	SUB & HONY LT	KUL MAN PUN	01-09-2012
599	JC	612588W	SUB & HONY LT	SAMAR VIJAY	01-09-2012
600	JC	612548P	SUB & HONY LT	TARKA BAHADUR RANA	01-11-2012

**5 GORKHA RIFLES**

601	JC	617543A	SUB MAJ & HONY LT	GAIN BAHADUR GURUNG	01-11-2012
602	JC	617528L	SUB MAJ & HONY LT	GANESH BAHADUR THAPA	01-09-2012
603	JC	617444X	SUB MAJ & HONY LT	HIM LAL SINGJALI	01-09-2012
604	JC	617382H	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA BHARALI	01-09-2012
605	JC	617779P	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR RANA	01-09-2012
606	JC	617859M	SUB & HONY LT	DHAN BAHADUR RANA	01-12-2012
607	JC	617566F	SUB & HONY LT	LILA DHOJ GURUNG	01-12-2012
608	JC	617516W	SUB & HONY LT	LOK BAHADUR PUN	01-09-2012
609	JC	617808Y	SUB & HONY LT	NAGENDRA BAHADUR THAPA	01-01-2013

**8 GORKHA RIFLES**

610	JC	623300L	SUB MAJ & HONY LT	BISHNU THAPA	01-01-2013
611	JC	623582P	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR GURUNG	01-09-2012
612	JC	623699N	SUB & HONY LT	BAL BAHADUR ROKA	01-12-2012
613	JC	623479K	SUB & HONY LT	CHHAK BAHADUR GURUNG	01-11-2012
614	JC	623600M	SUB & HONY LT	KHARKA BAHADUR GURUNG	01-10-2012
615	JC	623686W	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-12-2012
616	JC	623604H	SUB & HONY LT	LUXMAN RANA	01-09-2012
617	JC	623444N	SUB & HONY LT	PADAM BAHADUR PRADHAN	01-09-2012

**9 GORKHA RIFLES**

618	JC	629844W	SUB & HONY LT	BISHNU PRASAD CHHETRI	01-11-2012
619	JC	629563A	SUB & HONY LT	DIL BAHADUR THAPA	01-01-2013
620	JC	629880F	SUB & HONY LT	HARI BAHADUR KC	01-01-2013

**11 GORKHA RIFLES**

621	JC	634136N	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL PRASAD PRADHAN	01-10-2012
622	JC	634674F	SUB & HONY LT	BENOY RAI	01-01-2013
623	JC	634661K	SUB & HONY LT	BHARAT KUMAR LOKTAM	01-11-2012
624	JC	634659M	SUB & HONY LT	GOPAL SINGH BISHT	01-10-2012
625	JC	634592Y	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR RAI	01-12-2012
626	JC	634760M	SUB & HONY LT	RAM KUMAR RAI	01-12-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

627	JC	662258N	SUB MAJ & HONY LT	ALAUDDIN KHAN	01-11-2012
628	JC	641845L	SUB MAJ & HONY LT	ANANDAN A	01-11-2012
629	JC	640786X	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH PATIAL	01-09-2012
630	JC	640866P	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA KUMAR MISHRA	01-01-2013
631	JC	641257X	SUB MAJ & HONY LT	DESH RAJ JAMWAL	01-01-2013
632	JC	641073Y	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDER SINGH	01-01-2013
633	JC	641207M	SUB MAJ & HONY LT	KAPOOR KUMAR SHARMA	01-10-2012
634	JC	641505H	SUB MAJ & HONY LT	MUKUNDAN P	01-09-2012
635	JC	641230A	SUB MAJ & HONY LT	NAND KISHORE SINGH	01-12-2012
636	JC	138178P	SUB MAJ & HONY LT	PURAN CHANDRA JOSHI	01-12-2012
637	JC	641822K	SUB MAJ & HONY LT	R K SANJAYAIMA SINGHA	01-10-2012
638	JC	640864K	SUB MAJ & HONY LT	RAM DUTTA SINGH	01-10-2012
639	JC	663957L	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR JHA	01-01-2013
640	JC	663622N	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH	01-12-2012
641	JC	664030W	SUB & HONY LT	BIRENDER PAL	01-10-2012

642	JC	641114X	SUB & HONY LT	HARISH CHANDER	01-09-2012
643	JC	663848Y	SUB & HONY LT	JAG RAM SINGH	01-12-2012
644	JC	664140L	SUB & HONY LT	MAHABIR SINGH	01-12-2012
645	JC	641545K	SUB & HONY LT	MOHAN CHARAN SWAIN	01-09-2012
646	JC	664203H	SUB & HONY LT	NAND KISHORE	01-11-2012
647	JC	663085N	SUB & HONY LT	OM PAL	01-10-2012
648	JC	663326H	SUB & HONY LT	R PANDI	01-09-2012
649	JC	663852F	SUB & HONY LT	RAM DATT BHATT	01-10-2012
650	JC	663358L	SUB & HONY LT	RAM SAKAL BHAGAT	01-12-2012
651	JC	663893L	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND YADAV	01-01-2013
652	JC	643024P	SUB & HONY LT	RAMESHWAR DATTA DWIVEDI	01-10-2012
653	JC	664976H	SUB & HONY LT	RATHOR TEJ SINGH	01-01-2013
654	JC	663536H	SUB & HONY LT	S MUNI RAJU	01-09-2012
655	JC	665049F	SUB & HONY LT	SARAT CHANDRA MOHANTY	01-12-2012
656	JC	642740N	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH	01-01-2013
657	JC	664312P	SUB & HONY LT	SUBODH KUMAR SAXENA	01-10-2012

#### ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

658	JC	680855L	RIS & HONY LT	BIRENDRA SINGH	01-12-2012
659	JC	680827Y	RIS & HONY LT	JAGAT CHANDRA BORAH	01-09-2012
660	JC	680824L	RIS & HONY LT	MANNU SINGH	01-09-2012
661	JC	680757L	RIS & HONY LT	MD AKBAR ALI	01-12-2012
662	JC	680841L	RIS & HONY LT	NAVAL KISHORE CHOUDHARY	01-11-2012
663	JC	680854H	RIS & HONY LT	RAMA KANT	01-12-2012



664	JC	680939Y	RIS & HONY LT	RAMA SUTHAN K	01-09-2012
665	JC	680882P	RIS & HONY LT	SHIBU GURU ROY	01-09-2012
666	JC	681008F	RIS & HONY LT	V KESAVAN	01-08-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

667	JC	692598L	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH	01-11-2012
668	JC	694334H	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV RAJ	01-10-2012
669	JC	694014N	SUB MAJ & HONY LT	BOJJI REDDY RAVINDRA REDDY	01-10-2012
670	JC	693540A	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA SHEKHAR SINGH NEGI	01-12-2012
671	JC	693424X	SUB MAJ & HONY LT	CHHATRA SINGH MEHRA	01-12-2012
672	JC	693614K	SUB MAJ & HONY LT	GURDAYAL SINGH	01-09-2012
673	JC	691279M	SUB MAJ & HONY LT	GURDIP SINGH	01-12-2012
674	JC	694345P	SUB MAJ & HONY LT	MAHIPAL SINGH	01-01-2013
675	JC	694320H	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN LAL	01-11-2012
676	JC	690532W	SUB MAJ & HONY LT	MURALEEDHARN PILLAI P	01-12-2012
677	JC	161067K	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER NATH TIWARI	01-09-2012
678	JC	691650W	SUB MAJ & HONY LT	OMBASE ASHOK DHARMAJI	01-11-2012
679	JC	693354K	SUB MAJ & HONY LT	RABI NARAYAN PANDA	01-01-2013
680	JC	693011N	SUB MAJ & HONY LT	RAM RATTAN	01-12-2012
681	JC	148702L	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR PRASAD BABELE	01-01-2013
682	JC	692581X	SUB MAJ & HONY LT	SOMA SEKHARAN PILLAI M	01-09-2012
683	JC	694010X	SUB MAJ & HONY LT	SRI KANT MISHRA	01-01-2013
684	JC	695329K	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-10-2012
685	JC	695398A	SUB & HONY LT	BHANU PRATAP	01-09-2012

686	JC	696175P	SUB & HONY LT	BIRENDAR SINGH	01-10-2012
687	JC	695454N	SUB & HONY LT	CHHOTU RAM JANGAL	01-12-2012
688	JC	695351P	SUB & HONY LT	HANUMANTHU RAMA KRISHNA RAO	01-09-2012
689	JC	693033M	SUB & HONY LT	JAYA KUMAR PB	01-09-2012
690	JC	693870Y	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-10-2012
691	JC	695374W	SUB & HONY LT	MANJE GOWDA MT	01-09-2012
692	JC	693706W	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM YADAV	01-11-2012
693	JC	695594A	SUB & HONY LT	RAJENDER PRASAD NADIA	01-09-2012
694	JC	695452H	SUB & HONY LT	RISHI KESH RAI	01-12-2012
695	JC	695597N	SUB & HONY LT	VINOD KUMAR BHATT	01-10-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

696	JC	723638L	SUB MAJ & HONY LT	ASIF ALI KHAN	01-09-2012
697	JC	723726F	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL CHANDRA BALA	01-11-2012
698	JC	723641L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNAN T	01-01-2013
699	JC	723662F	SUB MAJ & HONY LT	MUNNI LAL	01-11-2012
700	JC	723906K	SUB MAJ & HONY LT	RAI SINGH	01-10-2012
701	JC	725925N	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH SINGH	01-09-2012
702	JC	723901L	SUB MAJ & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-09-2012
703	JC	722986A	SUB MAJ & HONY LT	SANTOSH KUMAR SINGH	01-10-2012
704	JC	723825K	SUB MAJ & HONY LT	TAJWAR SINGH	01-11-2012
705	JC	131921W	SUB MAJ & HONY LT	THAG RAM KHANKRIYAL	01-11-2012
706	JC	726490H	SUB & HONY LT	ABHAY KUMAR	01-09-2012
707	JC	726660F	SUB & HONY LT	BHIRGU NATH YADAV	01-01-2013

708	JC	726563K	SUB & HONY LT	GANESH CHANDRA DAS	01-10-2012
709	JC	726945N	SUB & HONY LT	GOPINATHAN PILLAI V	01-12-2012
710	JC	725725X	SUB & HONY LT	HANUMAN RAM	01-01-2013
711	JC	727176F	SUB & HONY LT	KARUA SINGH	01-01-2013
712	JC	726578M	SUB & HONY LT	KOLLABATHULA JNANA RATNAM	01-09-2012
713	JC	726475N	SUB & HONY LT	MOHANAN R	01-09-2012
714	JC	726544Y	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-10-2012
715	JC	727383N	SUB & HONY LT	MRIDUL BORA I	01-11-2012
716	JC	726640N	SUB & HONY LT	NAZAR MOHMAD	01-01-2013
717	JC	727132K	SUB & HONY LT	RAJESHWAR THAKUR	01-09-2012
718	JC	727636X	SUB & HONY LT	RAM AKBAL CHOUDHARY	01-09-2012
719	JC	726510L	SUB & HONY LT	SATYA VEER SINGH	01-09-2012
720	JC	726541L	SUB & HONY LT	TRISH PAL	01-10-2012
721	JC	726474L	SUB & HONY LT	UMMAID SINGH INDA	01-09-2012

#### **CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

722	JC	749338F	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR PANDEY	01-11-2012
723	JC	749179P	SUB MAJ & HONY LT	B LAKSHMI CHENNA KESAVA RAO	01-12-2012
724	JC	754137M	SUB MAJ & HONY LT	BACHCHA PRASAD SINGH	01-12-2012
725	JC	753816X	SUB MAJ & HONY LT	BHARATHA KUMARAN C	01-12-2012
726	JC	752970K	SUB MAJ & HONY LT	HIMANSU SEKHAR PATRA	01-09-2012
727	JC	753168A	SUB MAJ & HONY LT	JWALA PRASAD	01-09-2012
728	JC	478762N	SUB MAJ & HONY LT	KAILASH CHANDER BHATT	01-11-2012
729	JC	753097K	SUB MAJ & HONY LT	KHIM SINGH	01-10-2012

730	JC	753385W	SUB MAJ & HONY LT	KUMBBHAR DATTATRAYA	01-12-2012
731	JC	752880H	SUB MAJ & HONY LT	NAVEEN KUMAR	01-12-2012
732	JC	146676W	SUB MAJ & HONY LT	BABAN RAO	01-09-2012
733	JC	751529P	SUB MAJ & HONY LT	PRAKSH CHANDRA PANT	01-11-2012
734	JC	753346X	SUB MAJ & HONY LT	RAVENDRA PAL SINGH	01-12-2012
735	JC	753719A	SUB MAJ & HONY LT	SANTOSH KUMAR	01-12-2012
736	JC	754280Y	SUB MAJ & HONY LT	SOBARAN SINGH	01-01-2013
737	JC	752210F	SUB MAJ & HONY LT	SULAKHAN SINGH	01-11-2012
738	JC	753651K	SUB MAJ & HONY LT	SULTAN SINGH PORIYA	01-12-2012
739	JC	146674L	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER SINGH RAWAT	01-09-2012
740	JC	762817F	SUB & HONY LT	SURESH PRASAD TRIPATHI	01-10-2012
741	JC	762456N	SUB & HONY LT	AMARJEET SINGH	01-10-2012
742	JC	755879Y	SUB & HONY LT	ARVIND KUMAR SINHA	01-12-2012
743	JC	760368Y	SUB & HONY LT	BHOLA JHA	01-01-2013
744	JC	762871P	SUB & HONY LT	BINOD BIHARI	01-01-2013
745	JC	762814N	SUB & HONY LT	BINODE BEHARI DAS	01-01-2013
746	JC	760214M	SUB & HONY LT	BIRENDER SINGH	01-12-2012
747	JC	755444W	SUB & HONY LT	BORASE GULABRAO	01-12-2012
748	JC	751924H	SUB & HONY LT	BORASE PANDURANG RAJARAM	01-09-2012
749	JC	754497H	SUB & HONY LT	C AROCKIA DOSS	01-12-2012
750	JC	761794Y	SUB & HONY LT	CHANDRA DUTTA SHARMA	01-09-2012
751	JC	754589P	SUB & HONY LT	CHANDRA MOHAN SINGH	01-09-2012
752	JC	762819M	SUB & HONY LT	DADAN TIWARI	01-10-2012

753	JC	755192P	SUB & HONY LT	DESH RAM	01-10-2012
754	JC	751916K	SUB & HONY LT	ELANGO VAN K	01-09-2012
755	JC	754020N	SUB & HONY LT	GIRISH CH NATH	01-11-2012
756	JC	761696Y	SUB & HONY LT	HANS RAJ TIWARI	01-12-2012
757	JC	762461Y	SUB & HONY LT	JAG MOHAN SINGH	01-12-2012
758	JC	755625F	SUB & HONY LT	JAI BHAGWAN	01-01-2013
759	JC	760221H	SUB & HONY LT	JAYA RAJAN K M	01-12-2012
760	JC	760187N	SUB & HONY LT	KAMESHWAR THAKUR	01-09-2012
761	JC	760162F	SUB & HONY LT	KRISHNADHAN SINGHA	01-09-2012
762	JC	752386M	SUB & HONY LT	KRISHNEDU DAS	01-09-2012
763	JC	760513L	SUB & HONY LT	MAHALINGAM T	01-10-2012
764	JC	762810X	SUB & HONY LT	MOHAN CHAND	01-12-2012
765	JC	762873A	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-01-2013
766	JC	760480L	SUB & HONY LT	MUKESH BABU	01-12-2012
767	JC	760227K	SUB & HONY LT	NANHE LAL LODHI	01-12-2012
768	JC	760670X	SUB & HONY LT	NIL MANI SINHA	01-12-2012
769	JC	757650Y	SUB & HONY LT	NRIPEN CHANDRA MALAKAR	01-10-2012
770	JC	760188W	SUB & HONY LT	P PADMAJAN NAIR	01-09-2012
771	JC	755148L	SUB & HONY LT	PRAVAKAR TRIVEDI	01-09-2012
772	JC	762923A	SUB & HONY LT	RAM KUMAR SINGH	01-09-2012
773	JC	755372X	SUB & HONY LT	RAMAMOORTHY A	01-12-2012
774	JC	760197X	SUB & HONY LT	RAMENDRA NATH SHAH	01-10-2012
775	JC	754553W	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDRA YADAV	01-10-2012

776	JC	755877N	SUB & HONY LT	ROHITASHVA LAMBA	01-12-2012
777	JC	762789A	SUB & HONY LT	SAMIR KUMAR MAITI	01-10-2012
778	JC	755280L	SUB & HONY LT	SATENDRA SINGH BAIS	01-10-2012
779	JC	761028H	SUB & HONY LT	SHAJI MATHEWS	01-09-2012
780	JC	755621L	SUB & HONY LT	SUDHIR PAL JADAUN	01-01-2013
781	JC	760539A	SUB & HONY LT	SUKHWINDER SINGH	01-10-2012
782	JC	763170L	SUB & HONY LT	SURESH CHAND	01-12-2012
783	JC	753188N	SUB & HONY LT	UMESH KUMAR JHA	01-01-2013
784	JC	756267N	SUB & HONY LT	VED PRAKASH	01-12-2012
785	JC	755104N	SUB & HONY LT	VIRENDER SINGH YADAV	01-10-2012
786	JC	760202X	SUB & HONY LT	VIRENDRA KUMAR PANDEY	01-11-2012
787	JC	753857F	SUB & HONY LT	WATI HETRAM TULSIRAM	01-10-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

788	JC	802509M	SUB MAJ & HONY LT	KOMAL SINGH	01-01-2013
789	JC	802207A	SUB MAJ & HONY LT	UMESH SINGH	01-09-2012
790	JC	803379F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SINGH CHAUHAN	01-01-2013
791	JC	803338X	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-09-2012
792	JC	803142K	SUB & HONY LT	BALJIT KUMAR	01-01-2013
793	JC	802676H	SUB & HONY LT	KHEM CHAND THALOR	01-12-2012
794	JC	802665W	SUB & HONY LT	MANVIR SHARMA	01-12-2012
795	JC	803601X	SUB & HONY LT	OM PRAKASH DWIVEDI	01-01-2013
796	JC	803135N	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	01-01-2013
797	JC	802947P	SUB & HONY LT	UMESH BABOO	01-11-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

798	JC	797392M	RIS & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-12-2012
799	JC	797376P	RIS & HONY LT	PRASAD CK	01-10-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

800	JC	810103N	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH MAHARA	01-09-2012
801	JC	810123F	SUB MAJ & HONY LT	SINGARA SINGH	01-01-2013
802	JC	810735Y	SUB & HONY LT	DALGIR CHAND RANA	01-01-2013
803	JC	810723K	SUB & HONY LT	RAGHUVVEER SINGH YADAV	01-11-2012
804	JC	810699Y	SUB & HONY LT	RAN VIJAY SINGH	01-09-2012
805	JC	810593M	SUB & HONY LT	SARWAN KUMAR	01-11-2012
806	JC	810697N	SUB & HONY LT	SARWAN SINGH CHAUHAN	01-09-2012
807	JC	810710M	SUB & HONY LT	SHISHU PAUL	01-11-2012
808	JC	810755M	SUB & HONY LT	TASBIR SINGH	01-01-2013
809	JC	810719F	SUB & HONY LT	YADAV CHAND	01-11-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

810	JC	818733H	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN V K	01-11-2012
811	JC	818347W	SUB & HONY LT	ARJUN DEONICE TIRKEY	01-10-2012
812	JC	819151P	SUB & HONY LT	MOHAN THAKUR	01-11-2012
813	JC	818953M	SUB & HONY LT	RAMESH LAL JAKHAR	01-01-2013
814	JC	819181M	SUB & HONY LT	SURESH PRASAD YADAV	01-09-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

815	JC	826093Y	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH	01-09-2012
-----	----	---------	----------------------	---------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

816	JC 829331L	SUB & HONY LT	BALENDEA PRASAD PAL	01-01-2013
817	JC 829365Y	SUB & HONY LT	SURESH CHAND	01-11-2012

**ARMY POSTAL SERVICE**

818	JC 834254L	SUB & HONY LT	SURAJ PAL YADAV	01-11-2012
-----	------------	------------------	-----------------	------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

819	JC 841253L	SUB & HONY LT	M KANNAN	01-09-2012
820	JC 841153A	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-11-2012

**TERRITORIAL ARMY**

821	TJ 4221K	SUB & HONY LT	DES RAJ	01-01-2013
822	TJ 4887H	SUB & HONY LT	GAJAN LAL	01-01-2013
823	TJ 3640L	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-09-2012
824	TJ 4308L	SUB & HONY LT	PHOOL SINGH	01-10-2012
825	TJ 4189A	SUB & HONY LT	SAIDAS WANKHEDE	01-10-2012
826	TJ 4837X	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND	01-12-2012
827	TJ 4355H	SUB & HONY LT	VIJAY PARTAP	01-09-2012

**EX-POST-FACTO**  
**GRANT OF HONORARY CAPTAIN**  
**WITH EFFECT FROM 01 FEB 2007**  
**(ON RETIREMENT)**

**THE RAJPUT REGIMENT**

1.	JC 218259H	EX SUB MAJ & HONY LT	KIRAN PAL SINGH
----	------------	----------------------	-----------------



**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****ARMoured CORPS**

1	JC 238694Y	RIS MAJ	AMIR HASAN	01-09-2012
2	JC 239589P	RIS MAJ	KULBHUSHAN SINGH	01-12-2012
3	JC 239732W	RIS MAJ	MAHENDER SINGH	01-09-2012
4	JC 239097W	RIS MAJ	MUKHTIAR SINGH	01-01-2013
5	JC 140401M	RIS MAJ	RAJENDER SINGH	01-12-2012
6	JC 239684F	RIS MAJ	RAMESH KUMAR	01-11-2012
7	JC 152322K	RIS MAJ	SHIV SARAN SHARMA	01-11-2012
8	JC 239318X	RIS MAJ	SHYAM MURARI	01-01-2013
9	JC 240366K	RIS MAJ	SURENDRA KUMAR	01-12-2012
10	JC 239044X	RIS MAJ	VIJAY KUMAR	01-01-2013

**REGIMENT OF ARTILLERY**

11	JC 259803N	SUB MAJ	BALWANT SINGH BIST	01-09-2012
12	JC 259370F	SUB MAJ	BHAGWAT SUDAM VITHAL	01-09-2012
13	JC 263130F	SUB MAJ	BISHAN SINGH	01-12-2012
14	JC 261327Y	SUB MAJ	DEV KUMAR PAL	01-10-2012
15	JC 260452W	SUB MAJ	GOURA CHANDRA PRADHAN	01-11-2012
16	JC 257758N	SUB MAJ	GYANENDRA KUMAR TIWARI	01-01-2013
17	JC 261330Y	SUB MAJ	JASPAL SINGH	01-11-2012
18	JC 259416Y	SUB MAJ	JEEWAN RAM MUNDEL	01-09-2012
19	JC 262323P	SUB MAJ	MADHUSOODHANAN NAIR K	01-11-2012
20	JC 257030A	SUB MAJ	MUKHTAR SINGH	01-11-2012
21	JC 260813K	SUB MAJ	NANAK CHAND	01-09-2012
22	JC 259983F	SUB MAJ	NARINDER SINGH GILL	01-09-2012
23	JC 260083K	SUB MAJ	PADAM BAHADUR BIST	01-09-2012
24	JC 260228K	SUB MAJ	PARLAD	01-12-2012
25	JC 262482M	SUB MAJ	PRAKASH CHAND	01-10-2012
26	JC 260583F	SUB MAJ	RAGHUBIR SINGH	01-12-2012
27	JC 259807K	SUB MAJ	RAJ KUMAR RAO	01-09-2012
28	JC 259523A	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD YADAV	01-10-2012
29	JC 259468P	SUB MAJ	RANJEET SINGH	01-09-2012
30	JC 263354F	SUB MAJ	VELLAI CHAMY S	01-10-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

31	JC 297781K	SUB MAJ	RAMAMOORTHY R	01-11-2012
32	JC 297553F	SUB MAJ	VINOD KUMAR	01-10-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

33	JC 306588F	SUB MAJ	A RAJENDRAN	01-01-2013
34	JC 306824X	SUB MAJ	AJAB SINGH YADAV	01-09-2012
35	JC 306841X	SUB MAJ	ANIL KUMAR AR	01-01-2013
36	JC 327588P	SUB MAJ	ANIL KUMAR SINHA	01-01-2013
37	JC 306903M	SUB MAJ	BAJARANGBALI MISHRA	01-12-2012

38	JC 306725P	SUB MAJ	BALWAN SINGH	01-11-2012
39	JC 306842A	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH TOMER	01-11-2012
40	JC 306948M	SUB MAJ	G ELANGO	01-01-2013
41	JC 306831N	SUB MAJ	HAWA SINGH	01-11-2012
42	JC 306660M	SUB MAJ	I MATHIAS	01-10-2012
43	JC 306897K	SUB MAJ	JAGDEV KUMAR	01-11-2012
44	JC 327431P	SUB MAJ	LALAN KUMAR SHARMA	01-01-2013
45	JC 306972H	SUB MAJ	M LINGESAN	01-01-2013
46	JC 306427Y	SUB MAJ	MCP RAJASEKAR	01-09-2012
47	JC 307620X	SUB MAJ	P KATHAVARAYAN	01-09-2012
48	JC 306870M	SUB MAJ	RAJARAM YADAV	01-12-2012
49	JC 306736F	SUB MAJ	RAMACHANDRA PRASAD SINGH	01-10-2012
50	JC 306726X	SUB MAJ	REKESH KUMAR	01-10-2012
51	JC 306896F	SUB MAJ	S DAVID	01-11-2012
52	JC 306902K	SUB MAJ	S GANESAN	01-01-2013
53	JC 327418L	SUB MAJ	SHIV CHARAN	01-01-2013
54	JC 306904P	SUB MAJ	SURAJ BHAN	01-11-2012
55	JC 330024X	SUB MAJ	SURAM CHAND	01-12-2012
56	JC 326347H	SUB MAJ	SURESH KUMAR	01-01-2013
57	JC 306669F	SUB MAJ	SURESH KUMAR AWASTHI	01-01-2013
58	JC 306662X	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN UNNITHAN	01-10-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

59	JC 165099K	SUB MAJ	ABHIMANYU RAI	01-09-2012
60	JC 325844A	SUB MAJ	AJMER SINGH	01-09-2012
61	JC 199859N	SUB MAJ	ALTAH HUSSAIN	01-10-2012
62	JC 325988H	SUB MAJ	ARATHALA THULASI DASS REDDY	01-11-2012
63	JC 327809W	SUB MAJ	ASHWANI KUMAR	01-10-2012
64	JC 327806H	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-09-2012
65	JC 330173L	SUB MAJ	BHAG SINGH	01-01-2013
66	JC 326132K	SUB MAJ	BHAGWAT SINGH BHAKUNI	01-10-2012
67	JC 126271K	SUB MAJ	BHAVESH KUMAR CHOUDHARY	01-09-2012
68	JC 328316F	SUB MAJ	BHAWAN SINGH PANDA	01-12-2012
69	JC 330107H	SUB MAJ	BIJENDRA SINGH	01-11-2012
70	JC 165106P	SUB MAJ	BINDRESH KUMAR	01-11-2012
71	JC 327883X	SUB MAJ	BIRENDRA SINGH ASWAL	01-09-2012
72	JC 327443K	SUB MAJ	CHANDRA SEKHAR NAIR P N	01-11-2012
73	JC 325851W	SUB MAJ	CHAUDHARI VINAYAK MADHAV	01-01-2013
74	JC 330053M	SUB MAJ	DHARAMBIR SINGH	01-09-2012
75	JC 330068P	SUB MAJ	DHARAMVIR SINGH RATHEE	01-12-2012
76	JC 326087H	SUB MAJ	DHARMVIR	01-09-2012
77	JC 327370H	SUB MAJ	DINESH PAL SINGH	01-09-2012
78	JC 327789N	SUB MAJ	DIPTI RANDAS SONAJI	01-10-2012
79	JC 199977F	SUB MAJ	GAIKWAD SAMBHAJI BALASAHEB	01-12-2012
80	JC 327875Y	SUB MAJ	GANGADHARAN A	01-09-2012

81	JC 330089L	SUB MAJ	GANGURDE KISAN SHAMARAO	01-12-2012
82	JC 327872L	SUB MAJ	GEORGE MATHEW	01-09-2012
83	JC 327862F	SUB MAJ	GHAWAT RAM RAO JAN RAO	01-11-2012
84	JC 330061L	SUB MAJ	GOVIND SINGH	01-11-2012
85	JC 330077W	SUB MAJ	GURCHARAN SINGH	01-12-2012
86	JC 330051F	SUB MAJ	HARDYAL SINGH	01-01-2013
87	JC 325895N	SUB MAJ	HARENDER SINGH	01-09-2012
88	JC 305533L	SUB MAJ	HARIDAS E V	01-10-2012
89	JC 326368Y	SUB MAJ	HEMANTA KUMAR PANI	01-10-2012
90	JC 325957H	SUB MAJ	HIMA HAZARIKA	01-09-2012
91	JC 326659Y	SUB MAJ	INDRA BHANU SINGH	01-12-2012
92	JC 326554P	SUB MAJ	JASPAL SINGH	01-10-2012
93	JC 327197K	SUB MAJ	JUBAIR AHMED	01-09-2012
94	JC 327798P	SUB MAJ	K MADHUSUDHANA RAO	01-11-2012
95	JC 326673L	SUB MAJ	KAILASH CHANDRA PANDEY	01-10-2012
96	JC 327793W	SUB MAJ	KAMALJIT SINGH	01-11-2012
97	JC 326034K	SUB MAJ	KANHU CHARAN PRADHAN	01-09-2012
98	JC 326033F	SUB MAJ	KARUNAKAR PRADHAN	01-11-2012
99	JC 327808N	SUB MAJ	KASMIRA SINGH	01-10-2012
100	JC 330071P	SUB MAJ	KESHAR SINGH	01-10-2012
101	JC 327811N	SUB MAJ	KEWAL SINGH	01-09-2012
102	JC 325924X	SUB MAJ	KHARAT SHAHU BHAU	01-01-2013
103	JC 327584Y	SUB MAJ	KIRAN PAL SHARMA	01-01-2013
104	JC 325997K	SUB MAJ	KRISHAN BAHADUR GURUNG	01-09-2012
105	JC 327125A	SUB MAJ	LAKHPAT SINGH	01-10-2012
106	JC 328301Y	SUB MAJ	LAL SINGH	01-12-2012
107	JC 325998M	SUB MAJ	LANKUSH PAL	01-09-2012
108	JC 330095Y	SUB MAJ	M A ASHOK KUMAR	01-12-2012
109	JC 327743L	SUB MAJ	MADHAWA NAND PANDEY	01-09-2012
110	JC 327357Y	SUB MAJ	MALKIAT SINGH	01-09-2012
111	JC 330083K	SUB MAJ	MOHAN SINGH	01-11-2012
112	JC 330091H	SUB MAJ	MUNA GAPATI SUDHAKARA RAO	01-12-2012
113	JC 330060H	SUB MAJ	NARAYAN PAWAR	01-12-2012
114	JC 327339W	SUB MAJ	NARAYANAN K G	01-09-2012
115	JC 325798W	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR SATAPATHY	01-12-2012
116	JC 327864M	SUB MAJ	NITYA NAND MANDAL	01-10-2012
117	JC 326035M	SUB MAJ	OM PARKASH SINGH	01-11-2012
118	JC 327464A	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-12-2012
119	JC 330064Y	SUB MAJ	OM PRAKASH MAHALA	01-01-2013
120	JC 325839P	SUB MAJ	PALWINDER SINGH	01-11-2012
121	JC 326735A	SUB MAJ	PARSHOTAM DASS	01-01-2013
122	JC 330122X	SUB MAJ	PRASANNA KUMARA N R	01-10-2012
123	JC 325617A	SUB MAJ	PUSKAR SINGH	01-09-2012
124	JC 325896W	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH	01-09-2012
125	JC 330117M	SUB MAJ	RAJENDRAN K	01-11-2012
126	JC 326030N	SUB MAJ	RAJESH KUMAR AWASTHI	01-12-2012
127	JC 330056A	SUB MAJ	RAMESH DATT BULWAN	01-10-2012

128	JC 330092L	SUB MAJ	RAMESH NADA PUROHIT	01-01-2013
129	JC 191522W	SUB MAJ	RANBIR SINGH SAINI	01-01-2013
130	JC 327885H	SUB MAJ	RASHID HASAN	01-10-2012
131	JC 325977W	SUB MAJ	ROMEN SAIKIA	01-09-2012
132	JC 327738A	SUB MAJ	S KATHIRESAN	01-11-2012
133	JC 327140P	SUB MAJ	SARDUL SINGH	01-09-2012
134	JC 330066K	SUB MAJ	SASI KUMAR KP	01-12-2012
135	JC 327307N	SUB MAJ	SATISH KUMAR	01-09-2012
136	JC 327414P	SUB MAJ	SATYAPAL SINGH	01-01-2013
137	JC 327347P	SUB MAJ	SATYAVIR SINGH	01-01-2013
138	JC 327788L	SUB MAJ	SAWANT MOHAN KASHINATH	01-11-2012
139	JC 327461M	SUB MAJ	SEWA SINGH	01-09-2012
140	JC 327485W	SUB MAJ	SHEO RAJ	01-10-2012
141	JC 327426K	SUB MAJ	SHRI BHAGWAN	01-01-2013
142	JC 327737X	SUB MAJ	SIDDIQUE PA	01-09-2012
143	JC 327352A	SUB MAJ	SIVADASAN MELEPUREYIL	01-09-2012
144	JC 327158L	SUB MAJ	SUBRAMANIAN K V	01-09-2012
145	JC 327629N	SUB MAJ	T SIVAGURUNATHAN	01-10-2012
146	JC 330050Y	SUB MAJ	TATHAWADE PANDURANG	01-09-2012
			SITA RAM	
147	JC 326511A	SUB MAJ	VED PRAKASH SHARMA	01-12-2012
148	JC 326024A	SUB MAJ	VEER SAIN TOMAR	01-09-2012
149	JC 330096F	SUB MAJ	YADAV LAXMAN DHYANU	01-12-2012
150	JC 327805A	SUB MAJ	YEJARE CHANDRAKANT	01-09-2012
			DHONDIBA	

### **BOMBAY ENGINEER GROUP**

151	JC 348197X	SUB MAJ	ARAVINDAKSHAN PILLAI N	01-01-2013
152	JC 330238N	SUB MAJ	AZAD SINGH	01-01-2013
153	JC 348118X	SUB MAJ	BALBIR SINGH GULERIA	01-12-2012
154	JC 347981Y	SUB MAJ	BHUMI SINGH	01-09-2012
155	JC 348099X	SUB MAJ	CHANDGI RAM YADAV	01-11-2012
156	JC 348179P	SUB MAJ	DAVANGE HARI BHAAU MARUTI	01-11-2012
157	JC 347973A	SUB MAJ	KEWAL KUMAR	01-10-2012
158	JC 348060L	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR	01-10-2012
159	JC 348077Y	SUB MAJ	PRAKASH CHAND YOGI	01-09-2012
160	JC 348144Y	SUB MAJ	RAJENDRAN PILLAI S	01-12-2012
161	JC 348000W	SUB MAJ	RAMESAN NAIR PS	01-11-2012
162	JC 348109W	SUB MAJ	RAMESH CHANDER	01-09-2012
163	JC 327437W	SUB MAJ	SATISH KUMAR	01-01-2013
164	JC 348145F	SUB MAJ	SURESH CHANDRA	01-01-2013
165	JC 140506W	SUB MAJ	WAKILUDDIN	01-01-2013

### **CORPS OF SIGNALS**

166	JC 368978M	SUB MAJ	BALAPPA PATIL	01-01-2013
167	JC 371005F	SUB MAJ	DIGAMBAR SURYABHAN	01-01-2013
			SHEOGOKAR	

168	JC 371298X	SUB MAJ	HARJINDER SINGH	01-10-2012
169	JC 369327H	SUB MAJ	HAWA SINGH	01-01-2013
170	JC 367943K	SUB MAJ	HIKAM TULLA	01-10-2012
171	JC 369246H	SUB MAJ	J HARENDRA SINGH RAWAT	01-10-2012
172	JC 369245A	SUB MAJ	JAIVEER SINGH	01-09-2012
173	JC 367934H	SUB MAJ	JANARDANAN MK	01-10-2012
174	JC 368523W	SUB MAJ	JOGINDER PAL	01-09-2012
175	JC 370078F	SUB MAJ	NARAYAN SINGH NEGI	01-09-2012
176	JC 367938Y	SUB MAJ	NIRMESH KUMAR MISHAR	01-09-2012
177	JC 369247L	SUB MAJ	PADMANABHAN P	01-10-2012
178	JC 368885X	SUB MAJ	PARMJIT SINGH	01-10-2012
179	JC 368106K	SUB MAJ	RAM KUMAR	01-09-2012
180	JC 371312Y	SUB MAJ	RAVINDER SINGH	01-11-2012
181	JC 367949L	SUB MAJ	SADHAN BHAUMIK	01-09-2012
182	JC 371322H	SUB MAJ	SAMI MUHAMMAD	01-01-2013
183	JC 371302P	SUB MAJ	SARDARI LAL	01-10-2012
184	JC 369244X	SUB MAJ	SATYA PAL	01-09-2012
185	JC 367941Y	SUB MAJ	SATYAPAL SINGH NEGI	01-09-2012
186	JC 367946X	SUB MAJ	SATYEVIR SINGH	01-10-2012
187	JC 372127X	SUB MAJ	SHRI RAM	01-09-2012
188	JC 367954W	SUB MAJ	SITARAM SHARMA	01-12-2012
189	JC 372449X	SUB MAJ	SUBRAMONIAM P	01-10-2012
190	JC 371304A	SUB MAJ	VIJAYAN PILLAI K C	01-10-2012
191	JC 371316P	SUB MAJ	WAKHARE RAMDAS GENU	01-11-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

192	JC 402515M	SUB MAJ	BHOLA PRASAD SINHA	01-09-2012
193	JC 402524N	SUB MAJ	KULDA RAM	01-09-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

194	JC 412739A	SUB MAJ	RAM SINGH KATROLIA	01-01-2013
-----	------------	---------	--------------------	------------

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

195	JC 418851H	SUB MAJ	DHIAN SINGH	01-11-2012
196	JC 418392P	SUB MAJ	DIGHE PARMESHWAR BAJARANG	01-09-2012
197	JC 418589L	SUB MAJ	GANAPATHI PILLAI	01-12-2012
198	JC 419331K	SUB MAJ	GUMAN SINGH THAPA	01-10-2012
199	JC 419028H	SUB MAJ	PARTAP SINGH PARASAR	01-12-2012
200	JC 418169L	SUB MAJ	PV SAMBATH KUMAR	01-09-2012
201	JC 418629F	SUB MAJ	RAMJI RAM	01-11-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

202	JC 428930L	SUB MAJ	BIRBAL SINGH	01-10-2012
203	JC 429117P	SUB MAJ	DEVINDER KUMAR PARIDA	01-11-2012
204	JC 429112W	SUB MAJ	HARBANS LAL	01-12-2012
205	JC 428902Y	SUB MAJ	ROMESH SINGH	01-11-2012
206	JC 428977W	SUB MAJ	SATISH KUMAR	01-12-2012

**THE GRENADIERS**

207	JC 448561A	SUB MAJ	HARDIAL SINGH	01-11-2012
208	JC 448941Y	SUB MAJ	SHRI RAM SINGH	01-12-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

209	JC 458408X	SUB MAJ	MOIDEEN KUTTY S	01-12-2012
-----	------------	---------	-----------------	------------

**THE RAJPUT REGIMENT**

210	JC 478621Y	SUB MAJ	JAI VEER SINGH	01-12-2012
211	JC 478836X	SUB MAJ	KAPTAN SINGH	01-10-2012
212	JC 478408Y	SUB MAJ	MOTI LAL GUCHHAIT	01-01-2013

**THE JAT REGIMENT**

213	JC 489059A	SUB MAJ	DHARAM PAL	01-01-2013
214	JC 488937Y	SUB MAJ	RAM DEVA RAM	01-11-2012
215	JC 488731F	SUB MAJ	RAMVIR SINGH	01-11-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

216	JC 508700L	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-11-2012
217	JC 508545P	SUB MAJ	BHOLA SINGH	01-11-2012
218	JC 508670Y	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	01-01-2013

**THE DOGRA REGIMENT**

219	JC 519255X	SUB MAJ	BAKSHI RAM	01-09-2012
-----	------------	---------	------------	------------

**THE GARHWAL RIFLES**

220	JC 529076L	SUB MAJ	RAMENDER SINGH BISHT	01-09-2012
-----	------------	---------	----------------------	------------

**THE MAHAR REGIMENT**

221	JC 568416Y	SUB MAJ	BAJIRAO SHAMRAO SONUNE	01-10-2012
222	JC 568607N	SUB MAJ	HAVAL TANAJI SHIVAJI	01-11-2012
223	JC 568681P	SUB MAJ	KAMBALE CHANDER KRISHNA	01-11-2012
224	JC 568571A	SUB MAJ	TEJRAO MAHADEO RAONIKADE	01-01-2013

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

225	JC 579404K	SUB MAJ	JAGDISH CHAND	01-12-2012
226	JC 579439A	SUB MAJ	VIPEN KUMAR KAUSHAL	01-01-2013

**THE LADAKH SCOUTS**

227	JC 588132W	SUB MAJ	LOBZANG CHERING	01-12-2012
228	JC 588104K	SUB MAJ	PHUNCHOK NAMGIAL	01-11-2012
229	JC 588176N	SUB MAJ	TASHI DORJE	01-11-2012

**1 GORKHA RIFLES**

230	JC 602155L	SUB MAJ	JANAK CHAND RAJAN	01-11-2012
-----	------------	---------	-------------------	------------

**4 GORKHA RIFLES**

231	JC 612455A	SUB MAJ	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-01-2013
-----	------------	---------	------------------------	------------

**9 GORKHA RIFLES**

232	JC 629593X	SUB MAJ	BISNU BAHADUR CHHETRI	01-12-2012
233	JC 629567W	SUB MAJ	LIL BAHADUR THAPA	01-12-2012
234	JC 629485N	SUB MAJ	SANJAY PUN	01-10-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

235	JC 641347Y	SUB MAJ	ARVIND KUMAR	01-01-2013
236	JC 641224M	SUB MAJ	BALWANT SINGH	01-12-2012
237	JC 640756A	SUB MAJ	BOSE NV	01-12-2012
238	JC 641229L	SUB MAJ	DALIP SINGH	01-12-2012
239	JC 640787A	SUB MAJ	GANGA SINGH	01-09-2012
240	JC 640857N	SUB MAJ	KESA RAM	01-10-2012
241	JC 640736M	SUB MAJ	LAKSHMI SINGH YADAV	01-09-2012
242	JC 662316M	SUB MAJ	LALLANTHAKUR	01-12-2012
243	JC 641067L	SUB MAJ	MADHUSINGH	01-12-2012
244	JC 640848M	SUB MAJ	MAHIPAL SINGH	01-12-2012
245	JC 640868A	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-01-2013
246	JC 662318X	SUB MAJ	PARSHU SINGH	01-01-2013
247	JC 640746W	SUB MAJ	RAGHAVANNAIR RK	01-10-2012
248	JC 642216A	SUB MAJ	RAM NARAYAN	01-09-2012
249	JC 680029L	SUB MAJ	RAM SINGH	01-12-2012
250	JC 640489K	SUB MAJ	SABHA SINGH YADAV	01-09-2012
251	JC 640741X	SUB MAJ	SHESH SINGH	01-09-2012
252	JC 640789L	SUB MAJ	SHREE BHAGWAN SINGH	01-01-2013
253	JC 640897P	SUB MAJ	SURANDAR KUMAR	01-11-2012
254	JC 662326W	SUB MAJ	SURYA SINGH	01-12-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

255	JC 680629N	RIS MAJ	MUKHTI SINGH	01-01-2013
256	JC 680524K	RIS MAJ	PATH KUMAR DEY	01-12-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

257	JC 693571A	SUB MAJ	ABHAY MANTIKUMAR	01-01-2013
258	JC 693423P	SUB MAJ	BIJESHWAR SINGH	01-10-2012
259	JC 693860P	SUB MAJ	JAYA MALLIC	01-01-2013
260	JC 692562M	SUB MAJ	RANJIT SINGH	01-01-2013

**ARMY ORDNANCE CORPS**

261	JC 723968K	SUB MAJ	BHAGAWATI SINGH	01-12-2012
262	JC 723941M	SUB MAJ	G BALAKRISHNAN	01-11-2012
263	JC 723907M	SUB MAJ	JOZAR SINGH	01-12-2012
264	JC 726030F	SUB MAJ	RANJIT SINGH	01-10-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

265	JC 753037P	SUB MAJ	A SELVARAJ PETER	01-12-2012
266	JC 750952H	SUB MAJ	AMAR NATH MISHRA	01-12-2012
267	JC 749160W	SUB MAJ	E VAYIRAMANI	01-09-2012
268	JC 753169H	SUB MAJ	G BARATHAN	01-09-2012
269	JC 753696K	SUB MAJ	GANGADHARAI AH B R	01-12-2012
270	JC 751328W	SUB MAJ	JANG SINGH	01-10-2012
271	JC 753193Y	SUB MAJ	LOKPAL SINGH BISHT	01-09-2012
272	JC 752891P	SUB MAJ	MADAN MOHAN OJHA	01-09-2012
273	JC 751355A	SUB MAJ	MOHANAN V	01-10-2012
274	JC 750887N	SUB MAJ	OMBIR SINGH	01-11-2012
275	JC 753601Y	SUB MAJ	POORAN SINGH RAWAT	01-11-2012
276	JC 751366M	SUB MAJ	PREM NATH SONI	01-12-2012
277	JC 753035K	SUB MAJ	RAKESH CHAND	01-09-2012
278	JC 753650F	SUB MAJ	RAM NIWAS	01-12-2012
279	JC 753293K	SUB MAJ	SHISH RAM GURJAR	01-10-2012
280	JC 749178M	SUB MAJ	SUDEVAN AV	01-09-2012
281	JC 753803A	SUB MAJ	SUSHIL KUMAR SINGH	01-01-2013
282	JC 757473K	SUB MAJ	VANNA SINGH PANWAR	01-10-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

283	JC 810122Y	SUB MAJ	GURCHARAN SINGH	01-12-2012
284	JC 810099W	SUB MAJ	SATWINDER SINGH	01-12-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

285	JC 826096M	SUB MAJ	SR GUNAJI	01-12-2012
-----	------------	---------	-----------	------------

**THE PIONEER CORPS**

286	JC 829245A	SUB MAJ	PRADEEP KUMAR	01-10-2012
287	JC 829224K	SUB MAJ	TILAK RAJ	01-09-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

288	JC 841023X	SUB MAJ	C BHUVANENDRAN	01-11-2012
289	JC 840669W	SUB MAJ	GOVINDAN KUTTY K	01-10-2012
290	JC 840471X	SUB MAJ	MANOHARAN PILLAI P	01-12-2012
291	JC 840983K	SUB MAJ	THANKACHAN D	01-12-2012



**TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR****72 ARMOURED REGIMENT**

1	JC 244186Y	RIS	DHARAMVIR	01-08-2012
<b><u>ARMOURED CORPS</u></b>				
2	JC 243080A	RIS	ABHAY SINGH	01-11-2012
3	JC 242689L	RIS	AJIT SINGH	01-09-2012
4	JC 242699P	RIS	AMARJIT SINGH	01-10-2012
5	JC 242834X	RIS	ANNAPU REDDY BRAHMA REDDY	01-01-2013
6	JC 241150P	RIS	ASAF ALI	01-09-2012
7	JC 242411K	RIS	ASHISH KUMAR	01-11-2012
8	JC 242064W	RIS	ASHOK KUMAR	01-12-2012
9	JC 243055F	RIS	BALBIR SINGH	01-10-2012
10	JC 242359M	RIS	BALDEV SINGH	01-11-2012
11	JC 242281M	RIS	BALESHWAR YADAV	01-11-2012
12	JC 243085Y	RIS	BALKAR SINGH	01-01-2013
13	JC 241718H	RIS	BHOGESWAR SAIKIA	01-09-2012
14	JC 242565W	RIS	BHOLA YADAW	01-12-2012
15	JC 243440L	RIS	BHUP SINGH	01-01-2013
16	JC 241714M	RIS	BHUPINDER SINGH	01-10-2012
17	JC 240780H	RIS	BIJENDER KUMAR SHARMA	01-11-2012
18	JC 240580M	RIS	BIR SINGH	01-10-2012
19	JC 243267M	RIS	BIRHAMJEET SINGH	01-11-2012
20	JC 242942F	RIS	BODU RAM	01-09-2012
21	JC 243262N	RIS	CHANDULAL SHARMA	01-12-2012
22	JC 242606P	RIS	DALIP SINGH YADAVA	01-09-2012
23	JC 243084W	RIS	DANIEL M	01-12-2012
24	JC 243273A	RIS	DARSHAN KUMAR	01-01-2013
25	JC 242833P	RIS	DASHARTH SINGH RATHORE	01-10-2012
26	JC 242499Y	RIS	DESH RAJ	01-11-2012
27	JC 242504Y	RIS	DEVENDER KUMAR SINGH	01-11-2012
28	JC 243195N	RIS	DHARAMVIR	01-12-2012
29	JC 242873W	RIS	DHARMANA SURYANARAYANA	01-01-2013
30	JC 242778K	RIS	DILBAG SINGH	01-01-2013
31	JC 240789X	RIS	G G KRISHNA MURTHY	01-01-2013
32	JC 242959P	RIS	GAJENDER SINGH	01-12-2012
33	JC 242878P	RIS	GAJRAJ SINGH	01-09-2012
34	JC 242520W	RIS	GANESH CHANDRA PANDA	01-10-2012
35	JC 241957X	RIS	GAUTAM PRASAD	01-11-2012
36	JC 242808W	RIS	GOPA KUMAR K	01-12-2012
37	JC 242142H	RIS	GOPENDRA SINHA	01-12-2012
38	JC 242609H	RIS	GUGAN RAM	01-01-2013
39	JC 240539W	RIS	GULAB SINGH	01-01-2013
40	JC 239866P	RIS	GURMEET SINGH	01-11-2012

41	JC 242448L	RIS	GURNAM SINGH	01-11-2012
42	JC 242345M	RIS	GURTEJ SINGH	01-11-2012
43	JC 241879L	RIS	GYAN BHASKAR SARMA	01-11-2012
44	JC 243109X	RIS	HANS RAJ	01-12-2012
45	JC 243271P	RIS	HARAK SINGH BISHT	01-01-2013
46	JC 242984N	RIS	HARBHAJAN SINGH	01-01-2013
47	JC 243218K	RIS	HARDIAL SINGH	01-01-2013
48	JC 241065M	RIS	HARIBANS SINGH	01-12-2012
49	JC 243217F	RIS	HARIPAL SINGH	01-01-2013
50	JC 241759M	RIS	JADHAVAR TUKRAM NAMDEO	01-10-2012
51	JC 241837Y	RIS	JAGAT SINGH	01-10-2012
52	JC 242671P	RIS	JAGBIR SINGH	01-01-2013
53	JC 240639F	RIS	JAGDISH	01-01-2013
54	JC 243039K	RIS	JAGROOP SINGH	01-11-2012
55	JC 243732N	RIS	JAI BHAGWAN	01-11-2012
56	JC 243159H	RIS	JAI KARAN	01-10-2012
57	JC 243907L	RIS	JAI PRAKASH SINGH	01-10-2012
58	JC 243325L	RIS	JAIBIR	01-01-2013
59	JC 242255L	RIS	JANARDANAN T	01-01-2013
60	JC 242358K	RIS	JARNAIL SINGH	01-11-2012
61	JC 242506K	RIS	JARNAIL SINGH	01-12-2012
62	JC 243113A	RIS	JASDEV SINGH	01-12-2012
63	JC 243749F	RIS	JASVIR SINGH	01-10-2012
64	JC 240540L	RIS	JITENDER SINGH	01-01-2013
65	JC 242734M	RIS	K LAKSHMANAN	01-12-2012
66	JC 242246K	RIS	KAJA VV SS SESHAGIRI RAO	01-12-2012
67	JC 243006Y	RIS	KARAMVIR	01-09-2012
68	JC 242801M	RIS	KARAMVIR SINGH	01-09-2012
69	JC 241871Y	RIS	KARAN SINGH KUSHWAH	01-11-2012
70	JC 241544N	RIS	KHOT VITHAL SADASHIV	01-10-2012
71	JC 243237P	RIS	KRIPAL SINGH	01-12-2012
72	JC 242430P	RIS	KRISHAN LAL	01-10-2012
73	JC 241698A	RIS	KRUSHNA CHANDRA JENA	01-09-2012
74	JC 242662N	RIS	KULDEEP SINGH	01-10-2012
75	JC 242508P	RIS	KULDIP SINGH	01-12-2012
76	JC 242687A	RIS	KULDIP SINGH	01-09-2012
77	JC 241278A	RIS	KULWANT	01-10-2012
78	JC 243373L	RIS	LAKHVINDER SINGH	01-01-2013
79	JC 242395X	RIS	LATHEEF P A	01-12-2012
80	JC 241874M	RIS	LEKHA RAM	01-12-2012
81	JC 242394P	RIS	M K BALAKRISHNAN	01-01-2013
82	JC 242588X	RIS	M MUNIYAN	01-01-2013
83	JC 241964N	RIS	MAHESH SINGH	01-12-2012
84	JC 242507M	RIS	MALKHAN SINGH	01-12-2012
85	JC 243784K	RIS	MALKIT SINGH	01-09-2012
86	JC 241838F	RIS	MANAN ROY	01-09-2012
87	JC 242845K	RIS	MANGAT RAM	01-10-2012

88	JC 243093X	RIS	MANJIT SINGH	01-01-2013
89	JC 243100H	RIS	MITHLESH KUMAR JHA	01-10-2012
90	JC 243733W	RIS	MUNNA SINGH	01-12-2012
91	JC 242174L	RIS	NAND KUMAR	01-01-2013
92	JC 242591X	RIS	NARANG SINGH	01-12-2012
93	JC 243030P	RIS	NARDESHWAR SINGH	01-10-2012
94	JC 243345Y	RIS	NIRMAL SINGH	01-01-2013
95	JC 242503W	RIS	NISHAN SINGH	01-11-2012
96	JC 242028L	RIS	O PRIYO DHOJO SINGHA	01-12-2012
97	JC 243114H	RIS	OM PRAKASH	01-12-2012
98	JC 240576K	RIS	OM PRAKASH PANDEY	01-09-2012
99	JC 241755W	RIS	P ASHOKAN	01-01-2013
100	JC 241524A	RIS	P DENNISSEN	01-10-2012
101	JC 241976H	RIS	PATAMAHANSHU RAI	01-11-2012
102	JC 243244L	RIS	PAREKASH CHAND	01-01-2013
103	JC 243077A	RIS	PATIL RAJARAMBHANU	01-11-2012
104	JC 242590P	RIS	PAVITHRAN K	01-01-2013
105	JC 242643H	RIS	PC REJI	01-01-2013
106	JC 241681M	RIS	PHOOL SINGH	01-09-2012
107	JC 243341H	RIS	PRATHVI SINGH	01-12-2012
108	JC 242817X	RIS	PUSHPINDER SINGH	01-10-2012
109	JC 242517W	RIS	RABIINDRA NATH MANDAL	01-09-2012
110	JC 243243H	RIS	RAJ KUMAR SINGH	01-12-2012
111	JC 242783P	RIS	RAJ SINGH CHILLAR	01-10-2012
112	JC 242031L	RIS	RAJENDRA SINGH GUJAR	01-01-2013
113	JC 243718F	RIS	RAJJAN SINGH	01-10-2012
114	JC 243203F	RIS	RAKESH KUMAR YADAV	01-10-2012
115	JC 241845X	RIS	RAM BACHAN RAM	01-09-2012
116	JC 242141A	RIS	RAM BINOD PRASAD	01-11-2012
117	JC 241711Y	RIS	RAM DAS SINGH	01-10-2012
118	JC 241883N	RIS	RAM NIWAS	01-11-2012
119	JC 242611A	RIS	RAM NIWAS	01-01-2013
120	JC 243503H	RIS	RAM SWAROOP	01-11-2012
121	JC 242811W	RIS	RAMACHANDRAN NAIR PN	01-01-2013
122	JC 241894A	RIS	RAMESH CHAND SAINI	01-10-2012
123	JC 242607X	RIS	RAMESH KUMAR	01-12-2012
124	JC 242623P	RIS	RAMESH KUMAR	01-09-2012
125	JC 241866N	RIS	RAMPAL VERMA	01-10-2012
126	JC 243076X	RIS	RAMVIR SINGH	01-10-2012
127	JC 243044P	RIS	RANBIR SINGH	01-01-2013
128	JC 242914P	RIS	RANDESH SINGH	01-11-2012
129	JC 243516A	RIS	RANDESH SINGH	01-11-2012
130	JC 242505F	RIS	RANDESH SINGH	01-11-2012
131	JC 243272X	RIS	RANDESH SINGH	01-01-2013
132	JC 242412M	RIS	RANTEE BALHADUR SINGH	01-11-2012
133	JC 241791F	RIS	RATILAM	01-01-2013
134	JC 243101L	RIS	RAVINDER SINGH	01-10-2012

135	JC 243216Y	RIS	RAVINDRA SINGH	01-01-2013
136	JC 243118Y	RIS	RICHPAL RAI	01-09-2012
137	JC 242608A	RIS	ROHIT ASHVA YADAV	01-12-2012
138	JC 240425L	RIS	S BALASWAMY	01-01-2013
139	JC 243047H	RIS	S MAHALINGAM	01-01-2013
140	JC 242795K	RIS	S RAMA SWAMY	01-01-2013
141	JC 243082L	RIS	SAJJAN SINGH	01-01-2013
142	JC 242679F	RIS	SARVAR NABI	01-12-2012
143	JC 242675L	RIS	SATNAM SINGH	01-09-2012
144	JC 240083H	RIS	SATPAL SINGH	01-12-2012
145	JC 240395Y	RIS	SATPAL SINGH	01-09-2012
146	JC 242726N	RIS	SHAMSHER SINGH	01-12-2012
147	JC 243245N	RIS	SHARM SINGH	01-01-2013
148	JC 241388P	RIS	SHENDAGE TANAJI ANANTA	01-09-2012
149	JC 241840Y	RIS	SHEO KUMAR PANDEY	01-09-2012
150	JC 242036K	RIS	SHER SINGH	01-11-2012
151	JC 243081H	RIS	SHER SINGH	01-01-2013
152	JC 243522N	RIS	SHIV DUTT	01-01-2013
153	JC 241620P	RIS	SHIV KUMAR SINGH RATHORE	01-12-2012
154	JC 243029A	RIS	SHIVDAN SINGH HADA	01-10-2012
155	JC 243194L	RIS	SHREE RAM YADAV	01-12-2012
156	JC 240860A	RIS	SHRI BHAGWAN	01-09-2012
157	JC 241825K	RIS	SHRI RAM	01-09-2012
158	JC 242410F	RIS	SOHAN SINGH	01-11-2012
159	JC 243079L	RIS	SUBHASH CHAND	01-11-2012
160	JC 243160X	RIS	SUBHASH CHAND	01-01-2013
161	JC 243375W	RIS	SUBHASH K V	01-01-2013
162	JC 243102N	RIS	SUKH PAL	01-10-2012
163	JC 242792W	RIS	SURAT SINGH JAT	01-01-2013
164	JC 240703N	RIS	SURENDER SINGH	01-09-2012
165	JC 243228N	RIS	SURENDER SINGH	01-11-2012
166	JC 241804N	RIS	SURESH CHAND SHARMA	01-09-2012
167	JC 243150N	RIS	SURESH KUMAR	01-09-2012
168	JC 243374N	RIS	SURESH KUMAR V	01-01-2013
169	JC 243360N	RIS	SURESH SINGH	01-11-2012
170	JC 242951H	RIS	SURINDER SINGH	01-10-2012
171	JC 243519N	RIS	SURJIT SINGH	01-10-2012
172	JC 241415N	RIS	SWAMI NATH RAM	01-11-2012
173	JC 242610X	RIS	THAWAR SINGH YADAV	01-01-2013
174	JC 242062L	RIS	TUKARAM KUMBHAR	01-11-2012
175	JC 242017Y	RIS	TUN TUN SINGH	01-10-2012
176	JC 240971X	RIS	UDAIVIR SINGH	01-01-2013
177	JC 240638Y	RIS	UJJWAL KUMAR PODDER	01-01-2013
178	JC 242093L	RIS	UTTAM KUMAR NATH	01-11-2012
179	JC 240490L	RIS	VED PRAKASH YADAV	01-12-2012
180	JC 242945P	RIS	VEER SINGH	01-12-2012
181	JC 238422Y	RIS	VEER SINGH YADAV	01-10-2012

182	JC 243295Y	RIS	VEERALANKAIAH S	01-12-2012
183	JC 242973F	RIS	VIJAY PAL SINGH	01-12-2012
184	JC 243731L	RIS	YOGENDER SINGH	01-10-2012
185	JC 243035N	RIS	YUBRAJ SINGH	01-11-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

186	JC 272261N	SUB	BHARAT SINGH	01-10-2012
187	JC 269505L	SUB	ABBAS MIYA	01-09-2012
188	JC 269291A	SUB	ABHAI RAM YADAV	01-10-2012
189	JC 269723K	SUB	ABHEY SINGH YADAV	01-01-2013
190	JC 272331F	SUB	ABHIMANU KUMAR SINGH	01-11-2012
191	JC 263148X	SUB	AHIBARAN SINGH	01-11-2012
192	JC 265436H	SUB	AJAYA KUMAR PRADHAN	01-10-2012
193	JC 268822A	SUB	AJIT RAM	01-12-2012
194	JC 264598F	SUB	AKBAR ALI MANDAL	01-09-2012
195	JC 268411F	SUB	AKHILESH BABU	01-12-2012
196	JC 270355M	SUB	AMAR NATH SINGH YADAV	01-12-2012
197	JC 268697F	SUB	AMAR SINGH	01-09-2012
198	JC 267716P	SUB	AMRIK SINGH	01-01-2013
199	JC 270739F	SUB	ANANDAN M	01-09-2012
200	JC 271950H	SUB	ANGREJ SINGH	01-12-2012
201	JC 270443H	SUB	ANIL KUMAR	01-12-2012
202	JC 271884L	SUB	ANIL MANDAL	01-09-2012
203	JC 272580A	SUB	ARASU E	01-01-2013
204	JC 267913X	SUB	ARJUN MURLIDHAR PAWAR	01-09-2012
205	JC 263553P	SUB	ASHOK KUMAR	01-11-2012
206	JC 269969H	SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2012
207	JC 272377K	SUB	ASHOK KUMAR PURTI	01-09-2012
208	JC 270855K	SUB	ATUL IP	01-11-2012
209	JC 269529P	SUB	BACHAN SINGH	01-09-2012
210	JC 269684W	SUB	BACHCHA RAM YADAV	01-10-2012
211	JC 270530W	SUB	BADSHAH SINGH SENGAR	01-10-2012
212	JC 269576M	SUB	BAHADAR SINGH	01-12-2012
213	JC 272221M	SUB	BAJ SINGH	01-10-2012
214	JC 271321L	SUB	BAKSHISH SINGH	01-12-2012
215	JC 270124W	SUB	BAL RAJ	01-11-2012
216	JC 269758A	SUB	BALA MURUGAN T	01-01-2013
217	JC 270995W	SUB	BALA RAM	01-10-2012
218	JC 267881A	SUB	BALBIR SINGH	01-10-2012
219	JC 269689P	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2013
220	JC 271546N	SUB	BALBIR SINGH	01-12-2012
221	JC 272828Y	SUB	BALDEV SINGH	01-12-2012
222	JC 258192X	SUB	BALENDERA SINGH	01-10-2012
223	JC 275127N	SUB	BALJIT SINGH	01-11-2012
224	JC 270242K	SUB	BALKAR SINGH	01-01-2013
225	JC 269080X	SUB	BALRAM SINGH	01-09-2012
226	JC 268844Y	SUB	BALWAN SINGH	01-09-2012

227	JC 269926N	SUB	BALWAN SINGH	01-09-2012
228	JC 269408N	SUB	BALWANT SINGH	01-12-2012
229	JC 271901A	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2013
230	JC 269308H	SUB	BALWINDER SINGH	01-10-2012
231	JC 270596M	SUB	BALWINDER SINGH	01-09-2012
232	JC 270245X	SUB	BANKOO RAM	01-09-2012
233	JC 270482F	SUB	BANWARI LAL	01-09-2012
234	JC 270830X	SUB	BASAPPA KAJAGAR	01-01-2013
235	JC 260152P	SUB	BHAG SINGH	01-11-2012
236	JC 271073A	SUB	BHAGA RAM BISHNOI	01-09-2012
237	JC 262071N	SUB	BHARAT YADAVA	01-09-2012
238	JC 269678H	SUB	BHUWNESHWAR YADAW	01-01-2013
239	JC 271092L	SUB	BIBHUTI OJHA	01-09-2012
240	JC 271065F	SUB	BIHARI SINGH	01-01-2013
241	JC 270047M	SUB	BIJAY PAL SINGH NEGI	01-12-2012
242	JC 272173X	SUB	BIJAY PRAKASH PANDEY	01-01-2013
243	JC 266128P	SUB	BIJAYA KUMAR SETHI	01-10-2012
244	JC 269828N	SUB	BIJENDER SINGH	01-11-2012
245	JC 271636P	SUB	BIJENDER SINGH	01-11-2012
246	JC 269488W	SUB	BIKASH DUTTA	01-09-2012
247	JC 271224N	SUB	BIKKAR SINGH	01-12-2012
248	JC 270765H	SUB	BIKRAM BAHADUR SINGH	01-10-2012
249	JC 270109F	SUB	BINAY KUMAR MANDAL	01-01-2013
250	JC 266334Y	SUB	BINOD KUMAR SWAIN	01-09-2012
251	JC 269087F	SUB	BIR PAL	01-12-2012
252	JC 265859W	SUB	BIR SINGH	01-11-2012
253	JC 266598A	SUB	BIRENDRA KUMAR	01-09-2012
254	JC 268523F	SUB	BRAMHA NANDA JENA	01-11-2012
255	JC 269017H	SUB	BRIJNANDAN SINGH	01-11-2012
256	JC 267471K	SUB	BUTE VIJAY KUMAR WAMAN RAO	01-01-2013
257	JC 270566P	SUB	CHAKRA NARAYAN BHAGWANT PUNDLIK	01-10-2012
258	JC 270620X	SUB	CHAMAN LAL	01-10-2012
259	JC 271025A	SUB	CHAMAN LAL	01-10-2012
260	JC 273382F	SUB	CHAMAN LAL JORTA	01-10-2012
261	JC 269483X	SUB	CHANDAN SINGH	01-01-2013
262	JC 267381H	SUB	CHANDRA PAL SINGH	01-10-2012
263	JC 269653W	SUB	CHANDRESHWAR SINGH	01-10-2012
264	JC 271665K	SUB	CHARAN SINGH	01-09-2012
265	JC 272603W	SUB	CHATURBHUI SAHU	01-11-2012
266	JC 272589P	SUB	CHAUND SINGH	01-09-2012
267	JC 267760Y	SUB	CHENARAM MEGHWAL	01-11-2012
268	JC 268790H	SUB	CHHOTE LAL	01-01-2013
269	JC 269791X	SUB	CHHOTE LAL MISHRA	01-12-2012
270	JC 264661L	SUB	CHIDANANDA MURTHY	01-10-2012
271	JC 268261W	SUB	CHIMAN SINGH	01-09-2012

272	JC 267238W	SUB	CHITTARANJAN MANDAL	01-11-2012
273	JC 268006K	SUB	DAHATONDE DATTATARAYA KERBA	01-10-2012
274	JC 273193X	SUB	DAL SINGH INDA	01-09-2012
275	JC 264736X	SUB	DALBAIR SINGH	01-10-2012
276	JC 269135W	SUB	DALWINDER SINGH	01-12-2012
277	JC 272813W	SUB	DAMI REDDY SRINIVASA REDDY	01-09-2012
278	JC 271631W	SUB	DASHRATH PANDURANGG KHOT	01-12-2012
279	JC 266888X	SUB	DAYA CHAND	01-12-2012
280	JC 270169W	SUB	DEV KARAN	01-09-2012
281	JC 269430Y	SUB	DEVA NAND	01-10-2012
282	JC 271795M	SUB	DEVENDRA KUMAR KATARE	01-10-2012
283	JC 266794A	SUB	DEVENDRA KUMAR SHARMA	01-01-2013
284	JC 270891P	SUB	DHAN PATI	01-01-2013
285	JC 272492Z	SUB	DHANANJAI KUMAR SINGH	01-01-2013
286	JC 269909N	SUB	DHARAM PAUL	01-01-2013
287	JC 271777K	SUB	DHARAM PAUL	01-09-2012
288	JC 272138P	SUB	DHARAM PAUL	01-09-2012
289	JC 271188N	SUB	DHARAM VIKRAM SINGH	01-01-2013
290	JC 265293N	SUB	DHARMA NATH SINGH	01-10-2012
291	JC 272293W	SUB	DHIRENDRA KUMAR	01-11-2012
292	JC 270487A	SUB	DILBAG SINGH	01-10-2012
293	JC 273415F	SUB	DILIP KUMAR DWIVEDI	01-09-2012
294	JC 267829X	SUB	DILIP KUMAR GAYAN	01-10-2012
295	JC 269917M	SUB	DINA NATH SINGH	01-12-2012
296	JC 271897H	SUB	DINESH KUMAR	01-09-2012
297	JC 271555P	SUB	DINESH KUMAR DASHAI	01-11-2012
298	JC 271105X	SUB	DUDHADE SUBHASH NANA	01-10-2012
299	JC 269313N	SUB	DYNESHWAR SONAWANE	01-09-2012
300	JC 270056N	SUB	ELUMALAI A	01-12-2012
301	JC 269845N	SUB	GAJANAN PRASAD NISHRAM	01-12-2012
302	JC 270465F	SUB	GANESHLAL PRASAD NISHRAM	01-09-2012
303	JC 267558L	SUB	GANGA DARSAN KUMAR	01-09-2012
304	JC 268235P	SUB	GANGA PRASAD	01-10-2012
305	JC 270165A	SUB	GAUTAM MISHRA	01-09-2012
306	JC 271854N	SUB	GEORGE VARGHESE	01-11-2012
307	JC 272292N	SUB	GHASI RAM	01-09-2012
308	JC 271096F	SUB	GIAN SINGH	01-12-2012
309	JC 271022M	SUB	GOPAL SINGH	01-09-2012
310	JC 270240Y	SUB	GOVIND SINGH	01-12-2012
311	JC 270360X	SUB	GOVIND SINGH SINGH	01-10-2012
312	JC 269136Y	SUB	GULAB SINGH	01-10-2012
313	JC 270321Y	SUB	GURBHEJ SINGH	01-09-2012
314	JC 268969W	SUB	GURDEV SINGH	01-12-2012
315	JC 269586W	SUB	GURPAL SINGH	01-01-2013
316	JC 272208H	SUB	GURVAIL SINGH	01-12-2012

317	JC 266774M	SUB	HANUMANT SINGH RUR SINGH SHEKHAWAT	01-12-2012
318	JC 264902A	SUB	HARI SINGH	01-09-2012
319	JC 266956A	SUB	HARISH CHANDRA YADAV	01-09-2012
320	JC 271926M	SUB	HARMESH SINGH	01-11-2012
321	JC 272332K	SUB	HARPAL SINGH	01-10-2012
322	JC 270619H	SUB	HISAM SINGH	01-12-2012
323	JC 271228K	SUB	HOSHIAR SINGH	01-01-2013
324	JC 269517A	SUB	HRIDAYA LALSHUKLA	01-11-2012
325	JC 268777Y	SUB	ISHWAR SINGH	01-09-2012
326	JC 270979Y	SUB	ISHWAR SINGH	01-10-2012
327	JC 268646N	SUB	JAGDEV SINGH	01-10-2012
328	JC 270455X	SUB	JAGDEV SINGH	01-09-2012
329	JC 272410W	SUB	JAGDEV SINGH	01-01-2013
330	JC 269748W	SUB	JAGDISH CHANDER	01-10-2012
331	JC 271409P	SUB	JAGDISH CHANDER	01-11-2012
332	JC 263503K	SUB	JAGDISH PRASAD YADAV	01-01-2013
333	JC 269588F	SUB	JAGDISH SINGH	01-12-2012
334	JC 273138F	SUB	JAGDISH SINGH	01-01-2013
335	JC 270453M	SUB	JAGTAR SINGH	01-11-2012
336	JC 273262H	SUB	JAGTAR SINGH	01-10-2012
337	JC 266250L	SUB	JANKI PRASAD TIWARI	01-11-2012
338	JC 273159X	SUB	JARNAIL SINGH	01-10-2012
339	JC 273307X	SUB	JASWANT SINGH	01-09-2012
340	JC 271483W	SUB	JASWINDER SINGH	01-01-2013
341	JC 267823W	SUB	JAY NARAYAN	01-10-2012
342	JC 269384P	SUB	JEERU BHAGAVANULU	01-12-2012
343	JC 270954M	SUB	JHANDU SINGH	01-09-2012
344	JC 270932N	SUB	JITRAM ORAIN	01-10-2012
345	JC 269216W	SUB	JOGINDER SINGH	01-10-2012
346	JC 271225W	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2013
347	JC 264445X	SUB	JOSE THOMAS PATTILIL	01-09-2012
348	JC 269381F	SUB	KAILASH SINGH	01-10-2012
349	JC 269812H	SUB	KAMAL NARAIN SINGH	01-12-2012
350	JC 271952N	SUB	KAMTA PRASAD YADAV	01-10-2012
351	JC 268965A	SUB	KANCHAN SINGH	01-10-2012
352	JC 260631W	SUB	KARAN SINGH	01-09-2012
353	JC 267712Y	SUB	KARANJIT SINGH	01-09-2012
354	JC 270054H	SUB	KARUNAKARAN G	01-10-2012
355	JC 265821M	SUB	KASTURI LAL SHARMA	01-11-2012
356	JC 264596W	SUB	KISHORI LAL CHOUHAN	01-09-2012
357	JC 268356W	SUB	KORGAONKAR PANDURANG SADASHIV	01-09-2012
358	JC 269796W	SUB	KRISHAN DATT SHUKAL	01-11-2012
359	JC 270093F	SUB	KRISHAN GOPAL SHARMA	01-11-2012
360	JC 268570Y	SUB	KRISHAN LAL	01-10-2012
361	JC 271383L	SUB	KRISHAN LAL	01-10-2012



362	JC 261113H	SUB	KULBIR SINGH	01-12-2012
363	JC 268142A	SUB	KULBIR SINGH	01-11-2012
364	JC 272498L	SUB	KULWINDER SINGH	01-11-2012
365	JC 271668X	SUB	KUNDAN SINGH	01-10-2012
366	JC 269047A	SUB	KUNWAR BAHADUR SINGH	01-09-2012
367	JC 269594P	SUB	KUNWAR PAL SINGH	01-10-2012
368	JC 270016M	SUB	LAKHA SINGH	01-09-2012
369	JC 268435L	SUB	LAKHAN SINGH	01-10-2012
370	JC 269244H	SUB	LAKHAN SINGH	01-11-2012
371	JC 270352Y	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-09-2012
372	JC 271514L	SUB	LAL SINGH	01-12-2012
373	JC 268254A	SUB	LAXMAN SINGH BHINCHHAR	01-12-2012
374	JC 269610F	SUB	LOBHE DEELIP GANPAT RAO	01-10-2012
375	JC 269431F	SUB	M MANIKANTAN	01-12-2012
376	JC 271459A	SUB	MADAN SINGH RATHORE	01-09-2012
377	JC 270884Y	SUB	MADHUKAR NANU KHAMBE	01-09-2012
378	JC 266433F	SUB	MAHADEO RAM JAT	01-01-2013
379	JC 270380L	SUB	MAHAVIR YADAV	01-01-2013
380	JC 271388K	SUB	MAHENDER SINGH CHAUHAN	01-10-2012
381	JC 269813L	SUB	MAHENDRA PAL SINGH	01-09-2012
382	JC 270581K	SUB	MAHENDRA PRASAD SINGH	01-09-2012
383	JC 269900Y	SUB	MAHENDRA SINGH	01-10-2012
384	JC 268013A	SUB	MAHENDRA SINGH SINGER	01-11-2012
385	JC 268128N	SUB	MAHESH PRASAD SINGH	01-10-2012
386	JC 270919K	SUB	MAHESH SINGH	01-01-2013
387	JC 261448A	SUB	MALKHAN SINGH PARIHAR	01-01-2013
388	JC 270226M	SUB	MALUM SINGH SHAKTAWANT	01-01-2013
389	JC 269469L	SUB	MAN SINGH	01-09-2012
390	JC 269774X	SUB	MANDAL LAL	01-10-2012
391	JC 270195X	SUB	MANE BAPU LAXMAN	01-10-2012
392	JC 269166W	SUB	MANEGER PRASAD SINGH	01-01-2013
393	JC 269955H	SUB	MANJIT SINGH	01-12-2012
394	JC 270869K	SUB	MANNU LAL	01-01-2013
395	JC 266028K	SUB	MANSA RAM	01-01-2013
396	JC 270273K	SUB	MD ABDUR ROUF	01-10-2012
397	JC 270305F	SUB	MED SINGH RAJPUT	01-01-2013
398	JC 266895N	SUB	MOHAN LAL	01-12-2012
399	JC 269710M	SUB	MOHAN LAL	01-11-2012
400	JC 265933M	SUB	MOHINDER SINGH	01-11-2012
401	JC 272489K	SUB	MOHINDER SINGH	01-09-2012
402	JC 272865M	SUB	MUKHTR SINGH	01-01-2013
403	JC 269018L	SUB	MURAT SINGH	01-11-2012
404	JC 269837P	SUB	NAME SINGH	01-11-2012
405	JC 263272Y	SUB	NARENDER KUMAR	01-09-2012
406	JC 270931L	SUB	NARESH KUMAR	01-01-2013
407	JC 267737L	SUB	NIRBHE SINGH	01-10-2012
408	JC 268885H	SUB	OM PRAKASH BHAGAT	01-10-2012

409	JC 273667N	SUB	PAL SINGH	01-10-2012
410	JC 268557P	SUB	PARAMJIT SINGH	01-09-2012
411	JC 272431M	SUB	PARAMJIT SINGH	01-01-2013
412	JC 268742H	SUB	PARKASH CHAND	01-10-2012
413	JC 272871A	SUB	PARMESHWAR SINGH CHOUHAN	01-01-2013
414	JC 268412K	SUB	PARVEEN CHAND	01-10-2012
415	JC 265434X	SUB	PATWAL SURENDRA SINGH	01-09-2012
			TRILOK SINGH	
416	JC 271060H	SUB	PAWAR BHIVRAM TATYBA	01-09-2012
417	JC 270398F	SUB	PORINCHU CK	01-11-2012
418	JC 271051F	SUB	PRAHLAD PATHAK	01-09-2012
419	JC 269771K	SUB	PRAMOD KUMAR SINGH	01-09-2012
420	JC 269039F	SUB	PRATAP SINGH	01-09-2012
421	JC 266963W	SUB	PRAVEEN SINGH	01-09-2012
422	JC 269702N	SUB	PREET SINGH	01-01-2013
423	JC 266248N	SUB	PREM CHAND	01-12-2012
424	JC 270703H	SUB	PREM CHAND	01-01-2013
425	JC 269231L	SUB	PREM CHANDRA TIWARI	01-11-2012
426	JC 267959A	SUB	PRITAM SINGH	01-01-2013
427	JC 271024X	SUB	PRITAM SINGH	01-10-2012
428	JC 273306P	SUB	PRITAM SINGH	01-12-2012
429	JC 269506N	SUB	PURAN CHANDER NIYOLIA	01-09-2012
430	JC 273202N	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-10-2012
431	JC 272248K	SUB	RAGHUVeer PRASHAS SHARMA	01-10-2012
432	JC 272047L	SUB	RAJ BAHADUR SINGH	01-10-2012
433	JC 270640L	SUB	RAJ BIR	01-01-2013
434	JC 260947H	SUB	RAJ KUMAR	01-11-2012
435	JC 271401H	SUB	RAJ KUMAR	01-12-2012
436	JC 268994P	SUB	RAJ PAL	01-10-2012
437	JC 266483M	SUB	RAJBIR SINGH	01-12-2012
438	JC 269239X	SUB	RAJENDER SINGH	01-10-2012
439	JC 271159Y	SUB	RAJENDER SINGH YADAV	01-01-2013
440	JC 269288A	SUB	RAJENDRA BAHADUR SINGH	01-09-2012
441	JC 269849K	SUB	RAJENDRA PRASHAD	01-10-2012
442	JC 267108N	SUB	RAJENDRA SINGH	01-10-2012
443	JC 268721M	SUB	RAJENDRA SINGH CHAHAR	01-10-2012
444	JC 268726L	SUB	RAJENDRAN V	01-09-2012
445	JC 266566X	SUB	RAJESH KUMAR	01-09-2012
446	JC 268328K	SUB	RAJPAL	01-12-2012
447	JC 270976L	SUB	RAM BHAGAT	01-09-2012
448	JC 268960F	SUB	RAM BRIKSH YADAVA	01-12-2012
449	JC 271813K	SUB	RAM KISHOR SHARMA	01-10-2012
450	JC 267536M	SUB	RAM MEHAR	01-12-2012
451	JC 268157H	SUB	RAM NARESH YADAV	01-10-2012
452	JC 269383M	SUB	RAM NIWAS	01-12-2012
453	JC 271123A	SUB	RAM PAL PRAJAPATI	01-10-2012
454	JC 269920M	SUB	RAM PRAKASH	01-12-2012

455	JC 272623K	SUB	RAM PRAKASH LONI	01-11-2012
456	JC 273950F	SUB	RAM PRAKASH TIWARI	01-12-2012
457	JC 271732K	SUB	RAM PUKAR MISHRA	01-12-2012
458	JC 266122N	SUB	RAMACHANDRAN V	01-09-2012
459	JC 271103M	SUB	RAMAKANT YADAV	01-11-2012
460	JC 271373F	SUB	RAMAUTAR	01-12-2012
461	JC 270033M	SUB	RAMAYAN CHAUHAN	01-10-2012
462	JC 269546P	SUB	RAMEHAR SINGH	01-10-2012
463	JC 269545M	SUB	RAMEKBAL SINGH YADAV	01-11-2012
464	JC 269006W	SUB	RAMESH CHANDRA PRADHAN	01-12-2012
465	JC 267769N	SUB	RAMJASH SINGH	01-10-2012
466	JC 269401K	SUB	RAMPAL	01-10-2012
467	JC 267661W	SUB	RAMSHIRMANI	01-12-2012
468	JC 270351W	SUB	RANVIR SINGH	01-09-2012
469	JC 266410A	SUB	RANDHIR SINGH	01-12-2012
470	JC 269568N	SUB	RANJEET KUMAR SINGH	01-11-2012
471	JC 262139K	SUB	RANJEET SINGH SHEKHAWAT	01-01-2013
472	JC 269852K	SUB	RANJEET SINGH YADAV	01-12-2012
473	JC 270508L	SUB	RANJIT SINGH RATHORE	01-12-2012
474	JC 268377M	SUB	RANSING BABAN DINKAR	01-10-2012
475	JC 269512F	SUB	RANVIR SINGH CHAUHAN	01-10-2012
476	JC 266580K	SUB	RASHPAL SINGH	01-01-2013
477	JC 268475M	SUB	RAVENDRA SINGH YADAV	01-10-2012
478	JC 269399X	SUB	RAVI DUTT	01-10-2012
479	JC 268932P	SUB	RAVIKARAN SINGH	01-11-2012
480	JC 271794K	SUB	RAVINDER SINGH CHAUHAN	01-09-2012
481	JC 270605H	SUB	RAVINDRA SINGH YADAV	01-10-2012
482	JC 271254L	SUB	ROSHAN LAL	01-11-2012
483	JC 269343L	SUB	S CHANDRAN	01-12-2012
484	JC 271054P	SUB	S KANNAN	01-01-2013
485	JC 266339X	SUB	SACCHIDANAND UPADHAYAYA	01-12-2012
486	JC 271982L	SUB	SAKESH CHANDRA CHAURASIA	01-09-2012
487	JC 268371L	SUB	SALAM SHANTI SINGH	01-11-2012
488	JC 270692F	SUB	SAMBETA RAJASEKHAR	01-10-2012
489	JC 268781F	SUB	SAMUNDER SINGH	01-10-2012
490	JC 274442X	SUB	SANTOSH KUMAR	01-11-2012
491	JC 262575F	SUB	SARDAR SINGH	01-09-2012
492	JC 267579F	SUB	SARDHA NAND	01-01-2013
493	JC 270774K	SUB	SAROJ KUMAR PANDAY	01-10-2012
494	JC 269311H	SUB	SATBIR YADAV	01-10-2012
495	JC 269811A	SUB	SATISH KUMAR	01-11-2012
496	JC 270618A	SUB	SATISH NIVRUTI ASVALE	01-11-2012
497	JC 269329Y	SUB	SATNAM SINGH	01-09-2012
498	JC 271405Y	SUB	SATNAM SINGH	01-09-2012
499	JC 270395N	SUB	SATYA PRAKASH	01-09-2012
500	JC 271997N	SUB	SATYAPAL	01-12-2012
501	JC 271217X	SUB	SATYAN SINGH	01-12-2012

502	JC 269481M	SUB	SHAITAN SINGH	01-12-2012
503	JC 269226A	SUB	SHAMBHU PRASAD	01-11-2012
504	JC 270148A	SUB	SHAMLAL SHARMA	01-01-2013
505	JC 271280M	SUB	SHAMSHER SINGH	01-10-2012
506	JC 271170X	SUB	SHASHI BHUSHAN KUMAR	01-12-2012
507	JC 266480Y	SUB	SHINDE MALHARI GANPAT	01-12-2012
508	JC 269970X	SUB	SHISHPAL SINGH	01-12-2012
509	JC 272066W	SUB	SHIV CHARAN	01-09-2012
510	JC 259710Y	SUB	SHIV KUMAR	01-12-2012
511	JC 268346M	SUB	SHIV KUMAR	01-09-2012
512	JC 269527K	SUB	SHIV NATH SINGH BEHGEL	01-10-2012
513	JC 271210N	SUB	SHIVALAL KISAN KANHERKAR	01-01-2013
514	JC 267785L	SUB	SHIVANAGODA F PATIL	01-01-2013
515	JC 269131A	SUB	SHIVPAL SINGH	01-12-2012
516	JC 269318M	SUB	SHIVTAJ SINGH	01-09-2012
517	JC 269038Y	SUB	SHYAM KUMAR	01-10-2012
518	JC 270279L	SUB	SHYAMRAJ MISHRA	01-12-2012
519	JC 270629M	SUB	SINGAR SINGH	01-10-2012
520	JC 267743Y	SUB	SUBHASH CHANDER	01-10-2012
521	JC 268423W	SUB	SUBHASH CHANDER	01-10-2012
522	JC 269290X	SUB	SUDERSHAN KUMAR	01-10-2012
523	JC 268685M	SUB	SUDHIR KUMAR SINGH	01-01-2013
524	JC 263412A	SUB	SUDHIR KUMAR VM	01-09-2012
525	JC 269647H	SUB	SUKHDEV RAJ	01-12-2012
526	JC 269294N	SUB	SUKHENDU BISWAS	01-10-2012
527	JC 269680A	SUB	SURENDER KUMAR	01-09-2012
528	JC 264287N	SUB	SURENDER SINGH	01-10-2012
529	JC 269386A	SUB	SURENDRA SINGH	01-01-2013
530	JC 259709K	SUB	SURESH CHANDRA	01-09-2012
531	JC 272003N	SUB	SURESH KUMAR D	01-09-2012
532	JC 268934A	SUB	SURESH KUMAR RATHEE	01-01-2013
533	JC 270266N	SUB	SURJIT SINGH	01-10-2012
534	JC 270393H	SUB	SUWINDER SINGH	01-01-2013
535	JC 269353P	SUB	TANAJI RAMACHANDRA PATIL	01-09-2012
536	JC 271647F	SUB	TARSEM SINGH	01-01-2013
537	JC 266846L	SUB	TEJA RAM MATWA	01-11-2012
538	JC 269086Y	SUB	THAKUR RUIDAS BAPU	01-09-2012
539	JC 267473P	SUB	UDAY PRATAP SINGH GAUTAM	01-09-2012
540	JC 270230P	SUB	UMESH CHANDRA KAR	01-09-2012
541	JC 271681F	SUB	UMESH KUMAR SINGH	01-10-2012
542	JC 270180P	SUB	VADIWAL	01-01-2013
543	JC 268811N	SUB	VED PAL	01-10-2012
544	JC 271460P	SUB	VEERA SEKARAN S	01-09-2012
545	JC 269385X	SUB	VEERENDRA KUMAR SINGH	01-01-2013
546	JC 267040X	SUB	VIJAY KUMAR RANA	01-09-2012
547	JC 268674A	SUB	VIJAY PAL	01-10-2012
548	JC 269808A	SUB	VIJAY SINGH	01-09-2012

549	JC 259815H	SUB	VIJAYAN GK	01-10-2012
550	JC 269904P	SUB	VIJE PRAKASH	01-10-2012
551	JC 270941P	SUB	VIJENDAR SINGH	01-12-2012
552	JC 269010Y	SUB	VINOD KUMAR PUTHALATH	01-10-2012
553	JC 271838W	SUB	VINOD KUMAR RAI	01-11-2012
554	JC 270131M	SUB	VINOD SINGH	01-12-2012
555	JC 269295W	SUB	VIR SINGH	01-10-2012
556	JC 268602W	SUB	VIRENDER SINGH	01-09-2012
557	JC 271427X	SUB	YASH PAL	01-12-2012
558	JC 269011F	SUB	YATENDRA KUMAR	01-12-2012
559	JC 266426L	SUB	YOGESH KUMAR	01-12-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

560	JC 299509W	SUB	ANDY S	01-10-2012
561	JC 299464F	SUB	ANJU KUMAR	01-09-2012
562	JC 298739X	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-01-2013
563	JC 300145K	SUB	AWADESH KUMAR	01-01-2013
564	JC 298506W	SUB	AWTAR SINGH	01-09-2012
565	JC 297796M	SUB	BABU RAM JANI	01-10-2012
566	JC 298881F	SUB	BALDEV SINGH	01-10-2012
567	JC 299600M	SUB	BALWAN DASS	01-01-2013
568	JC 299540H	SUB	BHANWAR SINGH RATHORE	01-12-2012
569	JC 299522A	SUB	BIRBAL RAM	01-10-2012
570	JC 298735F	SUB	BIREN RAJKHOWA	01-10-2012
571	JC 301074A	SUB	BIRENDRA SINGH	01-09-2012
572	JC 299772F	SUB	DEBESWAR CHANGMAI	01-11-2012
573	JC 300542H	SUB	DEVI PRASAD	01-10-2012
574	JC 299542N	SUB	DHANNA RAM	01-01-2013
575	JC 299696A	SUB	DHARAM SINGH	01-10-2012
576	JC 297686X	SUB	DILBAG SINGH	01-01-2013
577	JC 298168K	SUB	DONTI REDDY SRINIVASA REDDY	01-01-2013
578	JC 298778W	SUB	GANESH PRATAP SINGH	01-10-2012
579	JC 300375X	SUB	GIRDHARI LAL	01-01-2013
580	JC 300252L	SUB	GURDIAL CHAND	01-10-2012
581	JC 300169N	SUB	ISHWAR DASS	01-10-2012
582	JC 298962F	SUB	JAI LAL	01-11-2012
583	JC 298803K	SUB	JAI SHANKAR PRASAD SINGH	01-01-2013
584	JC 300215X	SUB	JAI SINGH YADAV	01-12-2012
585	JC 297498W	SUB	JASWANT	01-10-2012
586	JC 300345A	SUB	JAYAKUMAR KR	01-09-2012
587	JC 299830A	SUB	JEEWAN CHANDRA	01-10-2012
588	JC 298163L	SUB	KADAM KRISHNA GANPATI	01-11-2012
589	JC 300149A	SUB	KALAKTAR SINGH	01-12-2012
590	JC 300368F	SUB	KALI CHARAN	01-01-2013
591	JC 300225F	SUB	KESHAV SINGH	01-01-2013
592	JC 299442H	SUB	KISHAN LAL GURJAR	01-09-2012
593	JC 299516M	SUB	KISHORE SINGH	01-10-2012

594	JC 299625Y	SUB	KRISHNA NANDAN PANDEY	01-11-2012
595	JC 297850P	SUB	KULAF SINGH	01-01-2013
596	JC 300258M	SUB	KULDEEP SINGH	01-10-2012
597	JC 298009M	SUB	KULDIP SINGH	01-01-2013
598	JC 298531P	SUB	KUSHAL SINGH JASWAL	01-10-2012
599	JC 301203P	SUB	LACHHAM SINGH	01-01-2013
600	JC 298544M	SUB	LAKSHESWAR KALITA	01-10-2012
601	JC 299932W	SUB	LAXMI PRASAD GUPTA	01-12-2012
602	JC 300513N	SUB	MADAN SINGH	01-10-2012
603	JC 298393Y	SUB	MADHAN CHAND	01-10-2012
604	JC 299214A	SUB	MAHENDRA SINGH	01-09-2012
605	JC 299784W	SUB	MATHAI T	01-10-2012
606	JC 299291P	SUB	MD AFSARUL KHAN	01-10-2012
607	JC 300173W	SUB	MEHAR CHAND	01-10-2012
608	JC 299824M	SUB	MOHENDER SINGH	01-10-2012
609	JC 299000K	SUB	MORTI VIJAY VIRAGONDA	01-09-2012
610	JC 300016K	SUB	MUNSHI LAL	01-10-2012
611	JC 299564M	SUB	MUNU SAMY R	01-01-2013
612	JC 300402W	SUB	MURALI MOHAN KRISHNA ACHRRY	01-10-2012
613	JC 299647X	SUB	NARAYAN LAMANI	01-01-2013
614	JC 299212P	SUB	NARAYAN SAIKIA	01-09-2012
615	JC 299666H	SUB	NARESH CHAND YADAV	01-01-2013
616	JC 299541L	SUB	NARESH KUMAR SHARMA	01-12-2012
617	JC 299461N	SUB	NARINDER SINGH MANIHLANI	01-01-2013
618	JC 297599K	SUB	NATHU SINGH	01-09-2012
619	JC 299725K	SUB	NITYANANDA MONDAL	01-10-2012
620	JC 298035N	SUB	OM PRAKASH	01-10-2012
621	JC 298450P	SUB	OM PRAKASH CHOUBEY	01-11-2012
622	JC 298262N	SUB	OM PRAKASH CHOUDHARY	01-09-2012
623	JC 299775P	SUB	PATIL SARJERAO RAMU	01-09-2012
624	JC 299181A	SUB	PRAMOD SINGH	01-09-2012
625	JC 298321P	SUB	PRATAP SINGH MEENA	01-01-2013
626	JC 300127F	SUB	R ATHISHESHAN	01-10-2012
627	JC 298997X	SUB	RABENDRA SINGH	01-12-2012
628	JC 299370K	SUB	RAGHBIR SINGH	01-10-2012
629	JC 299199W	SUB	RAGHU RAJ	01-11-2012
630	JC 298169M	SUB	RAJAMANI S	01-01-2013
631	JC 298432M	SUB	RAJENDER SINGH	01-11-2012
632	JC 299176P	SUB	RAJVEER SINGH	01-01-2013
633	JC 299062K	SUB	RAJVIR SHARMA	01-10-2012
634	JC 297595N	SUB	RAKESH KUMAR	01-10-2012
635	JC 300104A	SUB	RAM ADHAR SINGH YADAV	01-11-2012
636	JC 299489N	SUB	RAM AUTAR	01-10-2012
637	JC 300031Y	SUB	RAM BAHADUR	01-12-2012
638	JC 299350W	SUB	RAM KEWAL	01-01-2013
639	JC 300031Y	SUB	RAM LAKHAN YADAV	01-01-2013

640	JC 299769F	SUB	RAM PAL	01-12-2012
641	JC 299563K	SUB	RAM RAJ SINGH	01-12-2012
642	JC 300396N	SUB	RAMDEO SINGH	01-12-2012
643	JC 299158M	SUB	RAMSIYA SINGH BHADORIYA	01-10-2012
644	JC 298954H	SUB	RAVI SRINIVASAN V	01-10-2012
645	JC 298543K	SUB	RISHI RAJ DHANKAR	01-09-2012
646	JC 299783N	SUB	ROSHAN LAL	01-10-2012
647	JC 297797P	SUB	ROSHAN LAL YADAV	01-11-2012
648	JC 299642Y	SUB	RUP LAL	01-10-2012
649	JC 300641L	SUB	SANJEEVI K	01-01-2013
650	JC 300108W	SUB	SARDARI LAL	01-11-2012
651	JC 298108P	SUB	SATENDRA KUMAR	01-10-2012
652	JC 299839P	SUB	SHEO KUMAR SHARMA	01-10-2012
653	JC 299510L	SUB	SHER SINGH	01-10-2012
654	JC 299989L	SUB	SHIV LAL PRASAD GUPTA	01-11-2012
655	JC 299104L	SUB	SHIV RAM	01-11-2012
656	JC 300212K	SUB	SHYAM BIHARI SINGH	01-10-2012
657	JC 298904X	SUB	SHYOPL JAT	01-11-2012
658	JC 300217H	SUB	SIDHESHWAR PRASAD	01-10-2012
659	JC 300609W	SUB	SRI LAKSHMAN SINGH	01-10-2012
660	JC 300276P	SUB	SUJATHAN NAIR S	01-10-2012
661	JC 298891L	SUB	SUKHDEV	01-10-2012
662	JC 299086N	SUB	SURENDRA KUMAR	01-11-2012
663	JC 298862W	SUB	SURESH BABU	01-12-2012
664	JC 298636Y	SUB	SWAPAN KUMAR MISTRI	01-01-2013
665	JC 300747X	SUB	TAMMINANI HARINAD	01-01-2013
666	JC 299796L	SUB	TARALEKAR RAJARAM JOTIBA	01-10-2012
667	JC 298800W	SUB	TEJPAL SHARMA	01-10-2012
668	JC 298929K	SUB	TRILOK SINGH	01-10-2012
669	JC 299915Y	SUB	UMED SINGH	01-10-2012
670	JC 298578A	SUB	VIJAY KUMAR	01-09-2012
671	JC 299318F	SUB	VIJAY KUMAR	01-09-2012
672	JC 299481F	SUB	VIJAY KUMAR	01-10-2012
673	JC 299319K	SUB	YAD RAM	01-10-2012
674	JC 299774M	SUB	YOGESH KUMAR	01-01-2013

**MADRAS ENGINEER GROUP**

675	JC 308208W	SUB	A JAMES WILLIAM PETER	01-12-2012
676	JC 307848N	SUB	A RAJALINGAM	01-11-2012
677	JC 308632Y	SUB	A SUNDARA MOORTHY	01-10-2012
678	JC 308653P	SUB	ALLA SAMBI REDDY	01-09-2012
679	JC 307213P	SUB	AMRAT LAL	01-12-2012
680	JC 308267H	SUB	ARULANDU SAMY A	01-10-2012
681	JC 308479N	SUB	BALAKRISHNA R	01-01-2013
682	JC 308668X	SUB	C NANDAN	01-09-2012
683	JC 306005N	SUB	DEVENDRA BAN GOSWAMI	01-09-2012
684	JC 308047Y	SUB	G KARTHIKEYAN	01-01-2013

685	JC 308347Y	SUB	G KARTHIGEYAN	01-01-2013
686	JC 308265X	SUB	G UMANMESWARAN	01-09-2012
687	JC 327596N	SUB	GOURANGA SUNDAR PRAMANICK	01-10-2012
688	JC 308222H	SUB	GUDISA MANOHARA RAO	01-01-2013
689	JC 308100Y	SUB	GUDISI KAMESWARA RAO	01-09-2012
690	JC 308917L	SUB	J PORUMAI	01-10-2012
691	JC 307561W	SUB	JAGESHWAR RAI	01-11-2012
692	JC 308114Y	SUB	K RAJENDRAN	01-10-2012
693	JC 307495Y	SUB	MANOHAR SINGH	01-09-2012
694	JC 307745P	SUB	MANOJ PA	01-10-2012
695	JC 308596Y	SUB	MOHAMMAD JEELANI	01-10-2012
696	JC 308322N	SUB	MONIKANTAN NAIR V	01-09-2012
697	JC 308475X	SUB	N PANDARINATHAN	01-10-2012
698	JC 307749L	SUB	N RAVINDRAN	01-09-2012
699	JC 308232M	SUB	NADI RETTI APPARAO	01-01-2013
700	JC 308923Y	SUB	P ARUMUGAM	01-11-2012
701	JC 308480H	SUB	P NAGENDRA RAO	01-09-2012
702	JC 308306W	SUB	PAILARAJA BABU	01-09-2012
703	JC 306998X	SUB	PARESH NARAYAN GHOSH	01-10-2012
704	JC 308266A	SUB	PURUSHOTHAMAN P V	01-09-2012
705	JC 308496N	SUB	R PRAKASH	01-09-2012
706	JC 308570K	SUB	R RAJENDRAN	01-09-2012
707	JC 307913H	SUB	RADHEY SHYAM KUSHWAHA	01-12-2012
708	JC 308835H	SUB	RAJAN PARAPPUN KATTIL	01-10-2012
709	JC 306697N	SUB	RAMAKANAI DAS	01-10-2012
710	JC 307534M	SUB	RAMAYAN PRASAD	01-12-2012
711	JC 306270K	SUB	RANJIT SINGH	01-01-2013
712	JC 308217X	SUB	S PALANI CHAMY	01-10-2012
713	JC 308805L	SUB	SAJEEVAN PS	01-01-2013
714	JC 308638A	SUB	SANGAPPA CHAVADAPPANAVAR	01-12-2012
715	JC 307941P	SUB	SATYAPAL SINGH	01-01-2013
716	JC 307881L	SUB	SHINDE KAILASH NIVRUTTI	01-09-2012
717	JC 308268L	SUB	SOMAN PILLAI K	01-01-2013
718	JC 307373P	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-09-2012
719	JC 306148N	SUB	SUDHAKARAN B	01-10-2012
720	JC 308223L	SUB	SURENDARA PRASAD	01-11-2012
721	JC 307347N	SUB	SURESH BABU PK	01-09-2012
722	JC 307827X	SUB	SUSHANTA KUMAR SARKAR	01-09-2012
723	JC 308430X	SUB	UPPUTURI RAMANJANEYYARA PRASAD	01-10-2012
724	JC 308735X	SUB	VEDURU VADA SANYASI RAJU	01-12-2012
725	JC 330639H	SUB	VIJAY KUMAR	01-10-2012
726	JC 303404W	SUB	VINCENT S	01-12-2012



**BENGAL ENGINEER GROUP**

727	JC 329651X	SUB	AJOY KUMAR ROY	01-10-2012
728	JC 329539L	SUB	ALAM SINGH	01-10-2012
729	JC 330046W	SUB	AMAN KUMAR	01-11-2012
730	JC 140776L	SUB	AMARJIT SINGH NEGI	01-10-2012
731	JC 326960P	SUB	AMRIK SINGH	01-01-2013
732	JC 329319F	SUB	ANIL KUMAR SHARMA	01-10-2012
733	JC 329318Y	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-10-2012
734	JC 328815W	SUB	AYODHYA KARMAKAR	01-10-2012
735	JC 329304Y	SUB	BACHAN SINGH	01-09-2012
736	JC 329554A	SUB	BAL GOPAL PATRA	01-10-2012
737	JC 329177P	SUB	BALDEV SINGH GULERIA	01-01-2013
738	JC 329181X	SUB	BARUN DEV GHOSAL	01-01-2013
739	JC 328269A	SUB	BASANT SINGH	01-01-2013
740	JC 327735M	SUB	BHAGWANT SINGH	01-10-2012
741	JC 327382X	SUB	CHAKARDHAR PRASAD NAITHANI	01-10-2012
742	JC 329821W	SUB	CHANCHAL SINGH	01-10-2012
743	JC 329731K	SUB	CHANDRA BABU K	01-01-2013
744	JC 328845N	SUB	CHHATAR PAL	01-10-2012
745	JC 326482W	SUB	DAN SINGH	01-10-2012
746	JC 329548M	SUB	DEVENDER SINGH	01-09-2012
747	JC 328821K	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-10-2012
748	JC 329779H	SUB	GABAR SINGH	01-01-2013
749	JC 329524H	SUB	GHANSHYAM SINGH	01-10-2012
750	JC 326818L	SUB	GIRIJA PRASANNA MANDAL	01-01-2013
751	JC 338235P	SUB	GIRISH CHANDRA PANDEY	01-01-2013
752	JC 329788K	SUB	GUJAR SINGH	01-09-2012
753	JC 326887F	SUB	GUMAN SINGH	01-11-2012
754	JC 329123N	SUB	HANUMAN SINGH	01-11-2012
755	JC 330222H	SUB	HIRA LAL MISHRA	01-01-2013
756	JC 329024L	SUB	IMRAT CHAND SHARMA	01-09-2012
757	JC 140787X	SUB	INDER SINGH	01-12-2012
758	JC 329179A	SUB	JAGAN NATH GHOSH	01-01-2013
759	JC 329886K	SUB	JAI KRISHNA	01-10-2012
760	JC 329716A	SUB	JAMDAR BANRA	01-01-2013
761	JC 329692F	SUB	JASBIR SINGH	01-01-2013
762	JC 326580W	SUB	JATINDERPAL SINGH GABBI	01-01-2013
763	JC 326816A	SUB	JEET SINGH	01-12-2012
764	JC 328843H	SUB	KALYAN SHANKAR MISHRA	01-10-2012
765	JC 328848F	SUB	KANHAI LAL	01-11-2012
766	JC 326558L	SUB	KAPINDER JOSHI	01-12-2012
767	JC 329120A	SUB	KARAN SINGH	01-10-2012
768	JC 329344A	SUB	KESHAV DEV	01-11-2012
769	JC 329175K	SUB	KULDEEP SINGH RANA	01-10-2012
770	JC 329306K	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-10-2012

771	JC 329023H	SUB	LALLANJI PANDEY	01-09-2012
772	JC 329874P	SUB	MADAN LAL BAGORIA	01-10-2012
773	JC 329496F	SUB	MAHIPAL SINGH	01-11-2012
774	JC 329992H	SUB	MANGAL SINGH	01-12-2012
775	JC 338400P	SUB	MANI SHANKER DWEVEDI	01-10-2012
776	JC 327138X	SUB	MD ATAUR RAHMAN	01-12-2012
777	JC 329032K	SUB	MEHMA SINGH BEHNIWAL	01-10-2012
778	JC 329484M	SUB	MOHAN SINGH BISHT	01-11-2012
779	JC 329125Y	SUB	MOHAN LAL AWASTHI	01-12-2012
780	JC 130058F	SUB	MUTYALA RAVI KUMAR	01-09-2012
781	JC 329676K	SUB	NAND BHANWAR SINGH RATHORE	01-01-2013
782	JC 326819N	SUB	NARAYANAN KUTTY M	01-01-2013
783	JC 326394A	SUB	NARESH KUMAR	01-09-2012
784	JC 325692K	SUB	OM PRAKASH	01-10-2012
785	JC 329030Y	SUB	OM PRAKASH SINGH	01-10-2012
786	JC 329116X	SUB	OM PRAKASH TIWARI	01-10-2012
787	JC 328849K	SUB	OMKAR DATT SHARMA	01-11-2012
788	JC 329180P	SUB	PRABHAKAR LAL	01-01-2013
789	JC 329757K	SUB	PRAMOD TIGGA	01-09-2012
790	JC 329122L	SUB	PREM NARAIN	01-11-2012
791	JC 329550K	SUB	PROBIR KUMAR BISWAS	01-09-2012
792	JC 326817H	SUB	RABINDRA NATH TIWARI	01-01-2013
793	JC 328841X	SUB	RADHA KRISHNAN NAIR CK	01-10-2012
794	JC 329309X	SUB	RAJ KUMAR SIWACH	01-12-2012
795	JC 329677M	SUB	RAJE SINGH	01-01-2013
796	JC 137459Y	SUB	RAKESH KUMAR AGRAWAL	01-01-2013
797	JC 328206M	SUB	RAM DARAS YADAV	01-10-2012
798	JC 325986X	SUB	RAM DAS	01-10-2012
799	JC 328844L	SUB	RAM NATH	01-10-2012
800	JC 326813M	SUB	RAM PRAKASH SINGH VERMA	01-11-2012
801	JC 327401X	SUB	RAM SINGH	01-10-2012
802	JC 329704L	SUB	RAMESH CHANDER	01-10-2012
803	JC 329124W	SUB	RAMESH KUMAR	01-11-2012
804	JC 330109N	SUB	RAMFSHWAR DAS	01-12-2012
805	JC 329815H	SUB	RAMJI PRASAD KESHARI	01-01-2013
806	JC 326700K	SUB	RAN VIJAY SINGH	01-09-2012
807	JC 329178X	SUB	RANJIT SINGH	01-01-2013
808	JC 326890F	SUB	SADHAN KUMAR CHAKRABORTY	01-01-2013
809	JC 329031F	SUB	SATISH CHANDRA YADAV	01-10-2012
810	JC 327733F	SUB	SATYENDRA RAI	01-09-2012
811	JC 329848N	SUB	SHAM LAL DOGRA	01-09-2012
812	JC 329652A	SUB	SHIV CHARAN SINGH NEGI	01-10-2012
813	JC 325897Y	SUB	SIDDHARTH SINGH CHAUHAN	01-10-2012
814	JC 327478A	SUB	SUBRATA BISWAS	01-10-2012
815	JC 326261K	SUB	SUKHDEV RAM	01-09-2012
816	JC 338064N	SUB	SULTAN SINGH	01-12-2012

817	JC 329121H	SUB	SURAJ PAL	01-10-2012
818	JC 328850Y	SUB	SURENDRA SINGH	01-01-2013
819	JC 328837P	SUB	SURESH KUMAR KAUSHIK	01-10-2012
820	JC 137403M	SUB	SUSHIL KUMAR K	01-10-2012
821	JC 329119L	SUB	TUHIN SUVRA BAG	01-10-2012
822	JC 329127K	SUB	UMED SINGH	01-10-2012
823	JC 330248X	SUB	VIRENDER SINGH	01-11-2012
824	JC 329553X	SUB	VISHAN SINGH RAWAT	01-10-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

825	JC 348802A	SUB	AMARJIT SINGH	01-10-2012
826	JC 350655F	SUB	ASARAF ALI	01-12-2012
827	JC 348622X	SUB	ASHARFI LAL	01-10-2012
828	JC 350142M	SUB	BALBIR SINGH	01-09-2012
829	JC 348635P	SUB	BHOOP SINGH YADAV	01-10-2012
830	JC 348599P	SUB	BIDHA SINGH	01-10-2012
831	JC 350509F	SUB	CHARAN SINGH	01-01-2013
832	JC 349506F	SUB	DHANE SHIVAJI SHANKAR	01-10-2012
833	JC 348595Y	SUB	DHARAMBIR TYAGI	01-01-2013
834	JC 348198A	SUB	DILIP DAULAT CHAVAN	01-09-2012
835	JC 350236K	SUB	GULER CHAND	01-01-2013
836	JC 350114A	SUB	GURMAIL SINGH	01-12-2012
837	JC 350037W	SUB	HARAK SINGH MEHTA	01-01-2013
838	JC 350676X	SUB	HARPAL SINGH	01-01-2013
839	JC 348555X	SUB	HOSHIAR SINGH	01-10-2012
840	JC 350063X	SUB	ISHWAR SINGH	01-01-2013
841	JC 349966H	SUB	JADHAV RAJARAM BABU RAO	01-09-2012
842	JC 349752M	SUB	JADHAV SAYAJIRAO MADHAVRAO	01-09-2012
843	JC 350941H	SUB	JASBIR SINGH	01-12-2012
844	JC 350123F	SUB	JASPAL SINGH	01-10-2012
845	JC 348542A	SUB	JASVIR SINGH	01-09-2012
846	JC 350339H	SUB	JAVIA JAMNADAS DHANJI	01-12-2012
847	JC 350054W	SUB	KADAM MANIKRAO DAMODAR	01-10-2012
848	JC 350386A	SUB	KALE ANANDRAO RAGHUNATH	01-09-2012
849	JC 348577W	SUB	KAMAL DEV	01-10-2012
850	JC 350332Y	SUB	KULDIP SINGH	01-10-2012
851	JC 349570Y	SUB	MAM CHAND	01-10-2012
852	JC 350073F	SUB	MANJIT SINGH	01-09-2012
853	JC 349880K	SUB	MOPARE SANJEEV HARIBA	01-01-2013
854	JC 350599N	SUB	MUNIR AHMAD KHAN	01-01-2013
855	JC 350158X	SUB	MURALEEDHARAN K	01-12-2012
856	JC 350440H	SUB	NIRMAL SINGH	01-10-2012
857	JC 350230H	SUB	PARMJIT SINGH	01-01-2013
858	JC 350222K	SUB	PATIL DINAKAR RAMA	01-01-2013
859	JC 350150L	SUB	PAWAR CHANDRAKANT DADAJI	01-10-2012
860	JC 350065H	SUB	PEER ALI	01-09-2012

861	JC 350346Y	SUB	PRAKASH CHANDRA VERMA	01-11-2012
862	JC 348567M	SUB	RAJENDER KUMAR	01-10-2012
863	JC 348496W	SUB	RAKESH CHANDER KOTHARI	01-09-2012
864	JC 347130M	SUB	RAM SARAN GUPTA	01-01-2013
865	JC 348663F	SUB	RAM SEWAK	01-09-2012
866	JC 350088K	SUB	RAMBIR	01-01-2013
867	JC 348549K	SUB	REWADHAR PRASAD	01-09-2012
868	JC 350617L	SUB	SATWINDER SINGH	01-10-2012
869	JC 348589L	SUB	SATYABIR SINGH	01-10-2012
870	JC 350428F	SUB	SHIV NARAIN SHRIWAS	01-01-2013
871	JC 349221P	SUB	SHIV RAJ SINGH	01-01-2013
872	JC 350858L	SUB	SIRMOR SINGH	01-01-2013
873	JC 348994H	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-01-2013
874	JC 350338A	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-10-2012
875	JC 350020H	SUB	SUNIL KUMAR	01-11-2012
876	JC 348594W	SUB	VISHNU KANT TIWARI	01-10-2012
<b>CORPS OF SIGNALS</b>				
877	JC 377565K	SUB	ADHIKARI SUBHASH KAMAL BAHADUR	01-11-2012
878	JC 377279H	SUB	AHIDUL HAQUE	01-10-2012
879	JC 374992P	SUB	AKSHAYA KUMAR SAHOO	01-09-2012
880	JC 375422L	SUB	AMAR NARAYAN	01-10-2012
881	JC 375370A	SUB	ASHIS KUMAR MAITY	01-09-2012
882	JC 372602H	SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2013
883	JC 373364N	SUB	BAI PALLI RAMA RAO	01-01-2013
884	JC 376953P	SUB	BAIJU R	01-12-2012
885	JC 376134L	SUB	BALBIR CHAND	01-10-2012
886	JC 376634H	SUB	BHADORIA RAMSWARUP SHIV SINGH	01-09-2012
887	JC 374873Y	SUB	BHAJAN SINGH	01-10-2012
888	JC 376310X	SUB	BHANWAR SINGH RATHORE	01-11-2012
889	JC 375527P	SUB	BHARAT BHUSHAN	01-10-2012
890	JC 376307X	SUB	BHARAT RATTAN SARAN	01-10-2012
891	JC 376640W	SUB	BHARAT SINGH	01-09-2012
892	JC 369638W	SUB	BHIM SINGH YADAV	01-09-2012
893	JC 377122H	SUB	BIDYUT RANJAN DEB	01-11-2012
894	JC 374835H	SUB	BIJAY PAL	01-10-2012
895	JC 376283Y	SUB	BIJENDER SINGH	01-10-2012
896	JC 373798N	SUB	BIJU P C	01-10-2012
897	JC 376837M	SUB	BIKASH BRAHMA	01-10-2012
898	JC 376809A	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-01-2013
899	JC 376394W	SUB	BIRENDRA PRASAD CHAUBEY	01-10-2012
900	JC 375372L	SUB	C MANOKARAN	01-12-2012
901	JC 375774H	SUB	CHHOTAN MAHTO	01-10-2012
902	JC 373949F	SUB	DAVENDRA SINGH	01-09-2012
903	JC 377071A	SUB	DAYA SHANKER YADAV	01-12-2012
904	JC 372054W	SUB	DESAI RAMAGONDA KALLARPA	01-10-2012

905	JC 376734N	SUB	DEVANADA THAKUR	01-09-2012
906	JC 376802W	SUB	DEVENDRA SINGH	01-11-2012
907	JC 372041Y	SUB	DHANANJAY PATI	01-10-2012
908	JC 375103Y	SUB	DHARAM CHAND	01-10-2012
909	JC 375238A	SUB	DHARAMPAL	01-09-2012
910	JC 375279K	SUB	DHARAMVIR	01-01-2013
911	JC 376304K	SUB	DILIP MUKHOPADHYAY	01-09-2012
912	JC 373255F	SUB	DINESH KUMAR	01-11-2012
913	JC 375982X	SUB	DUGGEPOGU VIJAYA KUMAR	01-12-2012
914	JC 377136H	SUB	GANESH PRASAD	01-12-2012
915	JC 372827L	SUB	GHANSHYAM SINGH YADAV	01-09-2012
916	JC 375237X	SUB	GOPINATHAN J	01-12-2012
917	JC 374616F	SUB	GORKHU RAM SHARMA	01-01-2013
918	JC 374949N	SUB	GULLAKUNTA ABDUL HAFEE	01-12-2012
919	JC 375823A	SUB	GULZAR SINGH	01-09-2012
920	JC 377836W	SUB	HALACHAL PRASAD	01-10-2012
921	JC 369583X	SUB	HARI OM	01-09-2012
922	JC 375966A	SUB	HARIDASAN KEEZHOOR IDATHIL	01-12-2012
923	JC 376154Y	SUB	HISAM SINGH	01-01-2013
924	JC 373660Y	SUB	ISHWAR SINGH	01-01-2013
925	JC 375929M	SUB	JADHAV VILAS SHANKAR	01-09-2012
926	JC 372974N	SUB	JAGAN NATH TIWARI	01-11-2012
927	JC 373644F	SUB	JAGJIT SINGH	01-09-2012
928	JC 377220H	SUB	JASBIR SINGH	01-09-2012
929	JC 375239H	SUB	JOGINDER PAUL	01-10-2012
930	JC 375979X	SUB	JYOTI PROKASH MANDAL	01-01-2013
931	JC 374622P	SUB	KAILASH CHANDER	01-09-2012
932	JC 377142W	SUB	KASHI PRASAD MISHRA	01-01-2013
933	JC 375844W	SUB	KASHMIR SINGH	01-01-2013
934	JC 376848Y	SUB	KAUSHAL KUMAR SINGH	01-11-2012
935	JC 374932A	SUB	KAVINDRA MAHTO	01-01-2013
936	JC 376709P	SUB	KEWAL KRISHAN	01-01-2013
937	JC 373658F	SUB	KHAJAN SINGH SHARMA	01-01-2013
938	JC 375980M	SUB	KHYALI RAM	01-10-2012
939	JC 372056F	SUB	KISHORI LAL SHARMA	01-10-2012
940	JC 376396F	SUB	KRISHNA KUMAR DIWEDI	01-10-2012
941	JC 372683N	SUB	KRUSHNA CHANDRA JENA	01-10-2012
942	JC 375834M	SUB	KULDEEP SINGH	01-10-2012
943	JC 377628F	SUB	KULDEEP SINGH	01-01-2013
944	JC 377653A	SUB	LAKSHMI NARAYAN	01-12-2012
945	JC 377126Y	SUB	LAL BIHARI	01-11-2012
946	JC 376790M	SUB	LALA SAB FAKIRA SAB	01-10-2012
			INDIGNAL	
947	JC 375901M	SUB	LALLAN PANDEY	01-10-2012
948	JC 374553K	SUB	MADAN MOHAN SINGH	01-10-2012
949	JC 377651P	SUB	MADAN PRASAD	01-12-2012
950	JC 375806A	SUB	MADHAW PANDEY	01-12-2012

951	JC 376313L	SUB	MAHABIR SINGH	01-01-2013
952	JC 377497F	SUB	MAHATAM	01-11-2012
953	JC 371158L	SUB	MAHAVIR SINGH	01-11-2012
954	JC 377297A	SUB	MAHENDER PRASAD SINGH	05-09-2012
955	JC 377277X	SUB	MAHENDRA SINGH	01-11-2012
956	JC 373433Y	SUB	MAHES SINGH	01-01-2013
957	JC 376239P	SUB	MAHILESH KUMAR	01-01-2013
958	JC 377249L	SUB	MOHAMED BASHEER A	01-01-2013
959	JC 377134X	SUB	MOHAN CHAND	01-12-2012
960	JC 375963M	SUB	MOHINDER SINGH	01-10-2012
961	JC 374632M	SUB	MOHINDER SINGH GUPTA	01-01-2013
962	JC 377958F	SUB	MOH KUMAR	01-11-2012
963	JC 374967W	SUB	MAKENDRA NARAYAN ROY	01-10-2012
964	JC 372059P	SUB	MARESH CHANDER	01-10-2012
965	JC 378436W	SUB	MARESH PAUL	01-12-2012
966	JC 377609W	SUB	NARINDER SINGH	01-09-2012
967	JC 376148L	SUB	NAEK MOHD	01-01-2013
968	JC 377125W	SUB	OM DUTT SHARMA	01-11-2012
969	JC 375047I	SUB	OM PRAKASH	01-09-2012
970	JC 377437M	SUB	P. SANTHANAM	01-09-2012
971	JC 370502Y	SUB	PADAM SINGH	01-11-2012
972	JC 377588L	SUB	PANCHU RAM	01-12-2012
973	JC 372922X	SUB	PARAMANANDA PANDA	01-01-2013
974	JC 376240L	SUB	PARTAP SINGH	01-01-2013
975	JC 375094W	SUB	PATIL VIJAY SINGH BHIM SINGH	01-01-2013
976	JC 375908W	SUB	PHUL SINGH	01-01-2013
977	JC 370239Y	SUB	PIAR CHAND	01-12-2012
978	JC 377311M	SUB	PRAFULLA KUMAR JENI	01-10-2012
979	JC 376648H	SUB	PRAMOD KUMAR PAL	01-09-2012
980	JC 370233X	SUB	PRANABANDHU PRADHAN	01-10-2012
981	JC 375869H	SUB	PREM SINGH	01-09-2012
982	JC 376107F	SUB	PRITHVI SINGH	01-10-2012
983	JC 373253W	SUB	PURUSHOTAMA NAYAK	01-10-2012
984	JC 376115A	SUB	R RAVI	01-12-2012
985	JC 375777W	SUB	RABINDRA PRASAD	01-01-2013
986	JC 376715H	SUB	RADHA MOHAN SINGH	01-12-2012
987	JC 377060N	SUB	RADHAKRISHNA SUDAN	01-12-2012
988	JC 374872W	SUB	RADHEY LAL	01-10-2012
989	JC 369594K	SUB	RADHEY SHYAM	01-12-2012
990	JC 370513M	SUB	RAGHUVENDER SENGH CHENDEL	01-09-2012
991	JC 375747F	SUB	RAI SINGH	01-11-2012
992	JC 377013X	SUB	RAJA RAO	01-01-2013
993	JC 375498J	SUB	RAJAN Y	01-10-2012
994	JC 377033Y	SUB	RAJBIR	01-10-2012
995	JC 376144L	SUB	RAJBIR	01-12-2012
996	JC 375919I	SUB	RAJENDER SENGH	01-11-2012
997	JC 377123L	SUB	RAJENDER SINGH	01-11-2012

998	JC 373256K	SUB	RAJESH KUMAR	01-11-2012
999	JC 378127N	SUB	RAJESH KUMAR	01-10-2012
1000	JC 377607L	SUB	RAJPAL SINGH	01-11-2012
1001	JC 376088F	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-12-2012
1002	JC 376302Y	SUB	RAM BRIKSH SINGH YADAV	01-01-2013
1003	JC 375842L	SUB	RAM CHANDRA	01-12-2012
1004	JC 374935N	SUB	RAM CHARAN	01-01-2013
1005	JC 377963L	SUB	RAM DATT	01-09-2012
1006	JC 376404P	SUB	RAM KUMAR	01-01-2013
1007	JC 376201L	SUB	RAM NIWAS VAISHNAV	01-12-2012
1008	JC 367956F	SUB	RAM PRAKASH	01-01-2013
1009	JC 375448A	SUB	RAM PRATAP TIWARI	01-01-2013
1010	JC 374092L	SUB	RAM SINGH	01-01-2013
1011	JC 376211P	SUB	RAMA SHANKER YADAV	01-09-2012
1012	JC 376615X	SUB	RAMHIT	01-09-2012
1013	JC 373024L	SUB	RAMLAL VARMA	01-12-2012
1014	JC 377351N	SUB	RAMLUBHAYA	01-09-2012
1015	JC 372923A	SUB	RANBIR SINGH	01-01-2013
1016	JC 375660X	SUB	RASH BIHARI SINGH	01-01-2013
1017	JC 374445A	SUB	REWATI PRASAD	01-10-2012
1018	JC 376497P	SUB	ROHTASH KUMAR	01-10-2012
1019	JC 372925L	SUB	ROMESH KUMAR	01-01-2013
1020	JC 374043H	SUB	S AROKIADOSS	01-11-2012
1021	JC 375957Y	SUB	S THAMBI RAJ	01-10-2012
1022	JC 376535A	SUB	SADHU RAM PUNDIR	01-10-2012
1023	JC 375840A	SUB	SAGAR MAL	01-09-2012
1024	JC 375988Y	SUB	SASIN A	01-12-2012
1025	JC 373385K	SUB	SASIMOHANAN AV	01-12-2012
1026	JC 376352K	SUB	SAT PAL	01-01-2013
1027	JC 377601K	SUB	SATISH CHANDRA YADAV	01-10-2012
1028	JC 374996L	SUB	SATISH KUMAR	01-12-2012
1029	JC 374787N	SUB	SATYA PRAKASH	01-10-2012
1030	JC 370235H	SUB	SATYAVIR SINGH	01-10-2012
1031	JC 372015X	SUB	SAYAM LAL	01-10-2012
1032	JC 376275A	SUB	SHASHI KANT OJHA	01-01-2013
1033	JC 376468L	SUB	SHEP SHIVAJI NARAYAN RAO	01-10-2012
1034	JC 375637K	SUB	SHISH RAM	01-10-2012
1035	JC 377309P	SUB	SHIV SHANKAR JHA	01-09-2012
1036	JC 377135A	SUB	SHIVJI TIWARI	01-12-2012
1037	JC 373390P	SUB	SHYAMAL KUMAR DAS	01-01-2013
1038	JC 376536H	SUB	SLOCHAN KUMAR	01-10-2012
1039	JC 377537X	SUB	STANISLAS DUNG DUNG	01-10-2012
1040	JC 375790A	SUB	SUBASH KUMAR KAUSHIK	01-11-2012
1041	JC 375661A	SUB	SUDHIR KUMAR BEHERA	01-01-2013
1042	JC 376708M	SUB	SUJAN KUMAR GARAI	01-09-2012
1043	JC 377610L	SUB	SUKHDEV SINGH	01-10-2012
1044	JC 372691M	SUB	SURAJ BHAN	01-12-2012

1045	JC 375636F	SUB	SUREE KANT TIWARY	01-10-2012
1046	JC 373257M	SUB	SURENDER KUMAR SHARMA	01-01-2013
1047	JC 376865Y	SUB	SURENDRA SINGH	01-10-2012
1048	JC 377244M	SUB	SURENDRA SINGH	01-01-2013
1049	JC 369258X	SUB	SURESH CHANDRA	01-10-2012
1050	JC 376192P	SUB	SWAMI NATH SINGH	01-12-2012
1051	JC 376380W	SUB	TAPAN CHANDRA DEBNATH	01-10-2012
1052	JC 376273P	SUB	TAPASH CHANDRA MANDAL	01-01-2013
1053	JC 377538A	SUB	TARA DATT	01-12-2012
1054	JC 376675M	SUB	UDAI SHANKAR SINGH	01-11-2012
1055	JC 373712K	SUB	UDAYBHAN SINGH	01-11-2012
1056	JC 375564H	SUB	UMA SHANKER	01-01-2013
1057	JC 376681A	SUB	UMED SINGH	01-09-2012
1058	JC 374494H	SUB	V VENKATA NAGENDRA	01-01-2013
1059	JC 372599N	SUB	VED PRAKASH SHARMA	01-12-2012
1060	JC 372486L	SUB	VIJAI KUMAR CHOUDHARY	01-01-2013
1061	JC 375373N	SUB	VIJAY SINGH YADAV	01-01-2013
1062	JC 376910A	SUB	VIJAYA CHANDRAN A	01-01-2013
1063	JC 375981P	SUB	VIJENDER KUMAR	01-10-2012
1064	JC 376400Y	SUB	VIRENDER SINGH	01-01-2013
1065	JC 369047P	SUB	VIRENDRA PRASAD	01-01-2013
1066	JC 376077P	SUB	Y KEDAR ESWAR	01-10-2012
1067	JC 376395Y	SUB	YAMUNA SHANKAR TRIVEDI	01-11-2012
1068	JC 377300A	SUB	YOGENDRA KUMAR	01-12-2012
1069	JC 376216N	SUB	YOGENDRA SINGH	01-01-2013

#### **THE BRIGADE OF GUARDS**

1070	JC 403487X	SUB	AKHLESH KUMAR	01-12-2012
1071	JC 403858P	SUB	ALOIS XAXA	01-09-2012
1072	JC 403052P	SUB	AMAR CHANDRA	01-12-2012
1073	JC 403953F	SUB	AMRIT NARAYAN KUMAR	01-10-2012
1074	JC 404046N	SUB	ANAND PURI	01-11-2012
1075	JC 403512L	SUB	CHAND SINGH	01-10-2012
1076	JC 403576W	SUB	GIRDHARI LAL	01-11-2012
1077	JC 403963L	SUB	GOMATI SINGH	01-11-2012
1078	JC 404138A	SUB	GOPI CHAND	01-09-2012
1079	JC 403199L	SUB	GULAB CHAND SINGH YADAV	01-01-2013
1080	JC 403744K	SUB	KULBIR SINGH	01-12-2012
1081	JC 403577Y	SUB	LAKSHMI KANT	01-11-2012
1082	JC 404231F	SUB	MAJAR SINGH	01-12-2012
1083	JC 403312P	SUB	MANINDER SINGH	01-09-2012
1084	JC 402941A	SUB	MD AZHER ALI	01-10-2012
1085	JC 403839K	SUB	NARENDER SINGH	01-11-2012
1086	JC 403930A	SUB	NARESH SINGH	01-11-2012
1087	JC 403566M	SUB	NARPAT SINGH	01-11-2012
1088	JC 403605A	SUB	NETRA PAL	01-12-2012
1089	JC 403421F	SUB	PRATAP SINGH	01-11-2012



1090	JC 402875H	SUB	PREM BALLABH BHATT	01-12-2012
1091	JC 403209K	SUB	RAJENDRA PRASAD CHATURVEDI	01-10-2012
1092	JC 403514W	SUB	RAJPAL SINGH CHAHAR	01-12-2012
1093	JC 403882L	SUB	RAM NIWAS	01-11-2012
1094	JC 403657W	SUB	RAM PRAKASH SINGH YADAV	01-09-2012
1095	JC 403503K	SUB	RANBIR	01-09-2012
1096	JC 404235X	SUB	ROHITAS YADAV	01-10-2012
1097	JC 403618X	SUB	SAMAY SINGH	01-12-2012
1098	JC 403741W	SUB	SHER SINGH	01-11-2012
1099	JC 404232K	SUB	SHIV DUTT SHARMA	01-12-2012
1100	JC 403531W	SUB	SHIV SHANKAR	01-12-2012
1101	JC 403586A	SUB	SURESH CHANDRA	01-12-2012
1102	JC 403437M	SUB	SURESH SINGH	01-12-2012
1103	JC 403587H	SUB	UMA SHANKAR SINGH	01-11-2012
1104	JC 403467K	SUB	VIJAY KUMAR SHARMA	01-11-2012
1105	JC 404256N	SUB	VIRESH KUMAR SHARMA	01-12-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

1106	JC 413253F	SUB	AJMER SINGH	01-09-2012
1107	JC 412972N	SUB	ANUP RAI	01-01-2013
1108	JC 413106Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-11-2012
1109	JC 413100X	SUB	DIPAK SINGH	01-12-2012
1110	JC 412969N	SUB	HEM RAJ	01-12-2012
1111	JC 412919H	SUB	JAGDISH KUMAR	01-10-2012
1112	JC 412945K	SUB	KARTAR SINGH	01-11-2012
1113	JC 413101A	SUB	MANJEET SINGH	01-11-2012
1114	JC 413084L	SUB	NANDA BALLABH	01-12-2012
1115	JC 413046P	SUB	RABINDER KUMAR	01-10-2012
1116	JC 412980M	SUB	RAM NIWAS SAKERWAR	01-10-2012
1117	JC 413062M	SUB	SUMER SINGH	01-11-2012

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

1118	JC 420477K	SUB	AJMER SINGH	01-11-2012
1119	JC 419466L	SUB	AKHILA KUMAR PATI	01-09-2012
1120	JC 420384P	SUB	AMAR SINGH	01-09-2012
1121	JC 420516X	SUB	AMAR SINGH	01-01-2013
1122	JC 420694A	SUB	AMAR SINGH	01-12-2012
1123	JC 421124W	SUB	AMAR SINGH RAWAT	01-11-2012
1124	JC 420031P	SUB	AMIN CHAND	01-01-2013
1125	JC 420350F	SUB	ANIL KUMAR	01-11-2012
1126	JC 419518W	SUB	ARVAN KUMAR	01-11-2012
1127	JC 420213H	SUB	ASHA RAM	01-01-2013
1128	JC 420715L	SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2013
1129	JC 419919L	SUB	BABU LAL	01-10-2012
1130	JC 419959M	SUB	BABU LAL	01-10-2012
1131	JC 420594P	SUB	BABU RAJAN KS	01-12-2012

1132	JC 420161X	SUB	BAL BAHADUR	01-09-2012
1133	JC 420208X	SUB	BALIJT SINGH	01-12-2012
1134	JC 420140F	SUB	BASAVARAJ NANDI	01-01-2013
1135	JC 420195L	SUB	BHARAT SINGH	01-10-2012
1136	JC 420095A	SUB	BHIKHAM CHAND	01-12-2012
1137	JC 420664H	SUB	BHUP SINGH	01-10-2012
1138	JC 419787H	SUB	BIKRAM SENGH	01-01-2013
1139	JC 420600X	SUB	BIKRAM SINGH	01-09-2012
1140	JC 420713A	SUB	BIR SINGH	01-01-2013
1141	JC 419942Y	SUB	BIRBAL SINGH DHAKA	01-09-2012
1142	JC 420568N	SUB	BUDDI BAHADUR GURUNG	01-12-2012
1143	JC 420530K	SUB	CHENNAPAN A	01-01-2013
1144	JC 420935P	SUB	CHIDIPOTHI TIRUPATHI	01-01-2013
1145	JC 419893F	SUB	CHRISTU DAS A	01-01-2013
1146	JC 419608X	SUB	DALBIR	01-01-2013
1147	JC 420668Y	SUB	DESH RAJ	01-01-2013
1148	JC 420216W	SUB	DEVANAND SHARMA	01-10-2012
1149	JC 420396K	SUB	DHARMA NAND BHATT	01-01-2013
1150	JC 420043K	SUB	DHOOP SINGH	01-09-2012
1151	JC 419936L	SUB	DIGAMBER SINGH	01-09-2012
1152	JC 420663A	SUB	GAVAR SINGH	01-10-2012
1153	JC 419226N	SUB	GOVIND RAM	01-09-2012
1154	JC 420209A	SUB	HANS NATH	01-01-2013
1155	JC 420534A	SUB	HARBANS LAI	01-11-2012
1156	JC 419680N	SUB	HEM LAL	01-09-2012
1157	JC 420472L	SUB	HEM RAJ	01-09-2012
1158	JC 420621N	SUB	HEMA RAM JAT	01-10-2012
1159	JC 420981K	SUB	HOM BAHADUR THAPA	01-01-2013
1160	JC 420275H	SUB	HOSHIYAR SINGH JETHI	01-01-2013
1161	JC 420246N	SUB	INDER PRASAD	01-09-2012
1162	JC 420457W	SUB	JAGAT SINGH	01-01-2013
1163	JC 420030M	SUB	JAGDISH RAM	01-11-2012
1164	JC 421382W	SUB	JASWANTH SINGH	01-01-2013
1165	JC 419938W	SUB	JOGINI R SINGH	01-10-2012
1166	JC 420361N	SUB	KAIT GOVIND SINGH	01-11-2012
			GULABA SINGH	
1167	JC 419939Y	SUB	KAMAL SINGH	01-10-2012
1168	JC 420302F	SUB	KANHLAIYA SINGH	01-09-2012
1169	JC 419619K	SUB	KARAN SINGH	01-12-2012
1170	JC 420618N	SUB	KARTAR SINGH	01-10-2012
1171	JC 418790W	SUB	KRISHAN KUMAR	01-11-2012
1172	JC 420509F	SUB	KULDEEP	01-01-2013
1173	JC 420449X	SUB	KULDIP SINGH	01-12-2012
1174	JC 420371X	SUB	KUWAR PAL SINGH	01-01-2013
1175	JC 420444Y	SUB	LALA RAM	01-10-2012
1176	JC 420637Y	SUB	LOTAN SINGH	01-10-2012
1177	JC 420062P	SUB	MADAN LAL	01-10-2012

1178	JC 420327N	SUB	MADAN SINGH	01-01-2013
1179	JC 420440H	SUB	MAHENDER SINGH RATHORE	01-10-2012
1180	JC 420187M	SUB	MALKHAN SINGH	01-09-2012
1181	JC 419637M	SUB	MAN MOHAN SINGH	01-09-2012
1182	JC 419510K	SUB	MAN SINGH	01-09-2012
1183	JC 420660M	SUB	MAN SINGH	01-11-2012
1184	JC 419669P	SUB	MASIDWAR TUKARAM NARSAYYA	01-10-2012
1185	JC 420336P	SUB	MINT RAJ SINGH	01-11-2012
1186	JC 420221F	SUB	MOHAN SINGH	01-09-2012
1187	JC 420045P	SUB	MONAPA PATIL	01-10-2012
1188	JC 420317K	SUB	NAND LAL	01-01-2013
1189	JC 420251Y	SUB	OM PRAKASH	01-01-2013
1190	JC 420256X	SUB	OM PRAKASH	01-01-2013
1191	JC 420482P	SUB	PARBHAT SINGH	01-11-2012
1192	JC 420235F	SUB	PARKASH CHAND	01-11-2012
1193	JC 420613P	SUB	PARKASH CHAND	01-11-2012
1194	JC 420029X	SUB	PRADIP KUMAR JAISWAL	01-01-2013
1195	JC 419844Y	SUB	PRAKASH CHAND	01-01-2013
1196	JC 420453A	SUB	PURNA SINGH GURUNG	01-12-2012
1197	JC 420408N	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-09-2012
1198	JC 420596A	SUB	RAJ KISHOR SAMAL	01-01-2013
1199	JC 420524W	SUB	RAJ KUMAR	01-11-2012
1200	JC 420622W	SUB	RAJENDER	01-01-2013
1201	JC 419534N	SUB	RAJENDER SINGH	01-09-2012
1202	JC 420527K	SUB	RAJENDRA KUMAR	01-10-2012
1203	JC 420287X	SUB	RAJENDRA SINGH PAL	01-11-2012
1204	JC 420565A	SUB	RAJINDER KUMAR MEHTA	01-10-2012
1205	JC 420220Y	SUB	RAJPAL	01-01-2013
1206	JC 420702N	SUB	RAM CHANDER	01-01-2013
1207	JC 420420P	SUB	RAM DARSHAN SHUKLA	01-10-2012
1208	JC 420348K	SUB	RAM DAS SHARMA	01-01-2013
1209	JC 419866X	SUB	RAM KISHAN	01-11-2012
1210	JC 420079H	SUB	RAM NIWAS	01-09-2012
1211	JC 420514M	SUB	RAM SINGH	01-01-2013
1212	JC 419909F	SUB	RAMA SHANKAR DWIVEDI	01-11-2012
1213	JC 420342H	SUB	RAMAN LAL DAYAL	01-09-2012
1214	JC 420552H	SUB	RAMESH	01-01-2013
1215	JC 420059P	SUB	RAMESH CHAND	01-01-2013
1216	JC 419700W	SUB	RAMESH CHANDER	01-12-2012
1217	JC 419573M	SUB	RAMESH KUMAR	01-11-2012
1218	JC 420382K	SUB	RANBIR SINGH	01-09-2012
1219	JC 420714H	SUB	RAVI SINGH	01-01-2013
1220	JC 421301L	SUB	RAVINDRAN NAIR KS	01-01-2013
1221	JC 419743L	SUB	SANTOSH KUMAR SINGH	01-10-2012
1222	JC 420107K	SUB	SATPAL SINGH	01-01-2013
1223	JC 420466X	SUB	SHIRKE MOHAN BAJIRAO	01-12-2012

1224	JC 420834F	SUB	SHIV CHAND MAHTO	01-10-2012
1225	JC 419830Y	SUB	SHIVA PUTRAPPA IRAPPA	01-10-2012
1226	JC 420072Y	SUB	SHYAM MOHAN	01-09-2012
1227	JC 420499H	SUB	SUJIT KUMAR PAL	01-01-2013
1228	JC 420357L	SUB	SUKHBIR SINGH	01-01-2013
1229	JC 420193A	SUB	SUKHBIR SINGH CHAUHAN	01-01-2013
1230	JC 420659X	SUB	SUKHVIR SINGH	01-10-2012
1231	JC 420082H	SUB	SUKRAM PAL	01-11-2012
1232	JC 419715Y	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2013
1233	JC 420154F	SUB	SURESH KUMAR	01-11-2012
1234	JC 420379K	SUB	SURINDER SINGH	01-01-2013
1235	JC 420611K	SUB	SURINDER SINGH	01-11-2012
1236	JC 420076P	SUB	TARSEM SINGH	01-01-2013
1237	JC 420084N	SUB	TIKU RAM	01-01-2013
1238	JC 420129H	SUB	UMAP SURESH MAHADU	01-11-2012
1239	JC 420442N	SUB	VIDYA LAL	01-12-2012
1240	JC 419577H	SUB	WAZIR SINGH	01-01-2013
1241	JC 420412W	SUB	YUMNAM LOKEN SINGH	01-11-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

1242	JC 429170A	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2013
1243	JC 429058N	SUB	BALKAR SINGH	01-01-2013
1244	JC 429576N	SUB	BANKE LAL RAM	01-09-2012
1245	JC 430059H	SUB	BHUPINDER SINGH	01-10-2012
1246	JC 430026X	SUB	CHANDER PAL	01-12-2012
1247	JC 430152K	SUB	CHATTER SINGH	01-12-2012
1248	JC 429770H	SUB	DALJEET SINGH	01-09-2012
1249	JC 429406K	SUB	GURCHARAN SINGH	01-10-2012
1250	JC 429558X	SUB	GURDEEP SINGH	01-01-2013
1251	JC 430074X	SUB	HANS RAJ	01-11-2012
1252	JC 429794M	SUB	JAGIR SINGH	01-09-2012
1253	JC 429626N	SUB	JASBIR SINGH	01-09-2012
1254	JC 429066M	SUB	JASWINDER SINGH	01-01-2013
1255	JC 429250X	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2013
1256	JC 430103F	SUB	KHEYALI RAM RAINA	01-09-2012
1257	JC 429695K	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-01-2013
1258	JC 430118K	SUB	MAHER SINGH	01-11-2012
1259	JC 429097M	SUB	MANN SINGH	01-11-2012
1260	JC 430128N	SUB	PRATAP SINGH	01-12-2012
1261	JC 429784H	SUB	RAGBIR SINGH	01-12-2012
1262	JC 429999F	SUB	RAJ KUMAR	01-01-2013
1263	JC 429835L	SUB	RAJ PAL	01-12-2012
1264	JC 429948N	SUB	RAMPAL SINGH RANA	01-09-2012
1265	JC 429871W	SUB	RAN SINGH	01-01-2013
1266	JC 429683P	SUB	RANJIT SINGH	01-12-2012
1267	JC 430212N	SUB	RAVINDER KUMAR	01-01-2013
1268	JC 430231Y	SUB	SANJIB SARKAR	01-10-2012

1269	JC 429820H	SUB	SAT PAL	01-09-2012
1270	JC 429982N	SUB	SHIV KUMAR	01-12-2012
1271	JC 430142A	SUB	SIKANDER LAL	01-12-2012
1272	JC 430104K	SUB	SURINDER KUMAR	01-12-2012
1273	JC 429997W	SUB	VIRENDER SINGH	01-01-2013
1274	JC 429860K	SUB	YESH PAL SINGH	01-12-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

1275	JC 439412L	SUB	BINAY KUMAR SINGH	01-10-2012
1276	JC 439595M	SUB	BOOPALAN K	01-11-2012
1277	JC 439763A	SUB	GOPAL C	01-11-2012
1278	JC 439902Y	SUB	K RAJI REDDY	01-12-2012
1279	JC 439633X	SUB	KAMAL SINGH	01-12-2012
1280	JC 439578M	SUB	KONDREDDY GARI GANGI REDDY	01-11-2012
1281	JC 439737Y	SUB	M MAHARAJAN	01-12-2012
1282	JC 439764H	SUB	MADHAVAN PS	01-12-2012
1283	JC 439491L	SUB	MAHADEV NERLAGI	01-12-2012
1284	JC 439641W	SUB	MARUTI BHIWATI RAO POCHE	01-12-2012
1285	JC 439285F	SUB	N SHANMUGAM	01-09-2012
1286	JC 440003K	SUB	P FRANCIS XAVIER	01-01-2013
1287	JC 439368M	SUB	PETAPALLE REDDEPPA REDDY	01-01-2013
1288	JC 439123W	SUB	R SAGAYANATHAN	01-11-2012
1289	JC 439510L	SUB	RAJAN P	01-11-2012
1290	JC 438974W	SUB	RAJAPPA SP	01-09-2012
1291	JC 439740Y	SUB	T SEETHA RAMULU	01-11-2012
1292	JC 439650X	SUB	UNNIKRISHNAN PK	01-01-2013
1293	JC 439640N	SUB	V NARASIMHA REDDY	01-12-2012

**THE GRENADIERS**

1294	JC 450371M	SUB	DARSHAN KUMAR	01-01-2013
1295	JC 450117H	SUB	DHRUW SINGH	01-01-2013
1296	JC 450461N	SUB	GOPAL SINGH ATTRI	01-01-2013
1297	JC 448855N	SUB	GOVIND SINGH	01-09-2012
1298	JC 450433F	SUB	JEEVRAJ SINGH	01-09-2012
1299	JC 450457L	SUB	KAMLESH PANDIT	01-10-2012
1300	JC 450049A	SUB	KARNEL SINGH	01-01-2013
1301	JC 450280H	SUB	MAN SINGH	01-11-2012
1302	JC 450197L	SUB	NARESH KUMAR	01-10-2012
1303	JC 450079X	SUB	OM PRAKASH	01-09-2012
1304	JC 449910L	SUB	PURAN SINGH	01-09-2012
1305	JC 449528P	SUB	RAJENDRA SINGH	01-09-2012
1306	JC 449948P	SUB	RIVAN SINGH	01-01-2013
1307	JC 450519A	SUB	SIRAJUDEEN	01-12-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

1308	JC 459370L	SUB	A ISMAIL	01-11-2012
1309	JC 459199X	SUB	ALI	01-09-2012
1310	JC 459742L	SUB	DEEPAK JAIRAM CHAVAN	01-01-2013
1311	JC 459292Y	SUB	GAJRAJ SINGH	01-11-2012
1312	JC 458728M	SUB	KULAMANI BISWAL	01-09-2012
1313	JC 459775W	SUB	KUMAR GAWADE VITHAL RAMCHANDRA	01-11-2012
1314	JC 459394P	SUB	LILADHAR NATH	01-12-2012
1315	JC 459452N	SUB	MAHER BABULAL VITTHAL	01-01-2013
1316	JC 459468Y	SUB	PATIL BALKRISHNA SITARAM	01-09-2012
1317	JC 459588X	SUB	PATIL GANPATI RANGRAO	01-01-2013
1318	JC 459405W	SUB	RAMESH BABLI GAWADE	01-01-2013
1319	JC 458920W	SUB	SALIM PH	01-09-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

1320	JC 469611N	SUB	HARBIR SINGH	01-12-2012
1321	JC 469728M	SUB	HEM SINGH	01-09-2012
1322	JC 470111H	SUB	NAV RATAN SINGH TOMAR	01-12-2012
1323	JC 468947F	SUB	PRAHALAD SINGH	01-12-2012
1324	JC 470091F	SUB	PRAHLAD SINGH	01-10-2012
1325	JC 470138A	SUB	RAJ PAL	01-01-2013
1326	JC 469898W	SUB	RAM LAKHAN SINGH RATHOR	01-01-2013
1327	JC 470117K	SUB	RATAN SINGH	01-01-2013
1328	JC 469660W	SUB	SATYAVEER SINGH	01-09-2012
1329	JC 469727K	SUB	VISNU PAL SINGH	01-09-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

1330	JC 479553H	SUB	BINDA SINGH	01-10-2012
1331	JC 480099A	SUB	DAYA RAM	01-09-2012
1332	JC 479716L	SUB	GU GOVINDRAJA SANKAR	01-09-2012
1333	JC 479911H	SUB	HUKAM SINGH	01-10-2012
1334	JC 479518Y	SUB	JITENDRA SINGH	01-11-2012
1335	JC 479761X	SUB	KARAN SINGH	01-01-2013
1336	JC 479935M	SUB	KIRAN CH DAS	01-01-2013
1337	JC 479809A	SUB	NAGAR MAL	01-10-2012
1338	JC 479421P	SUB	RAJENDRA SINGH RAJPUT	01-09-2012
1339	JC 479942H	SUB	RAKESH KUMAR	01-10-2012
1340	JC 480014Y	SUB	RATI RAM	01-12-2012
1341	JC 480154L	SUB	SHAMBHU SINGH RAJAWAT	01-09-2012
1342	JC 479754F	SUB	VISHAN SINGH BHATI	01-01-2013

**THE JAT REGIMENT**

1343	JC 490187K	SUB	DAL BIR	01-10-2012
1344	JC 489729W	SUB	DEVENDER PAL	01-11-2012
1345	JC 489580A	SUB	DILBAG SINGH	01-11-2012

1346	JC 489452H	SUB	HANUMAN SINGH	01-09-2012
1347	JC 489943Y	SUB	JAGMAHENDAR	01-10-2012
1348	JC 489199M	SUB	OM PRAKASH	01-09-2012
1349	JC 489890L	SUB	RAJBIR SINGH	01-10-2012
1350	JC 490140Y	SUB	RAM NIWAS	01-09-2012
1351	JC 490004L	SUB	RAMAN LAL	01-10-2012
1352	JC 489191A	SUB	RAMJETH SINGH	01-12-2012
1353	JC 490164H	SUB	RANVIR SINGH	01-01-2013
1354	JC 489793N	SUB	SATYABIR	01-11-2012
1355	JC 489955N	SUB	SATYAVAN	01-11-2012
1356	JC 489846P	SUB	SUKH LAL	01-09-2012
1357	JC 489343W	SUB	SURESH KUMAR	01-09-2012
1358	JC 489530P	SUB	VAZIR SINGH	01-09-2012

**THE LIGHT INFANTRY**

1359	JC 509572L	SUB	ASHOK KUMAR YADAV	01-10-2012
1360	JC 508523W	SUB	BALWINDER SINGH	01-09-2012
1361	JC 509033P	SUB	BIKAR SINGH	01-10-2012
1362	JC 509043Y	SUB	CHAND SINGH	01-10-2012
1363	JC 509602X	SUB	DALBIR SINGH	01-09-2012
1364	JC 508947M	SUB	DARSHAN SINGH	01-10-2012
1365	JC 509496K	SUB	DARSHAN SINGH	01-10-2012
1366	JC 508875N	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-10-2012
1367	JC 509311X	SUB	GURDEV SINGH	01-01-2013
1368	JC 509269K	SUB	HAKAM SINGH	01-10-2012
1369	JC 508842H	SUB	HARBANS SINGH	01-09-2012
1370	JC 509335F	SUB	HIRA SINGH	01-12-2012
1371	JC 509085L	SUB	INDERJIT SINGH	01-01-2013
1372	JC 509152L	SUB	JAGTAR SINGH	01-09-2012
1373	JC 509629P	SUB	JARNAIL SINGH	01-09-2012
1374	JC 509347W	SUB	JASBIR SINGH	01-10-2012
1375	JC 509415Y	SUB	JASWANT SINGH	01-11-2012
1376	JC 508879K	SUB	JIWAN SINGH	01-10-2012
1377	JC 509213X	SUB	KARNAIL SINGH	01-10-2012
1378	JC 509542N	SUB	KARNAIL SINGH	01-01-2013
1379	JC 508798K	SUB	KASHMIR SINGH	01-09-2012
1380	JC 508773X	SUB	KULWANT SINGH	01-10-2012
1381	JC 508788A	SUB	MALKIAT SINGH	01-10-2012
1382	JC 508729N	SUB	MANJIT SINGH	01-10-2012
1383	JC 508897M	SUB	MANJIT SINGH	01-09-2012
1384	JC 509282N	SUB	MOHINDER SINGH	01-09-2012
1385	JC 508911N	SUB	MUKHTIAR SINGH	01-09-2012
1386	JC 508878F	SUB	NIRBHAI SINGH	01-10-2012
1387	JC 508938L	SUB	PARAMJIT SINGH	01-09-2012
1388	JC 509092F	SUB	RAJENDRA KISHOR SINGH	01-01-2013
1389	JC 508805P	SUB	RAM SINGH	01-09-2012
1390	JC 509437X	SUB	RAM SINGH	01-09-2012

1391	JC 509120H	SUB	RANJIT SINGH	01-10-2012
1392	JC 508917P	SUB	RESHAM SINGH	01-10-2012
1393	JC 508529X	SUB	SHER SINGH	01-10-2012
1394	JC 509109K	SUB	SUBHASH CHANDER	01-01-2013
1395	JC 508863Y	SUB	SURJIT SINGH	01-09-2012
1396	JC 509049A	SUB	TEJPAL	01-01-2013

**THE DOGRA REGIMENT**

1397	JC 520417K	SUB	ACHHAR SINGH	01-11-2012
1398	JC 520239M	SUB	BALIKARAN KUMHAR	01-10-2012
1399	JC 519768M	SUB	GOVARDHAN SINGH	01-11-2012
1400	JC 520642Y	SUB	HANS RAJ	01-11-2012
1401	JC 520723Y	SUB	OM PARKASH	01-10-2012
1402	JC 520385M	SUB	PRABHATI LAL	01-10-2012
1403	JC 520106W	SUB	PRAKASH CHAND DHIMAN	01-11-2012
1404	JC 520587N	SUB	RAJINDER SINGH	01-12-2012
1405	JC 520356X	SUB	RAKESH KUMAR	01-11-2012
1406	JC 520180X	SUB	RAKESH SINGH	01-10-2012
1407	JC 520261X	SUB	SHIV KUMAR	01-09-2012
1408	JC 520586L	SUB	SUBHASH CHAND	01-10-2012
1409	JC 520815L	SUB	SUBHASH CHAND THAKUR	01-10-2012
1410	JC 520871K	SUB	SUBHASH CHANDER	01-12-2012
1411	JC 520222Y	SUB	SUKHVIR SINGH RATHORE	01-10-2012
1412	JC 520813A	SUB	SURINDER KUMAR	01-10-2012
1413	JC 520744P	SUB	SURINDER PAUL	01-12-2012
1414	JC 520374A	SUB	SUSHIL KUMAR	01-11-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

1415	JC 530554W	SUB	ANIL KUMAR	01-11-2012
1416	JC 530178N	SUB	BALWANT SINGH	01-11-2012
1417	JC 529832M	SUB	BIJAI SINGH	01-12-2012
1418	JC 530427F	SUB	CHANDRA MOHAN	01-11-2012
1419	JC 530242A	SUB	CHANDRA PRAKASH	01-12-2012
1420	JC 530409Y	SUB	DHAM SINGH BIST	01-10-2012
1421	JC 530472N	SUB	DHAN SINGH	01-11-2012
1422	JC 530350K	SUB	DIL SINGH	01-12-2012
1423	JC 530280W	SUB	HARI KRISHANA	01-09-2012
1424	JC 530106K	SUB	HARI SINGH	01-10-2012
1425	JC 530330W	SUB	HARI SINGH	01-10-2012
1426	JC 530386H	SUB	JALAM SINGH	01-11-2012
1427	JC 530283K	SUB	JAMAN SINGH NEGI	01-12-2012
1428	JC 530768M	SUB	JEEWA NAND	01-11-2012
1429	JC 530334M	SUB	KALAM SINGH	01-01-2013
1430	JC 530379M	SUB	KHUSHAL SINGH	01-10-2012
1431	JC 530546X	SUB	LALITA PRASAD	01-10-2012
1432	JC 530304P	SUB	MADAN SINGH	01-01-2013
1433	JC 529844F	SUB	MADHWA NAND	01-11-2012



1434	JC 530553N	SUB	MAHAVEER SINGH	01-11-2012
1435	JC 530582H	SUB	MANGAL SINGH	01-01-2013
1436	JC 530667Y	SUB	NARENDRA SINGH	01-10-2012
1437	JC 530179W	SUB	NAROTTAM SINGH	01-11-2012
1438	JC 530326N	SUB	PAN SINGH	01-10-2012
1439	JC 530000X	SUB	PRATAP SINGH	01-11-2012
1440	JC 530525F	SUB	PYARE LAL	01-11-2012
1441	JC 530095H	SUB	RAKESH SINGH	01-10-2012
1442	JC 530428K	SUB	RAM CHARAN SINGH	01-12-2012
1443	JC 530141M	SUB	RAM KUMAR OLLA	01-01-2013
1444	JC 530387L	SUB	SABAR SINGH	01-01-2013
1445	JC 529668P	SUB	SAMPAT SINGH	01-09-2012
1446	JC 530169M	SUB	SULTAN SINGH	01-11-2012
1447	JC 529946X	SUB	SUNDAR SINGH	01-09-2012
1448	JC 530613X	SUB	SURENDRA LAL	01-12-2012
1449	JC 530471L	SUB	UDAY SINGH	01-09-2012
1450	JC 530475F	SUB	VIRENDRA KUMAR	01-11-2012
1451	JC 530372H	SUB	YASHWANT SINGH	01-11-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

1452	JC 539581F	SUB	ANAND SINGH JINA	01-09-2012
1453	JC 540003Y	SUB	BRIJESHWAR SINGH	01-01-2013
1454	JC 539719L	SUB	GOPAL SINGH	01-12-2012
1455	JC 540239N	SUB	HANSA DATT	01-10-2012
1456	JC 539839K	SUB	HAR SINGH	01-09-2012
1457	JC 540099M	SUB	KUNWAR SINGH	01-09-2012
1458	JC 539907M	SUB	MAHTAB SINGH	01-12-2012
1459	JC 539709F	SUB	MANBAR SINGH	01-01-2013
1460	JC 540642A	SUB	PURAN SINGH	01-12-2012
1461	JC 539860M	SUB	RAMESH SINGH RATHOUR	01-11-2012
1462	JC 540252X	SUB	SHIVENDRA SINGH	01-11-2012
1463	JC 540091A	SUB	TARA SINGH	01-01-2013
1464	JC 540118M	SUB	TARA SINGH	01-11-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

1465	JC 549638Y	SUB	ATUL CHANDRA BANIYA	01-09-2012
1466	JC 549146A	SUB	BAKUL CHANDRA SAIKIA	01-12-2012
1467	JC 549321K	SUB	BHUPENDRA KUMAR SINHA	01-12-2012
1468	JC 549461W	SUB	BIKESH KUMAR NARZARY	01-09-2012
1469	JC 549519H	SUB	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-09-2012
1470	JC 549212X	SUB	CHARAN CHANDRA DAS	01-01-2013
1471	JC 549340P	SUB	JAIBIR	01-01-2013
1472	JC 549564P	SUB	JATGAN NOKBAI	01-11-2012
1473	JC 549176X	SUB	KAILASH NATH DWIVEDI	01-10-2012
1474	JC 549587W	SUB	KHATHAK PANSA	01-11-2012
1475	JC 549300N	SUB	KLJAMES ANAL	01-01-2013
1476	JC 548904A	SUB	LP TUANG	01-12-2012

1477	JC 549297Y	SUB	MK RAMREISHING	01-12-2012
1478	JC 549302Y	SUB	NGOMAN NOKBI	01-11-2012
1479	JC 549243X	SUB	NILA KANTA DEKA	01-10-2012
1480	JC 549239P	SUB	PAOJALAM LHOUVUM	01-11-2012
1481	JC 549403M	SUB	RAJENDRA KUMAR ROY	01-01-2013
1482	JC 549324X	SUB	RONGANG KONLUN ANAL	01-01-2013
1483	JC 549373A	SUB	SAMARJIT SINHA	01-01-2013
1484	JC 549138F	SUB	UTTAM SINHA	01-09-2012
1485	JC 549446F	SUB	WANGCHAM WANGSA	01-11-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

1486	JC 559586F	SUB	BASHEER AHAMED A	01-09-2012
1487	JC 559815F	SUB	BINAY KUMAR NAYAK	01-09-2012
1488	JC 559687P	SUB	DAYANAND PRASAD	01-11-2012
1489	JC 559048N	SUB	FARAM MUNDA	01-12-2012
1490	JC 559536W	SUB	HARIHAR PRASAD RAI	01-09-2012
1491	JC 559455W	SUB	HIRA LAL YADAV	01-11-2012
1492	JC 559197F	SUB	JAMADAR SOREN	01-10-2012
1493	JC 559739A	SUB	LALAN YADAV	01-01-2013
1494	JC 559456Y	SUB	VIDYA NAND PRASAD YADAV	01-09-2012

**THE MAHAR REGIMENT**

1495	JC 569321L	SUB	SURWASE VIJAYANAND LAXMAN	01-12-2012
1496	JC 569514L	SUB	BAKSHISH SINGH	01-09-2012
1497	JC 569390F	SUB	DARSHAN SINGH	01-10-2012
1498	JC 569517Y	SUB	JAGTAP DATTU SOPAN	01-10-2012
1499	JC 569256W	SUB	JANGBIR SINGH	01-12-2012
1500	JC 568989H	SUB	JEET SINGH	01-12-2012
1501	JC 569482N	SUB	KAMBLE SHIV LING MANIK	01-12-2012
1502	JC 569375M	SUB	LILA DHAR	01-10-2012
1503	JC 569336N	SUB	NALVADE CHANDRAKANT RAJARAM	01-12-2012
1504	JC 570012P	SUB	NITYANAND	01-11-2012
1505	JC 569788W	SUB	OM PRAKASH SINGH	01-12-2012
1506	JC 569311F	SUB	PARGAT SINGH	01-12-2012
1507	JC 569308F	SUB	PREM SINGH	01-12-2012
1508	JC 569300P	SUB	PURUSHOTTAM SINGH	01-10-2012
1509	JC 570015H	SUB	RAGHUNATH PRASAD	01-01-2013
1510	JC 569942K	SUB	RAJENDRA SINGH	01-09-2012
1511	JC 569943M	SUB	RAJENDRA SINGH	01-12-2012
1512	JC 569382H	SUB	SAHDEO BABURAO KATE	01-12-2012
1513	JC 569703P	SUB	SAMUNDER SINGH	01-11-2012
1514	JC 569325F	SUB	SATISH KUMAR	01-10-2012
1515	JC 569733M	SUB	SATYABIR SINGH	01-10-2012
1516	JC 570311N	SUB	SATYAPAL	01-09-2012
1517	JC 569339F	SUB	SHRIKANT PANDAY	01-09-2012

1518	JC 569479N	SUB	SOBAN SINGH	01-12-2012
1519	JC 569018K	SUB	SUBHASH SHANKAR PAWAR	01-09-2012
1520	JC 569221A	SUB	YADU NATH SINGH	01-09-2012
1521	JC 569572P	SUB	YASHWANT SINGH BHANDARI	01-10-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

1522	JC 580015W	SUB	BALDEV SINGH	01-10-2012
1523	JC 580239W	SUB	DEEPAK KUMAR MAL	01-11-2012
1524	JC 580452W	SUB	KEHAR SINGH	01-01-2013
1525	JC 580001W	SUB	KRISHNA BAHADUR RANA	01-09-2012
1526	JC 580225W	SUB	PRITAM CHAND	01-11-2012
1527	JC 579905K	SUB	RAJ KUMAR	01-09-2012
1528	JC 580673H	SUB	SAT PAL SINGH	01-09-2012
1529	JC 580050Y	SUB	SHIV DARSHAN SINGH	01-09-2012
1530	JC 580392M	SUB	SUBHASH KUMAR	01-09-2012
1531	JC 580028N	SUB	SURESH KUMAR THAPA	01-11-2012
1532	JC 580257Y	SUB	TAK BAHADUR	01-11-2012
1533	JC 580072X	SUB	TIKA RAM CHHETRI	01-11-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

1534	JC 588194W	SUB	AMAR SINGH	01-11-2012
1535	JC 588193N	SUB	CHHERING DORJE	01-10-2012
1536	JC 588311W	SUB	CHHEWANG MUTUP	01-10-2012
1537	JC 588271A	SUB	CHHEWANG CHAMBA	01-10-2012
1538	JC 588277F	SUB	DORJE PHUNCHOK	01-01-2013
1539	JC 588215F	SUB	KEHAR SINGH	01-11-2012
1540	JC 588300K	SUB	KRISHAN LAL	01-11-2012
1541	JC 588253X	SUB	LOBZANG DORJE	01-10-2012
1542	JC 588250K	SUB	MOHD RAZA	01-01-2013
1543	JC 588356W	SUB	PALDAN DAWA	01-09-2012
1544	JC 588222X	SUB	PARSHOTAM LAL SHARMA	01-12-2012
1545	JC 588177W	SUB	PHINCHOK NAMGIAL	01-11-2012
1546	JC 588243N	SUB	SHAM LAL	01-11-2012
1547	JC 588263F	SUB	SMANLA DORJE	01-09-2012
1548	JC 588270X	SUB	SONAM PALDAN	01-01-2013
1549	JC 588192L	SUB	TASHI ANGCHOK	01-10-2012
1550	JC 588284X	SUB	TASHI ANGCHOK	01-12-2012
1551	JC 588355N	SUB	TASHI ANGDU	01-09-2012
1552	JC 588335A	SUB	THUKJE SANDUP	01-10-2012
1553	JC 588334X	SUB	TSERING MURUP	01-10-2012
1554	JC 588223A	SUB	VIJAY SINGH JASROTIA	01-12-2012

**THE NAGA REGIMENT**

1555	JC 590169W	SUB	K HEKHUVI SEMA	01-10-2012
1556	JC 590184L	SUB	MUNNA SINGH TAHPA	01-11-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

1557	JC 593246L	SUB	AB GANI BHAT	01-01-2013
1558	JC 593363W	SUB	ABDUL SATTAR NAJAR	01-11-2012
1559	JC 593418P	SUB	CHAIN SINGH	01-12-2012
1560	JC 592949A	SUB	CHAMAN LAL	01-11-2012
1561	JC 593070L	SUB	CHAMAN LAL	01-11-2012
1562	JC 593185Y	SUB	GHARA LAL	01-12-2012
1563	JC 593391H	SUB	GIRDHARI LAL	01-01-2013
1564	JC 593680X	SUB	HAQ NIWAZ	01-11-2012
1565	JC 592755X	SUB	JAGDEV SINGH	01-10-2012
1566	JC 593094P	SUB	JAGDISH LAL	01-12-2012
1567	JC 593081X	SUB	JASBIR SINGH	01-12-2012
1568	JC 593405X	SUB	JOGINDER SINGH	01-11-2012
1569	JC 593265W	SUB	KAMAL JIT SINGH	01-11-2012
1570	JC 593233N	SUB	KEWAL SINGH	01-12-2012
1571	JC 593449P	SUB	KULDEEP RAJ	01-12-2012
1572	JC 593448M	SUB	MOHD AKBAR GANAI	01-11-2012
1573	JC 593212X	SUB	MOHD ASGER	01-11-2012
1574	JC 593674K	SUB	MOHD ISHFAQ	01-11-2012
1575	JC 593043F	SUB	MOHD SADEEQ	01-11-2012
1576	JC 593339A	SUB	NARAIN DUTT	01-11-2012
1577	JC 593607Y	SUB	NASIB SINGH	01-10-2012
1578	JC 593643K	SUB	NASREEN AHMED MIR	01-01-2013
1579	JC 593044K	SUB	NATHU RAM	01-11-2012
1580	JC 593222F	SUB	OMKAR SINGH	01-12-2012
1581	JC 593006N	SUB	PARTAP SINGH	01-11-2012
1582	JC 593135N	SUB	PAWAN KUMAR	01-12-2012
1583	JC 593346W	SUB	PRITAM SINGH	01-11-2012
1584	JC 593296W	SUB	PROSHTAM LAL	01-01-2013
1585	JC 593617H	SUB	RAHMATULLAH KHAN	01-11-2012
1586	JC 593193X	SUB	RAJ KUMAR	01-11-2012
1587	JC 593257X	SUB	RAJESH KUMAR	01-09-2012
1588	JC 593718W	SUB	RAJINDER SINGH	01-11-2012
1589	JC 593305M	SUB	RAM LAL SHARMA	01-12-2012
1590	JC 592992F	SUB	RAMESH SINGH	01-10-2012
1591	JC 593867K	SUB	RESHI KUMAR	01-01-2013
1592	JC 593245H	SUB	ROMESH CHANDER	01-12-2012
1593	JC 593016X	SUB	RUKM PAL SINGH CHAUHAN	01-12-2012
1594	JC 592634W	SUB	SAT PAL	01-11-2012
1595	JC 593005L	SUB	SHABIR AHMED	01-11-2012
1596	JC 593264N	SUB	SHANTI SAROOP	01-11-2012
1597	JC 593342A	SUB	SUBASH CHANDER	01-12-2012
1598	JC 593071N	SUB	SUKHDEV SINGH	01-11-2012
1599	JC 592624M	SUB	SURINDER SINGH	01-10-2012
1600	JC 593220W	SUB	TARIQ MEHMOOD	01-11-2012
1601	JC 593340P	SUB	VIJAY KUMAR	01-11-2012

1602 JC 593638Y

SUB

YASH PAUL

01-01-2013

1603 JC 593167W

SUB

ZAFFER IQBAL

01-11-2012

**1 GORKHA RIFLES**

1604 JC 602653X

SUB

AITAMAN GURUNG

01-11-2012

1605 JC 602674N

SUB

BHAGI MAN GURUNG

01-01-2013

1606 JC 602597K

SUB

BHIM BAHADUR THAPA

01-01-2013

1607 JC 602662Y

SUB

BIR BAHADUR GURUNG

01-09-2012

1608 JC 602685A

SUB

CHAKRA BAHADUR RANA

01-01-2013

1609 JC 602781P

SUB

CHAKRA BAHADUR THAPA

01-10-2012

1610 JC 602681K

SUB

GAGAN SINGH THAPA MAGAR

01-10-2012

1611 JC 602675W

SUB

HIRA BAHADUR THAPA

01-01-2013

1612 JC 602742W

SUB

JAGDISH SINGH

01-11-2012

1613 JC 602661W

SUB

JIT BAHADUR THAPA

01-10-2012

1614 JC 602709Y

SUB

KUM BAHADUR THAPA

01-09-2012

1615 JC 602650K

SUB

LAL BAHADUR GURUNG

01-09-2012

1616 JC 602690L

SUB

MALIKHAN SINGH

01-09-2012

1617 JC 602651M

SUB

MANOJ KUMAR SHRESTHA

01-12-2012

1618 JC 602630W

SUB

MEKH BAHADUR THAPA

01-09-2012

1619 JC 602715M

SUB

NA PRASAD PUN

01-01-2013

1620 JC 602541X

SUB

NAGENDRA MALL

01-12-2012

1621 JC 602560H

SUB

NIRANJAN THAPA

01-12-2012

1622 JC 602652P

SUB

RUK BAHADUR GURUNG

01-09-2012

1623 JC 602668A

SUB

SANJAY KUMAR GURUNG

01-12-2012

1624 JC 602592L

SUB

TUL BAHADUR THAPA

01-12-2012

**3 GORKHA RIFLES**

1625 JC 607592P

SUB

AITA MAN GURUNG

01-11-2012

1626 JC 607624M

SUB

DHAN PRASAD PUN

01-01-2013

1627 JC 607551L

SUB

MAN BAHADUR THAPA

01-11-2012

1628 JC 607714N

SUB

NARESH KUMAR GURUNG

01-09-2012

1629 JC 607585Y

SUB

PAM BAHADUR GURUNG

01-09-2012

1630 JC 607633N

SUB

RAM DHANI YADAV

01-09-2012

1631 JC 607636F

SUB

SURENDRA SINGH PUNDIR

01-09-2012

1632 JC 607536W

SUB

TARK BAHADUR ROKA

01-12-2012

**4 GORKHA RIFLES**

1633 JC 612542N

SUB

BUDHIMAN GURUNG

01-09-2012

1634 JC 612563K

SUB

HUM BAHADUR GURUNG

01-12-2012

1635 JC 612651A

SUB

MAH BAHADUR GURUNG

01-09-2012

1636 JC 612540H

SUB

MINGMA TENZEE SHERPA

01-01-2013

1637 JC 612583X

SUB

PITAMBAR ALE

01-10-2012

1638 JC 612560W

SUB

RESHAM BAHADUR THAPA

01-11-2012

1639 JC 612482K

SUB

TAM BAHADUR GURUNG

01-11-2012

1640 JC 612575Y

SUB

VIJAY GURUNG

01-12-2012

**5 GORKHA RIFLES**

1641	JC 617702M	SUB	BUDHI PRASAD GURUNG	01-12-2012
1642	JC 617700F	SUB	DAN BAHADUR SINGH	01-09-2012
1643	JC 617765F	SUB	DEB BAHADUR MAGAR	01-09-2012
1644	JC 617699X	SUB	DIL BAHADUR GURUNG	01-09-2012
1645	JC 617688L	SUB	DURGA BAHADUR GURUNG	01-12-2012
1646	JC 617701K	SUB	INDRA BAHADUR THAPA	01-11-2012
1647	JC 617660L	SUB	KALYAN GURUNG	01-01-2013
1648	JC 617812F	SUB	MAIT BAHADUR PUN	01-01-2013
1649	JC 617716M	SUB	RURDRA BAHADUR GURUNG	01-12-2012
1650	JC 617795M	SUB	TEJ BAHADUR KHAMCHA	01-11-2012
1651	JC 617799H	SUB	TOP BAHADUR THAPA	01-11-2012
1652	JC 617687H	SUB	VIJAY GURUNG	01-12-2012

**8 GORKHA RIFLES**

1653	JC 623571H	SUB	BAL BAHADUR ALE	01-11-2012
1654	JC 623588K	SUB	CHANDRA MAN GURUNG	01-01-2013
1655	JC 623728X	SUB	GAM BAHADUR GURUNG	01-01-2013
1656	JC 623583X	SUB	HOM BAHADUR GURUNG	01-10-2012
1657	JC 623557W	SUB	NANDA LAL GURUNG	01-09-2012
1658	JC 623752N	SUB	PUSHKAR CHAND	01-10-2012
1659	JC 623765L	SUB	SURENDRA SINGH THAPA	01-10-2012
1660	JC 623703L	SUB	THAM BAHADUR GURUNG	01-10-2012
1661	JC 530646H	SUB	VINOD SINGH	01-01-2013

**9 GORKHA RIFLES**

1662	JC 629454N	SUB	ARJUN BHADUR THAPA	01-12-2012
1663	JC 629741X	SUB	ASHOK BAHADUR KHATTRI CHHETRI	01-01-2013
1664	JC 629736M	SUB	BASANT BAHADUR BANIYA	01-09-2012
1665	JC 629702Y	SUB	BISHNU BAHADUR CHHETRI	01-09-2012
1666	JC 629726H	SUB	BISNU BAHADUR SHAHI	01-10-2012
1667	JC 629738X	SUB	CHANDRA BAHADUR MALL	01-11-2012
1668	JC 629752K	SUB	CHET BAHADUR THAPA	01-11-2012
1669	JC 629840A	SUB	DAN BAHADUR CHHETRY	01-09-2012
1670	JC 629814Y	SUB	DEV BAHADUR MALL	01-11-2012
1671	JC 629704K	SUB	DHOR BAHADUR RIMAL	01-11-2012
1672	JC 629784M	SUB	GAM BAHADUR MALLA	01-09-2012
1673	JC 629737P	SUB	GOBIND BAHADUR CHHETRI	01-10-2012
1674	JC 629739A	SUB	HUM BAHADUR RAI MAJHI	01-11-2012
1675	JC 629852P	SUB	INDRA KUMAR THAPA	01-12-2012
1676	JC 629755X	SUB	JHAK BAHADUR BASNET	01-01-2013
1677	JC 629620W	SUB	KHEM BAHADUR KC	01-11-2012
1678	JC 629839L	SUB	LAXMAN PARAJULI	01-09-2012
1679	JC 629729W	SUB	MAHENDRA BAHADUR MALDA	01-10-2012
1680	JC 629884X	SUB	MUKTI BAHADUR KC	01-01-2013

1681	JC 629845Y	SUB	PREM BAHADUR SHAHI	01-12-2012
1682	JC 629740P	SUB	RAM BAHADUR BHANDARI	01-11-2012
1683	JC 629751F	SUB	RESHAM BAHADUR BASNET	01-09-2012
1684	JC 629787A	SUB	TEK BHADUR THAPA	01-09-2012

**11 GORKHA RIFLES**

1685	JC 634667L	SUB	BINDA PRASAD RAI	01-12-2012
1686	JC 634425H	SUB	BISHNU RAJ RAI	01-12-2012
1687	JC 634656Y	SUB	BISHWA RAJ FOMBHO	01-01-2013
1688	JC 634733H	SUB	BOLI RAJ SAMBAMBHE	01-11-2012
1689	JC 634757M	SUB	CHANDRA PRASAD THALANG	01-09-2012
1690	JC 634665A	SUB	DHAN RAJ LIMBU	01-11-2012
1691	JC 634670L	SUB	DILLI PRASAD RAI	01-12-2012
1692	JC 634669W	SUB	HARISH CHANDRA RAI	01-12-2012
1693	JC 634761P	SUB	KARNA BAHADUR PRADHAN	01-11-2012
1694	JC 634634A	SUB	KRISHNA RAI	01-01-2013
1695	JC 634719W	SUB	KUL BAHADUR TAMANG	01-01-2013
1696	JC 634628M	SUB	LAL BAHADUR RAI	01-01-2013
1697	JC 634627K	SUB	LAXMI BAHADUR	01-11-2012
1698	JC 634762X	SUB	LOK BAHADUR	01-12-2012
1699	JC 634590N	SUB	MILAN TAMANG	01-01-2013
1700	JC 634712M	SUB	NAINA LAL RAI	01-12-2012
1701	JC 634734L	SUB	PRADHAN RAI	01-10-2012
1702	JC 634582P	SUB	PREM BAHADUR LIMBU	01-01-2013
1703	JC 634616X	SUB	PURAN RAI	01-11-2012
1704	JC 634614M	SUB	RAM KUMAR RAI SM	01-01-2013
1705	JC 634547M	SUB	RAN BAHADUR LIMBU	01-11-2012
1706	JC 634800H	SUB	SHYAM KUMAR RAI	01-12-2012
1707	JC 634780A	SUB	SUBHA RAJ RAI	01-12-2012
1708	JC 634717L	SUB	TIKA BAHADUR THAPA	01-09-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

1709	JC 664318W	SUB	A JOHNSON	01-12-2012
1710	JC 665009A	SUB	ABHIJIT GHOSH	01-12-2012
1711	JC 641709P	SUB	AKHILESHWAR SINGH	01-01-2013
1712	JC 664707W	SUB	AKSHYA KUMAR	01-01-2013
1713	JC 643005K	SUB	AMAL KUMAR BAGCHI	01-10-2012
1714	JC 642024H	SUB	AMIRUL HAQUE	01-10-2012
1715	JC 642350L	SUB	ANAND BALLABH JOSHI	01-11-2012
1716	JC 663854M	SUB	ANANDI SHARMA	01-10-2012
1717	JC 664928H	SUB	ANJANI KUMAR TIWARI	01-10-2012
1718	JC 663500K	SUB	ANOP SINGH	01-11-2012
1719	JC 663738K	SUB	ARJUN LAL	01-01-2013
1720	JC 663834Y	SUB	ARJUN PRASAD	01-10-2012
1721	JC 663170A	SUB	ARUN KUMAR	01-11-2012
1722	JC 664679P	SUB	ARUN KUMAR SINGH	01-11-2013
1723	JC 663572N	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-11-2012

1724	JC 664122H	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-11-2012
1725	JC 663701H	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2012
1726	JC 642767L	SUB	ASHOK KUMAR TIWARI	01-09-2012
1727	JC 643105P	SUB	ASHWANI KUMAR	01-10-2012
1728	JC 664936F	SUB	ASWINI TALUKDAR	01-11-2012
1729	JC 642841F	SUB	AWADH RAJ SHARMA	01-09-2012
1730	JC 664259P	SUB	BADAN SINGH	01-10-2012
1731	JC 663175P	SUB	BAL RAM	01-10-2012
1732	JC 643007P	SUB	BALBIR SINGH	01-10-2012
1733	JC 663429F	SUB	BALBIR SINGH	01-11-2011
1734	JC 663349K	SUB	BANE SINGH MALVIYA	01-10-2012
1735	JC 663389L	SUB	BASANTA KUMAR MISHRA	01-10-2012
1736	JC 663772K	SUB	BHAGWAN BHAGAT	01-01-2013
1737	JC 642080F	SUB	BHOOPENDRA KUSHWAHA	01-11-2012
1738	JC 663399P	SUB	BIJENDRA SINGH	01-10-2012
1739	JC 663895W	SUB	BIJOY KUMAR ROY	01-01-2013
1740	JC 663533P	SUB	BIMAL CHANDRA BARUAH	01-09-2012
1741	JC 664162K	SUB	BIRBAL SINGH	01-10-2012
1742	JC 641581P	SUB	BIRI SINGH	01-01-2013
1743	JC 663475W	SUB	BISHAN SINGH	01-10-2012
1744	JC 664317N	SUB	BRAJA KISHORE SAHOO	01-10-2012
1745	JC 663748N	SUB	BRAJPAL SINGH	01-01-2013
1746	JC 664622A	SUB	BYAMOKESH PRADHAN	01-11-2012
1747	JC 663729H	SUB	CHANDER MOHAN	01-12-2012
1748	JC 664204L	SUB	CHANDRA BHAN	01-01-2013
1749	JC 680392F	SUB	CHANDRA BHAN YADAV	01-09-2012
1750	JC 641729H	SUB	DAL CHAND	01-01-2013
1751	JC 664590H	SUB	DALBIR SINGH	01-12-2012
1752	JC 664069H	SUB	DESH RAJ VERMA	01-11-2012
1753	JC 640134Y	SUB	DEVANAND DEVEDI	01-11-2012
1754	JC 643213Y	SUB	DEVENDRA KUMAR	01-10-2012
1755	JC 663539W	SUB	DEVI SINGH	01-10-2012
1756	JC 663227A	SUB	DHANI RAM	01-10-2012
1757	JC 663601X	SUB	DHIR SINGH	01-12-2012
1758	JC 663749W	SUB	DHRUB SINGH	01-01-2013
1759	JC 663434H	SUB	GANGA RAM	01-12-2012
1760	JC 665045L	SUB	GHANSHYAM YADAV	01-01-2013
1761	JC 663315W	SUB	GIRDHAR KUSHWAHA	01-12-2012
1762	JC 642845X	SUB	GOPALA KRISHNAN NAIR V	01-10-2012
1763	JC 643026A	SUB	GOPINATHAN PILLAI G	01-10-2012
1764	JC 663390A	SUB	GOURANGA CHARAN SAHOO	01-10-2012
1765	JC 664476L	SUB	GUNENDRA NATH	01-01-2013
1766	JC 642950N	SUB	GURDEV SINGH	01-09-2012
1767	JC 664959H	SUB	HARI KUMAR PV	01-01-2013
1768	JC 642864H	SUB	HARI NANDAN ROY	01-10-2012
1769	JC 664326P	SUB	HARI SINGH	01-01-2013
1770	JC 664967F	SUB	HARI SINGH	01-12-2012



1771	JC 642470K	SUB	HARSHMINDER SINGH	01-10-2012
1772	JC 663394W	SUB	HASINUL HASAN SHIRAZEE	01-01-2013
1773	JC 641559K	SUB	HUKAM SINGH	01-10-2012
1774	JC 643139H	SUB	ISHAM SINGH CHOUDHARY	01-01-2013
1775	JC 663057F	SUB	ISLAM KHAN	01-12-2012
1776	JC 663498X	SUB	ISLAM MOHAMMAD	01-10-2012
1777	JC 663753Y	SUB	JAGDISH CHAND	01-01-2013
1778	JC 663319M	SUB	JAGDISH CHANDER	01-10-2012
1779	JC 643137X	SUB	JAGDISH SINGH DHAPOLA	01-01-2013
1780	JC 663351F	SUB	JAGRAM SINGH	01-12-2012
1781	JC 663746H	SUB	JAI KUMAR SINGH	01-01-2013
1782	JC 641713X	SUB	JAI PAL SINGH	01-10-2012
1783	JC 663537L	SUB	JAI PRAKASH	01-12-2012
1784	JC 641934K	SUB	JAI PRAKASH SINGH KUSHWAHA	01-12-2012
1785	JC 663309H	SUB	JAINARAIN	01-09-2012
1786	JC 643216M	SUB	JEEV DHARI SINGH YADAV	01-11-2012
1787	JC 643151K	SUB	JUGENDRA SINGH TOMAR	01-09-2012
1788	JC 665182K	SUB	K SRINIVASULU	01-01-2013
1789	JC 664687N	SUB	KALE SHILESH KISAN	01-12-2012
1790	JC 663484X	SUB	KALYAN SINGH	01-12-2012
1791	JC 642867W	SUB	KAMAL KUMAR ROY	01-10-2012
1792	JC 664930A	SUB	KAMAL MANDAL	01-11-2012
1793	JC 641471A	SUB	KANNAN S	01-12-2012
1794	JC 663457N	SUB	KAUSTUBHA NAND JOSHI	01-10-2012
1795	JC 664397W	SUB	KEDAR NATH CHOUDHARY	01-12-2012
1796	JC 641743P	SUB	KEDAR NATH SINGH	01-01-2013
1797	JC 643001N	SUB	KESHAB DAYAL	01-10-2012
1798	JC 663602A	SUB	KESHAV DATT	01-10-2012
1799	JC 642100K	SUB	KISHORE CHAND	01-01-2013
1800	JC 643131W	SUB	KISHORE CHANDRA DAKUA	01-10-2012
1801	JC 663356A	SUB	KRISHAN PAL	01-12-2012
1802	JC 663311A	SUB	KRISHAN PRASAD	01-10-2012
1803	JC 643133F	SUB	KRISHNA DATT	01-12-2012
1804	JC 643098K	SUB	KUDDUS ANSARI	01-11-2012
1805	JC 663485A	SUB	KUNDAN SINGH	01-10-2012
1806	JC 663743P	SUB	LAKSHMAN SINGH KHARAYAT	01-01-2013
1807	JC 641553H	SUB	LAL SINGH	01-12-2012
1808	JC 642871Y	SUB	MADAN PRASAD SINGH YADAV	01-10-2012
1809	JC 663623W	SUB	MADHU SUDAN KARMAKAR	01-12-2012
1810	JC 643134K	SUB	MAHENDER KUMAR	01-12-2012
1811	JC 663587W	SUB	MAHESHWAR MISHRA	01-01-2013
1812	JC 665011A	SUB	MAHIPAL SINGH	01-01-2013
1813	JC 663277L	SUB	MAN PAL SINGH	01-01-2013
1814	JC 643103K	SUB	MANOHARAN PILLAI G	01-12-2012
1815	JC 663971X	SUB	MANORANJAN MOHANTY	01-01-2013
1816	JC 641593K	SUB	MOHAMMAD SAFFI ULLAH	01-01-2013
1817	JC 642046F	SUB	MOHAN DAS V	01-09-2012

1818	JC 663162X	SUB	MOHAN LAL	01-12-2012
1819	JC 641735W	SUB	MS JEEVA	01-09-2012
1820	JC 643008X	SUB	MUHAMMAD REYAZ	01-10-2012
1821	JC 664142W	SUB	MUNENDRA SINGH	01-10-2012
1822	JC 642293P	SUB	MUNNA LAL	01-11-2012
1823	JC 664541A	SUB	MURALIDHAR SAHOO	01-01-2013
1824	JC 663477F	SUB	NAMO NARAYAN TRIPATHI	01-12-2012
1825	JC 664677K	SUB	NARAIN LAL REGAR	01-01-2013
1826	JC 663310X	SUB	NARAYAN SINGH MEHRA	01-10-2012
1827	JC 643152M	SUB	NARDEV SUYAL	01-01-2013
1828	JC 663752W	SUB	NARENDRA KUMAR PANDA	01-01-2013
1829	JC 642738W	SUB	NARESH CHAND TYAGI	01-09-2012
1830	JC 642546Y	SUB	NEGI RAKESH MANGAL SINGH	01-12-2012
1831	JC 641468A	SUB	NEKI RAM SHARMA	01-11-2012
1832	JC 663673F	SUB	NIHAL SINGH	01-01-2013
1833	JC 663696H	SUB	NISHI KUMAR DAS	01-12-2012
1834	JC 663625F	SUB	PAWAN SINGH RANA	01-12-2012
1835	JC 643006M	SUB	PRABAL SINGH	01-10-2012
1836	JC 664112Y	SUB	PRABHU NATH CHOUDHARY	01-10-2012
1837	JC 643214F	SUB	PRADEEP SINGH	01-12-2012
1838	JC 642997Y	SUB	PRAKASH CHANDRA YADAV	01-10-2012
1839	JC 663745A	SUB	PRAKASH KUMAR DAS	01-01-2013
1840	JC 663432F	SUB	PREM SINGH	01-12-2012
1841	JC 664207Y	SUB	PRITAM SINGH RANA	01-10-2012
1842	JC 663230A	SUB	PURAN LAL	01-10-2012
1843	JC 664684A	SUB	PURAN PRASAD	01-12-2012
1844	JC 641687F	SUB	PURAN SINGH	01-10-2012
1845	JC 664185L	SUB	RAGHUNATHAN NAIR M R	01-09-2012
1846	JC 663352K	SUB	RAGHUVIR SINGH	01-12-2012
1847	JC 663313L	SUB	RAJ KARAN PATEL	01-11-2012
1848	JC 641897F	SUB	RAJ KISHORE SINGH	01-10-2012
1849	JC 641462Y	SUB	RAJ PAL	01-11-2012
1850	JC 642840Y	SUB	RAJBIR SINGH YADAV	01-09-2012
1851	JC 663404P	SUB	RAJENDER KUMAR	01-10-2012
1852	JC 663706F	SUB	RAJENDER SINGH	01-12-2012
1853	JC 663479M	SUB	RAJU M	01-12-2012
1854	JC 663164N	SUB	RAJVIR	01-11-2012
1855	JC 663391H	SUB	RAJWINDER PAL SINGH	01-10-2012
1856	JC 663357M	SUB	RAKSH PAL SINGH	01-12-2012
1857	JC 664708Y	SUB	RAM BAHADUR	01-12-2012
1858	JC 663736Y	SUB	RAM CHANDER	01-01-2013
1859	JC 664160Y	SUB	RAM CHHITRA SHARMA	01-11-2012
1860	JC 642739Y	SUB	RAM KUIVER	01-10-2012
1861	JC 663766W	SUB	RAM MILEN YADAV	01-10-2012
1862	JC 641566A	SUB	RAM NIVAS	01-10-2012
1863	JC 643094N	SUB	RAM PAL SINGH	01-11-2012
1864	JC 663476Y	SUB	RAM PRAKASH	01-12-2012

1865	JC 664127F	SUB	RAM PUKAR PASWAN	01-12-2012
1866	JC 663597A	SUB	RAM SAGAR SINGH	01-12-2012
1867	JC 663480F	SUB	RAMADHAR PRASAD	01-01-2013
1868	JC 663314N	SUB	RAMEN CHANDRA KAR	01-11-2012
1869	JC 663540L	SUB	RAMESH CHANDER YADAV	01-10-2012
1870	JC 641412N	SUB	RANVIR SINGH	01-01-2013
1871	JC 642954K	SUB	RATAN CHANDRA PAUL	01-10-2012
1872	JC 642811K	SUB	RAVINDER KUMAR	01-10-2012
1873	JC 642877A	SUB	ROSHAN LAL	01-11-2012
1874	JC 643154X	SUB	SAHI RAM	01-01-2013
1875	JC 643095W	SUB	SAKTI KANTA MOHAPATRA	01-11-2012
1876	JC 643100W	SUB	SARDAR SINGH BHATI	01-11-2012
1877	JC 664504M	SUB	SARJINDER SINGH	01-10-2012
1878	JC 663574Y	SUB	SAT PAUL	01-10-2012
1879	JC 663312H	SUB	SATISH CHAND SHARMA	01-10-2012
1880	JC 642357P	SUB	SATPAL SINGH	01-01-2013
1881	JC 663683L	SUB	SATYAPAL SINGH CHAUHAN	01-12-2012
1882	JC 663628P	SUB	SATYAVEER YADAV	01-12-2012
1883	JC 664388P	SUB	SATYAVIR SINGH	01-12-2012
1884	JC 643091A	SUB	SHAIKH SODIK USUF	01-10-2012
1885	JC 664396N	SUB	SHAMBHU CHOUDHARY	01-12-2012
1886	JC 663869P	SUB	SHIBA PRASAD SINHA MAHAPATRA	01-11-2012
1887	JC 664941M	SUB	SHIV LAL	01-01-2013
1888	JC 662997A	SUB	SHIV NANDAN SHARMA	01-10-2012
1889	JC 642553P	SUB	SHIV SAGAR PANDEY	01-12-2012
1890	JC 664026N	SUB	SHIVA KANT	01-12-2012
1891	JC 642472P	SUB	SHIVAPPA S AKKI	01-12-2012
1892	JC 663996K	SUB	SHRAWAN SINGH	01-11-2012
1893	JC 663507N	SUB	SITA RAM SINGH	01-12-2012
1894	JC 641579X	SUB	SOHAN LAL	01-01-2013
1895	JC 642866N	SUB	SREENIVASULU S	01-10-2012
1896	JC 642097P	SUB	SUBHASH CHANDRA SHARMA	01-09-2012
1897	JC 663056Y	SUB	SUBHRA BISWAS	01-10-2012
1898	JC 470043A	SUB	SUDHIR KUMAR GAUTAM	01-09-2012
1899	JC 663671W	SUB	SUKDEV SINGH	01-01-2013
1900	JC 664321W	SUB	SUKH PAL	01-01-2013
1901	JC 663626K	SUB	SURENDRA PANDEY	01-12-2012
1902	JC 680414P	SUB	SURESH CHANDRA	01-10-2012
1903	JC 663327L	SUB	SURESH CHANDRA BEHERA	01-09-2012
1904	JC 663403M	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2013
1905	JC 642545W	SUB	SURESH KUMAR PANDEY	01-09-2012
1906	JC 664056L	SUB	SURESH PANDEY	01-01-2013
1907	JC 642809M	SUB	SURINDER KUMAR	01-09-2012
1908	JC 641879Y	SUB	SURJEET SINGH	01-01-2013
1909	JC 664066P	SUB	SURJIT SINGH	01-01-2013
1910	JC 664183A	SUB	SV SUBRAMONIAN	01-12-2012

1911	JC 642775K	SUB	SYED SHAUKAT HUSSAIN	01-09-2012
1912	JC 663737F	SUB	TAPAN KUMAR GANGULY	01-01-2013
1913	JC 663620H	SUB	TARA CHAND	01-11-2012
1914	JC 663670N	SUB	TARSEM LAL	01-09-2012
1915	JC 641704W	SUB	TEJ SINGH	01-01-2013
1916	JC 663863N	SUB	TEJ SINGH	01-10-2012
1917	JC 642108W	SUB	TEK PAL	01-09-2012
1918	JC 664934W	SUB	TRIBHUWAN SINGH	01-01-2013
1919	JC 664905F	SUB	UDAY BHAN PRASAD	01-01-2013
1920	JC 664814X	SUB	UDAY NARAYAN SINGH	01-12-2012
1921	JC 663767Y	SUB	UMED SINGH	01-12-2012
1922	JC 664828X	SUB	VAKEEL SINGH SAINI	01-01-2013
1923	JC 642296H	SUB	VIDYA SAGAR SHARMA	01-11-2012
1924	JC 664395L	SUB	VIJAY KRISHAN	01-01-2013
1925	JC 664067X	SUB	VIJAY KUMAR UPADHYAY	01-12-2012
1926	JC 643215K	SUB	VIKRAM SINGH	01-01-2013
1927	JC 642808K	SUB	VINAYAK RAMCHANDRA SETTY	01-09-2012
1928	JC 642442X	SUB	VIRENDER SINGH	01-10-2012
1929	JC 663329W	SUB	VIRENDER SINGH	01-10-2012
1930	JC 664833H	SUB	VIRENDER SINGH RAJURA	01-11-2012
1931	JC 213647W	SUB	YATISH CHANDRA BAHUKHANDI	01-10-2012
1932	JC 642101M	SUB	YOGENDRA SINGH	01-01-2013

#### **ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

1933	JC 680859F	RIS	DIWAN SINGH	01-12-2012
1934	JC 680828F	RIS	KABAL SINGH	01-10-2012
1935	JC 680913K	RIS	MAHESH KUMAR	01-10-2012
1936	JC 680826W	RIS	SHYAM KARAN YADAV	01-09-2012

#### **ARMY MEDICAL CORPS**

1937	JC 695940L	SUB	AN DUBEY	01-01-2013
1938	JC 693445N	SUB	ANAND SINGH RATHORE	01-11-2012
1939	JC 695669M	SUB	ANANDA KERAPPA SOPANUR	01-12-2012
1940	JC 694243Y	SUB	ARUN KUMAR	01-12-2012
1941	JC 692142M	SUB	ARUN KUMAR PANDEY	01-10-2012
1942	JC 691957F	SUB	ASHOK KUMAR RAJPAL	01-01-2013
1943	JC 694803A	SUB	ASHVENI KUMAR	01-09-2012
1944	JC 696222F	SUB	B JESU RAJAN	01-10-2012
1945	JC 695554Y	SUB	BALMUKUND SHARMA	01-10-2012
1946	JC 695706P	SUB	BASHISTYA ROY	01-11-2012
1947	JC 694555P	SUB	BHUWAN CHANDA PANT	01-01-2013
1948	JC 691808N	SUB	BIBEK NANDA MOHAPATRA	01-01-2013
1949	JC 695477P	SUB	BIKASH KUMAR BISWAS	01-01-2013
1950	JC 693775M	SUB	BINODA BEHARI NATH	01-01-2013
1951	JC 695243L	SUB	BRAHM DUTT	01-01-2013
1952	JC 694378A	SUB	CHANDRA KANT SHARMA	01-12-2012
1953	JC 693126F	SUB	CHHEDI LAL PATEL	01-09-2012

1954	JC 696401F	SUB	DHIREN KUMAR SINGHA	01-12-2012
1955	JC 695085F	SUB	DINESH KUMAR SHARMA	01-12-2012
1956	JC 695682W	SUB	FATEH SINGH	01-11-2012
1957	JC 694854N	SUB	G GANGA RAJU	01-12-2012
1958	JC 695609X	SUB	GHISA SINGH TANWAR	01-09-2012
1959	JC 696012F	SUB	GIREESH PRASAD TIWARI	01-10-2012
1960	JC 696698N	SUB	GOPINATHAN A	01-12-2012
1961	JC 694825Y	SUB	HARDWARI LAL KHATANA	01-12-2012
1962	JC 694544H	SUB	HARI BABOO	01-10-2012
1963	JC 694459A	SUB	HARISH CHANDRA	01-01-2013
1964	JC 694377X	SUB	JAGATTER SINGH	01-09-2012
1965	JC 694678F	SUB	JAGTAR SINGH	01-01-2013
1966	JC 695741X	SUB	JUNAS NAIK	01-12-2012
1967	JC 695678N	SUB	KADUBA LAXMAN YERMULE	01-12-2012
1968	JC 693709K	SUB	KALAM SINGH	01-09-2012
1969	JC 694545L	SUB	KARTAR SINGH	01-10-2012
1970	JC 694458K	SUB	KESHER SINGH	01-01-2013
1971	JC 694248Y	SUB	KK SINGH	01-01-2013
1972	JC 694460P	SUB	KUSHAL SINGH BISHT	01-01-2013
1973	JC 691907W	SUB	LAKHAN LAL	01-01-2013
1974	JC 691768X	SUB	LAL CHAND	01-01-2013
1975	JC 694575N	SUB	MAHAVIR SINGH	01-10-2012
1976	JC 695534L	SUB	MAJOR SINGH	01-10-2012
1977	JC 691785X	SUB	MAUJI RAM	01-01-2013
1978	JC 695275N	SUB	MD GOLAM ROBBANI GAZI	01-09-2012
1979	JC 693702A	SUB	MM SINGH KARKI	01-10-2012
1980	JC 694376P	SUB	MOHAR SINGH CHAUHAN	01-12-2012
1981	JC 695461K	SUB	MURUTI JAYAWANT KHOT	01-10-2012
1982	JC 695322A	SUB	NARENDRA KUMAR PANDEY	01-01-2013
1983	JC 694554M	SUB	NAWIN SINGH	01-01-2013
1984	JC 695653F	SUB	NEERAJ THAPA	01-12-2012
1985	JC 694543A	SUB	NIRAJ	01-10-2012
1986	JC 694455K	SUB	NP YADAV	01-01-2013
1987	JC 695475K	SUB	NUNU MISHRA	01-11-2012
1988	JC 695552N	SUB	PANDIT RAM SHARMA	01-01-2013
1989	JC 694851A	SUB	PRADEEP KUMAR SHARMA	01-11-2012
1990	JC 695276W	SUB	PRAKASH VEER SHARMA	01-09-2012
1991	JC 695453L	SUB	PRASANNA KUMAR CD	01-12-2012
1992	JC 696038W	SUB	RABI RAM DAS	01-09-2012
1993	JC 692647H	SUB	RADHA KISHAN	01-09-2012
1994	JC 692646A	SUB	RADHA KRISHNAN VG	01-09-2012
1995	JC 695567W	SUB	RADHE SHYAM	01-10-2012
1996	JC 695379P	SUB	RADHEY MOHAN YADAVA	01-09-2012
1997	JC 694559L	SUB	RAJBIR SINGH	01-01-2013
1998	JC 694859M	SUB	RAJENDER PRASAD	01-11-2012
1999	JC 695455W	SUB	RAKESH KUMAR	01-10-2012
2000	JC 691450A	SUB	RAM DINESHWAR SHARMA	01-09-2012

2001	JC 691451H	SUB	RAM EKWAL BHARTI	01-10-2012
2002	JC 695626X	SUB	RAM JHULAN	01-11-2012
2003	JC 694674L	SUB	RAM LAKHAN	01-11-2012
2004	JC 694726W	SUB	RAM LARAITE	01-01-2013
2005	JC 694408M	SUB	RAM MEHAR	01-12-2012
2006	JC 695667F	SUB	RAM NARAYAN	01-09-2012
2007	JC 695426F	SUB	RAMA CHANDRA SWAIN	01-01-2013
2008	JC 692218F	SUB	RAMA KANT PANDEY	01-10-2012
2009	JC 695549N	SUB	RAMBIR SINGH	01-10-2012
2010	JC 695676H	SUB	REHMAT ALI	01-09-2012
2011	JC 694457P	SUB	SATAY PAL SINGH	01-01-2013
2012	JC 691449L	SUB	SHAIKH SERAJUDDIN	01-01-2013
2013	JC 695464X	SUB	SHAM LAL	01-09-2012
2014	JC 695596L	SUB	SHIVA SHANKAR NAVIK	01-10-2012
2015	JC 695365P	SUB	SREE KANTAN NAIR B	01-09-2012
2016	JC 694424K	SUB	SRI RAM SINGH	01-10-2012
2017	JC 694437F	SUB	SUBHASH CHANDER	01-01-2013
2018	JC 694241N	SUB	SUMER SINGH	01-11-2012
2019	JC 694553K	SUB	SUNIL KUMAR	01-01-2013
2020	JC 694382H	SUB	SURAT SINGH	01-01-2013
2021	JC 694164K	SUB	SURENDRA PRATAP SINGH	01-09-2012
2022	JC 694829P	SUB	SURENDRA SINGH	01-10-2012
2023	JC 695476M	SUB	SUSHIL KUMAR MISHRA	01-12-2012
2024	JC 693497K	SUB	TOMY SEBASTIAN	01-12-2012
2025	JC 695330Y	SUB	UDAYAN RAI	01-10-2012
2026	JC 693707Y	SUB	UDAYBIR SINGH	01-12-2012
2027	JC 695995P	SUB	UNNI KRISHNAN K	01-09-2012
2028	JC 695281F	SUB	VINEET KUMAR CHOURSE	01-09-2012

### **ARMY ORDNANCE CORPS**

2029	JC 726562F	SUB	ABID SOHAIL	01-10-2012
2030	JC 726148H	SUB	AJAYA KUMAR PRADHAN	01-12-2012
2031	JC 727459H	SUB	AKADI VENKAPPA BHIMAPPA	01-11-2012
2032	JC 727096K	SUB	AKSHAYA KUMAR MOHANTY	01-12-2012
2033	JC 726548P	SUB	ARUN KUMAR JHA	01-09-2012
2034	JC 726514F	SUB	ARUN KUMAR TIWARI	01-10-2012
2035	JC 726763A	SUB	AWADHESH KUMAR GIRI	01-01-2013
2036	JC 726909H	SUB	BAIKUNTHA NATH SAHOO	01-11-2012
2037	JC 726626F	SUB	BALBIR SINIGH SHEKHAWAT	01-12-2012
2038	JC 726481F	SUB	BALDHARI SINGH SENGAR	01-10-2012
2039	JC 726573N	SUB	BALVIR SINGH	01-12-2012
2040	JC 725155M	SUB	BALWANT SINGH	01-12-2012
2041	JC 727027N	SUB	BAXA RAM	01-12-2012
2042	JC 725147N	SUB	BHAGWATI PRASAD	01-12-2012
2043	JC 726678X	SUB	BHARAMAPPA HIREKUDI	01-09-2012
2044	JC 726597X	SUB	BHISHMA PAL SINGH	01-10-2012
2045	JC 726650X	SUB	BRAJESH BAHADUR SINGH	01-01-2013

2046	JC 726666F	SUB	CHANDESHWAR MISHRA	01-12-2012
2047	JC 726975L	SUB	DAMU RAM CHANDRA BHAJK	01-12-2012
2048	JC 726674F	SUB	DEV PRASAD DEY	01-01-2013
2049	JC 726782L	SUB	DEVENDRA KUMAR SINGH	01-01-2013
2050	JC 726874X	SUB	DHURB KUMAR RAY	01-09-2012
2051	JC 727280P	SUB	DILAWAR SINGH	01-01-2013
2052	JC 726648A	SUB	DINESH KUMAR	01-01-2013
2053	JC 726565P	SUB	DIPAK KUMAR MANDAL	01-10-2012
2054	JC 726604H	SUB	GAVANI KEMPANA BABU	01-12-2012
2055	JC 726492N	SUB	GULAB SINGH	01-09-2012
2056	JC 726600M	SUB	GURNAIB SINGH	01-11-2012
2057	JC 726542N	SUB	HAKIM SINGH	01-10-2012
2058	JC 726972X	SUB	HARI RAM AHIRWAR	01-11-2012
2059	JC 726889A	SUB	HARI SWAROOP	01-11-2012
2060	JC 727140H	SUB	HAVALDAR SINGH	01-09-2012
2061	JC 726946W	SUB	HRUDANANDA MALLIK	01-12-2012
2062	JC 726525N	SUB	HUSEN AHMED LASKAR	01-10-2012
2063	JC 726464F	SUB	JAGDISH CHANDER	01-09-2012
2064	JC 727205L	SUB	JAIG NATH	01-11-2012
2065	JC 726970M	SUB	K DEVARAJU REDDY	01-09-2012
2066	JC 726673Y	SUB	KALI CHARAN	01-09-2012
2067	JC 726480Y	SUB	KHAJAN SINGH	01-10-2012
2068	JC 726473H	SUB	KULDEEP SINGH	01-09-2012
2069	JC 727025H	SUB	M'LOGAN	01-09-2012
2070	JC 726971P	SUB	MADHAV BARKUJI TEKAM	01-10-2012
2071	JC 727206N	SUB	MAHESWAR PRADHAN	01-12-2012
2072	JC 726627K	SUB	MAL SINGH SHEKHAWAT	01-12-2012
2073	JC 726602X	SUB	MALLIKARJUN BASAPPA	01-11-2012
			LAKKAMMANAVAR	
2074	JC 726973A	SUB	MANORANJAN DHAL	01-11-2012
2075	JC 726637N	SUB	NAIK SURESH BHAI BABU BHAI	01-01-2013
2076	JC 726638W	SUB	NAMDEV HARI WADILE	01-01-2013
2077	JC 724134K	SUB	NARAYANAN C	01-11-2012
2078	JC 725392W	SUB	NARENDER PAL SINGH	01-01-2013
2079	JC 727137H	SUB	PANCHANAN SINGH	01-12-2012
2080	JC 723990P	SUB	PATIL LALASAHEB DATTATRAY	01-11-2012
2081	JC 726870F	SUB	PATIT KUMAR DASH	01-09-2012
2082	JC 726753W	SUB	PUSHKAR DUTT SHARMA	01-11-2012
2083	JC 726906P	SUB	RAJENDER KUMAR	01-11-2012
2084	JC 727026L	SUB	RAJENDER MANDAL	01-11-2012
2085	JC 727353W	SUB	RAM KUMAR SINGH	01-09-2012
2086	JC 726498P	SUB	RAM MILAN PRASAD	01-09-2012
2087	JC 726564M	SUB	RAM NIWAS RAM	01-10-2012
2088	JC 726586L	SUB	RAM ROOP YADAV	01-10-2012
2089	JC 726543W	SUB	RAMAN KANT SINGH	01-10-2012
2090	JC 726497M	SUB	RANJIT KUMAR SWAIN	01-09-2012
2091	JC 726714X	SUB	ROOP SINGH	01-09-2012

2092	JC 726951F	SUB	SAMSHER SINGH	01-01-2013
2093	JC 726636L	SUB	SATYAVIR SINGH	01-12-2012
2094	JC 723991X	SUB	SHIVAYANAMA	01-12-2012
2095	JC 726493W	SUB	SHIVDAN SINGH	01-09-2012
2096	JC 726339X	SUB	SHREE PRAKASH SINGH	01-01-2013
2097	JC 726716H	SUB	SOMAN NAIR G	01-12-2012
2098	JC 726495F	SUB	SUBASH SINGH	01-09-2012
2099	JC 726549X	SUB	SUBHASISH BANDYOPADHYAY	01-09-2012
2100	JC 726601P	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-11-2012
2101	JC 726969X	SUB	SURENDER KUMAR TIWARI	01-09-2012
2102	JC 726670L	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-11-2012
2103	JC 727243F	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2013
2104	JC 726996F	SUB	VIJAYI RAM	01-09-2012
2105	JC 727064F	SUB	VIJENDRA KUMAR DWIVEDI	01-10-2012

### **CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

2106	JC 755719Y	SUB	ABANI ACHARYA	01-09-2012
2107	JC 760674N	SUB	ABINASH CHANDRA KUNDU	01-12-2012
2108	JC 754524F	SUB	ADESH KUMAR	01-12-2012
2109	JC 755873X	SUB	AGARKAR SUBHASH WATUJI	01-12-2012
2110	JC 755484X	SUB	AJIT KUMAR DAS	01-09-2012
2111	JC 754305A	SUB	AJOY THAPA	01-01-2013
2112	JC 756069H	SUB	AKBAR ALI	01-01-2013
2113	JC 761569K	SUB	AMRIT KUMAR RAY	01-10-2012
2114	JC 753659W	SUB	AMRIT PRADHAN	01-10-2012
2115	JC 755496M	SUB	ANIL KUMAR	01-01-2013
2116	JC 756529Y	SUB	ANIL KUMAR	01-11-2012
2117	JC 760675W	SUB	ANIL KUMAR A	01-12-2012
2118	JC 763172W	SUB	ARAVINDAKSHAN P	01-01-2013
2119	JC 758198F	SUB	ARJUN SINGH	01-12-2012
2120	JC 760413A	SUB	ARJUN SINGH	01-09-2012
2121	JC 754892W	SUB	ARUN KARMAKAR	01-09-2012
2122	JC 754754P	SUB	ARUN KUMAR SHARMA	01-09-2012
2123	JC 758886A	SUB	ARVIND KUMAR	01-10-2012
2124	JC 754561P	SUB	ASHIS KUMAR DAS	01-12-2012
2125	JC 755793A	SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2013
2126	JC 757297X	SUB	ASHOK KUMAR	01-10-2012
2127	JC 759662M	SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2012
2128	JC 751990L	SUB	ASHOK KUMAR DIXIT	01-10-2012
2129	JC 761463Z	SUB	ASHOKE KUMAR PAL	01-11-2012
2130	JC 761464A	SUB	ASIT KUMAR DATTA	01-11-2012
2131	JC 755727X	SUB	ATAR SINGH	01-01-2013
2132	JC 755731A	SUB	AUDHESH KUMAR	01-01-2013
2133	JC 757377P	SUB	BABU PILLAI R	01-11-2012
2134	JC 760602K	SUB	BADRI PRASAD YADAV	01-01-2013
2135	JC 760230K	SUB	BAHADUR CHAND	01-01-2013
2136	JC 756504M	SUB	BALA SUBRAMANIAN H	01-11-2012



2137	JC 754857N	SUB	BALBIR SINGH	01-11-2012
2138	JC 754391W	SUB	BALIKRAN PD KUSHWAHA	01-10-2012
2139	JC 755006N	SUB	BALRAM	01-12-2012
2140	JC 755792X	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2013
2141	JC 755568L	SUB	BAMANIYA VIJAY KUMAR SARAMAN	01-10-2012
2142	JC 761148F	SUB	BANSIDHAR	01-10-2012
2143	JC 762813L	SUB	BASANTA KUMAR SWAIN	01-01-2013
2144	JC 754916P	SUB	BHAGWAT PRASAD	01-11-2012
2145	JC 761949H	SUB	BHAJAN SINGH	01-12-2012
2146	JC 760220A	SUB	BHAKAR RAM KHEECHAR	01-12-2012
2147	JC 756689Y	SUB	BHANU PRATAP SINGH	01-01-2013
2148	JC 761460K	SUB	BHARAT SINGH	01-11-2012
2149	JC 761570Y	SUB	BHAWANI SHANKAR SHARMA	01-11-2012
2150	JC 755622N	SUB	BHAWANI SINGH RATHORE	01-01-2013
2151	JC 761693L	SUB	BHIM SHANKER CHABEY	01-12-2012
2152	JC 752282L	SUB	BHIM SINGH	01-12-2012
2153	JC 754557M	SUB	BIJENDRA SINGH	01-12-2012
2154	JC 757222A	SUB	BIJOY KRISHNA DEB NATH	01-01-2013
2155	JC 761695W	SUB	BIKASH CHANDRA MANDAL	01-12-2012
2156	JC 756266L	SUB	BIKASH DAS	01-11-2012
2157	JC 761465H	SUB	BIMAL BISWAS	01-11-2012
2158	JC 760596F	SUB	BIRENDRA KUMAR	01-12-2012
2159	JC 755283Y	SUB	BIRENDRA PAL	01-11-2012
2160	JC 758956N	SUB	BIRENDRA SAHA	01-01-2013
2161	JC 761576A	SUB	BISHWANT PRAMANIK	01-12-2012
2162	JC 760225Y	SUB	BISWA NATH ORAON	01-12-2012
2163	JC 755730X	SUB	BISWANATH GHOSH	01-01-2013
2164	JC 754945K	SUB	BRIJ LAL	01-09-2012
2165	JC 760365L	SUB	BRIJ LAL	01-01-2013
2166	JC 757378X	SUB	BUDDU LAL	01-10-2012
2167	JC 760671A	SUB	BUDHA RAM	01-12-2012
2168	JC 762070N	SUB	C THIRUPPATHI	01-01-2013
2169	JC 761279M	SUB	CHANDRA BHAN SINGH	01-10-2012
2170	JC 760535K	SUB	CHANDRA SINGH	01-10-2012
2171	JC 762075M	SUB	CHANDRAKANTA SINHA	01-01-2013
2172	JC 757906W	SUB	CHANDRASEKARAN S	01-10-2012
2173	JC 760366N	SUB	CHARANJEET RAJ	01-12-2012
2174	JC 763294A	SUB	CHATURGHAN MAHTO	01-01-2013
2175	JC 754996X	SUB	CHHOTARAM BHADU	01-09-2012
2176	JC 753245K	SUB	CHHOTE LAL	01-11-2012
2177	JC 755212X	SUB	CHINT RAM	01-10-2012
2178	JC 760189Y	SUB	DAVID SUNDER RAJ	01-09-2012
2179	JC 761578L	SUB	DAYANAND SINGH	01-09-2012
2180	JC 754303P	SUB	DEPUTY MAL	01-01-2013
2181	JC 762820F	SUB	DESH BANDHU	01-12-2012
2182	JC 762812H	SUB	DEVENDER KUMAR	01-01-2013

2183	JC 760594W	SUB	DEVENDRA KUMAR SHARMA	01-11-2012
2184	JC 754985L	SUB	DHANRAJ SINGH	01-10-2012
2185	JC 752078M	SUB	DHARMENDRA KUMAR	01-11-2012
2186	JC 751915F	SUB	DHIRA NANDA ROY	01-09-2012
2187	JC 762288A	SUB	DHIRENDRA	01-10-2012
2188	JC 758114H	SUB	DHIRENDRA NATH DEY	01-11-2012
2189	JC 756790Y	SUB	DHIRENDRA SINGH	01-11-2012
2190	JC 754687P	SUB	DINANATH PRASAD	01-01-2013
2191	JC 757204X	SUB	DINESH CHANDER	01-10-2012
2192	JC 759676M	SUB	DINESH KUMAR	01-01-2013
2193	JC 754983A	SUB	DINESH KUMAR MAITI	01-10-2012
2194	JC 758328Y	SUB	DINESH KUMAR V	01-01-2013
2195	JC 754977M	SUB	DIPAK KUMAR DAS	01-10-2012
2196	JC 755869P	SUB	DULAL BASU BISWAS	01-11-2012
2197	JC 757617F	SUB	DUNGA RAM KASWAN	01-11-2012
2198	JC 756034M	SUB	DURYODHAN SINGH	01-01-2013
2199	JC 751995K	SUB	DWIJENDRA SINGHA	01-11-2012
2200	JC 761025P	SUB	GAJENDRA SINGH BORA	01-09-2012
2201	JC 758326N	SUB	GAJENDRA SINGH TOMAR	01-10-2012
2202	JC 761952H	SUB	GANESH SINGH	01-12-2012
2203	JC 761572K	SUB	GANGA PRASAD SHARMA	01-11-2012
2204	JC 758292L	SUB	GANGADHARAYYA HIEMATH	01-12-2012
2205	JC 761950X	SUB	GETA CHARAN DASH	01-12-2012
2206	JC 760205L	SUB	GHANSHYAM	01-11-2012
2207	JC 755618L	SUB	GIRDHARI SINGH RATHORE	01-12-2012
2208	JC 761947X	SUB	GIRISH CHANDRA	01-12-2012
2209	JC 751925L	SUB	GM GOVINDASAMI	01-10-2012
2210	JC 758992Y	SUB	GOPAL DATT	01-01-2013
2211	JC 754973W	SUB	GOPAL SINGH	01-10-2012
2212	JC 755626K	SUB	GOPAL SINGH	01-01-2013
2213	JC 760226F	SUB	GOPAL SINGH	01-12-2012
2214	JC 760192Y	SUB	GUJARE HARIBA SIDRAYA	01-09-2012
2215	JC 756000Y	SUB	HAHIBUR RAHAMAN	01-12-2012
2216	JC 754242H	SUB	HANS RAJ	01-09-2012
2217	JC 751664H	SUB	HANUMANA RAM GODARA	01-09-2012
2218	JC 751649N	SUB	HARA PRASAD GHOSH	01-09-2012
2219	JC 753888F	SUB	HARBIR SINGH	01-10-2012
2220	JC 759703L	SUB	HARE RAM PRASAD	01-09-2012
2221	JC 751648L	SUB	HARENDRE KUMAR	01-09-2012
2222	JC 755105W	SUB	HARI BILAS SINGH	01-10-2012
2223	JC 760511A	SUB	HARI DHANI SINGHA	01-11-2012
2224	JC 754647N	SUB	HARI RAM JAT	01-10-2012
2225	JC 759761P	SUB	HARISH CHANDRA CHAUHAN	01-12-2012
2226	JC 755273P	SUB	HARJIT SINGH	01-11-2012
2227	JC 754738X	SUB	HASABE GANESHRAO MAHADEV	01-01-2013
2228	JC 762875L	SUB	HEM RAJ	01-01-2013
2229	JC 754027X	SUB	HOLAMBE INDRAJIT PANDIT RAO	01-12-2012

2230	JC 761026X	SUB	IIABANTA SINHA	01-09-2012
2231	JC 762076P	SUB	INDER PAL SINGH	01-01-2013
2232	JC 760195M	SUB	INDRAJIT SINGH YADAVA	01-10-2012
2233	JC 762238P	SUB	JACOB VARGHESE	01-10-2012
2234	JC 755279W	SUB	JAGAT NARAYAN	01-10-2012
2235	JC 752485P	SUB	JAGAT SINGH NAGAR	01-10-2012
2236	JC 755791P	SUB	JAGDISH PRASAD	01-01-2013
2237	JC 760090H	SUB	JAGDISH SINGH	01-12-2012
2238	JC 753711N	SUB	JAGDISH SINGH JADAUN	01-01-2013
2239	JC 753799H	SUB	JAGJIT SINGH	01-10-2012
2240	JC 759931N	SUB	JAGRAM SINGH	01-12-2012
2241	JC 758697W	SUB	JAI KRISHNA RAI	01-09-2012
2242	JC 757765M	SUB	JAI MANGAL PRASAD	01-09-2012
2243	JC 761492M	SUB	JAI PRAKASH	01-01-2013
2244	JC 762600X	SUB	JAIKISHAN BAGARIA	01-01-2013
2245	JC 752183H	SUB	JANAK SINGH	01-10-2012
2246	JC 756062Y	SUB	JARNAIL SINGH	01-11-2012
2247	JC 755573W	SUB	JAWAHAR SINGH	01-12-2012
2248	JC 755084L	SUB	JAY KARAN	01-10-2012
2249	JC 757689L	SUB	JITENDRA PRASAD SINGH	01-10-2012
2250	JC 760215P	SUB	JOGEN PATHAK	01-12-2012
2251	JC 758678L	SUB	JOGINDER SINGH	01-09-2012
2252	JC 753211W	SUB	K KANDASAMY	01-09-2012
2253	JC 755917K	SUB	KAILASH CHANDRA NAYAK	01-12-2012
2254	JC 759140W	SUB	KAILASH LAL SAH	01-10-2012
2255	JC 755001P	SUB	KALAPARTIV RAVI BABU	01-12-2012
2256	JC 755008Y	SUB	KALU RAM	01-01-2013
2257	JC 755883F	SUB	KALU RAM MALI	01-01-2013
2258	JC 755916F	SUB	KALYAN CHAND	01-01-2013
2259	JC 754588M	SUB	KAMAL KUMAR	01-09-2012
2260	JC 754306H	SUB	KAMAL RANJAN HOME ROY	01-01-2013
2261	JC 761462P	SUB	KAMALA LOCHAN MOHANTY	01-11-2012
2262	JC 760966W	SUB	KAMLESH KUMAR CHAUBEY	01-12-2012
2263	JC 752265L	SUB	KAMTA PRASAD	01-11-2012
2264	JC 762597H	SUB	KANAK CHANDRA NATH	01-09-2012
2265	JC 755271K	SUB	KARTAR CHAND	01-11-2012
2266	JC 754831Y	SUB	KARTICK CHANDRA GHOSH	01-09-2012
2267	JC 760005P	SUB	KASHI NARESH CHAUHAN	01-10-2012
2268	JC 755323P	SUB	KASINATH RAUTO	01-12-2012
2269	JC 755911H	SUB	KATRE ANKUSH RUPCHAND	01-11-2012
2270	JC 756591L	SUB	KEDAR RAM	01-01-2013
2271	JC 762156M	SUB	KEWAL KRISHAN	01-11-2012
2272	JC 752616P	SUB	KH JOYNAL HAQUE	01-01-2013
2273	JC 752088W	SUB	KISHANA RAM SARAN	01-10-2012
2274	JC 760936Y	SUB	KOSIREDDI VVSU BAPU	01-01-2013
2275	JC 760580W	SUB	KRISHAN MURARI	01-12-2012
2276	JC 754740P	SUB	KRISHNA KUMAR	01-01-2013

2277	JC 761147Y	SUB	KUMAR SINGH	01-10-2012
2278	JC 757550N	SUB	LAHAR SINGH	01-01-2013
2279	JC 759779L	SUB	LAKSHUMUNNAIDU PEDADA	01-12-2012
2280	JC 761730N	SUB	LAL BAHADUR SHARMA	01-12-2012
2281	JC 756373M	SUB	LALAN SINGH YADAV	01-01-2013
2282	JC 751667W	SUB	M CHANDRAN	01-09-2012
2283	JC 759490H	SUB	M FRANCIS PAUL SUNDAR RAJ	01-09-2012
2284	JC 754653F	SUB	MADAN LAL	01-01-2013
2285	JC 755627M	SUB	MAHAVIR SINGH	01-01-2013
2286	JC 755871M	SUB	MAHENDRA NATH MANDI	01-11-2012
2287	JC 754301K	SUB	MAHENDRA RAM	01-01-2013
2288	JC 755034A	SUB	MAHENDRA SINGH	01-10-2012
2289	JC 762072Y	SUB	MAHENDRAPAL GAUTAM	01-01-2013
2290	JC 754936N	SUB	MAHESH KUMAR	01-10-2012
2291	JC 761574P	SUB	MAHESHWARI PRASAD	01-12-2012
			CHATURVEDI	
2292	JC 756464W	SUB	MAJOR SINGH SANDHU	01-01-2013
2293	JC 761722P	SUB	MANBAR SINGH	01-10-2012
2294	JC 761466L	SUB	MANMADHAN T	01-11-2012
2295	JC 758437L	SUB	MANOHARAN PP	01-11-2012
2296	JC 754976K	SUB	MANOJIT KUMAR KAR	01-10-2012
2297	JC 761383A	SUB	MATI LAL DEB	01-11-2012
2298	JC 756846A	SUB	MD ASLAM KHAN	01-01-2013
2299	JC 754656P	SUB	MD HASIB ALI	01-01-2013
2300	JC 757351A	SUB	MD KUDRAT HUSSAIN	01-10-2012
2301	JC 762236K	SUB	MINYA SINGH	01-10-2012
2302	JC 763293X	SUB	MIR ASADUZZAMAN	01-01-2013
2303	JC 761496H	SUB	MOTILAL GUPTA	01-01-2013
2304	JC 760229P	SUB	MUKESHWAR DAYAL	01-01-2013
2305	JC 755720N	SUB	N MURALI DHARAN	01-10-2012
2306	JC 760938K	SUB	N PRANA BAHDHU PATRA	01-11-2012
2307	JC 754193L	SUB	NAIN SINGH	01-12-2012
2308	JC 755865Y	SUB	NAN MOON	01-11-2012
2309	JC 755422X	SUB	NANI GOPAL DEB	01-12-2012
2310	JC 758032A	SUB	NARAYAN CP	01-12-2012
2311	JC 756070X	SUB	NARESH PAL PANWAR	01-01-2013
2312	JC 761734K	SUB	NASIB SINGH	01-01-2013
2313	JC 760231M	SUB	NIL KANTA SINGHA	01-12-2012
2314	JC 756094F	SUB	NIMISHAKAVI VENKATESWARA	01-12-2012
			RAO	
2315	JC 761728W	SUB	NIRAJ PRASAD SINGH	01-12-2012
2316	JC 760182P	SUB	NIRANJAN SINGH	01-01-2013
2317	JC 761222X	SUB	NIRMAL CHANDRA PUHAN	01-09-2012
2318	JC 754662H	SUB	NIRMAL MALLICK	01-09-2012
2319	JC 753796P	SUB	OM SINGH	01-01-2013
2320	JC 755071N	SUB	OMVIR SINGH GAHLOT	01-01-2013
2321	JC 755277L	SUB	P SELVARAJ	01-09-2012

2322	JC 754884X	SUB	PADMA LOCHAN DASADHIKARI	01-01-2013
2323	JC 760873F	SUB	PADMA LOCHAN MAHANTA	01-01-2013
2324	JC 756283L	SUB	PAMALLA VIJAYABHASKAR	01-09-2012
2325	JC 757278M	SUB	PATADE PANDURANG SHRIPATI	01-01-2013
2326	JC 760883L	SUB	PAUL JOSEPH	01-12-2012
2327	JC 754816K	SUB	PAWAN KUMAR	01-12-2012
2328	JC 760164M	SUB	PAWAN KUMAR SHARMA	01-11-2012
2329	JC 756288K	SUB	PONIPIREDDY VENKATA RAMAN	01-12-2012
2330	JC 755868M	SUB	PRADEEP PATEL	01-11-2012
2331	JC 753407K	SUB	PRADIP KUMAR DAS	01-09-2012
2332	JC 754984H	SUB	PRANABESH BHATTACHARYA	01-10-2012
2333	JC 757878P	SUB	PURUSHOTTAM	01-09-2012
2334	JC 755760P	SUB	R GUNA CHANDRAN	01-12-2012
2335	JC 757798X	SUB	R RAJAN	01-12-2012
2336	JC 754669M	SUB	R RAVI CHANDRAN	01-01-2013
2337	JC 755870K	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-11-2012
2338	JC 753887Y	SUB	RAGHUNATH SINGH	01-10-2012
2339	JC 760194K	SUB	RAGHUPATHY A	01-09-2012
2340	JC 761144L	SUB	RAGU NATH BIRWA	01-09-2012
2341	JC 762074K	SUB	RAJ BAHADUR	01-01-2013
2342	JC 756715P	SUB	RAJ KARAN	01-10-2012
2343	JC 763028F	SUB	RAJ KISHORE SINGH	01-12-2012
2344	JC 754936H	SUB	RAJ KUMAR PRADHAN	01-09-2012
2345	JC 755973H	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	01-01-2013
2346	JC 763292P	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-01-2013
2347	JC 752313A	SUB	RAJA RAM	01-12-2012
2348	JC 755155F	SUB	RAJA RAM	01-09-2012
2349	JC 761951A	SUB	RAJAKRISHNAN P	01-12-2012
2350	JC 761731W	SUB	RAJAPPAN PILLAI S	01-12-2012
2351	JC 758590F	SUB	RAJAT KUMAR BISWAS	01-12-2012
2352	JC 754845Y	SUB	RAJAT KUMAR GHOSH	01-09-2012
2353	JC 752304Y	SUB	RAJBIR SINGH	01-12-2012
2354	JC 762811A	SUB	RAJENDRA BAHADUR SINGH	01-12-2012
2355	JC 755880N	SUB	RAJENDRA KUMAR	01-12-2012
2356	JC 760968F	SUB	RAJENDRA PAL	01-01-2013
2357	JC 756542H	SUB	RAJENDRA SINGH	01-10-2012
2358	JC 756203H	SUB	RAJINDER SINGH RANA	01-01-2013
2359	JC 755299K	SUB	RAJPAL SINGH	01-11-2012
2360	JC 761500A	SUB	RAM BICHAR DUBEY	01-12-2012
2361	JC 760228M	SUB	RAM CHANDRA PRAJAPATI	01-01-2013
2362	JC 760836N	SUB	RAM CHANDRA VERMA	01-11-2012
2363	JC 755109M	SUB	RAM KUMAR	01-11-2012
2364	JC 762457W	SUB	RAM KUNWAR YADAV	01-10-2012
2365	JC 760488X	SUB	RAM LAL	01-01-2013
2366	JC 762591F	SUB	RAM LAL BHARDWAI	01-11-2012
2367	JC 755005L	SUB	RAM NIWAS	01-12-2012
2368	JC 755423A	SUB	RAM PAL	01-09-2012

2369	JC 754844W	SUB	RAM PAL KHAJURI	01-09-2012
2370	JC 758152Y	SUB	RAM PRAKASH SHARMA	01-10-2012
2371	JC 761946P	SUB	RAM PRASAD	01-12-2012
2372	JC 757242N	SUB	RAM PRATAP VERMA	01-01-2013
2373	JC 755282W	SUB	RAM RATTAN	01-11-2012
2374	JC 753793F	SUB	RAMA SHANKAR	01-11-2012
2375	JC 752080K	SUB	RAMACHANDRA LAMANI	01-12-2012
2376	JC 761726L	SUB	RAMACHANDRAN S	01-12-2012
2377	JC 756613Y	SUB	RAMAKANTA PALAI	01-11-2012
2378	JC 761626A	SUB	RAMAYAGYA DUBEY	01-12-2012
2379	JC 755756M	SUB	RAMBABU SHARMA	01-12-2012
2380	JC 759926H	SUB	RAMESH BABU	01-11-2012
2381	JC 752076F	SUB	RAMESH CHAND SHARMA	01-11-2012
2382	JC 761278K	SUB	RAMESH CHANDRA	01-10-2012
2383	JC 754911W	SUB	RAMESH CHANDRA GHOSH	01-11-2012
2384	JC 759485X	SUB	RAMESH RAJ	01-11-2012
2385	JC 757990F	SUB	RAMJI LAL	01-11-2012
2386	JC 763173Y	SUB	RAMJI PRASAD	01-01-2013
2387	JC 755420M	SUB	RAN BIR SINGH	01-12-2012
2388	JC 755029P	SUB	RANDHIR SINGH	01-10-2012
2389	JC 757530A	SUB	RAO BALACHANDRAN	01-11-2012
2390	JC 760931A	SUB	RATNA KUMAR K V	01-12-2012
2391	JC 762220Y	SUB	RATNESHWAR THAKUR	01-10-2012
2392	JC 754948X	SUB	RATTAN SINGH	01-10-2012
2393	JC 754975F	SUB	REDHEY SHYAM	01-10-2012
2394	JC 754957Y	SUB	REJAKUL ISLAM	01-01-2013
2395	JC 755110F	SUB	ROHAN SINGH	01-11-2012
2396	JC 756694K	SUB	ROHITASH KUMAR	01-09-2012
2397	JC 754956W	SUB	RUP LAL	01-01-2013
2398	JC 751987L	SUB	S NORENDRA SINGHA CHOUDHURY	01-09-2012
2399	JC 757302X	SUB	SACHINDRA NATH DOLAI	01-10-2012
2400	JC 759066A	SUB	SADA NANDA BORA	01-12-2012
2401	JC 757548W	SUB	SADA SHIVAN PILLAI	01-01-2013
2402	JC 755326H	SUB	SADANAND SALUNKE	01-12-2012
2403	JC 754855H	SUB	SAMAY SINGH	01-10-2012
2404	JC 758657P	SUB	SANAT KUMAR TIWARI	01-12-2012
2405	JC 761573M	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	01-09-2012
2406	JC 762872X	SUB	SANJIT SINGHA ROY	01-01-2013
2407	JC 755115A	SUB	SANKER PADDO SANKAR	01-09-2012
2408	JC 760208Y	SUB	SANTANU MANDAL	01-11-2012
2409	JC 754626X	SUB	SANWAL RAM CHOPRA	01-11-2012
2410	JC 754755X	SUB	SANWAT RAM	01-09-2012
2411	JC 762778N	SUB	SARMMA KUMARAN UNNITHAN R	01-10-2012
2412	JC 763300H	SUB	SAROJ KUMAR SHARMA	01-01-2013
2413	JC 754129N	SUB	SASIDHARAN K	01-09-2012

2414	JC 757401A	SUB	SAT PAUL	01-01-2013
2415	JC 754244N	SUB	SATBIR SINGH	01-12-2012
2416	JC 755728A	SUB	SATBIR SINGH KUNDU	01-01-2013
2417	JC 754231W	SUB	SATENDRA SINGH	01-12-2012
2418	JC 757691H	SUB	SATENDRA SINGH	01-12-2012
2419	JC 756653A	SUB	SATHEESA KUMAR A	01-10-2012
2420	JC 760165P	SUB	SATINDER KUMAR SINGH	01-11-2012
2421	JC 756269Y	SUB	SATISH CHANDER	01-01-2013
2422	JC 755106Y	SUB	SATY NARAYAN	01-10-2012
2423	JC 761571F	SUB	SATYA BHAN SHARMA	01-11-2012
2424	JC 754998H	SUB	SATYA DEV	01-10-2012
2425	JC 755102H	SUB	SATYADEV PRASAD PAL	01-10-2012
2426	JC 761461M	SUB	SATYENDRA KUMAR SINGH	01-11-2012
2427	JC 761624P	SUB	SETHU K	01-11-2012
2428	JC 755111K	SUB	SHAMSHER SINGH	01-11-2012
2429	JC 760721A	SUB	SHANKAR PRASAD YADAV	01-01-2013
2430	JC 760222L	SUB	SHARWAN KUMAR BISHNOI	01-12-2012
2431	JC 760598M	SUB	SHASHI KANT PANDEY	01-01-2013
2432	JC 761381P	SUB	SHASHIDHARAN K	01-09-2012
2433	JC 756163M	SUB	SHEESH RAM	01-09-2012
2434	JC 762874H	SUB	SHEOJEE RAM	01-01-2013
2435	JC 757856W	SUB	SHIKAR CHAND	01-10-2012
2436	JC 756067X	SUB	SHIV CHARAN	01-01-2013
2437	JC 755157M	SUB	SHIV DEEN	01-01-2013
2438	JC 751676X	SUB	SHIV KUMAR	01-10-2012
2439	JC 761384H	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-11-2012
2440	JC 761283P	SUB	SHIV MANGAL SINGH	01-10-2012
2441	JC 760201P	SUB	SHIV MUNIRAM	01-10-2012
2442	JC 760367W	SUB	SHIV SHANKAR PRASAD SINGH	01-01-2013
2443	JC 754040F	SUB	SHIVAJI PATIL	01-12-2012
2444	JC 754592P	SUB	SHIVJI LAL NAGAR	01-01-2013
2445	JC 760224W	SUB	SHIW BHAGAT	01-12-2012
2446	JC 754452H	SUB	SHIWA KUMAR SINGH	01-12-2012
2447	JC 760491X	SUB	SHYAM BISHRI	01-11-2012
2448	JC 761145N	SUB	SHYAM KUMAR	01-09-2012
2449	JC 752312X	SUB	SHYAM LAL SHARMA	01-12-2012
2450	JC 753657L	SUB	SHYAM SINGH DABUR	01-01-2013
2451	JC 755270F	SUB	SHYAMAL BHOWAS	01-11-2012
2452	JC 761280F	SUB	SIESHA SINGH	01-10-2012
2453	JC 757849A	SUB	SIRAJUDDIN	01-10-2012
2454	JC 753656H	SUB	SOFI UDDIN AHMED	01-09-2012
2455	JC 753409Y	SUB	SOMESHWAR SINGH	01-10-2012
2456	JC 755483P	SUB	SOSHANKA CHANDER	01-09-2012
2457	JC 755725M	SUB	SUBHASH CHAND	01-01-2013
2458	JC 754022Y	SUB	SUBHASH CHANDER	01-11-2012
2459	JC 761146W	SUB	SUBHASH CHANDER D	01-09-2012
2460	JC 755542W	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-10-2012

2461	JC 754571Y	SUB	SUBHASH CHANDRA RAI	01-01-2013
2462	JC 762230H	SUB	SUBHASH CHANDRA YADAV	01-09-2012
2463	JC 755867K	SUB	SUBHASH SARKAR	01-11-2012
2464	JC 758541Y	SUB	SUBHASIS GHATAK	01-01-2013
2465	JC 755774P	SUB	SUGHAR LAL PAL	01-11-2012
2466	JC 755193X	SUB	SUKHDEV KHIDIA	01-09-2012
2467	JC 760597K	SUB	SULTAN SINGH	01-12-2012
2468	JC 754651W	SUB	SUNADHAN SINGHA	01-12-2012
2469	JC 754564H	SUB	SUNIL KUMAR	01-01-2013
2470	JC 759057Y	SUB	SUNIL KUMAR ROY	01-01-2013
2471	JC 751887A	SUB	SURENDER KUMAR	01-09-2012
2472	JC 762229N	SUB	SURESH CHANDRA SHARMA	01-09-2012
2473	JC 755147H	SUB	SURESH KUMAR	01-10-2012
2474	JC 755510N	SUB	SURESH KUMAR	01-09-2012
2475	JC 760217A	SUB	SURINDER SINGH	01-12-2012
2476	JC 755421P	SUB	SUSANTA KUMAR DAS	01-12-2012
2477	JC 755971X	SUB	SUSHIL KUMAR YADAV	01-12-2012
2478	JC 760669H	SUB	TAPAN KUMAR DEY	01-12-2012
2479	JC 755020A	SUB	TARANGE LAXMAN VITHAL	01-01-2013
2480	JC 754978P	SUB	TARKESHWAR OJHA	01-10-2012
2481	JC 757366M	SUB	TASADDUK HUSSAIN	01-11-2012
2482	JC 754039M	SUB	TAVANDIKAR ASHOK	01-12-2012
			CHANDRAKANT	
2483	JC 757481H	SUB	TEJENDER SINGH	01-10-2012
2484	JC 756064K	SUB	THIAGA RAJAN L	01-01-2013
2485	JC 758450P	SUB	THIRUPATHY C	01-01-2013
2486	JC 761023K	SUB	UDAY KUMAR SINGH	01-09-2012
2487	JC 754026P	SUB	UMA SHANKAR SINGH	01-12-2012
2488	JC 760935W	SUB	UMA SHANKAR SINGH	01-01-2013
2489	JC 752077K	SUB	UMAKANTA TIADI	01-11-2012
2490	JC 754041K	SUB	UMALE DEEPAK VISHRAM	01-01-2013
2491	JC 754023F	SUB	UMESH KUMAR	01-09-2012
2492	JC 760216X	SUB	UMESH KUMAR KAKAD	01-12-2012
2493	JC 756605A	SUB	UPPADA TUMBANADHAM	01-01-2013
2494	JC 755103L	SUB	UTTAM CHAND RANA	01-10-2012
2495	JC 757005K	SUB	UZZWAL KUMAR GHOSH	01-12-2012
2496	JC 759792P	SUB	V BALA RAMAN	01-12-2012
2497	JC 760534F	SUB	VED PRAKASH	01-11-2012
2498	JC 755281N	SUB	VEERPAL SINGH	01-11-2012
2499	JC 752087N	SUB	VERINDER CHAND	01-10-2012
2500	JC 761030A	SUB	VIDYA RAM	01-09-2012
2501	JC 761382X	SUB	VIDYANAND JHA	01-11-2012
2502	JC 754498L	SUB	VIJAY BHAN SINGH	01-01-2013
2503	JC 752785W	SUB	VIJAY KUMAR	01-01-2013
2504	JC 760218H	SUB	VIJAY KUMAR SINGH	01-12-2012
2505	JC 759480Y	SUB	VIJAY NARAYAN C	01-10-2012
2506	JC 760673L	SUB	VIJAY THAPA	01-12-2012



2507	JC 756033K	SUB	VIJAYENDRA M V	01-01-2013
2508	JC 755778L	SUB	VIMAL KUMAR	01-09-2012
2509	JC 761282M	SUB	VINOD KUMAR	01-10-2012
2510	JC 754946M	SUB	VIRENDRA KUMAR	01-09-2012
2511	JC 763299Y	SUB	VISHNU DUTT	01-01-2013
2512	JC 763171N	SUB	YAD RAM	01-12-2012
2513	JC 755324X	SUB	YALLAPPA NARASAPUR	01-12-2012
2514	JC 758313W	SUB	YATENDER KUMAR SINGH	01-11-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

2515	JC 803337P	SUB	A ADAIKALAM	01-12-2012
2516	JC 803165L	SUB	BALJIT SINGH	01-01-2013
2517	JC 802672M	SUB	BHAIRAV PRAKASH MISHRA	01-12-2012
2518	JC 803328N	SUB	BHASKAR CHATTERJEE	01-01-2013
2519	JC 802663L	SUB	BIRENDER SINGH	01-12-2012
2520	JC 803234W	SUB	BRAJ KISHOR	01-09-2012
2521	JC 803339A	SUB	DAMODAR	01-11-2012
2522	JC 802661A	SUB	DHANPAL SINGH	01-12-2012
2523	JC 803268K	SUB	DHARAM CHAND	01-01-2013
2524	JC 803192P	SUB	DHIRI SINGH	01-01-2013
2525	JC 802681N	SUB	DINESH KUMAR MISHRA	01-12-2012
2526	JC 802656P	SUB	DORI LAL	01-12-2012
2527	JC 803132A	SUB	GORDHAN SINGH SHEKHAWAT	01-01-2013
2528	JC 803263L	SUB	KAMAL SINGH BALWADA	01-01-2013
2529	JC 803162X	SUB	KRIPA SHANKAR SINGH	01-01-2013
2530	JC 803228H	SUB	KULDEEP SINGH	01-01-2013
2531	JC 803204Y	SUB	KUSHAL PAL SINGH	01-01-2013
2532	JC 802865M	SUB	MOHAN SINGH	01-12-2012
2533	JC 802671K	SUB	MOHD AKHALAKH ANSARI	01-12-2012
2534	JC 803223K	SUB	MOTI RAM	01-01-2013
2535	JC 803127P	SUB	MUKESH KUMAR MISHRA	01-01-2013
2536	JC 803369X	SUB	NIRMAL SINGH	01-01-2013
2537	JC 803118N	SUB	PITAMBAR JHA	01-01-2013
2538	JC 803140Y	SUB	PRAFULLA KUMAR DIKSHIT	01-01-2013
2539	JC 803238M	SUB	RAJ KARAN	01-01-2013
2540	JC 803119W	SUB	RAJA RAM SWAMI	01-01-2013
2541	JC 802943Y	SUB	RAJENDRA KUMAR YADAV	01-12-2012
2542	JC 803121N	SUB	RAJINDER SINGH RAWAT	01-01-2013
2543	JC 803340P	SUB	RAM CHANDRA SINGH	01-01-2013
2544	JC 803293H	SUB	RAM KRISHAN	01-01-2013
2545	JC 803488N	SUB	RAMBIR SINGH	01-01-2013
2546	JC 802772X	SUB	RAMDEV SINGH KHARESYA	01-12-2012
2547	JC 803242P	SUB	SUBIR KUMAR CHATTERJEE	01-01-2013
2548	JC 802694L	SUB	SURESH PRASAD	01-12-2012
2549	JC 803602A	SUB	UDHVIR SINGH	01-01-2013
2550	JC 802667F	SUB	UMRAO SINGH	01-12-2012

2551	JC 802985L	SUB	VIJAY PAL	01-12-2012
2552	JC 803311A	SUB	VIRENDER SINGH	01-01-2013

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

2553	JC 797079F	RIS	BRIJESH KUMAR PANDEY	01-12-2012
2554	JC 797360K	RIS	J JAYACHANDRAN PILLAI	01-09-2012
2555	JC 797365H	RIS	LOLIT CHANGMAI	01-12-2012
2556	JC 797319N	RIS	MAHABIR SINGH	01-09-2012
2557	JC 797384N	RIS	MANI KANT SINGH	01-09-2012
2558	JC 797414A	RIS	R AROKIYA SWAMY	01-09-2012
2559	JC 797331P	RIS	SUKUMAR RAY	01-10-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

2560	JC 810752Y	SUB	AMAR BAHADUR SINGH	01-01-2013
2561	JC 810705F	SUB	ATTAR SINGH	01-10-2012
2562	JC 810396K	SUB	BALWAN SINGH	01-10-2012
2563	JC 810564X	SUB	BHAGIRATH MAL KULHARI	01-09-2012
2564	JC 811091W	SUB	BIJAYA GURUNG	01-01-2013
2565	JC 810803F	SUB	BRAHAMPAL SINGH KAJLA	01-01-2013
2566	JC 811186W	SUB	BRUHASPATI MISHRA	01-09-2012
2567	JC 810725P	SUB	DEV RAM	01-12-2012
2568	JC 810724M	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-12-2012
2569	JC 810716N	SUB	DIL BAHADUR THAPA	01-11-2012
2570	JC 810706K	SUB	GURBACHAN SINGH	01-10-2012
2571	JC 810852K	SUB	J SEBASTIAN	01-12-2012
2572	JC 810764N	SUB	KAMLESH KUMAR CHAUDHARY	01-09-2012
2573	JC 810785K	SUB	KAPTAN SINGH	01-09-2012
2574	JC 810589K	SUB	KULJIT CHAND KATOCH	01-09-2012
2575	JC 810531M	SUB	KUMAR BAHADUR YADAV	01-01-2013
2576	JC 810590Y	SUB	MANGLA RAM JAT	01-09-2012
2577	JC 810726X	SUB	MATA PRASAD	01-12-2012
2578	JC 810711P	SUB	MD NASIM AKHTAR	01-11-2012
2579	JC 810701L	SUB	MEHMAN SINGH	01-09-2012
2580	JC 810708P	SUB	MOHAN SINGH	01-10-2012
2581	JC 810715L	SUB	NAR BAHADUR THAPA	01-11-2012
2582	JC 810756P	SUB	PATIL JAYAWANT NIVRITTI	01-11-2012
2583	JC 810743X	SUB	RAJ SINGH	01-09-2012
2584	JC 810585N	SUB	RAM PRASAD ROY	01-10-2012
2585	JC 810709X	SUB	SHAIKH ABDUL HAKIM IBRAHIM	01-11-2012
2586	JC 810933K	SUB	SYED AFZAL ALI	01-09-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

2587	JC 819226F	SUB	SURESH KUMAR MP	01-09-2012
------	------------	-----	-----------------	------------

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

2588	JC 826169N	SUB	HEM SINGH	01-01-2013
2589	JC 826196X	SUB	PREM RAM	01-01-2013

**THE PIONEER CORPS**

2590	JC 829386P	SUB	BHAWANI DATT	01-10-2012
2591	JC 829374A	SUB	KISHAN SINGH	01-10-2012
2592	JC 829391A	SUB	PARIS BOGAR	01-12-2012
2593	JC 829376L	SUB	PRAHLAD MEENA	01-01-2013
2594	JC 829353K	SUB	RISHI PAL SINGH	01-09-2012
2595	JC 829375H	SUB	SHAHAJI SHANKAR KOLI	01-11-2012
2596	JC 829358H	SUB	SHAHBU DIN	01-10-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

2597	JC 842223A	SUB	AMAR NATH PRASAD	01-11-2012
2598	JC 842014H	SUB	BALAKRISHNAN PT	01-11-2012
2599	JC 842113L	SUB	CHARAN SINGH	01-12-2012
2600	JC 841711W	SUB	DLAWAR SINGH	01-01-2013
2601	JC 842001L	SUB	GANESAN G	01-01-2013
2602	JC 841318N	SUB	GIAN CHAND	01-01-2013
2603	JC 842182F	SUB	HARI DATT	01-01-2013
2604	JC 840711K	SUB	MV SOMAN	01-12-2012
2605	JC 841500N	SUB	PM HARIKUTTAN PILLAI	01-12-2012
2606	JC 841580W	SUB	RAMESAN S	01-11-2012
2607	JC 842083Y	SUB	RAVEENDRAN PP	01-11-2012
2608	JC 841775F	SUB	R. PUSUKARAN	01-12-2012
2609	JC 842048W	SUB	SC BACHU BHAI	01-09-2012
2610	JC 841361P	SUB	THIRATH RAM	01-01-2013

**TERRITORIAL ARMY**

2611	TJ 4926W	SUB	ACHUTAM GURUNG	01-01-2013
2612	TJ 3400X	SUB	BANWARI SINGH RAO	01-10-2012
2613	TJ 3495H	SUB	DAVKARE RABU BABU	01-10-2012
2614	TJ 4471L	SUB	GANESH CHANDRA SAMAL	01-12-2012
2615	TJ 4339L	SUB	GOVIND SINGH RAJAWAT	01-09-2012
2616	TJ 4621W	SUB	KRISHNA KUMAR	01-10-2012
2617	TJ 4566L	SUB	MASHALKAR RAMANA	01-10-2012
			SIDRAMAPPA	
2618	TJ 4340Y	SUB	PRABHAKAR NIKULE	01-10-2012
2619	TJ 4644X	SUB	RAJENDRA SINGH	01-10-2012
2620	TJ 4207X	SUB	RAM PRAKASH	01-10-2012
2621	TJ 4253M	SUB	S GOVARDHAN	01-01-2013
2622	TJ 4194L	SUB	SUBHASH CHAKRABORTY	01-09-2012
2623	TJ 4336X	SUB	SUKHDEV SINGH	01-10-2012
2624	TJ 4254P	SUB	UNNI KRISHNAN EC	01-12-2012

**TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS****ARMoured CORPS**

1	JC 244703L	NB RIS	ASHIM KUMAR CHANDA	01-01-2013
2	JC 243445K	NB RIS	KAILASH SINGH YADAV	01-01-2013
3	JC 243826L	NB RIS	KRISHNAN K	01-12-2012
4	JC 243852M	NB RIS	NIROJ KUMAR SINGH	01-11-2012
5	JC 244133A	NB RIS	SANJAY KUMAR BISWAS	01-01-2013

**REGIMENT OF ARTILLERY**

6	JC 275831K	NB SUB	ANIL KUMAR	01-12-2012
7	JC 272800Y	NB SUB	ANKAPALA MOHAN RAO	01-09-2012
8	JC 273564P	NB SUB	ANUP KUMAR PAUL	01-09-2012
9	JC 274238Y	NB SUB	ASHOK KUMAR YADAV	01-12-2012
10	JC 277974H	NB SUB	BALDEV SINGH	01-09-2012
11	JC 275368N	NB SUB	BALWAN SINGH	01-01-2013
12	JC 273340P	NB SUB	BHARAT KUMAR	01-12-2012
13	JC 273114X	NB SUB	DHARAM CHAND	01-09-2012
14	JC 274719L	NB SUB	DHARAM VEER	01-09-2012
15	JC 272766K	NB SUB	GAYAD SINGH	01-09-2012
16	JC 273388H	NB SUB	GURCHARAN SINGH	01-01-2013
17	JC 274154L	NB SUB	JABAR SINGH	01-09-2012
18	JC 274038H	NB SUB	JADHAV RAJABHAU TATYARAO	01-11-2012
19	JC 272989F	NB SUB	JANAK RAJ	01-11-2012
20	JC 275164F	NB SUB	JHAMMAN SINGH	01-10-2012
21	JC 274845X	NB SUB	KORAKUTI NAGESWARA RAO	01-01-2013
22	JC 275516N	NB SUB	KULDEEP SINGH	01-01-2013
23	JC 274269Y	NB SUB	M MANIGUNDAN	01-11-2012
24	JC 275745Y	NB SUB	MAHIDHAN SINGH	01-01-2013
25	JC 273103L	NB SUB	MALKIT SINGH	01-11-2012
26	JC 273500K	NB SUB	MALKIT SINGH	01-10-2012
27	JC 273946Y	NB SUB	MAN SINGH	01-10-2012
28	JC 273600P	NB SUB	MUTTHE KADUBA MAHADU	01-10-2012
29	JC 273220W	NB SUB	NIHAL SINGH	01-01-2013
30	JC 273396F	NB SUB	NIRANJAN JENA	01-09-2012
31	JC 273151L	NB SUB	PRATAP SINGH	01-12-2012
32	JC 276091M	NB SUB	RAGHUBIR SINGH	01-12-2012
33	JC 274648P	NB SUB	RAJU KUMAR	01-09-2012
34	JC 275518Y	NB SUB	RAKESH KUMAR	01-09-2012
35	JC 274785N	NB SUB	RAMJEE PRASAD	01-10-2012
36	JC 273130P	NB SUB	RANDHIR SINGH	01-09-2012
37	JC 273834Y	NB SUB	ROOP SINGH	01-11-2012
38	JC 274729P	NB SUB	SACHIDANAND SHUKLA	01-11-2012
39	JC 274832A	NB SUB	SARTAJ SINGH	01-11-2012
40	JC 274956P	NB SUB	SATYA PARKASH	01-10-2012

41	JC 275344K	NB SUB	SATYENDRA SINGH	01-01-2013
42	JC 272931K	NB SUB	SHAIK GAFFAR	01-10-2012
43	JC 273219Y	NB SUB	SHEIK MOHMAD ABDUS SALAM	01-09-2012
44	JC 274954K	NB SUB	SHIV RAM	01-10-2012
45	JC 274120X	NB SUB	SIBARAMA MAHAKHUD	01-09-2012
46	JC 274089W	NB SUB	SURENDRA RAI	01-12-2012
47	JC 272978P	NB SUB	SURESH CHANDRA PANDA	01-09-2012
48	JC 274799N	NB SUB	SURJIT SINGH	01-01-2013
49	JC 275992M	NB SUB	VIJAY KUMAR	01-01-2013
50	JC 273941A	NB SUB	YAG NARAYAN PATEL	01-10-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

51	JC 301386W	NB SUB	BEGRAJ SINGH	01-11-2012
52	JC 301299H	NB SUB	JOGINDER KUMAR	01-09-2012
53	JC 301103K	NB SUB	KARNI RAM OLA	01-09-2012
54	JC 301447H	NB SUB	RAM PRAVESH SINGH	01-12-2012
55	JC 301456K	NB SUB	SAJI MATHEW	01-04-2012
56	JC 301448L	NB SUB	VIJAI SINGH CHAUHAN	01-09-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

57	JC 309557M	NB SUB	A MOTCHA ALANGARAM	01-01-2013
58	JC 309527P	NB SUB	A SAGAYARAJ	01-10-2012
59	JC 309546A	NB SUB	A VIJAYARAMA NAIDU	01-11-2012
60	JC 309460F	NB SUB	ABRAHAM M	01-01-2013
61	JC 309747Y	NB SUB	ANIL KUMAR C	01-12-2012
62	JC 308748P	NB SUB	ANIL KUMAR YADAV	01-11-2012
63	JC 308741L	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-09-2012
64	JC 309556K	NB SUB	BATTU VENKATA RAMANA	01-01-2013
65	JC 308739N	NB SUB	BEYAS MAHTO	01-10-2012
66	JC 308722A	NB SUB	BHUBANESWAR MAHANTA	01-10-2012
67	JC 309617W	NB SUB	BORRA SANTA MURTY	01-10-2012
68	JC 309550H	NB SUB	C RATHINAVELU	01-10-2012
69	JC 309750Y	NB SUB	G PERUMAL	01-01-2013
70	JC 308750M	NB SUB	GOBARDHAN PRASAD KALA	01-10-2012
71	JC 308986F	NB SUB	GUJULA PRABHAKARA	01-10-2012
72	JC 309545X	NB SUB	HANAMAPPA MELLI	01-09-2012
73	JC 308588A	NB SUB	HARI PRASAD S	01-01-2013
74	JC 309552N	NB SUB	JAYASEELAN	01-11-2012
75	JC 309723P	NB SUB	JOHAN MATHEW CM	01-10-2012
76	JC 308848A	NB SUB	KRISHNAMURTHI M	01-11-2012
77	JC 309692A	NB SUB	KT MUTHU KUMAR	01-11-2012
78	JC 309551L	NB SUB	MOHAMMED ISMAIL	01-10-2012
79	JC 310223K	NB SUB	NAWAB JOHN A	01-10-2012
80	JC 309558P	NB SUB	PITCHAIKANI E	01-01-2013
81	JC 309727L	NB SUB	PRASANNA KUMAR C	01-01-2013
82	JC 309611P	NB SUB	PUTI APPANNA	01-09-2012
83	JC 309638M	NB SUB	R SENTHIL	01-12-2012

84	JC 309457F	NB SUB	RADHAKRISHNAN TK	01-11-2012
85	JC 309724X	NB SUB	RAMASIDDAPPA JAYI	01-01-2013
86	JC 309725A	NB SUB	RAVI KUMAR N	01-01-2013
87	JC 310034A	NB SUB	S DHANAMJAYA NAIDU	01-12-2012
88	JC 309555F	NB SUB	SAMPATH R	01-11-2012
89	JC 309549N	NB SUB	SATHIAN PILAKKANDY	01-10-2012
90	JC 308747M	NB SUB	SATYA NARAYAN SINGH	01-10-2012
91	JC 309739A	NB SUB	SUBRAMANIAM R	01-12-2012
92	JC 309696W	NB SUB	THULASEEDHARAN PK	01-12-2012
93	JC 309459M	NB SUB	VASUDEVAN E	01-12-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

94	JC 339320K	NB SUB	GORE LAL MONDAL	01-01-2013
95	JC 338919L	NB SUB	HASRJIT SINGH	01-12-2012
96	JC 339148N	NB SUB	HIRAWAN YADAVA	01-12-2012
97	JC 338023K	NB SUB	JACOB K G	01-11-2012
98	JC 339325H	NB SUB	KAMLESH KUMAR PANDEY	01-12-2012
99	JC 338935H	NB SUB	MANOHAR SINGH KANYAL	01-09-2012
100	JC 339199F	NB SUB	MOHAN CHANDRA BHATT	01-10-2012
101	JC 338825N	NB SUB	OMPAL SINGH	01-10-2012
102	JC 339305P	NB SUB	RAM EKBAL SINGH	01-12-2012
103	JC 3389912F	NB SUB	SURINDER SINGH	01-10-2012
104	JC 329600K	NB SUB	VENUKUTTAN PILLAI R	01-10-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

105	JC 351329L	NB SUB	BAKSHISH SINGH	01-09-2012
106	JC 351213P	NB SUB	BALDEV SINGH	01-01-2013
107	JC 350989W	NB SUB	CHANDRA PRAKASH VERMA	01-01-2013
108	JC 350952P	NB SUB	GOKAL SINGH	01-10-2012
109	JC 351320W	NB SUB	GURDEV SINGH	01-10-2012
110	JC 351703H	NB SUB	ISSAC VV	01-11-2012
111	JC 351334W	NB SUB	JAGPAL SINGH	01-09-2012
112	JC 351326X	NB SUB	JAGTAR SINGH	01-01-2013
113	JC 351460H	NB SUB	KISHAN SINGH LOCHAN	01-11-2012
114	JC 351323K	NB SUB	KULDIP SINGH	01-01-2013
115	JC 351321Y	NB SUB	MAKHAN SINGH	01-11-2012
116	JC 351580F	NB SUB	PARAMJIT SINGH	01-10-2012
117	JC 351322F	NB SUB	RAM BAHADUR SINGH	01-12-2012
118	JC 351549P	NB SUB	RAM DEO	01-01-2013

**CORPS OF SIGNALS**

119	JC 379733W	NB SUB	ABDUL KHALEK	01-01-2013
120	JC 379642M	NB SUB	ABDUL NIZAR	01-01-2013
121	JC 380033P	NB SUB	AKSHYA LAL PRASAD	01-10-2012
122	JC 379634N	NB SUB	AMIR SINGH	01-11-2012
123	JC 380012Y	NB SUB	ANIK CHANDRA NATH	01-09-2012
124	JC 379722K	NB SUB	ANIL KUMAR	01-11-2012

125	JC 370032M	NB SUB	ARUN KUMAR SINGH	01-10-2012
126	JC 370021A	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2013
127	JC 379741P	NB SUB	ASHOK KUMAR JADAUN	01-10-2012
128	JC 379685F	NB SUB	ASHOK KUMAR SHAW	01-09-2012
129	JC 379485L	NB SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2012
130	JC 379678L	NB SUB	B S SHEKHAWAT	01-09-2012
131	JC 379473W	NB SUB	BABUL CHANDRA DAS	01-11-2012
132	JC 380440X	NB SUB	BADAN SINGH	01-11-2012
133	JC 379864F	NB SUB	BALESHWAR CHAUDHARY	01-12-2012
134	JC 380118L	NB SUB	BALKAR SINGH	01-01-2013
135	JC 378855N	NB SUB	BASANT KUMAR MISHRA	01-09-2012
136	JC 380436P	NB SUB	BECHU YADAW	01-01-2013
137	JC 378240H	NB SUB	BEER BAHADUR	01-01-2013
138	JC 378441F	NB SUB	BHAGABATI GUPTA	01-09-2012
139	JC 380220N	NB SUB	BISWANT JITHANAR	01-01-2013
140	JC 380059K	NB SUB	CHALLA RASBIA RAO	01-09-2012
141	JC 379645A	NB SUB	CHANDRANILADAN	01-01-2013
142	JC 380259A	NB SUB	DALJIT SINGH	01-01-2013
143	JC 379609X	NB SUB	DILIP KUMAR SINGH	01-10-2012
144	JC 379860L	NB SUB	DINESH CHANDRA UPADHAY	01-12-2012
145	JC 379693A	NB SUB	GAJAB SINGH BASTIAN	01-10-2012
146	JC 380067H	NB SUB	HARISH CHANDRA SINGH	01-01-2013
147	JC 380122N	NB SUB	ISMAIL M	01-01-2013
148	JC 380197L	NB SUB	JADHAV SAMPAT JAYWANT	01-01-2013
149	JC 379688P	NB SUB	JITENDRA BAHADUR SINGH	01-10-2012
150	JC 378180Y	NB SUB	JITUL SINGH	01-11-2012
151	JC 378937W	NB SUB	K S RAVI SANKAR	01-11-2012
152	JC 379112X	NB SUB	KALADHARANK V	01-11-2012
153	JC 380035A	NB SUB	KANHAIYA LAL YADAW	01-12-2012
154	JC 379637F	NB SUB	KARUNANANDHI K	01-12-2012
155	JC 381228M	NB SUB	KASHINATH SINGH YADAVA	01-09-2012
156	JC 379687M	NB SUB	KUSAM LAL YADAV	01-10-2012
157	JC 380036H	NB SUB	LAXMAN SINGH	01-11-2012
158	JC 379000X	NB SUB	MADHU SINGH	01-12-2012
159	JC 380257P	NB SUB	MAHENDRA KUMAR TIWARI	01-01-2013
160	JC 379958Y	NB SUB	MAKVANA DEEPA KUMAR	01-12-2012
			SOMA BHAI	
161	JC 380489N	NB SUB	NAKSHEEN LAL GUPTA	01-12-2012
162	JC 379752F	NB SUB	NARENDRA SINGH	01-11-2012
163	JC 379692X	NB SUB	OM PRAKASH	01-10-2012
164	JC 379721F	NB SUB	OM PRAKASH	01-11-2012
165	JC 379865K	NB SUB	PARAS NATH YADAV	01-01-2013
166	JC 380236Y	NB SUB	PARASHURAM SINGH YADAV	01-01-2013
167	JC 379644X	NB SUB	PARESH CHANDRA KALITA	01-12-2012
168	JC 380202L	NB SUB	PARGAT SINGH	01-01-2013
169	JC 379734Y	NB SUB	PATIL SHANKAR BHIMRAV	01-09-2012
170	JC 379862W	NB SUB	PRASANNA DEB NATH	01-12-2012

171	JC 379858N	NB SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-12-2012
172	JC 379863Y	NB SUB	RAJA KISHORE SWAIN	01-01-2013
173	JC 379691P	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-10-2012
174	JC 379859W	NB SUB	RAJESH KUMAR SINGH	01-12-2012
175	JC 380031K	NB SUB	RAM SARAN YADAV	01-09-2012
176	JC 379996P	NB SUB	RAM SWAROOP SINGH	01-10-2012
177	JC 380256M	NB SUB	RAMESH SINGH	01-01-2013
178	JC 379750W	NB SUB	ROTHUDE VITHAL BHAURAO	01-10-2012
179	JC 379307H	NB SUB	S R CHANDRA RANCHOD	01-12-2012
180	JC 379686K	NB SUB	SANJAI KUMAR SINGH	01-10-2012
181	JC 379742X	NB SUB	SAROJ KUMAR JHA	01-10-2012
182	JC 380019H	NB SUB	SATENDRA SHARMA	01-10-2012
183	JC 379327W	NB SUB	SATYAVIR SINGH	01-10-2012
184	JC 379549L	NB SUB	SERUEJIT YADAV	01-09-2012
185	JC 380022H	NB SUB	SHABBIR AHMED	01-01-2013
186	JC 379079L	NB SUB	SHAIK IMAMSHA	01-11-2012
187	JC 379856H	NB SUB	SHAILESH KUMAR MISHRA	01-12-2012
188	JC 380020X	NB SUB	SHANKER PRASAD SINGH	01-01-2013
189	JC 370121L	NB SUB	SHASHI BHUSAN DUBEY	01-01-2013
190	JC 379110M	NB SUB	SHIR PRAKASH	01-09-2012
191	JC 379414K	NB SUB	SHIV PUJAN YADAV	01-11-2012
192	JC 379723M	NB SUB	SISIR KUMAR MITRA	01-12-2012
193	JC 379654F	NB SUB	SUDARSAN MUDULI	01-10-2012
194	JC 380235W	NB SUB	SUDESH KUMAR	01-01-2013
195	JC 379680H	NB SUB	SUDHIR PRASAD SINGH	01-09-2012
196	JC 380255K	NB SUB	SUNIL KUMAR	01-01-2013
197	JC 380120H	NB SUB	SURENDER PRASAD SHARMA	01-01-2013
198	JC 378784X	NB SUB	SURENDER SINGH	01-09-2012
199	JC 380023L	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-01-2013
200	JC 379690M	NB SUB	SURESH KUMAR	01-10-2012
201	JC 379198F	NB SUB	SURESH PRASAD	01-09-2012
202	JC 379681L	NB SUB	UPENDRA ROY	01-09-2012
203	JC 379610K	NB SUB	V KASINATHAN	01-01-2013
204	JC 375130H	NB SUB	VADGASIYA SHANTILAL LAXMAN	01-10-2012
205	JC 380078P	NB SUB	VELAGA NARENDRA BABU	01-10-2012
206	JC 380119N	NB SUB	VIDYA SAGAR CHAUBEY	01-01-2013
207	JC 379857L	NB SUB	VIDYADHARAN K	01-12-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

208	JC 404550N	NB SUB	CHANDER SINGH BOHRA	01-10-2012
-----	------------	--------	---------------------	------------

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

209	JC 421611W	NB SUB	GURU PRASAD MEDHI	01-09-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

**THE PUNJAB REGIMENT**

210	JC 430696Y	NB SUB	AMARJIT SINGH	01-11-2012
-----	------------	--------	---------------	------------



211	JC 430420H	NB SUB	BHUPINDER SINGH	01-09-2012
212	JC 430686P	NB SUB	GARY SINGH	01-11-2012
213	JC 430318A	NB SUB	KULWANT SINGH	01-12-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

214	JC 440399Y	NB SUB	A RAJENDRAN	01-11-2012
215	JC 440044N	NB SUB	DARA JAYA KUMAR	01-09-2012
216	JC 580843F	NB SUB	LAKHWINDER SINGH	01-01-2013
217	JC 439912H	NB SUB	SANJAYA KUMAR K	01-09-2012

**THE GRENADIERS**

218	JC 404494A	NB SUB	AJMER SINGH	01-11-2012
219	JC 404612H	NB SUB	DINESH KUMAR PANDEY	01-10-2012
220	JC 404400X	NB SUB	RAJENDRA PRASAD SHARMA	01-11-2012
221	JC 404671P	NB SUB	RAMVEER SINGH	01-01-2013
222	JC 450971P	NB SUB	RISHI PAL	01-11-2012
223	JC 451093W	NB SUB	SHAM SINGH MANHAS	01-11-2012
224	JC 450894L	NB SUB	SHIV KARAN BABAL	01-11-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

225	JC 460066N	NB SUB	PATIL HANMANT SOPAN	01-11-2012
226	JC 460125P	NB SUB	SHEKH MUNVVER	01-10-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

227	JC 470664Y	NB SUB	BRAJPAL SINGH	01-12-2012
228	JC 470240H	NB SUB	KESHAR SINGH	01-10-2012
229	JC 470684M	NB SUB	KRISHAN BALDEV SINGH	01-11-2012
230	JC 470444P	NB SUB	NARENDRA SINGH	01-01-2013
231	JC 470548W	NB SUB	PREM SINGH	01-09-2012
232	JC 470276F	NB SUB	RAM DAS	01-09-2012
233	JC 470801M	NB SUB	SUMER SINGH	01-12-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

234	JC 480601K	NB SUB	JADHUVIR SINGH	01-12-2012
235	JC 480508H	NB SUB	JEEVAN LAL S	01-10-2012
236	JC 480422F	NB SUB	PURAN CHAND	01-09-2012
237	JC 480421F	NB SUB	R SRINIVASAN	01-09-2012
238	JC 480547F	NB SUB	RAM AUTAR	01-01-2013

**THE JAT REGIMENT**

239	JC 490382F	NB SUB	JAI KARAN	01-12-2012
240	JC 490509Y	NB SUB	JITENDRA KUMAR GUPTA	01-10-2012
241	JC 490330L	NB SUB	MAHA SINGH	01-11-2012

**THE SIKH REGIMENT**

242	JC 499714F	NB SUB	BALBIR SINGH	01-10-2012
-----	------------	--------	--------------	------------

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

243	JC 509970M	NB SUB	BALJIT SINGH	01-01-2013
-----	------------	--------	--------------	------------

**THE DOGRA REGIMENT**

244	JC 520713P	NB SUB	JESUS <del>ROMEO</del> FALEIRO	01-10-2012
245	JC 521287Y	NB SUB	NASIB <del>SINGH</del>	01-11-2012
246	JC 521043L	NB SUB	TULSI DASS	01-12-2012
247	JC 520816N	NB SUB	VIJAY SINGH	01-10-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

248	JC 530738P	NB SUB	SAHAB SINGH	01-09-2012
-----	------------	--------	-------------	------------

**THE KUMAON REGIMENT**

249	JC 540824N	NB SUB	CHANDAN SINGH DEOPA	01- <del>09</del> -2012
250	JC 540415A	NB SUB	GANESH RAM	01- <del>09</del> -2012
251	JC 540613L	NB SUB	JIWAN SINGH	01-09-2012
252	JC 540915X	NB SUB	KUNDAN SINGH	01-01-2013
253	JC 540812Y	NB SUB	LAXMI DATT JOSHI	01-10-2012
254	JC 540798Y	NB SUB	NABAB SINGH KUSHWAH	01-12-2012
255	JC 540813F	NB SUB	NARENDER SINGH BISHT	01-10-2012
256	JC 540432A	NB SUB	VINOD KUMAR SHARMA	01-10-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

257	JC 549812A	NB SUB	BABU RAM BORO	01-10-2012
258	JC 549620H	NB SUB	RAVINDRA <del>SINGH</del>	01- <del>09</del> -2012

**THE BIHAR REGIMENT**

259	JC 560381Y	NB SUB	KHARADI <del>LEMBU</del> BHAI NARSING	01- <del>09</del> -2012
-----	------------	--------	---------------------------------------	-------------------------

**THE MAHAR REGIMENT**

260	JC 570282K	NB SUB	KAMBALE PUNDALIK NARAYAN	01-12-2012
-----	------------	--------	--------------------------	------------

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

261	JC 580840N	NB SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2013
262	JC 581059A	NB SUB	SANWAR SINGH	01-01-2013

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

263	JC 593673F	NB SUB	BALKAR RAM	01-12-2012
264	JC 593863N	NB SUB	MANZOOR AHMAD GANIE	01-09-2012
265	JC 593906X	NB SUB	SWARAN SINGH	01-12-2012
266	JC 593750L	NB SUB	YESH PAUL	01-09-2012

**3 GORKHA RIFLES**

267	JC 607807H	NB SUB	BHATTI KHIMAJI SHAMAJI	01-09-2012
-----	------------	--------	------------------------	------------

**5 GORKHA RIFLES**

268	JC 617918N	NB SUB	S THIRUGNANAM	01-10-2012
-----	------------	--------	---------------	------------

**8 GORKHA RIFLES**

269	JC 623903F	NB SUB	BIR BAHADUR KARKI	01-11-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

270	JC 623943H	NB SUB	KESHAR BAHADUR GURUNG	01-01-2013
-----	------------	--------	-----------------------	------------

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

271	JC 665814K	NB SUB	ABUL KALAM NOUSAD ALI	01-09-2012
-----	------------	--------	-----------------------	------------

272	JC 667443L	NB SUB	ALAY PAL SINGH MAHAR	01-01-2013
-----	------------	--------	----------------------	------------

273	JC 665938Y	NB SUB	AZAD SAH	01-01-2013
-----	------------	--------	----------	------------

274	JC 668179P	NB SUB	BABAR TATYA SAHEB	01-10-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

SHIVA RAM

275	JC 667010N	NB SUB	BAL JI SINGH	01-11-2012
-----	------------	--------	--------------	------------

276	JC 667408H	NB SUB	BEERENDRA KUMAR	01-01-2013
-----	------------	--------	-----------------	------------

277	JC 643028L	NB SUB	BIJENDRA SINGH RAGHAW	01-09-2012
-----	------------	--------	-----------------------	------------

278	JC 667020X	NB SUB	BISWAJIT MONDAL	01-11-2012
-----	------------	--------	-----------------	------------

279	JC 667748L	NB SUB	JAGDISH PRASAD	01-09-2012
-----	------------	--------	----------------	------------

280	JC 667393L	NB SUB	JAI NARAINA YADAVA	01-01-2013
-----	------------	--------	--------------------	------------

281	JC 667567A	NB SUB	JAPAN SINGH	01-09-2012
-----	------------	--------	-------------	------------

282	JC 665570F	NB SUB	KARKHILE SHRIKANT VITTHAL	01-08-2012
-----	------------	--------	---------------------------	------------

283	JC 667142F	NB SUB	KARUNANIDHI N	01-01-2013
-----	------------	--------	---------------	------------

284	JC 668206N	NB SUB	KISHORE KUMAR SEN	01-11-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

285	JC 667284Y	NB SUB	MANABENDRA ROY	01-10-2012
-----	------------	--------	----------------	------------

286	JC 665249X	NB SUB	MD MURTUZA KHAN	01-09-2012
-----	------------	--------	-----------------	------------

287	JC 665943K	NB SUB	NAGENDRA NATH SINGH	01-01-2013
-----	------------	--------	---------------------	------------

288	JC 668020K	NB SUB	NARAYAN LAL	01-01-2013
-----	------------	--------	-------------	------------

289	JC 667302W	NB SUB	NARENDRA KUMAR MISHRA	01-10-2012
-----	------------	--------	-----------------------	------------

290	JC 667671N	NB SUB	NIZAMUDDIN BARBHUIYA	01-10-2012
-----	------------	--------	----------------------	------------

291	JC 667268F	NB SUB	PADAM SINGH SHISODIA	01-09-2012
-----	------------	--------	----------------------	------------

292	JC 667172Y	NB SUB	PRASAD KUMAR DE	01-11-2012
-----	------------	--------	-----------------	------------

293	JC 667234N	NB SUB	RAJENDER SINGH	01-09-2012
-----	------------	--------	----------------	------------

294	JC 667233L	NB SUB	RAJENDRAN NAIR V	01-12-2012
-----	------------	--------	------------------	------------

295	JC 667390X	NB SUB	RAM BABU SHARMA	01-01-2013
-----	------------	--------	-----------------	------------

296	JC 667132X	NB SUB	RAM SINGH YADAV	01-01-2013
-----	------------	--------	-----------------	------------

297	JC 664758K	NB SUB	RAMIAS GOSWAMI	01-10-2012
-----	------------	--------	----------------	------------

298	JC 665811W	NB SUB	SALOKHE ANIL RAMCHANDRA	01-09-2012
-----	------------	--------	-------------------------	------------

299	JC 667994W	NB SUB	SANJOY KUMAR BASU	01-10-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

300	JC 665391F	NB SUB	SEKH BARKAT ALI	01-01-2013
-----	------------	--------	-----------------	------------

301	JC 667131P	NB SUB	SHIV DAYAL SINGH	01-01-2013
-----	------------	--------	------------------	------------

302	JC 667828H	NB SUB	TEJENDRANIKAR MAHESH	01-09-2012
-----	------------	--------	----------------------	------------

303	JC 667015M	NB SUB	THEJESON T P	01-11-2012
-----	------------	--------	--------------	------------

304	JC 667332N	NB SUB	UDGA DEPATI R	01-12-2012
-----	------------	--------	---------------	------------

305	JC 665812Y	NB SUB	UTTAM KUMAR GHOSH	01-09-2012
-----	------------	--------	-------------------	------------

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

306	JC 681209A	NB RIS	ABHIMANYU BARIK	01-01-2013
307	JC 681153Y	NB RIS	MD ASIRUDDIN	01-09-2012
308	JC 681095A	NB RIS	MD YASEEN	01-01-2013
309	JC 681186K	NB RIS	NIL MADHAB MONDAL	01-10-2012
310	JC 681210P	NB RIS	RAN SINGH	01-09-2012
311	JC 681075M	NB RIS	SURESH KUMAR SHARMA	01-09-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

312	JC 696759A	NB SUB	AJAY KUMAR VERMA	01-09-2012
313	JC 696932Y	NB SUB	ANIL KUMAR PANDEY	01-09-2012
314	JC 697044W	NB SUB	ANUJ KUMAR PANDEY	01-09-2012
315	JC 697301H	NB SUB	ARUN KUMAR MANDAL	01-09-2012
316	JC 697505P	NB SUB	ASGHAR ALI MULLA	01-12-2012
317	JC 696781L	NB SUB	ASHOK PRASAD	01-10-2012
318	JC 697219N	NB SUB	BABU P T	01-09-2012
319	JC 697299W	NB SUB	BASHIST SINGH	01-09-2012
320	JC 696934K	NB SUB	BIJENDER SINGH	01-12-2012
321	JC 697480N	NB SUB	BIJENDRA SINGH	01-01-2013
322	JC 697154L	NB SUB	BIMON BORAH	01-11-2012
323	JC 696783W	NB SUB	BRAJA KISHOR SENAPATI	01-10-2012
324	JC 697547F	NB SUB	CHANDRA MOHAN SINGH	01-01-2013
325	JC 695974Y	NB SUB	CHOUHAN JAYANTI BHAI PUNJA BHAI	01-10-2012
326	JC 697550F	NB SUB	DALE SINGH	01-01-2013
327	JC 696963Y	NB SUB	DASHARTH YADAV	01-12-2012
328	JC 697548K	NB SUB	DESH RAJ	01-01-2013
329	JC 696772K	NB SUB	DHANAWADE S C	01-10-2012
330	JC 697690N	NB SUB	DHARAM CHAND	01-11-2012
331	JC 697047K	NB SUB	DHRUO KUMAR PANDEY	01-10-2012
332	JC 697678M	NB SUB	DIL BAG SINGH	01-01-2013
333	JC 697501Y	NB SUB	DILIP KUMAR GOGOI	01-09-2012
334	JC 697549M	NB SUB	DINESH KUMAR	01-01-2013
335	JC 696959W	NB SUB	DIPAK DAYAL PANDEY	01-10-2012
336	JC 697224Y	NB SUB	DUSHYANT KUMAR	01-12-2012
337	JC 696768F	NB SUB	GANGA SINGH	01-09-2012
338	JC 697034M	NB SUB	GEORGE K C	01-12-2012
339	JC 697300A	NB SUB	GOLAP KALITA	01-09-2012
340	JC 697156W	NB SUB	GOLOCK CHANDRA HALDER	01-12-2012
341	JC 697563Y	NB SUB	HARENDRA PRASAD YADAV	01-01-2013
342	JC 697503K	NB SUB	HARI NARAYAN SHARMA	01-10-2012
343	JC 697985K	NB SUB	HARI SHANKAR BISHT	01-01-2013
344	JC 696935M	NB SUB	JAGDISH KUMAR	01-12-2012
345	JC 696786K	NB SUB	JAI MURTI SINGH YADAV	01-10-2012

346	JC 696794H	NB SUB	JAI PRAKASH	01-12-2012
347	JC 697046F	NB SUB	JAI SINGH LAMBA	01-10-2012
348	JC 697552M	NB SUB	JASBIR SINGH	01-01-2013
349	JC 697560L	NB SUB	JAYA KISHOR SINGH	01-01-2013
350	JC 696769K	NB SUB	JIMDAR ROY	01-10-2012
351	JC 696791P	NB SUB	JITENDER SINGH	01-11-2012
352	JC 697039L	NB SUB	JOY GOPAL ROY	01-12-2012
353	JC 696782N	NB SUB	KALMBE GAJANAN SURYABHAN	01-09-2012
354	JC 697561N	NB SUB	KAMLESH PRASAD	01-01-2013
355	JC 697557L	NB SUB	KAWAL SINGH	01-11-2012
356	JC 696683L	NB SUB	KEDAR NATH BISHOYI	01-09-2012
357	JC 697478W	NB SUB	KHAJAN SINGH	01-09-2012
358	JC 697544N	NB SUB	KRISHNA MOHAN SINGH	01-12-2012
359	JC 697502F	NB SUB	L B KUSHWAHA	01-10-2012
360	JC 697551K	NB SUB	LAZAR MASIH	01-01-2013
361	JC 697318W	NB SUB	M RAVI	01-12-2012
362	JC 697298N	NB SUB	MADAN LAL	01-09-2012
363	JC 696775X	NB SUB	MADAN MOHAN SINGH	01-09-2012
364	JC 697542H	NB SUB	MAHABIR	01-12-2012
365	JC 697149A	NB SUB	MAHESWARAN D	01-12-2012
366	JC 697303N	NB SUB	MD APHAROJ KHAN	01-12-2012
367	JC 697679P	NB SUB	MERAJ KHAN	01-10-2012
368	JC 697485M	NB SUB	MOHAN LAL	01-09-2012
369	JC 697006A	NB SUB	MOHAN SINGH NEGI	01-12-2012
370	JC 696785F	NB SUB	MOHANA KUMAR D	01-10-2012
371	JC 697374P	NB SUB	MURUGAN T	01-11-2012
372	JC 697381L	NB SUB	NAGENDRA CHANDRA RAY	01-09-2012
373	JC 696679H	NB SUB	NARENDRA SINGH	01-09-2012
374	JC 697234H	NB SUB	NAWAB SINGH	01-09-2012
375	JC 697541A	NB SUB	NEELKANTH SINGH	01-12-2012
376	JC 697151X	NB SUB	NILA NEOG	01-12-2012
377	JC 697456X	NB SUB	NIRANJAN DAS	01-09-2012
378	JC 697458H	NB SUB	OM PRAKASH SINGH	01-10-2012
379	JC 697736L	NB SUB	PARASNATH RAM	01-12-2012
380	JC 697244M	NB SUB	PARSHOTAM LAL	01-12-2012
381	JC 697222N	NB SUB	PAVAN KUMAR	01-12-2012
382	JC 697733X	NB SUB	PAWAR ANIL DIWAKAR RAO	01-12-2012
383	JC 697793M	NB SUB	PHOOL CHAND GUZAR	01-12-2012
384	JC 697153H	NB SUB	PRABHU RAM BEHARA	01-10-2012
385	JC 697375X	NB SUB	PRADEEP KUMAR YADAV	01-12-2012
386	JC 697220H	NB SUB	PRASANNA KUMAR SAIKIA	01-12-2012
387	JC 697032F	NB SUB	PRIYANKAR BHOWMIK	01-12-2012
388	JC 697155N	NB SUB	RABINDRA KUMAR SINGH	01-11-2012
389	JC 696784Y	NB SUB	RADHAKRISHNAN G	01-10-2012

390	JC 696795L	NB SUB	RAJ KUMAR	01-12-2012
391	JC 697546Y	NB SUB	RAJ KUMAR	01-01-2013
392	JC 696936P	NB SUB	RAJ SINGH	01-11-2012
393	JC 696789X	NB SUB	RAJENDER KUMAR	01-11-2012
394	JC 697297L	NB SUB	RAKESH TIWARY	01-09-2012
395	JC 696682H	NB SUB	RAM AYODHYA GIRI	01-10-2012
396	JC 696678A	NB SUB	RAMESH CHANDRA	01-09-2012
397	JC 697036X	NB SUB	RAMVIR SINGH	01-12-2012
398	JC 697902N	NB SUB	RAMVIR SINGH	01-01-2013
399	JC 697376A	NB SUB	RAVI SHANKER	01-12-2012
400	JC 697558N	NB SUB	RAVINDRA KUMAR	01-01-2013
401*	JC 697459L	NB SUB	ROHTAS	01-12-2012
402	JC 697545W	NB SUB	ROSHAN LAL	01-12-2012
403	JC 697461H	NB SUB	SANT RAM	01-12-2012
404	JC 696792X	NB SUB	SATENDRA KUMAR	01-11-2012
405	JC 697462L	NB SUB	SATYA NARAIN	01-12-2012
406	JC 696773M	NB SUB	SATYENDRA PRASAD SINGH	01-10-2012
407	JC 698137X	NB SUB	SHAMBIR	01-12-2012
408	JC 696937X	NB SUB	SHIV NARAYAN YADAV	01-12-2012
409	JC 697562W	NB SUB	SHRI BAHGWAN SINGH	01-01-2013
410	JC 697559W	NB SUB	SIDHESHWAR PRASAD	01-01-2013
411	JC 694266A	NB SUB	SREE KUMARAN B	01-12-2012
412	JC 697543L	NB SUB	SUBHAS CHANDER	01-12-2012
413	JC 697504M	NB SUB	SUDHANGSHU SHEKHAR ROY	01-11-2012
414	JC 697152A	NB SUB	SUKHBIR SINGH	01-12-2012
415	JC 696790M	NB SUB	SUMER SINGH	01-11-2012
416	JC 697735H	NB SUB	SURENDER KUMAR YADAV	01-01-2013
417	JC 697377H	NB SUB	SURENDER RAY	01-09-2012
418	JC 697349W	NB SUB	SURENDRA NATH TIWARI	01-01-2013
419	JC 697500W	NB SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-01-2013
420	JC 697038H	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-12-2012
421	JC 695310L	NB SUB	SURENDRA SINGH RAWAT	01-09-2012
422	JC 696960L	NB SUB	SURESH KUMAR	01-12-2012
423	JC 697037A	NB SUB	SUWAS ALI	01-12-2012
424	JC 697479Y	NB SUB	TAL KESHWAR YADAV	01-10-2012
425	JC 697041H	NB SUB	TARAK PRASAD	01-12-2012
426	JC 696681A	NB SUB	UNNI KRISHNA PILLAI M K	01-10-2012
427	JC 697043N	NB SUB	UPENDRA RAM	01-09-2012
428	JC 697035P	NB SUB	UTTAM KUMAR	01-12-2012
429	JC 696933F	NB SUB	VED PRAKASH	01-09-2012
430	JC 697302L	NB SUB	VIJAY KUMAR	01-12-2012
431	JC 697223W	NB SUB	VIRENDER SINGH	01-12-2012
432	JC 696961N	NB SUB	YUDHVIR SINGH	01-12-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

433	JC 728894K	NB SUB	AKHILESH BAHDUR SINGH	01-01-2013
434	JC 729104W	NB SUB	ASHIS KUMAR HALDER	01-01-2013
435	JC 728002N	NB SUB	BALWINDER SINGH	01-12-2012
436	JC 729163H	NB SUB	BIPIN CHANDRA BARMAN	01-01-2013
437	JC 729179N	NB SUB	BISWA KUMAR DEBBARMA	01-12-2012
438	JC 728496H	NB SUB	BRJNANDAN LODI	01-11-2012
439	JC 728659L	NB SUB	GAJENDRAN K	01-12-2012
440	JC 728910W	NB SUB	GAJRAJ SINGH GOUR	01-12-2012
441	JC 728208L	NB SUB	GANESH KUMAR MEENA	01-01-2013
442	JC 727319W	NB SUB	GOPAL PRASAD	01-01-2013
443	JC 728660A	NB SUB	HAR GOVIND	01-01-2013
444	JC 728893F	NB SUB	JAGDISH CHANDRA JOSEPH	01-01-2013
445	JC 728969W	NB SUB	JOENDER SINGH MEERA	01-01-2013
446	JC 728892Y	NB SUB	KUNWAR PAL	01-01-2013
447	JC 728786A	NB SUB	LALLAN PRASAD	01-12-2012
448	JC 728158L	NB SUB	MADHO SINGH	01-11-2012
449	JC 729095A	NB SUB	MAMIDI RAVIKUMAR	01-09-2012
450	JC 728397A	NB SUB	MANGAL SINGH	01-09-2012
451	JC 728690X	NB SUB	N THOMAS	01-11-2012
452	JC 729260A	NB SUB	NARAYAN RAJIV	01-01-2013
453	JC 727436F	NB SUB	PETCHI MUTHU GANESAN A	01-01-2013
454	JC 729099W	NB SUB	PHOOL SINGH	01-01-2013
455	JC 728657A	NB SUB	RAJENDRA KUMAR SINGH	01-10-2012
456	JC 728559A	NB SUB	RAM CHANDRA RAM	01-10-2012
457	JC 728922L	NB SUB	RAMESH KUMAR THAKUR	01-10-2012
458	JC 728257N	NB SUB	RANBIR SINGH	01-01-2013
459	JC 727264X	NB SUB	RAVINDRA KORRANE	01-12-2012
460	JC 729081A	NB SUB	RAVINDRA SINGH BHADORIA	01-12-2012
461	JC 728412K	NB SUB	S MUREGESAN	01-01-2013
462	JC 729018L	NB SUB	S NALLASUBBU	01-10-2012
463	JC 727695K	NB SUB	SARAT KUMAR S	01-10-2012
464	JC 728656X	NB SUB	SUBASH CHANDRA BHASKAR	01-09-2012
465	JC 728891W	NB SUB	SURENDER SINGH YADAVA	01-01-2013
466	JC 728615N	NB SUB	THANGACHAN MA	01-11-2012
467	JC 728681W	NB SUB	TRILOKI NATH CHOUBEY	01-10-2012
468	JC 728658H	NB SUB	VINOD SINGH	01-11-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

469	JC 765444K	NB SUB	ANAND SINGH NAYAL	01-12-2012
470	JC 765270P	NB SUB	ARBIND SINGH	01-09-2012

471	JC 763920Y	NB SUB	AREKAR BALASO SHAMRAO	01-10-2012
472	JC 765272A	NB SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-09-2012
473	JC 765582L	NB SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2012
474	JC 765522W	NB SUB	ATUL CHANDEA SAIKIA	01-12-2012
475	JC 764808Y	NB SUB	AVDHESH KUMAR	01-10-2012
476	JC 761295K	NB SUB	AVNISH KUMAR	01-11-2012
477	JC 765441W	NB SUB	AWADHESH KUMAR	01-12-2012
478	JC 765288L	NB SUB	B PANNEER SELVAM	01-10-2012
479	JC 765289N	NB SUB	BADRI KANT MISHRA	01-10-2012
480	JC 762579A	NB SUB	BALESHWAR PRASAD TRIPATHI	01-01-2013
481	JC 763996Y	NB SUB	BECHAN PRAJAPATI	01-10-2012
482	JC 761114N	NB SUB	BHAGWAN SINGH	01-09-2012
483	JC 763230P	NB SUB	BIBHUTI BHUSHAN BISWAS	01-10-2012
484	JC 765456Y	NB SUB	BIJAY KUMAR PANKAJ	01-12-2012
485	JC 764645W	NB SUB	BIPIN KUMAR PRASAD	01-09-2012
486	JC 765435H	NB SUB	BISHNU PADA SAHOO	01-11-2012
487	JC 765520L	NB SUB	BISWAJIT SINGH ROY	01-12-2012
488	JC 764980A	NB SUB	BRAHMA NAND YADAV	01-11-2012
489	JC 761956Y	NB SUB	BRAHMANDA DEHURY	01-09-2012
490	JC 762629A	NB SUB	CHANDER MOHAN JHA	01-11-2012
491	JC 764810W	NB SUB	CHHOTE LAL	01-11-2012
492	JC 765273H	NB SUB	DALU RAM	01-11-2012
493	JC 763907P	NB SUB	DARYAW SINGH SHEKHAWANT	01-11-2012
494	JC 765653F	NB SUB	DATTA RAM	01-12-2012
495	JC 762048H	NB SUB	DILBAG SINGH	01-10-2012
496	JC 765287H	NB SUB	DINESH KUMAR	01-10-2012
497	JC 765523Y	NB SUB	GURDASS RAM	01-12-2012
498	JC 765189H	NB SUB	HANS RAJ	01-09-2012
499	JC 761647W	NB SUB	HARI BANSH YADAV	01-11-2012
500	JC 765521N	NB SUB	HIRENDRA SINHA	01-12-2012
501	JC 761831F	NB SUB	JAGDISH SINGH	01-09-2012
502	JC 760826K	NB SUB	JAYACHANDRAN N	01-12-2012
503	JC 765457F	NB SUB	JITENDRA BAHADUR SINGH	01-01-2013
504	JC 765494P	NB SUB	JITENDRA KUMAR	01-12-2012
505	JC 765464X	NB SUB	JITENDRA PRASAD	01-01-2013
506	JC 760794M	NB SUB	K PARMESH	01-10-2012
507	JC 765442Y	NB SUB	KAILSH CHANDRA SINGH	01-12-2012
508	JC 764313M	NB SUB	KAMESHWAR JENNA	01-11-2012
509	JC 765294Y	NB SUB	KISMAT SINGH	01-10-2012
510	JC 761104K	NB SUB	KRISHAN KUMAR PANDEY	01-12-2012
511	JC 761214Y	NB SUB	LAKHAN SINGH LODHI	01-01-2013
512	JC 761040K	NB SUB	LAKSHMAN YADAV	01-01-2013
513	JC 764950H	NB SUB	LAL CHAND YADAV	01-11-2012
514	JC 763282L	NB SUB	M VARADHARAJAN	01-11-2012
515	JC 761017W	NB SUB	MAHENDRA PAL SINGH	01-10-2012
516	JC 761240A	NB SUB	MAKA VNN SRINIVASA RAO	01-09-2012
517	JC 760857K	NB SUB	MANIKANDAN R	01-11-2012
518	JC 761710A	NB SUB	MOHANAN KK	01-01-2013
519	JC 765463P	NB SUB	MUKHTAR YADAV	01-01-2013



520	JC 762834F	NB SUB	MURUGAN R	01-12-2012
521	JC 765434A	NB SUB	NAGINA CHOUDHARY	01-11-2012
522	JC 765446P	NB SUB	NARAYAN	01-01-2013
523	JC 761639X	NB SUB	NHSVV PRASAD RAO	01-01-2013
524	JC 765524F	NB SUB	OM PRAKASH RAO	01-01-2013
525	JC 765024K	NB SUB	PATIL ARUN RANGARAO	01-11-2012
526	JC 761115W	NB SUB	PAWAN KUMAR	01-11-2012
527	JC 762560F	NB SUB	PAWAN KUMAR RAVESH	01-09-2012
528	JC 765291L	NB SUB	PRAMOD KUMAR MOHANTY	01-10-2012
529	JC 765443F	NB SUB	PURAN CHANDRA PATHAK	01-12-2012
530	JC 765580A	NB SUB	RAJENDRA SINGH BISHT	01-12-2012
531	JC 761250K	NB SUB	RAJENDRA SINHA	01-01-2013
532	JC 764232M	NB SUB	RAJENDRA YADAV	01-09-2012
533	JC 765240X	NB SUB	RAJESH KUMAR	01-10-2012
534	JC 762628X	NB SUB	RAJKESHWAR	01-11-2012
535	JC 765302M	NB SUB	RAM BHEESHN VERMA	01-12-2012
536	JC 761645L	NB SUB	RAM KISHOR	01-09-2012
537	JC 765266M	NB SUB	RAM PAL SINGH	01-01-2013
538	JC 761646N	NB SUB	RAM SINGH	01-10-2012
539	JC 765581H	NB SUB	RAMESH KUMAR	01-12-2012
540	JC 761862F	NB SUB	RATAN SINGH CHAUHAN	01-11-2012
541	JC 763754W	NB SUB	RAVINDRA KUMAR SINGH	01-10-2012
542	JC 762801W	NB SUB	ROHTAS SINGH	01-09-2012
543	JC 765445M	NB SUB	RUDRA PAL SINGH	01-12-2012
544	JC 765462M	NB SUB	SANJAY KUMAR PANDEY	01-01-2013
545	JC 762746L	NB SUB	SANJIB KUMAR DUTTA	01-01-2013
546	JC 763106N	NB SUB	SHAIKH AMZAD TARAFDAR	01-10-2012
547	JC 761036F	NB SUB	SHER SINGH	01-09-2012
548	JC 765239H	NB SUB	SHIV MURAT PAL	01-10-2012
549	JC 762171F	NB SUB	SHIVE KUMAR SINGH	01-11-2012
550	JC 761018Y	NB SUB	SHOBH NATH SINGH YADAV	01-12-2012
551	JC 761215F	NB SUB	SHRI NIWAS SINGH	01-01-2013
552	JC 765156X	NB SUB	SHYAM KISHOR	01-10-2012
553	JC 765290H	NB SUB	SITA RAM SINGH	01-10-2012
554	JC 761213W	NB SUB	SUBASH CHANDER	01-12-2012
555	JC 764666M	NB SUB	SUBHASH CHANDRA PANDEY	01-10-2012
556	JC 764620K	NB SUB	SUGANDH PAL	01-09-2012
557	JC 761300K	NB SUB	SURESH KUMAR	01-09-2012
558	JC 761037K	NB SUB	SURESH PAL SINGH	01-09-2012
559	JC 765436L	NB SUB	UMA SHANKAR PAL	01-11-2012
560	JC 763877H	NB SUB	UMESH KUMAR	01-10-2012
561	JC 763089Y	NB SUB	UMESH PODDAR	01-11-2012
562	JC 761085K	NB SUB	VIDYA RAM	01-11-2012
563	JC 765271X	NB SUB	VIJAY NARAYAN PANDEY	01-09-2012
564	JC 765411Y	NB SUB	VIJAYA SHANKARA YADAV	01-12-2012
565	JC 760758F	NB SUB	YASUPATHAM D	01-01-2013

**ARMY EDUCATION CORPS**

566	JC 803944N	NB SUB	DHIRENDAR KUMAR	01-09-2012
567	JC 803751N	NB SUB	JAGDISH PAL	01-09-2012
568	JC 804350L	NB SUB	PARMAR DALPAT SINH KABHAI	01-10-2012
569	JC 803693P	NB SUB	WILSON TA	01-09-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

570	JC 797508X	NB RIS	ASHOK KUMAR UPADHYAY	01-01-2013
571	JC 797558H	NB RIS	GULAB MOHAMMAD	01-09-2012
572	JC 797587X	NB RIS	LOK MANI PANDEY	01-11-2012
573	JC 797544H	NB RIS	PREM LAL PATEL	01-09-2012
574	JC 797579Y	NB RIS	RAJ KUMAR SINGH	01-01-2013

**THE INTELLIGENCE CORPS**

575	JC 811283N	NB SUB	BHENPA RAM	01-01-2013
576	JC 811323K	NB SUB	DEVI CHARAN CHANDEL	01-12-2012
577	JC 811282L	NB SUB	PRAKASH CHANDER	01-11-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

578	JC 819417W	NB SUB	CHAKRA DHARI SINGH	01-01-2013
579	JC 819421Y	NB SUB	SARAVANA KUMAR R	01-01-2013

**THE PIONEER CORPS**

580	JC 829482K	NB SUB	BHAIRA RAM	01-09-2012
-----	------------	--------	------------	------------

**ARMY POSTAL SERVICE**

581	JC 834902H	NB SUB	RAM BABU SEN	01-10-2012
-----	------------	--------	--------------	------------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

582	JC 842706X	NB SUB	AJIT RAJ	01-12-2012
583	JC 842773H	NB SUB	AJIT SINGH	01-01-2013
584	JC 842973Y	NB SUB	APTEKAR ANANT	01-10-2012
585	JC 842782K	NB SUB	B SOMASEKHARAN NAIR	01-11-2012
586	JC 842728W	NB SUB	BAL GOVIND KURMI	01-10-2012
587	JC 842447A	NB SUB	BANCHE LAL	01-01-2013
588	JC 842852X	NB SUB	DEV RAJ	01-11-2012
589	JC 843105Y	NB SUB	GULZARI LAL	01-09-2012
590	JC 842666F	NB SUB	JAGAT NARAIN	01-01-2013
591	JC 842449L	NB SUB	JASPAL SINGH	01-01-2013
592	JC 842506F	NB SUB	KUNHI KANNAN PAVOOR	01-09-2012
593	JC 842316P	NB SUB	MAM RAJ	01-09-2012
594	JC 842526P	NB SUB	MEHAR CHAND	01-10-2012
595	JC 842914M	NB SUB	MOHANAN ORAVANKARA	01-11-2012
596	JC 842497L	NB SUB	RAMJI LAL	01-11-2012
597	JC 842966H	NB SUB	RAMACHANDRAN KK	01-11-2012
598	JC 842752M	NB SUB	RAVINDRA NATHAN NAIR	01-09-2012
599	JC 842604F	NB SUB	SHAHU LONDHE	01-01-2013
600	JC 842406W	NB SUB	TAHIR AHMED KHAN	01-01-2013
601	JC 842964X	NB SUB	VIJAYAN K	01-12-2012
602	JC 842994P	NB SUB	YARNALE VIRBHADRA BASAPA	01-01-2013

[No. B/43432/RD-13/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 03(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2013.—राष्ट्रपति गणत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित हवलदार एवं दफादार को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन उनके अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

**अवैतनिक नायब रिस्तलदार/सुबेदार के रूप में****75 आर्मड रेजीमेंट**

1	1088247एक्स	दफादार	मकखन सिंह राजपूत	01.01.2013
---	-------------	--------	------------------	------------

**41 आर्मड रेजीमेंट**

2	1088035एम	दार	हरेन्द्र सिंह	01.12.2012
---	-----------	-----	---------------	------------

**आर्मड कोर**

3	1577765ए	दफादार	अनिल कुमार	01.12.2012
4	1088807वाइ	दफादार	बाल मुकुंद प्रसाद	01.09.2012
5	1088845पी	दफादार	बासप्पा सी के	01.11.2012
6	1087867एफ	दफादार	डी.आई.के बहादुर चेट्टरी	01.10.2012
7	1088894एक्स	दफादार	जी. बी भुसाल छत्री	01.01.2013
8	1087980डब्ल्यू	दफादार	हिरन पाल	01.10.2012
9	1087949के	दफादार	कशना नंदन सिंह	01.11.2012
10	1088876पी	दफादार	कमलन कुमार	01.01.2013
11	1088881ए	दफादार	एन सग्यम	01.01.2013
12	1087887पी	दफादार	मदन एम	01.10.2012
13	1088873एफ	दफादार	मोहित मारुति जे	01.01.2013
14	1088864ए	दफादार	नरेन्द्रा कुमार	01.01.2013
15	1087860एक्स	दफादार	निर्मल बंदा बी	01.09.2012
16	1087862एच	दफादार	आर बचन सिंह यादव	01.09.2012
17	1088850ए	दफादार	राम दास	01.11.2012
18	1087962एन	दफादार	राम सरन	01.11.2012
19	1087866वाइ	दफादार	रमक ए बी एन बी	01.10.2012
20	1088024ए	दफादार	आर कुमार मंडक	01.12.2012

21	1087917एफ	दफादार	एस मारिआ मिचेल	01.11.2012
22	1088532डब्ल्यू	दफादार	शरण दास	01.10.2012
23	1087827ए	दफादार	श्रवण कुमार सिंह	01.09.2012
24	1087831एच	दफादार	शिव सागर राम	01.09.2012
25	1088874के	दफादार	सिवा कुमार आर	01.01.2013
26	1087861ए	दफादार	यू सिंह	01.09.2012
<u>आर्टिलरी रेजीमेंट</u>				
27	15367736के	हवलदार	ए सुरेश कुमार	01.12.2012
28	14396007एन	हवलदार	आभी कुमार सिंह	01.09.2012
29	15111915एन	हवलदार	अच्छे लाल	01.09.2012
30	14396140डब्ल्यू	हवलदार	अमर चन्द	01.09.2012
31	14396815एल	हवलदार	आनंद प्रकाश	01.01.2013
32	14396251एन	हवलदार	अनन्त सिंह	01.10.2012
33	15112815पी	हवलदार	अंग्रेज सिंह	01.01.2013
34	14398982ए	हवलदार	अनिल कुमार	01.09.2012
35	14395830एन	हवलदार	अनू कुमार एस	01.09.2012
36	14396677पी	हवलदार	अशवनी कुमार	01.12.2012
37	14396505ए	हवलदार	अश्विनी कुमार राउत राय	01.10.2012
38	14399792ए	हवलदार	असलम खान	01.09.2012
39	14395741पी	हवलदार	बादल सिंह	01.09.2012
40	14396137डब्ल्यू	हवलदार	बी रेडी	01.09.2012
41	14395776एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.09.2012
42	15112839वाइ	दफादार	बलराज सिंह	01.01.2013
43	15112741एल	हवलदार	बलवंत सिंह	01.01.2013
44	15112803ए	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2013
45	15112738एल	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2013
46	14396767डब्ल्यू	हवलदार	बी लाल भाटी	01.01.2013
47	14396019एच	हवलदार	भीम सिंह	01.09.2012
48	15110766वाइ	हवलदार	बी कुमार यादव	01.11.2012
49	15112042ए	हवलदार	बिपिन बिहारी राम	01.09.2012
50	15110848एफ	हवलदार	बिश्वनाथ घोष	01.09.2012
51	13978788एल	हवलदार	बिवेश चंद्रा साहा	01.01.2013
52	14396828एच	हवलदार	चंद्रा देव दास	01.01.2013
53	15109180डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रमा रौय	01.01.2013
54	14396748एल	हवलदार	चितरन्जन बेहेरा	01.01.2013
55	15109068के	हवलदार	डी. जी. लक्ष्मन	01.12.2012
56	14396760एम	हवलदार	डी. टी पी के राव	01.01.2013
57	14395819पी	हवलदार	दातार सिंह	01.09.2012
58	15109091एक्स	हवलदार	देव सिंह	01.12.2012
59	14396504एक्स	हवलदार	धुबा कुंडू	01.10.2012

60	15112285एल	हवलदार	डी. पी. डी. सिन्हा	01.09.2012
61	14400807एम	हवलदार	बिलबाग सिंह	01.01.2013
62	14396658के	हवलदार	डोन्था एन जी.	01.12.2012
63	14396414डब्ल्यू	हवलदार	दुध नाथ सिंह	01.10.2012
64	14399126पी	हवलदार	ई कुजुर	01.09.2012
65	14395731एल	हवलदार	गर्जे सिंह	01.09.2012
66	14396109के	हवलदार	गजेन्दर सिंह नैतम	01.09.2012
67	13978906एन	हवलदार	गायत्री दत्ता	01.01.2013
68	15109250के	हवलदार	जोर्ज के टी	01.01.2013
69	14399625के	हवलदार	धनशाम	01.09.2012
70	15109087पी	हवलदार	हस राज	01.12.2012
71	13978288एन	हवलदार	हनुमान सहाय गुर्जर	01.10.2012
72	15111398एफ	हवलदार	हरे राम दुबे	01.09.2012
73	15109283पी	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.01.2013
74	14398363एम	हवलदार	हरपाल सिंह	01.09.2012
75	15112765पी	हवलदार	हवा सिंह	01.01.2013
76	14397664के	हवलदार	हेम राज	01.12.2012
77	14396698एल	हवलदार	हिर्दा नारायण पांडे	01.12.2012
78	15112762एफ	हवलदार	हुकम सिंह यादव	01.01.2013
79	15111782एच	हवलदार	इश्वरी प्रसाद	01.09.2012
80	13978775एन	हवलदार	जगदम्बा प्रसाद	01.01.2013
81	14395962एफ	हवलदार	जगधारी राम	01.09.2012
82	14396278एल	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.10.2012
83	14395811एच	हवलदार	जय सिंह के	01.09.2012
84	15109181वाइ	हवलदार	जयबीर	01.01.2013
85	15110515पी	हवलदार	जयराज सिंह यादव	01.12.2012
86	15109111ए	हवलदार	जोगेंद्र सिंह वर्मा	01.12.2012
87	14398650डब्ल्यू	हवलदार	कमल किशोर लकरा	01.10.2012
88	14400694पी	हवलदार	कमल कुमार	01.11.2012
89	14396817डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश कुमार	01.10.2012
90	13978230डब्ल्यू	हवलदार	केवल कण्ठन	01.10.2012
91	15111423पी	हवलदार	किशन सिंह	01.09.2012
92	14395839एच	हवलदार	लक्ष्मण हैमब्रोम	01.09.2012
93	14395981वाइ	हवलदार	लाल बहादुर दुबे	01.09.2012
94	14396422पी	हवलदार	ललन कुमार	01.10.2012
95	14397014डब्ल्यू	हवलदार	महावीर सिंह	01.11.2012
96	14396659एम	हवलदार	मेकाला थिरुपाल	01.12.2012
97	14801248ए	हवलदार	मोहानन जी.	01.12.2012
98	16112724एल	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.12.2012
99	14396893एच	हवलदार	नवीन कुमार	01.01.2013
100	14396800एच	हवलदार	नृपेंद्रा चंद्रा दास	01.01.2013

101	14396259ए	हवलदार	ओम प्रकाश यादव	01.10.2012
102	14396784डब्ल्यू	हवलदार	ओंकार सिंह	01.01.2013
103	14396327एच	हवलदार	पी पी के जी. भाई	01.10.2012
104	14400742के	हवलदार	पी टी आर नायडू	01.01.2013
105	15112729के	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.01.2013
106	14396315एन	हवलदार	परशु राम सिंह	01.10.2012
107	14915686डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.12.2012
108	15109191एच	हवलदार	पी सिंह	01.01.2013
109	15111797एल	हवलदार	फाटिक शामराव नथमल	01.11.2012
110	14396300एल	हवलदार	पुशकर सिंह काकी	01.10.2012
111	14397051के	हवलदार	राधे श्याम	01.01.2013
112	15109019एफ	हवलदार	राज करन यादव	01.10.2012
113	15109146डब्ल्यू	हवलदार	राजन सिंह	01.01.2013
114	15110598एल	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद तिवारी	01.09.2012
115	13970720पी	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.11.2012
116	14399360एल	हवलदार	राजेसाब बी	01.01.2013
117	14396078पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.09.2012
118	7775239एक्स	हवलदार	राकेश	01.01.2013
119	14396241के	हवलदार	राम अवतार सिंह	01.10.2012
120	1579628ए	हवलदार	राम बचन	01.11.2012
121	13971180एन	हवलदार	राम नारायण मीना	01.01.2013
122	15109118के	हवलदार	राम पालक राम	01.12.2012
123	14396026वाइ	हवलदार	रमा नन्द	01.09.2012
124	15109266पी	हवलदार	रमन सिंह	01.01.2013
125	14395837एक्स	हवलदार	रामेन्द्र देवनाथ	01.09.2012
126	13969600के	हवलदार	रमेश चन्द	01.09.2012
127	14400733एच	हवलदार	रमेश कुमार	01.01.2013
128	14801343ए	हवलदार	राव साहेब नन्ना सालुंखे	01.01.2013
129	13970466डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र नाथ राम	01.11.2012
130	14395852एम	हवलदार	आरसी कर्माकर	01.09.2012
131	14396182एच	हवलदार	आरडी शर्मा	01.09.2012
132	14396738एफ	हवलदार	रुस्तम अंसारी	01.01.2013
133	14397277पी	हवलदार	एस के कुशवाहा	01.09.2012
134	15109105एम	हवलदार	एस एस आर माने	01.12.2012
135	15357206एफ	हवलदार	सहदेव दास	01.01.2013
136	15109167एम	हवलदार	संतोख राम	01.01.2013
137	14396410ए	हवलदार	सरवन कुमार	01.10.2012
138	14396720एल	हवलदार	शशि धरन के	01.01.2013
139	13978943एफ	हवलदार	सतीश कुमार	01.01.2013
140	13969359एच	हवलदार	एन अहमद	01.09.2012
141	14395870पी	हवलदार	श्री सम	01.09.2012

142	13976882के	हवलदार	सुभाष	01.11.2012
143	14396139एफ	हवलदार	सुभाष चन्द ठाकुर	01.09.2012
144	15112812एफ	हवलदार	सुखमंदर सिंह	01.01.2013
145	13978703के	हवलदार	सुमेर सिंह	01.12.2012
146	14396085एल	हवलदार	सुंदर राम	01.09.2012
147	15109096डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार सैन	01.12.2012
148	14396191के	हवलदार	सूर्या भान यादव	01.09.2012
149	14396689के	हवलदार	टी सेल्वेकानायम	01.12.2012
150	14395908एन	हवलदार	टेक बहादुर	01.09.2012
151	14915579पी	हवलदार	तीरथ राम	01.10.2012
152	14396880एल	हवलदार	उत्तातम सिंह	01.01.2013
153	15109083वाइ	हवलदार	वरुन कुमार	01.12.2012
154	15111179ए	हवलदार	विक्रम सिंह	01.09.2012
155	14396543डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	01.10.2012
156	14396683एच	हवलदार	विनोद पी	01.12.2012
<b>वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर</b>				

157	14396212पी	हवलदार	अनिल वरुधिस्त	01.09.2012
158	15112780के	हवलदार	बी सिंह	01.01.2013
159	13978501एच	हवलदार	सी एन रामजी	01.12.2012
160	14396197एल	हवलदार	दीपक सिंह	01.09.2012
161	14397011एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.12.2012
162	15112851ए	हवलदार	महेंद्र कुमार	01.01.2013
163	14395960डब्ल्यू	हवलदार	मारकंडे	01.09.2012
164	14395953ए	हवलदार	मिठाई लाल यादव	01.09.2012
165	14396171डब्ल्यू	हवलदार	नन्द कुमार सिंह	01.09.2012
166	14396783एन	हवलदार	नन्द लाल प्रसाद	01.01.2013
167	14396083ए	हवलदार	नंदन सिंह कंठ	01.09.2012
168	13978717के	हवलदार	नारद मुनि पांडे	01.01.2013
169	14395784के	हवलदार	एन सिंह	01.09.2012
170	13978913के	हवलदार	पी रवीन्द्र भीमा	01.01.2013
171	14395845डब्ल्यू	हवलदार	प्रसांत कुमार मंडल	01.09.2012
172	14396913एल	हवलदार	राकेश बाबू	01.12.2012
173	14396729ए	हवलदार	राम अभिलाश	01.09.2012
174	14396506एच	हवलदार	रूपेश कुमार सिंह	01.12.2012
175	13978758एन	हवलदार	सतन नायक	01.01.2013
176	14396773के	हवलदार	श्री पाल	01.12.2012
177	14400673वाइ	हवलदार	सुखवंत सिंह	01.09.2012
178	13978914एम	हवलदार	उजागर सिंह	01.12.2012
179	14396020एक्स	हवलदार	यू यादव	01.09.2012

मद्रास इंजीनियर समूह

180	15302222वाइ	हवलदार	ए रेयप्पन	01.09.2012
181	15306346एल	हवलदार	ए प्यानी चेट्टी	01.01.2013
182	15305671वाइ	हवलदार	अशोक	01.10.2012
183	15306356पी	हवलदार	अशोक राठोड़	01.01.2013
184	15303193एफ	हवलदार	अशोकन टीजी.	01.01.2013
185	15303133एम	हवलदार	बी चिन्ना येशू	01.01.2013
186	15302679ए	हवलदार	बी मोहन	01.11.2012
187	15302511एन	हवलदार	बालासुब्रह्मनाथीक	01.11.2012
188	15302777ए	हवलदार	बासा वेंकट रमना	01.12.2012
189	15305665एल	हवलदार	बसाएया एच	01.10.2012
190	15303183एक्स	हवलदार	बासकरन के	01.01.2013
191	15306000एफ	हवलदार	बिरसा तिकैई	01.12.2012
192	15302983के	हवलदार	चंद्रन पीपी	01.01.2013
193	15305940ए	हवलदार	डी. कासी	01.11.2012
194	15305729एल	हवलदार	डी. राजेंद्रा प्रसाद रेडी	01.11.2012
195	15305549एच	हवलदार	देवादसन एम	01.09.2012
196	15302874एक्स	हवलदार	दिवेन्धरन के	01.12.2012
197	15302248एन	हवलदार	दुन्ना धर्मा राव	01.09.2012
198	15302815एल	हवलदार	ई रंगनाथन	01.12.2012
199	15305704वाइ	हवलदार	जी. सरवानन	01.10.2012
200	15302632पी	हवलदार	जी. सुकुमारन नायर	01.11.2012
201	15305581एक्स	हवलदार	जी. वेंकटरामा शास्त्री	01.09.2012
202	15305563पी	हवलदार	गिरीश कुमार जे	01.09.2012
203	15302929डब्ल्यू	हवलदार	गिरि आर	01.01.2013
204	15302894एल	हवलदार	गुनालन. एस	01.12.2012
205	15305860एच	हवलदार	गुव्वा. सी बी	01.11.2012
206	15302297डब्ल्यू	हवलदार	हरी हरन टी	01.10.2012
207	15302380एन	हवलदार	हरिदास श्री	01.10.2012
208	15306021एक्स	हवलदार	हरिदासन के वी	01.12.2012
209	15302206एफ	हवलदार	आइ मरियाधस	01.09.2012
210	15302764एच	हवलदार	जे जयाशंकर	01.12.2012
211	15306251एल	हवलदार	जगादीश वी	01.01.2013
212	15303122ए	हवलदार	जया प्रकाश एन	01.01.2013
213	15305603एल	हवलदार	जयन्ना पी	01.09.2012
214	15303074एल	हवलदार	जयाशंकर पीके	01.01.2013
215	15302378डब्ल्यू	हवलदार	के गोविन्दुदू	01.10.2012
216	15306169डब्ल्यू	हवलदार	के कोथानदपानी	01.01.2013
217	15302492एन	हवलदार	के सम्पथ	01.11.2012
218	15305608के	हवलदार	कलेशा बाबा	01.09.2012



219	15305972एच	हवलदार	कन्नान टी	01.11.2012
220	15302487एच	हवलदार	के ई मोहानन	01.11.2012
221	15303199एच	हवलदार	केमपन्न के	01.01.2013
222	15302049ए	हवलदार	के अप्पान्ना	01.09.2012
223	15302188के	हवलदार	कृष्णन टी	01.09.2012
224	15302061एफ	हवलदार	कृष्णाप्पा एसवी	01.09.2012
225	15305782डब्ल्यू	हवलदार	के शिवैया	01.11.2012
226	15303006एक्स	हवलदार	के वसुदेवा शर्मा	01.10.2012
227	15302091वाइ	हवलदार	एम इक्मबाराम	01.09.2012
228	15302410ए	हवलदार	एम कलईवान्न	01.10.2012
229	15306091डब्ल्यू	हवलदार	एम नागप्पन	01.12.2012
230	15305818के	हवलदार	एम पेरुमल	01.11.2012
231	15302493डब्ल्यू	हवलदार	एम रमा मूर्ती	01.11.2012
232	15302140डब्ल्यू	हवलदार	महेसन एन	01.09.2012
233	15302848डब्ल्यू	हवलदार	मल्लेशप्पा सी एस	01.12.2012
234	15302870एफ	हवलदार	मुनियासमी ए	01.12.2012
235	15305493एफ	हवलदार	मुरली धरन पिल्लई	01.09.2012
236	15303145एफ	हवलदार	मुरुगन सी	01.01.2013
237	15302655डब्ल्यू	हवलदार	एन लक्ष्मी पथी	01.11.2012
238	15306137एन	हवलदार	पी मुरली	01.12.2012
239	15302892ए	हवलदार	पी प्रभाकरा नायडू	01.12.2012
240	15302299एफ	हवलदार	पी सुन्दरा राज	01.10.2012
241	15305739पी	हवलदार	पशुपथि के	01.11.2012
242	15306203एल	हवलदार	पी कृष्णा मूर्ती	01.01.2013
243	15306142वाइ	हवलदार	प्रसाद पी	01.12.2012
244	15305942एल	हवलदार	आर अलागर सामी	01.11.2012
245	15302658के	हवलदार	आर मणिकंदन	01.11.2012
246	15302398के	हवलदार	आर मोहन	01.10.2012
247	15302489एन	हवलदार	आर श्रीगुलू	01.11.2012
248	15302736डब्ल्यू	हवलदार	आर श्रीनिवासन	01.11.2012
249	15302880एल	हवलदार	राधाकृष्ण टीके	01.12.2012
250	15302819एफ	हवलदार	राजीव के	01.12.2012
251	15302388ए	हवलदार	रंगनाथन ए	01.10.2012
252	15305843एच	हवलदार	रवि के	01.11.2012
253	15305601ए	हवलदार	आर वी	01.09.2012
254	15306172डब्ल्यू	हवलदार	रेघु एन	01.01.2013
255	15305618एन	हवलदार	एस जयरामन	01.10.2012
256	15305958डब्ल्यू	हवलदार	एस नाग नाथन	01.11.2012
257	15305485एच	हवलदार	एस एस	01.09.2012
258	15302628एम	हवलदार	एस श्रीधर	01.11.2012
259	15305632ए	हवलदार	संतो डी.	01.10.2012

260	15302966के	हवलदार	ससिधरन पिल्लई के	01.01.2013
261	15302195ए	हवलदार	सेल्वाराजन आर	01.09.2012
262	15303117पी	हवलदार	शेक अब्दुल करीम	01.01.2013
263	15305582ए	हवलदार	शेक दीना शहीद	01.09.2012
264	15306308पी	हवलदार	शेक एम	01.01.2013
265	15303028डब्ल्यू	हवलदार	शिवप्पा बी बी	01.01.2013
266	15305933के	हवलदार	सिदप्पा बी पी	01.11.2012
267	15302739के	हवलदार	शिवकुमार एस	01.11.2012
268	15302293ए	हवलदार	सुरेश टी वी	01.10.2012
269	15305670डब्ल्यू	हवलदार	सूर्यकांत जे	01.10.2012
270	15302210के	हवलदार	टी बानू राजेन्द्रन	01.09.2012
271	15302194एक्स	हवलदार	टी सथासिवम	01.09.2012
272	15303115के	हवलदार	थूमाला सी के	01.10.2012
273	15303188डब्ल्यू	हवलदार	वी शिवकुमार	01.01.2013
274	15306290के	हवलदार	वी स्वामी कानू	01.01.2013
275	15302226पी	हवलदार	वासु वीपी	01.09.2012
276	15306218एन	हवलदार	वेनुगोपालन आर	01.01.2013
277	15302688एफ	हवलदार	विजयन एपी	01.11.2012
278	15302497एम	हवलदार	वाइ मुनि कृष्णाहा	01.11.2012
279	15305486एल	हवलदार	यल्ला साईबाबू	01.09.2012

#### बंगाल इंजीनियर समूह

280	1480106एफ	हवलदार	अचिन कुंजू टी	01.09.2012
281	1480490एन	हवलदार	आदेश कुमार	01.11.2012
282	1480385एक्स	हवलदार	अजायब सिंह	01.10.2012
283	1482732के	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.01.2013
284	1482306डब्ल्यू	हवलदार	ए सिंह	01.09.2012
285	1480567एल	हवलदार	अम्बिका राम	01.11.2012
286	1480500एम	हवलदार	आनंद कुमार सिंह	01.11.2012
287	1480110के	हवलदार	अनिल कुमार पांडे	01.09.2012
288	1480589के	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.11.2012
289	1480245एल	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.10.2012
290	1482290डब्ल्यू	हवलदार	आशीस कुमार भौमिक	01.09.2012
291	1480686एफ	हवलदार	अयोध्या सिंह	01.12.2012
292	1480355ए	हवलदार	बाबन ठाकुर	01.10.2012
293	1480318एम	हवलदार	बलजीत डांगी	01.10.2012
294	1480206एन	हवलदार	बलजीत सिंह	01.10.2012
295	1480083एल	हवलदार	बलकार सिंह	01.09.2012
296	1480218एफ	हवलदार	बासुदेब दास	01.10.2012
297	1480383एम	हवलदार	बीर भान सिंह	01.10.2012
298	1481387पी	हवलदार	भगत राम	01.09.2012

299	1480266एफ	हवलदार	भैया राम	01.10.2012
300	1480063एक्स	हवलदार	भीम सिंह	01.09.2012
301	1480664एच	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	01.12.2012
302	1482631डब्ल्यू	हवलदार	बिक्रम चंद्रा राय	01.12.2012
303	1482715के	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.01.2013
304	1482487एम	हवलदार	ब्रह्मा लाल व्यास	01.10.2012
305	1480494के	हवलदार	चन्दन सिंह	01.11.2012
306	1482332एक्स	हवलदार	चंद्र भान	01.09.2012
307	1480796एन	हवलदार	चंद्रा कुमार आर के	01.01.2013
308	1480441एल	हवलदार	चक्र चंद्रा कोठारी	01.11.2012
309	1480203वाइ	हवलदार	चेन्न सिंह माटी	01.10.2012
310	1480713ए	हवलदार	दलबीर	01.12.2012
311	1480184वाइ	हवलदार	दत्ता	01.08.2012
312	1480292एच	हवलदार	दया सिक्खन	01.10.2012
313	14396864एन	हवलदार	दया नन्द	01.01.2013
314	1480170वाइ	हवलदार	देवेश कुमार चन्द	01.09.2012
315	1482573एक्स	हवलदार	दिलीप कुमार जैन	01.11.2012
316	1480744ए	हवलदार	दीना नाथ सिंह यादव	01.12.2012
317	1480365के	हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	01.10.2012
318	1480685वाइ	हवलदार	दिनेश सिंह	01.12.2012
319	1480397एम	हवलदार	एफ खान	01.10.2012
320	1480058एम	हवलदार	गनेश दास	01.09.2012
321	1480722एफ	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.12.2012
322	1480677ए	हवलदार	हंस राज	01.12.2012
323	1480830एल	हवलदार	हरेन चंद्रा दास	01.01.2013
324	1482458एक्स	हवलदार	हरेंद्र सिंह	01.10.2012
325	1480896एफ	हवलदार	हेम राज सिंह	01.01.2013
326	1480237एम	हवलदार	आई लाल साह	01.10.2012
327	1480606वाइ	हवलदार	इश्वर सिंह	01.11.2012
328	1577407पी	हवलदार	जगदीश सिंह	01.10.2012
329	1480417पी	हवलदार	जगवीर सिंह	01.10.2012
330	1480789ए	हवलदार	जय प्रकाश शुक्ला	01.12.2012
331	1480737के	हवलदार	जयपाल सिंह	01.12.2012
332	1480568एन	हवलदार	जमक सिंह	01.11.2012
333	1480597एच	हवलदार	जमनलाल सिंह	01.11.2012
334	1480141के	हवलदार	जमनवीर सिंह	01.09.2012
335	1480558के	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2012
336	1482359पी	हवलदार	के नाथ यादव	01.09.2012
337	1480168एफ	हवलदार	कमल कान्त जोशी	01.09.2012
338	1480699वाइ	हवलदार	कमलेश सिंह	01.12.2012
339	1480305पी	हवलदार	कामन कुमार	01.10.2012

340	1480860एच	हवलदार	कृष्णा कुमार राहा	01.01.2013
341	1480086वाइ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.09.2012
342	1482481एल	हवलदार	कुमार पाल शर्मा	01.10.2012
343	1482467वाइ	हवलदार	लाख पाती सिंह	01.10.2012
344	1482016वाइ	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.11.2012
345	1480204एफ	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2012
346	1480511वाइ	हवलदार	लाल बाबू सिंह	01.11.2012
347	1480123एफ	हवलदार	लाल बहादुर सिंह	01.09.2012
348	1480897के	हवलदार	लाल सिंह	01.01.2013
349	1480809एच	हवलदार	ललित मोहन रतूरी	01.01.2013
350	14396820डब्ल्यू	हवलदार	एम टी जी.	01.01.2013
351	1480687के	हवलदार	मदन कुमार झा	01.12.2012
352	1480263एन	हवलदार	मदेश्वर सिंह	01.10.2012
353	1480693एक्स	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.12.2012
354	1480527के	हवलदार	महेन्द्र नाथ तिवारी	01.11.2012
355	1480636डब्ल्यू	हवलदार	महेन्द्र पाल सिंह	01.11.2012
356	1480124के	हवलदार	एम कुमार बेहेरा	01.09.2012
357	1480519एल	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.11.2012
358	1482668एक्स	हवलदार	मोहम्मद नाज़रुल होदा	01.01.2013
359	1480485एच	हवलदार	मेहताब सिंह	01.11.2012
360	1480215एन	हवलदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.10.2012
361	1480601ए	हवलदार	मियां सिंह	01.11.2012
362	1480758ए	हवलदार	मोहन सिंह	01.12.2012
363	1482551वाइ	हवलदार	मुकेश कुमार	01.11.2012
364	1482595डब्ल्यू	हवलदार	मुन्ना लाल यादवा	01.12.2012
365	1480399एक्स	हवलदार	नन्द किशोर सिंह	01.10.2012
366	1480839ए	हवलदार	नारंग राम	01.01.2013
367	1480491डब्ल्यू	हवलदार	नरेश कुमार सिंह	01.11.2012
368	1480257ए	हवलदार	नरेश सिंह	01.10.2012
369	1480275एच	हवलदार	निर्मल सिंह	01.10.2012
370	1480721वाइ	हवलदार	परशु राम सिंह	01.12.2012
371	1480607एफ	हवलदार	पी कुराभाई धुलाजी	01.11.2012
372	1480230एच	हवलदार	प्रीत पाल सिंह	01.10.2012
373	1480612एम	हवलदार	पी सिंह	01.11.2012
374	1480736एफ	हवलदार	पूरन चंद्रा	01.12.2012
375	1480148एन	हवलदार	प्यार सिंह	01.09.2012
376	1480214एल	हवलदार	आर विभूश्न	01.10.2012
377	1482684पी	हवलदार	रच्चा पाल सिंह	01.01.2013
378	1480069वाइ	हवलदार	राज बीर	01.09.2012
379	1480314डब्ल्यू	हवलदार	राज सिंह	01.10.2012
380	1480706के	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.12.2012

381	1480658पी	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2012
382	1482650एफ	हवलदार	राकेश कुमार	01.12.2012
383	1480458वाइ	हवलदार	राम इश्वर सिंह यादव	01.11.2012
384	1480105वाइ	हवलदार	राम लखन	01.09.2012
385	1480468एच	हवलदार	राम मूरत वर्मा	01.11.2012
386	1480944डब्ल्यू	हवलदार	राम श्री लाल	01.01.2013
387	1480531एम	हवलदार	रमेश कुमार	01.11.2012
388	1480641एफ	हवलदार	रमेश तिवारी	01.12.2012
389	1482521एफ	हवलदार	रामेश्वर दयाल	01.11.2012
390	1480796डब्ल्यू	हवलदार	राठोड़ अम्बादास नानू	01.01.2013
391	1480904पी	हवलदार	रत्नाकर समनत्रे	01.01.2013
392	1480690के	हवलदार	रोहित कुमार सिंह	01.12.2012
393	1480367पी	हवलदार	सहदेव जी.	01.10.2012
394	1480924एच	हवलदार	सत पाल सिंह	01.01.2013
395	1482673एच	हवलदार	सतबीर सिंह	01.01.2013
396	1480595एक्स	हवलदार	एस चंद्रा	01.11.2012
397	1480532पी	हवलदार	एस सिंह	01.11.2012
398	1480530के	हवलदार	शम्भू नाथ मिश्रा	01.11.2012
399	1480470ए	हवलदार	शेशा नाथ सिंह	01.11.2012
400	1480479पी	हवलदार	शिव शंकर राय	01.11.2012
401	1480656के	हवलदार	श्याम बाबू सिंह	01.12.2012
402	1480469एल	हवलदार	एस टोपनो	01.11.2012
403	1480749वाइ	हवलदार	सिंधु कुमार	01.12.2012
404	1480936एक्स	हवलदार	एस प्रसाद राव	01.01.2013
405	1482508एक्स	हवलदार	सुजीत कुमार निओगी	01.11.2012
406	1480386ए	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.10.2012
407	1480467ए	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.11.2012
408	1480211एक्स	हवलदार	सुमेर सिंह गहलोत	01.10.2012
409	1480291ए	हवलदार	सुरेंद्र	01.10.2012
410	1480492वाइ	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.11.2012
411	1480716एन	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.12.2012
412	1480252एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.10.2012
413	1480614एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2012
414	1480324ए	हवलदार	सुरेश कुमार	01.10.2012
415	1482430एक्स	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2012
416	1577496वाइ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.11.2012
417	1482614डब्ल्यू	हवलदार	सुशील कुमार	01.12.2012
418	1480360एल	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.10.2012
419	1480402एम	हवलदार	टी मोइसन	01.10.2012
420	1480855एक्स	हवलदार	तपन कुमार सामल	01.01.2013
421	1480569डब्ल्यू	हवलदार	तारक कुमार घोष	01.11.2012

422	1480480के	हवलदार	ठाकुर जितेंद्रा कुमार सिंह	01.11.2012
423	1480172के	हवलदार	उदय राज वर्मा	01.09.2012
424	1480826एच	हवलदार	उमेश चंद्रा शर्मा	01.01.2013
425	1480431एफ	हवलदार	वी मनी	01.10.2012
426	1480542वाइ	हवलदार	विजय प्रताप सिंह	01.11.2012
427	1480775ए	हवलदार	विजेन्द्र कुमार	01.12.2012
428	1480608के	हवलदार	विजय सिंह	01.11.2012
429	1480950के	हवलदार	विजय विथल राव मुनेश्वर	01.01.2013
430	1480613पी	हवलदार	वीजेन्द्र सिंह ठाकुर	01.11.2012
<b>बोम्बे इंजीनियर समूह</b>				

431	1577791एफ	हवलदार	अर्जुन लाल रवि दास	01.01.2013
432	1577826एम	हवलदार	बाबू सिंह	01.01.2013
433	1577523एक्स	हवलदार	बचन सिंह	01.11.2012
434	1578178एफ	हवलदार	बी लाल हुडा	01.01.2013
435	1577778एक्स	हवलदार	बिजय कुमार पटेल	01.01.2013
436	1577672एल	हवलदार	चमकौर सिंह	01.12.2012
437	1577502एफ	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.11.2012
438	1577596के	हवलदार	गया महतो	01.11.2012
439	1577758के	हवलदार	गोविंद बी	01.12.2012
440	1577377एच	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.10.2012
441	1577593डब्ल्यू	हवलदार	कुशाल किशोर शर्मा	01.11.2012
442	1577820एल	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.01.2013
443	1577312पी	हवलदार	मोहर सिंह मीना	01.09.2012
444	1577437एम	हवलदार	मोहम्मद शेफी शेख	01.10.2012
445	1578796एम	हवलदार	एम पाल	01.11.2012
446	1577829ए	हवलदार	मुखारम सिंह	01.01.2013
447	1577891एम	हवलदार	नारायण लाल गूजर	01.12.2012
448	1577394एच	हवलदार	नरेश कुमार	01.10.2012
449	1577670ए	हवलदार	परमजीत सिंह	01.12.2012
450	1577409ए	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2012
451	1577736एल	हवलदार	राजेंद्र	01.12.2012
452	1577525एच	हवलदार	रामवतार खाती	01.11.2012
453	1577483एच	हवलदार	सोहन सिंह	01.11.2012
454	1577292एम	हवलदार	श्रीबास चंद्रा शील	01.09.2012
455	1577853डब्ल्यू	हवलदार	सुलेन्द्र पाल सिंह	01.01.2013
456	1577343पी	हवलदार	यू कुमार	01.09.2012
457	1577584पी	हवलदार	वी जगानाथ ए	01.11.2012

**सिग्नल्स कोर**

458	15357191के	हवलदार	ए के सिंह यादव	01.01.2013
-----	------------	--------	----------------	------------

वर्ग

459	15356238एक्स	हवलदार	ए अली अहमद	01.11.2012
460	15369136ए	हवलदार	अब्दुल ओहाब	01.01.2013
461	15356418ए	हवलदार	ए हक अंसारी	01.11.2012
462	15366548एल	हवलदार	अजय कुमार रीय	01.10.2012
463	15367831डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.11.2012
464	15367798के	हवलदार	अजया कुमार एस	01.12.2012
465	15366404एन	हवलदार	अजीत पाल	01.10.2012
466	15367510वाइ	हवलदार	अजीत कुमार सेन	01.11.2012
467	15368552एक्स	हवलदार	अजीत कुमार पी के	01.01.2013
468	15367006वाइ	हवलदार	अंगद सिंह	01.11.2012
469	15369171एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.01.2013
470	15366517डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार	01.10.2012
471	15367118एल	हवलदार	अनिल कुमार मिश्रा	01.12.2012
472	15366083एफ	हवलदार	अनिरुध्न एम बी	01.09.2012
473	15368728एम	हवलदार	ए कुमार मिश्रा	01.01.2013
474	15356126एक्स	हवलदार	अनवर हुसैन	01.10.2012
475	15356741पी	हवलदार	अर्जुन राम रमल	01.12.2012
476	15356518ए	हवलदार	अरुण कुमार मिश्रा	01.11.2012
477	15356121वाइ	हवलदार	अरुण कुमार मटेन	01.10.2012
478	15355055पी	हवलदार	अर्विन्द प्रसाद सिंह	01.08.2012
479	15355854एल	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2012
480	15356305एक्स	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2012
481	15367222एम	हवलदार	अशोक कुमार कस	01.11.2012
482	15366564एन	हवलदार	अशोके कुमार कन	01.10.2012
483	15356116एन	हवलदार	अवधेश कुमार अवस्थी	01.10.2012
484	15367460वाइ	हवलदार	बी जी. वाइ	01.11.2012
485	15355280के	हवलदार	बी के कोदण्डराम	01.09.2012
486	15367739एक्स	हवलदार	बी युवराज	01.12.2012
487	15355711एल	हवलदार	बाबन कुमार	01.10.2012
488	15356414के	हवलदार	बाबू लाल	01.11.2012
489	15366937डब्ल्यू	हवलदार	बाबू टी	01.11.2012
490	15367313डब्ल्यू	हवलदार	बालाशंकर पांडे	01.11.2012
491	15356080ए	हवलदार	बलेश्वर सिंह	01.10.2012
492	15367945एफ	हवलदार	बाली राम	01.12.2012
493	15367951पी	हवलदार	बी अवस्थी	01.12.2012
494	15355242एन	हवलदार	बलवंत सिंह	01.08.2012
495	15367026एम	हवलदार	बनजी सी जे	01.11.2012
496	15366687वाइ	हवलदार	बी कुमार बेहेरा	01.01.2013
497	15355891वाइ	हवलदार	बसंत कुमार बरिह	01.08.2012
498	15355967एन	हवलदार	बी जैना	01.10.2012
499	15366233एम	हवलदार	भजाहरी डे	01.08.2012

500	15355874वाइ	हवलदार	भरत कुमार	01.10.2012
501	15368946डब्ल्यू	हवलदार	भोसले दिलीप भगवान	01.01.2013
502	15366339वाइ	हवलदार	भुवनेश्वर प्रधान	01.09.2012
503	15368308एक्स	हवलदार	बिजय कुमार सामल	01.12.2012
504	15368001एम	हवलदार	बिनोद कुमार गुप्ता	01.12.2012
505	15356063ए	हवलदार	बिनोद कुमार झा	01.10.2012
506	15355787एल	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.10.2012
507	15365820एल	हवलदार	बिरेन्द्र	01.09.2012
508	15356974डब्ल्यू	हवलदार	बिरेन्द्रा प्रताप सिंह	01.12.2012
509	15368590एन	हवलदार	ब्राम पाल सिंह	01.01.2013
510	15368499एक्स	हवलदार	बृज किशोर	01.12.2012
511	15369186एल	हवलदार	बृज मोहन वर्मा	01.01.2013
512	15366728वाइ	हवलदार	बृज राज सिंह	01.10.2012
513	15366269एल	हवलदार	सी जे फिलिप	01.09.2012
514	15366306एन	हवलदार	सी लिंगन	01.09.2012
515	15367682एन	हवलदार	चंचल सिंह	01.11.2012
516	15356323ए	हवलदार	चंद्र सिंह	01.11.2012
517	15367452ए	हवलदार	चंद्रा शेखर कुमार	01.11.2012
518	15366671पी	हवलदार	चंद्रा सिंह	01.10.2012
519	15356834के	हवलदार	चन्द्रराखेत कुमार सिंह	01.11.2012
520	15368479के	हवलदार	चार्ल्स डी. सी	01.12.2012
521	15355445एक्स	हवलदार	छेदी लाल	01.09.2012
522	15367469एन	हवलदार	डी. आर राशेकर	01.11.2012
523	15367679एन	हवलदार	दलबीर सिंह	01.11.2012
524	15367543के	हवलदार	दम बी महंता	01.11.2012
525	15367434एक्स	हवलदार	डी. लाल	01.11.2012
526	15366435एन	हवलदार	दोलत सिंह के	01.09.2012
527	15356311एल	हवलदार	दयानन्द	01.11.2012
528	15366585के	हवलदार	देबा प्रसाद साहू	01.10.2012
529	15369129के	हवलदार	दीपक कुमार राय	01.01.2013
530	15356427एफ	हवलदार	दिलोवर हुसैन	01.11.2012
531	13688395के	हवलदार	देव नारायण राम	01.10.2012
532	15368624डब्ल्यू	हवलदार	देव कुमार त्यागी	01.01.2013
533	15368383एफ	हवलदार	देवेंद्र सिंह	01.12.2012
534	15355424एफ	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.09.2012
535	15366295एम	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.09.2012
536	15369014डब्ल्यू	हवलदार	देवी चरण प्रजापति	01.01.2013
537	15356980के	हवलदार	धन बहादुर मोची	01.12.2012
538	15366991के	हवलदार	डी. कुमार गुप्ता	01.11.2012
539	15356471एल	हवलदार	धर्म वीर सिंह	01.11.2012
540	15367801वाइ	हवलदार	धर्मबीर	01.12.2012



541	15356149एक्स	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.11.2012
542	15356307एच	हवलदार	दिलीप कुमार मेहता	01.11.2012
543	15356734वाइ	हवलदार	दिनेश कुमार एम	01.12.2012
544	15367665एन	हवलदार	दिवाकरण ए	01.11.2012
545	15355998एन	हवलदार	डी.एस त्रिपाठी	01.10.2012
546	15368824एम	हवलदार	जी. एकानाथ टी	01.01.2013
547	15355143एल	हवलदार	जी. रवि	01.09.2012
548	15356173पी	हवलदार	जी. एस रेडी	01.11.2012
549	15367241एक्स	हवलदार	जी. वेंकटेश्वर राव	01.11.2012
550	15368640एन	हवलदार	गंगा सिंह जी.	01.12.2012
551	15368397एफ	हवलदार	गंगाधरन एम वी	01.12.2012
552	15366840एल	हवलदार	गावडे गनपत महादेव	01.10.2012
553	15366148के	हवलदार	जी. लाल शर्मा	01.09.2012
554	15356473डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल कृष्णन पी एस	01.11.2012
555	15366738एच	हवलदार	गोर्धन राम	01.10.2012
556	15356585डब्ल्यू	हवलदार	गोड चंद्रा दास	01.11.2012
557	15367261एल	हवलदार	गोविंद राम	01.10.2012
558	15368989एल	हवलदार	गूजर राजेंद्रा नन्दू	01.01.2013
559	15367614ए	हवलदार	गुर्विन्दर सिंह	01.11.2012
560	15356174एक्स	हवलदार	ज्ञान प्रकाश पांडे	01.11.2012
561	15355857वाइ	हवलदार	एच के पी वेतिल	01.10.2012
562	15368411एच	हवलदार	हंस राज	01.12.2012
563	15366511पी	हवलदार	हरी किशन	01.10.2012
564	15368275एक्स	हवलदार	हरी प्रसाद	01.12.2012
565	15367542एफ	हवलदार	हरीश चंद्रा कर	01.11.2012
566	15366138ए	हवलदार	हेमंत कुमार वर्मा	01.09.2012
567	15357071एल	हवलदार	हीरा प्रसाद सिंह	01.01.2013
568	15367777एन	हवलदार	इदरीस अली	01.12.2012
569	15356423एल	हवलदार	ईमामुद्दीन	01.11.2012
570	15368234एन	हवलदार	जे डी. सत्यवान	01.11.2012
571	15366290एन	हवलदार	जे जे मछिन्द्र	01.09.2012
572	15367107एम	हवलदार	जे राजेश रामकिशना	01.11.2012
573	15368249डब्ल्यू	हवलदार	जाधव बालासो किसान	01.11.2012
574	15356068वाइ	हवलदार	जगदेवा प्रसाद	01.10.2012
575	15368825पी	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2013
576	15367382एम	हवलदार	जगतार	01.11.2012
577	15356140के	हवलदार	जय नारायन	01.11.2012
578	15357305के	हवलदार	जय पी भारद्वाज	01.01.2013
579	15366695वाइ	हवलदार	जाल्लू आर	01.10.2012
580	15368604एच	हवलदार	जामेश टी ए	01.01.2013
581	15355366एच	हवलदार	जय राम यादव	01.09.2012

582	15367589एम	हवलदार	जय शंकर शुक्ला	01.11.2012
583	15367758एच	हवलदार	जयराजन के	01.11.2012
584	15357039डब्ल्यू	हवलदार	जितेन्द्र शर्मा	01.01.2013
585	15355309एफ	हवलदार	जॉनसन डी.	01.09.2012
586	15367051एल	हवलदार	जोसेमन टी	01.10.2012
587	15356203एफ	हवलदार	के पी सिंह तोमर	01.10.2012
588	15367208ए	हवलदार	के पांडि दुरई	01.10.2012
589	15367999एच	हवलदार	के एस चंद्रा हेमराज	01.12.2012
590	15355729एफ	हवलदार	के एस संकर मोरे	01.10.2012
591	15355346पी	हवलदार	के श्रीनिवासन	01.09.2012
592	15367648एन	हवलदार	के वी चान्द्राकान्त	01.11.2012
593	15356362वाइ	हवलदार	के वाइ बाबा राव	01.11.2012
594	15355555एम	हवलदार	कमल सिंह	01.09.2012
595	15356608एम	हवलदार	कमला राम	01.11.2012
596	15367439डब्ल्यू	हवलदार	कमानी किशोर नरसी	01.11.2012
597	15355450एच	हवलदार	कंवल कुमार	01.09.2012
598	15355489पी	हवलदार	करन सिंह	01.09.2012
599	15367375डब्ल्यू	हवलदार	करतार सिंह	01.11.2012
600	15369036पी	हवलदार	कार्तिकेयन पी	01.01.2013
601	15355158एन	हवलदार	खरत रमेश नाना	01.09.2012
602	15355241एल	हवलदार	के च. देबनाथ	01.09.2012
603	15356310एच	हवलदार	के राम सिंह	01.11.2012
604	15355396ए	हवलदार	कीरत सिंह	01.09.2012
605	15356145एच	हवलदार	किशोरी लाल	01.11.2012
606	15355863एम	हवलदार	कोमारोलु थिरुपाथिहाह	01.10.2012
607	15366700वाइ	हवलदार	कोंडला रवि कुमार	01.10.2012
608	15356150एन	हवलदार	कण्णन चन्द	01.11.2012
609	15367740एन	हवलदार	कण्णन कुमार	01.12.2012
610	15356141एम	हवलदार	कण्णन सिंह	01.11.2012
611	15367144ए	हवलदार	कृष्णा कुमार सी	01.10.2012
612	15367276एन	हवलदार	कुलबीर सिंह रावत	01.10.2012
613	15356445के	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2012
614	15367447पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2012
615	15368024एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2012
616	15356358डब्ल्यू	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.11.2012
617	15367613एक्स	हवलदार	कुलवंत सिंह चौहान	01.11.2012
618	15355444पी	हवलदार	कुमार दत्ता तिवारी	01.09.2012
619	15356859डब्ल्यू	हवलदार	कुमारेसन ए	01.12.2012
620	15368714एक्स	हवलदार	कुंजुमोन पी सी	01.01.2013
621	15367386एच	हवलदार	लाइक राम	01.11.2012
622	15367957डब्ल्यू	हवलदार	लाल बहादुर गर्ग	01.12.2012

623	15367834के	हवलदार	लाल सिंह ए	01.12.2012
624	15368377एन	हवलदार	ललित कुमार	01.12.2012
625	15355888वाइ	हवलदार	ललित मोहन पटेल	01.09.2012
626	15356826एल	हवलदार	लालू शर्मा	01.12.2012
627	15366187एच	हवलदार	लक्ष्मण ईनालागी	01.09.2012
628	15356622वाइ	हवलदार	लक्ष्मण मुंडा	01.11.2012
629	15367544एम	हवलदार	लक्ष्मण सिंह	01.11.2012
630	15355810एन	हवलदार	एलआर श्रीपति	01.10.2012
631	15366544ए	हवलदार	एम जय्या कुमार	01.10.2012
632	15366930एम	हवलदार	एम के कोवालन	01.11.2012
633	15366774एन	हवलदार	एम राजाकृष्ण	01.10.2012
634	15366747के	हवलदार	एम सेल्वम	01.10.2012
635	15366689एल	हवलदार	एम श्रीनिवास राव	01.10.2012
636	15367527एम	हवलदार	एम के.के.एन	01.11.2012
637	15355868एल	हवलदार	एम के.के.एन रेडी	01.10.2012
638	15369156एन	हवलदार	मदन गोपाल	01.01.2013
639	15356483ए	हवलदार	मदन सिंह काकी	01.11.2012
640	15366096वाइ	हवलदार	मधु सूदन मोन्दल	01.09.2012
641	15355673ए	हवलदार	महा सिंह	01.10.2012
642	15355384एल	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.09.2012
643	15368802एन	हवलदार	महेंद्र सिंह यादव	01.01.2013
644	15368413एन	हवलदार	महेश चन्द	01.12.2012
645	15355425के	हवलदार	महेश कुमार	01.09.2012
646	15366231एफ	हवलदार	महेश कुमार त्यागी	01.09.2012
647	15356485एल	हवलदार	महेश सिंह चौहान	01.11.2012
648	15356543के	हवलदार	माही पाल	01.11.2012
649	15357214ए	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.01.2013
650	15368671एन	हवलदार	माली देवू बालीराम	01.01.2013
651	15355178एफ	हवलदार	माने राज कुमार शामराव	01.09.2012
652	15366294के	हवलदार	माने सुदाम विष्णु	01.09.2012
653	15355054एम	हवलदार	मनिन्द्र नाथ राय	01.09.2012
654	15355570एफ	हवलदार	मनोज कुमार	01.09.2012
655	15356062एक्स	हवलदार	मनोज कुमार	01.10.2012
656	15368695एक्स	हवलदार	मनोज कुमार पाणिग्रही	01.01.2013
657	15355824एन	हवलदार	मनोज एन	01.10.2012
658	15355797पी	हवलदार	मनोज सिंह	01.10.2012
659	15367200एन	हवलदार	मनोज एम राव	01.10.2012
660	15367164एन	हवलदार	मनोज सुंदर एम	01.10.2012
661	15367352पी	हवलदार	मनोज कुमार	01.11.2012
662	15355448एल	हवलदार	मनोज राव	01.09.2012
663	15367949एक्स	हवलदार	मनोज प्रसाद राव	01.12.2012

664	15355432ए	हवलदार	मोहम्मद अख्तर खान	01.09.2012
665	15356944वाइ	हवलदार	मोहिन्दर पाल	01.12.2012
666	15369402एन	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.01.2013
667	15366499वाइ	हवलदार	एम एस	01.10.2012
668	15357130एम	हवलदार	मुरलीधरन पी	01.01.2013
669	15355368एन	हवलदार	मुसाफिर यादव	01.09.2012
670	15368947वाइ	हवलदार	एन डी. दिगम्बर	01.01.2013
671	15366796एम	हवलदार	एन के मोहन लाल	01.10.2012
672	15368415वाइ	हवलदार	एन रमा मूर्थी	01.12.2012
673	15360603एल	हवलदार	नगेन्द्रा पाल सिंह	01.01.2013
674	15367934पी	हवलदार	नन्द लाल	01.11.2012
675	15368540एच	हवलदार	नंदा कुमार के	01.01.2013
676	15367009एम	हवलदार	नंदजी सिंह	01.11.2012
677	15366737ए	हवलदार	नारायण सिंह	01.10.2012
678	15366260डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.09.2012
679	15355657एच	हवलदार	नरिंदर कुमार	01.10.2012
680	15355318एच	हवलदार	नेत्रा पाल अर्यल	01.09.2012
681	15355144एन	हवलदार	एन सोनोवाल	01.09.2012
682	15357015एम	हवलदार	निर्मल कुमार	01.01.2013
683	15357247एल	हवलदार	निर्मल कुमार विश्वास	01.01.2013
684	15368422पी	हवलदार	निरपाल सिंह	01.12.2012
685	15366780एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
686	15356764डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.12.2012
687	15356929के	हवलदार	ओंकार नाथ मिश्रा	01.12.2012
688	15355273एन	हवलदार	पी बी छेलाजी	01.09.2012
689	15368078पी	हवलदार	पी बी एस कृष्णन	01.12.2012
690	15367506डब्ल्यू	हवलदार	पी के चौधरी	01.11.2012
691	15367990एन	हवलदार	पी एल रामचंद्र	01.12.2012
692	15356179डब्ल्यू	हवलदार	पी प्रभाकरा पट्टी	01.11.2012
693	15356167एफ	हवलदार	पी आर सुब्रमण्यम राजू	01.11.2012
694	15356883एम	हवलदार	पी थनिगाछलम	01.12.2012
695	15366523के	हवलदार	पी वेलास्वामी	01.10.2012
696	15357010एन	हवलदार	पलानी जी.	01.01.2013
697	15355636एम	हवलदार	पल्लब कुमार गोस्वामी	01.09.2012
698	15367480एम	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.11.2012
699	15366898एच	हवलदार	प्रवेश कुमार	01.10.2012
700	15356845डब्ल्यू	हवलदार	पटेल मोहिद्धीन वजीर	01.12.2012
701	15368211एम	हवलदार	पाटिल मधुकर गनपत	01.11.2012
702	15367195एन	हवलदार	पवन कुमार	01.10.2012
703	15367692एक्स	हवलदार	पवन कुमार दधीचि	01.11.2012
704	15355728वाइ	हवलदार	पवार अम्बादास दत्तू	01.10.2012

705	15367791ए	हवलदार	पवार अर्जुन जगन्मथ	01.12.2012
706	15367636वाइ	हवलदार	पवार बालू विट्टल	01.11.2012
707	15355502एन	हवलदार	पी राव	01.09.2012
708	15357315एन	हवलदार	पी भूसेन दास	01.01.2013
709	15357162पी	हवलदार	पोनप्पा एम टी	01.01.2013
710	15355972वाइ	हवलदार	प्रदीप कुमार मोहंती	01.10.2012
711	15368634ए	हवलदार	प्रहलाद कुमार ठाकुर	01.01.2013
712	15368319के	हवलदार	प्रकाश कुमार पारीजा	01.12.2012
713	15356206पी	हवलदार	पी कुमार डे	01.10.2012
714	15356753के	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.12.2012
715	15355975एम	हवलदार	परमोदा कुमार सामल	01.10.2012
716	15355894एम	हवलदार	प्रसांत कुमार स्वेन	01.09.2012
717	15357281एल	हवलदार	प्रेमानन्दा मिश्रा	01.01.2013
718	15355930एम	हवलदार	पुरी दास रौय	01.10.2012
719	15356120डब्ल्यू	हवलदार	पूर्णा राम	01.10.2012
720	15357085एल	हवलदार	आर डी. के चिमनलाल	01.01.2013
721	15357099एल	हवलदार	आर जम्बूलिंगम	01.01.2013
722	15366750के	हवलदार	आर रघु	01.10.2012
723	15367163एल	हवलदार	आर सुब्बा रयुदू	01.10.2012
724	15367147एन	हवलदार	राधाकृष्ण नायर वी	01.10.2012
725	15356051एल	हवलदार	राधेश्याम सिंह	01.10.2012
726	15357024एन	हवलदार	राज कुमार	01.01.2013
727	15355836एन	हवलदार	राज मोहन ठाकुर	01.10.2012
728	15356615एच	हवलदार	राज पाल सिंह यादव	01.11.2012
729	15356330डब्ल्यू	हवलदार	राजा कंवर	01.11.2012
730	15357255के	हवलदार	आर मल्लिक	01.01.2013
731	15356026एम	हवलदार	राजन प्रसाद गुप्ता	01.10.2012
732	15357213एक्स	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.01.2013
733	15355681वाइ	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.09.2012
734	15360828एन	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2012
735	15355498डब्ल्यू	हवलदार	राजेश कुमार	01.09.2012
736	15366652के	हवलदार	राजेश कुमार	01.10.2012
737	15356012एम	हवलदार	राजेश कुमार पांडे	01.10.2012
738	15367623एफ	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.11.2012
739	15357109के	हवलदार	राजिन्दर कुमार शर्मा	01.01.2013
740	15355869एन	हवलदार	राजूमोन बी	01.10.2012
741	15356662ए	हवलदार	राजवीर सिंह	01.11.2012
742	15356515एक्स	हवलदार	राजवीर सिंह	01.11.2012
743	15355588एक्स	हवलदार	राकेश चन्द्र रतूरी	01.09.2012
744	15369006एक्स	हवलदार	राकेश कुमार मिश्रा	01.01.2013
745	15365847एच	हवलदार	राम बहादुर	01.09.2012

746	15369146के	हवलदार	राम बहादुर कुंवर	01.01.2013
747	15366025एक्स	हवलदार	राम भान वर्मा	01.09.2012
748	15357250एल	हवलदार	राम चंद्रा	01.01.2013
749	15368729ए	हवलदार	राम दीन पटेल	01.01.2013
750	15366634एफ	हवलदार	राम कृष्णपाल यादव	01.10.2012
751	15355604के	हवलदार	राम कृष्णन	01.09.2012
752	15355238एल	हवलदार	राम कुमार प्रसाद	01.09.2012
753	15367187पी	हवलदार	राम नरेश	01.10.2012
754	15355490के	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.09.2012
755	15367438एन	हवलदार	राम नाथ	01.11.2012
756	15356658एक्स	हवलदार	राम नाथ सिंह	01.11.2012
757	15367616एल	हवलदार	राम पाल	01.11.2012
758	15356446पी	हवलदार	राम प्रकाश चौधरी	01.11.2012
759	15357177एक्स	हवलदार	राम प्रसाद लोधी	01.01.2013
760	15369115के	हवलदार	राम प्रसाद राम	01.01.2013
761	15356071वाइ	हवलदार	राम प्रवेश सिंह	01.10.2012
762	15355388एफ	हवलदार	राम सहाय	01.09.2012
763	15356261एल	हवलदार	आर के	01.11.2012
764	15355906डब्ल्यू	हवलदार	रमाकांत बेहेरा	01.09.2012
765	15356660पी	हवलदार	रमेश सिंह	01.11.2012
766	15357297डब्ल्यू	हवलदार	रामजी प्रसाद	01.01.2013
767	15355717एम	हवलदार	आर प्रसाद सिंह	01.10.2012
768	15367479एक्स	हवलदार	रणधीर सिंह	01.11.2012
769	15368791एम	हवलदार	रतन सिंह	01.01.2013
770	15356522एन	हवलदार	रत्नाकरन टी बी	01.11.2012
771	15366987एफ	हवलदार	रतन लाल	01.11.2012
772	15356766एफ	हवलदार	राहिताश्व यादव	01.12.2012
773	15356571डब्ल्यू	हवलदार	आर सेकिआ	01.11.2012
774	15368675के	हवलदार	एस भूपाल	01.01.2013
775	15368039डब्ल्यू	हवलदार	एस डी. दत्तारिया	01.12.2012
776	15368441ए	हवलदार	एस के प्रभाकरण	01.12.2012
777	15356256ए	हवलदार	एस कमलानाथन	01.11.2012
778	15366425के	हवलदार	एस पी पांडुरंग	01.09.2012
779	15369110एल	हवलदार	एस पकियम	01.01.2013
780	15367217एफ	हवलदार	एस आर सरन बिश्नोई	01.10.2012
781	15355958एम	हवलदार	एस एस रामचंद्र	01.10.2012
782	15367843एल	हवलदार	सादिख अली	01.12.2012
783	15356377एफ	हवलदार	शाहजहां चौधरी	01.11.2012
784	15355219ए	हवलदार	सम्भु नाथ मिश्रा	01.09.2012
785	15366250एम	हवलदार	समीर कुमार रौय	01.09.2012
786	15368833एन	हवलदार	समशेर सिंह	01.01.2013

787	15356182डब्ल्यू	हवलदार	संजय कुमार	01.11.2012
788	15355202एम	हवलदार	संकरन नायर एन	01.09.2012
789	15367167एफ	हवलदार	संत उदया सिंह	01.10.2012
790	15355643एच	हवलदार	सान्तनु कुमार दलाई	01.09.2012
791	15364683एल	हवलदार	संतोष कुमार सिंह	01.11.2012
792	15356006वाइ	हवलदार	संथू प्रसाद	01.10.2012
793	15356624के	हवलदार	एस राम डायमारे	01.12.2012
794	15355076एल	हवलदार	सर्वजीत सिंह	01.09.2012
795	15366557एक्स	हवलदार	एस वेन्नइया	01.10.2012
796	15368068एम	हवलदार	साती राजन ओ	01.09.2012
797	15367265एफ	हवलदार	सत्य प्रकाश शर्मा	01.10.2012
798	13688522एन	हवलदार	सत्य राम सिंह	01.10.2012
799	15356182डब्ल्यू	हवलदार	सत्यावान	01.10.2012
800	15368280एच	हवलदार	सेनदूर पांडियन	01.12.2012
801	15356109एक्स	हवलदार	शाजी मेथू	01.10.2012
802	15357041एन	हवलदार	शत्रोघ्न सिंह	01.01.2013
803	15356584एन	हवलदार	एस सिंह	01.11.2012
804	15367508एफ	हवलदार	शिव प्रसाद हाल्वा	01.11.2012
805	15366939एफ	हवलदार	एस कुमार ए	01.11.2012
806	15368114पी	हवलदार	शीश पाल	01.12.2012
807	15368803डब्ल्यू	हवलदार	शिव कुमार	01.10.2012
808	15356454एल	हवलदार	शिव राम सिंह	01.11.2012
809	15356032ए	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01.10.2012
810	15367576पी	हवलदार	शिवे कुमार	01.11.2012
811	15357048एक्स	हवलदार	श्रवण कुमार मेघवाल	01.01.2013
812	15357200ए	हवलदार	श्रीपाल सिंह	01.01.2013
813	15356408डब्ल्यू	हवलदार	श्री नाथ मिश्रा	01.11.2012
814	15355442के	हवलदार	श्री प्रकाश	01.09.2012
815	15368498पी	हवलदार	श्याम लाल कौशिक	01.12.2012
816	15356467एच	हवलदार	श्याम शरण	01.11.2012
817	15356714एल	हवलदार	श्याम सुंदर	01.12.2012
818	15366067के	हवलदार	शिवसुधन एस	01.10.2012
819	15366209डब्ल्यू	हवलदार	सोम लाल	01.10.2012
820	15356446एम	हवलदार	सोम नाथ	01.11.2012
821	15366182के	हवलदार	श्री कुमार पी एन	01.10.2012
822	15366262एफ	हवलदार	श्री पाती नारायण	01.10.2012
823	15368173एफ	हवलदार	श्रीधर दाश	01.11.2012
824	15368830ए	हवलदार	श्री नरेंद्र सिंह	01.09.2012
825	15355612एच	हवलदार	श्री राम साह	01.10.2012
826	15355900पी	हवलदार	श्रीकान्त परीद	01.09.2012
827	15367342एल	हवलदार	सुभाष कुमार पांडे	01.11.2012

828	15355240एच	हवलदार	सुभ नारायण	01.09.2012
829	15369003के	हवलदार	एस घोष	01.01.2013
830	15368867एफ	हवलदार	सुभाष चन्द	01.01.2013
831	15368060वाइ	हवलदार	सुभाष चन्द	01.12.2012
832	15356773एक्स	हवलदार	सुभाष चन्द रनौत	01.12.2012
833	15367270एम	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.10.2012
834	15355053के	हवलदार	सुबोध पाठक	01.09.2012
835	15366210एल	हवलदार	सुब्रता कांता दास	01.09.2012
836	15366665एफ	हवलदार	सुखराम स्वामी	01.10.2012
837	15356143एक्स	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.11.2012
838	15368999पी	हवलदार	सुनील कुमार झा	01.01.2013
839	15368167एन	हवलदार	सुनीत चन्द	01.01.2013
840	15368632पी	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार वर्मा	01.01.2013
841	15356576पी	हवलदार	सुरेन्द्रा राय	01.11.2012
842	15355580एल	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.09.2012
843	15366062एल	हवलदार	सुरेश बाबू सी	01.09.2012
844	15356713एच	हवलदार	सुरेश कुमार	01.12.2012
845	15368354एम	हवलदार	सुरेश कुमार	01.12.2012
846	15366976पी	हवलदार	सुरेश कुमार आचारी बी.	01.11.2012
847	15366649के	हवलदार	सुरेश कुमार एम बी	01.10.2012
848	15356763एन	हवलदार	सुरेश राम	01.12.2012
849	15357106डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश वी	01.01.2013
850	15356155एम	हवलदार	एस पाल सिंह	01.11.2012
851	15368213एक्स	हवलदार	सुर्व प्रवीण पी	01.11.2012
852	15355056एक्स	हवलदार	सूर्या कुमार दयूरी	01.09.2012
853	15368990ए	हवलदार	सुतार सुनील जयराम	01.01.2013
854	15368493डब्ल्यू	हवलदार	टी के चक्रबती	01.12.2012
855	15367233वाइ	हवलदार	टी एस आइ	01.11.2012
856	15368994डब्ल्यू	हवलदार	टी शिवाजी गंगा	01.01.2013
857	15366089एच	हवलदार	तापस देबनाथ	01.09.2012
858	15369013एन	हवलदार	तारा चंद्रा	01.01.2013
859	15356563एक्स	हवलदार	टी गोगोई	01.11.2012
860	15357014के	हवलदार	टी राजा रेडी	01.01.2013
861	15367043एम	हवलदार	उदया कुमार एमबी	01.10.2012
862	15356031एक्स	हवलदार	उदय भान शर्मा	01.10.2012
863	15356045एक्स	हवलदार	उमेश प्रसाद	01.10.2012
864	15355587पी	हवलदार	उम्मेद सिंह रावत	01.09.2012
865	15355187एच	हवलदार	उप्पदा टी	01.09.2012
866	15367701एन	हवलदार	वी राजसेकरन	01.11.2012
867	15367962एफ	हवलदार	वी वी सोमा भाई	01.12.2012
868	15356429एम	हवलदार	वी वेंकट रामानन	01.11.2012



869	15366484डब्ल्यू	हवलदार	वेद प्रकाश	01.10.2012
870	15355387वाइ	हवलदार	वेद राम पाल	01.09.2012
871	15366264एम	हवलदार	वेंकटाचलम ए पी	01.09.2012
872	15356992वाइ	हवलदार	वी मोहन	01.12.2012
873	15366078डब्ल्यू	हवलदार	विजया कुमार बी	01.09.2012
874	15355376एम	हवलदार	वीजेन्द्र नाथ गिरि	01.09.2012
875	15368549एक्स	हवलदार	विजोय डेनिअल	01.01.2013
876	15367577एक्स	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2012
877	15355556पी	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.09.2012
878	15366193डब्ल्यू	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.09.2012
879	15355395एक्स	हवलदार	वीरेंद्र सिंह आर्य	01.09.2012
880	15357035ए	हवलदार	विशाम्बर	01.01.2013
881	15355225एन	हवलदार	विश्वनाथ	01.09.2012
882	15366779एम	हवलदार	योगेन्द्रा सिंह	01.10.2012
883	15355371एन	हवलदार	जेड के एस बालू सिंह	01.09.2012
884	15367578ए	हवलदार	जाकिर हुसैन	01.11.2012

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

885	2886013एम	हवलदार	बांस लाल	01.09.2012
886	13690487पी	हवलदार	देव राज	01.10.2012
887	13690699ए	हवलदार	देवी दयाल अवस्थी	01.12.2012
888	13978416ए	हवलदार	गोपाल विश्वास	01.11.2012
889	13690498एफ	हवलदार	जस मसीह	01.10.2012
890	13690826के	हवलदार	जीत सिंह	01.01.2013
891	13688831डब्ल्यू	हवलदार	के मुरुगन	01.01.2013
892	13690690एल	हवलदार	के सिंह	01.12.2012
893	13690689डब्ल्यू	हवलदार	केशव दास	01.12.2012
894	13690771एल	हवलदार	खजान सिंह	01.12.2012
895	13690780एम	हवलदार	लक्ष्मन राम	01.01.2013
896	13690950एल	हवलदार	मूल चन्द गूजर	01.01.2013
897	13690806डब्ल्यू	हवलदार	एन शेट्टी एचपी	01.01.2013
898	8032030एच	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2013
899	13688354ए	हवलदार	पवन कुमार	01.09.2012
900	13690837डब्ल्यू	हवलदार	फूल चन्द	01.01.2013
901	13690658डब्ल्यू	हवलदार	प्यारे लाल	01.12.2012
902	13690509एच	हवलदार	राजीवन पी	01.10.2012
903	3390350एम	हवलदार	राजेंद्रा यादव	01.01.2013
904	13688401एम	हवलदार	राम चंद्र राउत	01.10.2012
905	4070037एक्स	हवलदार	राम एस	01.01.2013
906	13690568पी	हवलदार	शान्ति कुमार सिंघा	01.11.2012
907	13690839एफ	हवलदार	शिव राम प्रजापति	01.01.2013

908	13688809एल	हवलदार	शिव शंकर तिवारी	01.01.2013
909	13690426एक्स	हवलदार	एस सिंह यादवा	01.09.2012
910	13690666पी	हवलदार	सिया राम	01.12.2012
911	13690795पी	हवलदार	त्रिलोक चन्द	01.01.2013
912	13688835एम	हवलदार	विनय कुमार सिंह	01.01.2013
913	13690691एन	हवलदार	विनोद सिंह तोमर	01.12.2012

पैराशूट रेजीमेंट

914	13617970डब्ल्यू	हवलदार	अमरीक सिंह	01.09.2012
915	13616976एल	हवलदार	अशोक कुमार प्रसाद	01.12.2012
916	13617952के	हवलदार	बलवंत सिंह के	01.09.2012
917	13616859ए	हवलदार	दया नन्द शर्मा	01.10.2012
918	13618061एक्स	हवलदार	गनेश सिंह	01.10.2012
919	13616813एक्स	हवलदार	गोधान सिंह	01.10.2012
920	13618052डब्ल्यू	हवलदार	गोविंद बल्लभ जोशी	01.10.2012
921	13616906एम	हवलदार	जगत पाल	01.11.2012
922	13618016एल	हवलदार	जनार्दन प्रसाद सिन्हा	01.10.2012
923	13616901एन	हवलदार	जसबीर सिंह एससी	01.11.2012
924	13617930पी	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2012
925	13617993एक्स	हवलदार	के आर	01.10.2012
926	13617988एम	हवलदार	खुशी राम	01.10.2012
927	13617971वाइ	हवलदार	कुलदीप राज	01.09.2012
928	13617920एल	हवलदार	लखन सिंह	01.09.2012
929	13618169पी	हवलदार	मलय कुमार के	01.01.2013
930	13617039ए	हवलदार	मुकेश	01.01.2013
931	13616794एक्स	हवलदार	मुन्ना लाल	01.09.2012
932	13617951एल	हवलदार	मूर्ती लाल	01.09.2012
933	13617035के	हवलदार	पृथ्वी सिंह	01.01.2013
934	13618026पी	हवलदार	राकेश कुमार	01.10.2012
935	5450299डब्ल्यू	हवलदार	राम बी	01.01.2013
936	13618018डब्ल्यू	हवलदार	राम विनय सिंह	01.10.2012
937	13616771डब्ल्यू	हवलदार	रवि चंद्रा बहादुर एस	01.09.2012
938	13616868एफ	हवलदार	रूपन यादव	01.10.2012
939	13617979एल	हवलदार	सुख देव राज	01.09.2012

मैकैनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

940	14915626एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2012
941	14915386पी	हवलदार	ए नंदी	01.09.2012
942	14914201डब्ल्यू	हवलदार	ए राय	01.10.2012
943	14915540एच	हवलदार	बचित्तर सिंह	01.10.2012
944	14915769एफ	हवलदार	बक्शीश सिंह	01.12.2012

945	2989293एल	हवलदार	भागमल गुर्जर	01.10.2012
946	14914349पी	हवलदार	भगवती प्रसाद	01.12.2012
947	2989489वाइ	हवलदार	भवानी सिंह	01.10.2012
948	14915492एन	हवलदार	भोगीलाल परमार	01.10.2012
949	2989402एम	हवलदार	ब्रिजेन्द्र सिंह	01.10.2012
950	14915466एम	हवलदार	कृष्णमन्दन प्रसाद	01.09.2012
951	14915826एक्स	हवलदार	चंदगी राम	01.12.2012
952	14915538एल	हवलदार	दलीप कुमार	01.10.2012
953	14915690वाइ	हवलदार	दीपक कुमार रोका	01.12.2012
954	2989231एल	हवलदार	देवप्रसाद सिंह	01.10.2012
955	14915436पी	हवलदार	दिल राम सिंह यादव	01.09.2012
956	14915862एच	हवलदार	दिलीप कुमार कबी	01.01.2013
957	14915584एम	हवलदार	दुन्दुआ एम	01.11.2012
958	14915557डब्ल्यू	हवलदार	जी. बालकर	01.11.2012
959	14915524एल	हवलदार	गोल्सा रामरेखा	01.10.2012
960	14915633एक्स	हवलदार	हरी लाल मंडल	01.11.2012
961	14914296एफ	हवलदार	हरी नारायण	01.11.2012
962	14914231एन	हवलदार	हरी राम	01.10.2012
963	14915673वाइ	हवलदार	हेम राज	01.12.2012
964	2989638एफ	हवलदार	जगदीश कुमार	01.11.2012
965	14915778एच	हवलदार	जगदीश प्रसाद स्वामी	01.12.2012
966	14915788एम	हवलदार	जुगेन्द्र सिंह	01.12.2012
967	14914256ए	हवलदार	कमलेश प्रसाद दुबे	01.11.2012
968	14915685एन	हवलदार	करतार चन्द	01.12.2012
969	14914334एम	हवलदार	लोक नाथ नायक	01.11.2012
970	14915515के	हवलदार	एम अरुमुगम	01.10.2012
971	14915827ए	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.12.2012
972	2989486एल	हवलदार	मातु राम	01.10.2012
973	14915460एल	हवलदार	मोहम्मद ए	01.09.2012
974	2989218एफ	हवलदार	मोहर सिंह गुर्जर	01.10.2012
975	2989304एम	हवलदार	नाहर सिंह सिसोदिया	01.10.2012
976	14915421एम	हवलदार	नकुल चंदा घोष	01.09.2012
977	14915535एक्स	हवलदार	नन्है राम	01.10.2012
978	2989287एक्स	हवलदार	नारायण सिंह	01.10.2012
979	2989555डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.11.2012
980	14915728एक्स	हवलदार	नरेश कुमार	01.12.2012
981	14914134डब्ल्यू	हवलदार	नृसिंहा नाथ एम	01.09.2012
982	14915452एम	हवलदार	प्रसाद सिंह एस	01.09.2012
983	2989320के	हवलदार	प्रसाद सिंह	01.10.2012
984	14915487पी	हवलदार	प्रसाद सिंह सिन्हा	01.09.2012
985	14915609एक्स	हवलदार	प्रिंसी राम सिंह	01.12.2012

986	14915560डब्ल्यू	हवलदार	राज किशोर माल	01.11.2012
987	14915478एफ	हवलदार	राजेश कुमार मिश्रा	01.10.2012
988	14915553ए	हवलदार	राजेश सिंह यादव	01.11.2012
989	14915445डब्ल्यू	हवलदार	राजपाल सिंह	01.09.2012
990	14915719डब्ल्यू	हवलदार	राम भगत	01.12.2012
991	14915502एम	हवलदार	राम बी	01.10.2012
992	14914147एन	हवलदार	राम चंद्रा सिंह	01.09.2012
993	14915649एच	हवलदार	राम विश्वास नाई	01.11.2012
994	14915845एच	हवलदार	रमेश चंद्रा साहू	01.01.2013
995	14915764एच	हवलदार	रमेशा	01.12.2012
996	14915735एन	हवलदार	आर सिंह एस	01.12.2012
997	2989656के	हवलदार	रतनपाल सिंह	01.11.2012
998	14915552एक्स	हवलदार	रवि वी	01.11.2012
999	14914152वाइ	हवलदार	आर नेताजी	01.09.2012
1000	14915852वाइ	हवलदार	एस इस्लाम	01.01.2013
1001	14915603ए	हवलदार	संग नोर्बू	01.11.2012
1002	14914386एच	हवलदार	शशि भूषण कुमार	01.11.2012
1003	14915622एल	हवलदार	शैखप्पा कुरुबर	01.11.2012
1004	14914316के	हवलदार	शेर सिंह	01.12.2012
1005	14914367एक्स	हवलदार	शीश राम	01.12.2012
1006	2986650एक्स	हवलदार	शिव कुमार	01.01.2013
1007	14914161ए	हवलदार	शोभ नाथ राम	01.09.2012
1008	14915561वाइ	हवलदार	सिवा कुमार सी	01.11.2012
1009	14915425एच	हवलदार	सोहन लाल	01.09.2012
1010	14915602एक्स	हवलदार	सुबीर कुमार घोष	01.11.2012
1011	14915426एल	हवलदार	सुदीप कुमार दास	01.09.2012
1012	14915810एम	हवलदार	सुल्तान सिंह सहारन	01.12.2012
1013	14915435एम	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार एम	01.09.2012
1014	2989662एक्स	हवलदार	तेज राज सिंह	01.11.2012
1015	14915313एच	हवलदार	वी प्रसाद	01.09.2012
1016	14915647एक्स	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद वाइ	01.11.2012

#### पंजाब रेजीमेंट

1017	2482073डब्ल्यू	हवलदार	अमरीक सिंह	01.01.2013
1018	2481889एन	हवलदार	अवतार सिंह	01.12.2012
1019	2481757ए	हवलदार	अवतार सिंह	01.09.2012
1020	2482094एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2013
1021	2481907एल	हवलदार	बलवंत सिंह	01.12.2012
1022	2479441पी	हवलदार	बलीप सिंह	01.01.2013
1023	2481808एच	हवलदार	दर्शन लाल खजुरिया	01.10.2012
1024	2481962एफ	हवलदार	दुनी चन्द	01.12.2012

1025	2481938एल	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.12.2012
1026	2481931एफ	हवलदार	जगतार सिंह	01.12.2012
1027	2479297एल	हवलदार	जगतार सिंह	01.11.2012
1028	2479319वाइ	हवलदार	जसबीर सिंह	01.11.2012
1029	2482059के	हवलदार	जसबीर सिंह	01.01.2013
1030	2481968एच	हवलदार	जीवन कुमार	01.12.2012
1031	2481818एम	हवलदार	काली दास	01.10.2012
1032	7240114वाइ	हवलदार	एम बासकरन	01.01.2013
1033	2481780एन	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2012
1034	2482034एक्स	हवलदार	पूरन सिंह	01.01.2013
1035	2481810ए	हवलदार	राज कुमार	01.10.2012
1036	2481958वाइ	हवलदार	राजेश कुमार	01.12.2012
1037	2481862डब्ल्यू	हवलदार	राजिन्दर पाल	01.11.2012
1038	2479236एन	हवलदार	रमेश चन्द	01.11.2012
1039	2481887एच	हवलदार	रावेल सिंह	01.12.2012
1040	2481843एल	हवलदार	सिकंदर सिंह	01.11.2012
1041	2480216एम	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2012
1042	2482060वाइ	हवलदार	वरिंदर सिंह	01.01.2013

मद्रास रेजीमेंट

1043	2594125एच	हवलदार	ए देसीगन	01.12.2012
1044	13978843डब्ल्यू	हवलदार	ए नरहिया	01.01.2013
1045	2594154एक्स	हवलदार	ए संकरन	01.01.2013
1046	2594007पी	हवलदार	ए भास्कर राव	01.10.2012
1047	2594008एक्स	हवलदार	बट्टू चिन्ना बसावाया	01.10.2012
1048	2591657एक्स	हवलदार	सी विलान	01.11.2012
1049	2593055एच	हवलदार	सी रेडी एन	01.09.2012
1050	2594031एल	हवलदार	डेविड पी चको	01.10.2012
1051	2594022के	हवलदार	दुन्ना जे राव	01.10.2012
1052	2594068एम	हवलदार	जी. टीमासागर	01.11.2012
1053	2593985के	हवलदार	जी.ईई वरघेसे टी	01.09.2012
1054	2683975एफ	हवलदार	हरी राम	01.12.2012
1055	2594137एक्स	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार के.एस	01.12.2012
1056	2594002डब्ल्यू	हवलदार	के गोपालाकृष्णन	01.09.2012
1057	2593974एक्स	हवलदार	के मुथठाइया	01.09.2012
1058	2593971के	हवलदार	के बन्दारू	01.09.2012
1059	2591792एल	हवलदार	कर्मवीर सिंह	01.12.2012
1060	2591487वाइ	हवलदार	कृष्णन देव प्रसाद कुशवाहा	01.10.2012
1061	2594153पी	हवलदार	मधेशरन ए	01.01.2013
1062	2594151के	हवलदार	मदीना संकर राव	01.01.2013
1063	8032555एम	हवलदार	मल्लिकार्जुन टी	01.09.2012

1064	2594162डब्ल्यू	हवलदार	मनोहरन नायर केके	01.01.2013
1065	2593999के	हवलदार	मेकाला वेन्कटेश्वरलु	01.09.2012
1066	2594114डब्ल्यू	हवलदार	एन केषवा रेडी	01.12.2012
1067	2594061एच	हवलदार	निज़ार एम	01.11.2012
1068	13978768एक्स	हवलदार	ओमवीर सिंह	01.01.2013
1069	4360439ए	हवलदार	पंकजाकस्न पिल्लई जी.	01.11.2012
1070	13978836ए	हवलदार	प्रकाश चंद्रा सरकार	01.01.2013
1071	2593952वाइ	हवलदार	आर पौल दास	01.09.2012
1072	2593943एक्स	हवलदार	रामचन्द्रन नायर जी.	01.09.2012
1073	4360433वाइ	हवलदार	रमेश कुमार पीआर	01.11.2012
1074	2591574एम	हवलदार	रवि जी.	01.11.2012
1075	4360260एम	हवलदार	रविचंद्र आर	01.10.2012
1076	13978832के	हवलदार	एस अरुल	01.01.2013
1077	2594001एन	हवलदार	एस गुनाशेखरन्	01.09.2012
1078	2593963एल	हवलदार	एस सुसाइ मणिकम	01.09.2012
1079	2591742ए	हवलदार	सजीव जी.	01.12.2012
1080	2594120के	हवलदार	सरवन एस	01.12.2012
1081	13978871एच	हवलदार	सेवा सिंह	01.01.2013
1082	2594003वाइ	हवलदार	शंकर पी	01.10.2012
1083	2683406एन	हवलदार	शेर मोहम्मद	01.10.2012
1084	2591582एल	हवलदार	श्री रमा सेती शेखर	01.11.2012
1085	13978175एल	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2012
1086	2594143एल	हवलदार	सुरेश के	01.12.2012
1087	2591803एम	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.01.2013
1088	2594134के	हवलदार	सूर्यकांत ए	01.12.2012
1089	2591794डब्ल्यू	हवलदार	टी राम	01.12.2012
1090	2593984एफ	हवलदार	उन्नीयस्न के	01.09.2012
1091	8032618के	हवलदार	वी गणेशन	01.11.2012
<b>ग्रेनेडियर्स</b>				
1092	2683706पी	हवलदार	अली हसन खान	01.11.2012
1093	2683956डब्ल्यू	हवलदार	अमर सिंह	01.12.2012
1094	2681188एफ	हवलदार	अंगद प्रसाद	01.01.2013
1095	2683231डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2012
1096	2683196वाइ	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2012
1097	2683284पी	हवलदार	अइयूब अली	01.10.2012
1098	2683352एक्स	हवलदार	बाबू राम	01.10.2012
1099	2683039एम	हवलदार	बाबू लाल मीना	01.09.2012
1100	2683134वाइ	हवलदार	बाबू लाल राठी	01.09.2012
1101	2683076ए	हवलदार	बासु देब पाल	01.09.2012
1102	2683349एक्स	हवलदार	भरत सिंह	01.10.2012

1103	2683369एल	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.10.2012
1104	2683861डब्ल्यू	हवलदार	ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह गोतम	01.12.2012
1105	13618022वाइ	हवलदार	बुआदित्ता	01.10.2012
1106	2683826एन	हवलदार	चेत राम गुजर	01.12.2012
1107	2683193एल	हवलदार	छज्जू राम	01.10.2012
1108	2683160ए	हवलदार	दशरथ कुमार	01.10.2012
1109	2683615एल	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.11.2012
1110	2682972एफ	हवलदार	धर्म पाल	01.09.2012
1111	2684047एक्स	हवलदार	धर्म पाल	01.01.2013
1112	2683851एम	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.12.2012
1113	2683015एच	हवलदार	ध्रुव सिंह	01.09.2012
1114	2683290एच	हवलदार	ध्रुव चन्द	01.10.2012
1115	2683105के	हवलदार	दिनेश कुमार	01.09.2012
1116	2683226डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल सिंह	01.10.2012
1117	2683331एफ	हवलदार	गोस्वामी केशू गिरि डी.	01.10.2012
1118	2681176एम	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.01.2013
1119	2683028ए	हवलदार	हनुमान सिंह मादव	01.09.2012
1120	2683972एन	हवलदार	हेम राज	01.12.2012
1121	2684002एक्स	हवलदार	हेम राज	01.01.2013
1122	2683372एल	हवलदार	इंद्रजीत	01.10.2012
1123	2683755एक्स	हवलदार	इश्वर सिंह	01.11.2012
1124	2683707एक्स	हवलदार	जगत राज	01.11.2012
1125	2683760एच	हवलदार	जगराम	01.11.2012
1126	2683782एफ	हवलदार	जया पाल सिंह	01.12.2012
1127	2683329के	हवलदार	जितेन्द्रा पाल	01.10.2012
1128	2683484एल	हवलदार	कमलेश सिंह	01.10.2012
1129	2683505डब्ल्यू	हवलदार	करन सिंह	01.10.2012
1130	8032652के	हवलदार	करतार सिंह	01.12.2012
1131	2683982एक्स	हवलदार	केशर सिंह	01.12.2012
1132	14915388ए	हवलदार	खेम लाल दामेह	01.09.2012
1133	2683190एक्स	हवलदार	किष्णा राम	01.10.2012
1134	2684006एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.01.2013
1135	2683188ए	हवलदार	लक्ष्मन दास	01.10.2012
1136	2683336ए	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.10.2012
1137	2683630ए	हवलदार	लक्ष्मन सिंह शेखावत	01.11.2012
1138	2683969एन	हवलदार	लेख राज	01.12.2012
1139	2683719एम	हवलदार	मधु एन	01.11.2012
1140	2680995के	हवलदार	मधु प्रसाद एस	01.10.2012
1141	2683532ए	हवलदार	महाराज सिंह	01.10.2012
1142	2683017एन	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.09.2012
1143	2681141डब्ल्यू	हवलदार	मनी राम	01.12.2012

1144	2683568वाइ	हवलदार	मनी राम सिंह	01.10.2012
1145	2683919एच	हवलदार	मोहम्मद शहीद खान	01.12.2012
1146	2683838एच	हवलदार	मोहम्मद अइयूब	01.12.2012
1147	2683286ए	हवलदार	मोहम्मद उस्मान	01.10.2012
1148	2683576एक्स	हवलदार	मुकट सिंह तनवर	01.10.2012
1149	2683233एफ	हवलदार	मुकेश कुमार	01.10.2012
1150	2683304एक्स	हवलदार	एम सिंह यादवा	01.10.2012
1151	2683107पी	हवलदार	ओंकार सिंह चौहान	01.09.2012
1152	2683836एक्स	हवलदार	पापू सिंह	01.12.2012
1153	2683515ए	हवलदार	प्रताप सिंह	01.10.2012
1154	2683651डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम सिंह परिहार	01.11.2012
1155	2683315के	हवलदार	पी राम चौधरी	01.10.2012
1156	2683792एल	हवलदार	राज कुमार	01.12.2012
1157	2683031ए	हवलदार	राजबीर	01.09.2012
1158	2683618वाइ	हवलदार	राजबीर सिंह	01.11.2012
1159	2683589पी	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2012
1160	2683632एल	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.11.2012
1161	2683478एक्स	हवलदार	राजेश सिंह	01.10.2012
1162	2683955एन	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.12.2012
1163	2684023एन	हवलदार	राजू गुर्जर	01.01.2013
1164	2683565एल	हवलदार	राम देव	01.10.2012
1165	2683929एम	हवलदार	राम करन	01.12.2012
1166	2683191ए	हवलदार	राम स्वरूप यादव	01.10.2012
1167	2683207ए	हवलदार	रामवतार	01.10.2012
1168	2683357डब्ल्यू	हवलदार	रामेश्वर यादव	01.10.2012
1169	2683869एच	हवलदार	रामजी सिंह यादव	01.12.2012
1170	2683171एम	हवलदार	रामजीत गुर्जर	01.10.2012
1171	2683790ए	हवलदार	रविन्द्र सिंह	01.12.2012
1172	2684000एम	हवलदार	आर राज	01.01.2013
1173	2683090एम	हवलदार	रोशन अली	01.09.2012
1174	1577656एन	हवलदार	सालुंके तुकाराम दनयानु	01.12.2012
1175	2683501ए	हवलदार	समसाद अली	01.10.2012
1176	2683987डब्ल्यू	हवलदार	संजीव कुमार	01.01.2013
1177	2681163पी	हवलदार	सत पाल	01.12.2012
1178	2680937ए	हवलदार	सतीश चंद्रा तालुकदार	01.09.2012
1179	2680955एच	हवलदार	सत्रार खान एन	01.09.2012
1180	2683214डब्ल्यू	हवलदार	सत्यबीर सिंह	01.10.2012
1181	2683260एल	हवलदार	सईद हुसैन बरभुईया	01.10.2012
1182	2682953डब्ल्यू	हवलदार	शैलिन सिंह	01.09.2012
1183	2681151ए	हवलदार	शिव दयाल	01.12.2012
1184	2683816के	हवलदार	शिव दयाल गुर्जर	01.12.2012



1185	2682992पी	हवलदार	शिव नाथ सिंह	01.09.2012
1186	2681189के	हवलदार	शिव रतन सी	01.01.2013
1187	2683208एच	हवलदार	सीता राम यादव	01.10.2012
1188	2683547एच	हवलदार	सिया राम गुर्जर	01.10.2012
1189	2683857एच	हवलदार	एस सिंह यादव	01.12.2012
1190	2684011वाइ	हवलदार	सोहन लाल	01.01.2013
1191	2683722एम	हवलदार	श्री तरसेम लाल	01.11.2012
1192	2683728एन	हवलदार	सुभाष चन्द	01.11.2012
1193	2681178एक्स	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.12.2012
1194	2683387एन	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.10.2012
1195	2683737पी	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.11.2012
1196	2682954वाइ	हवलदार	सुदेश चन्द	01.09.2012
1197	2682956के	हवलदार	सुधीर चन्द	01.09.2012
1198	2683748एफ	हवलदार	सुलखान सिंह	01.11.2012
1199	2683934एक्स	हवलदार	सुमेर सिंह	01.12.2012
1200	2683971एल	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.12.2012
1201	2681149एच	हवलदार	सुरेश	01.12.2012
1202	2683391डब्ल्यू	हवलदार	त्रिलोक सिंह यादव	01.10.2012
1203	2681112एफ	हवलदार	उदय सिंह	01.11.2012
1204	2680862एन	हवलदार	उत्तातम चन्द	01.09.2012
1205	2683220के	हवलदार	वेद प्रकाश	01.10.2012
1206	2683787ए	हवलदार	वेद प्रकाश	01.12.2012
1207	2684077पी	हवलदार	विद्या एस सिंह	01.01.2013
1208	2683422एल	हवलदार	विजय कुमार	01.10.2012
1209	2683423एन	हवलदार	विजय कुमार	01.10.2012
1210	2683236पी	हवलदार	विजय सिंह	01.10.2012
1211	2683570डब्ल्यू	हवलदार	विजय सिंह गुर्जर	01.10.2012
1212	2683584डब्ल्यू	हवलदार	वाइ सिंह	01.11.2012
1213	2683433एक्स	हवलदार	जाकिर हुसैन	01.10.2012

मराठा लघु सेना

1214	2783109पी	हवलदार	अपासाहेब लक्ष्मन कोलकर	01.09.2012
1215	8032556पी	हवलदार	अर्जुन जाधव	01.09.2012
1216	2785514एल	हवलदार	अशोक जोतिबा जाधव	01.09.2012
1217	14800891एल	हवलदार	आविद हुसैन खान	01.09.2012
1218	2784181एक्स	हवलदार	बचित्तर सिंह	01.01.2013
1219	2785818एच	हवलदार	बालाप्पा कम्मर	01.12.2012
1220	2785641ए	हवलदार	बारगे सुनील बालासाहेब	01.10.2012
1221	2783141के	हवलदार	बसावाया के	01.09.2012
1222	2785698पी	हवलदार	भिमप्पा जाधव	01.11.2012
1223	2786167के	हवलदार	भोसले राजेंद्रा विलास	01.01.2013

1224	2785976एक्स	हवलदार	चौधरी दिलीप मुरलीधर	01.12.2012
1225	2785897एच	हवलदार	चौगले राजेंद्रा केरबा	01.12.2012
1226	2783368एक्स	हवलदार	धर्मवीर	01.01.2013
1227	2785888एफ	हवलदार	डी. प्रकाश आत्माराम	01.12.2012
1228	2785639ए	हवलदार	गादे राजू नामदेव	01.10.2012
1229	2785704एक्स	हवलदार	गायकवाड तानाजी आनंदा	01.11.2012
1230	2785863पी	हवलदार	गावडे वामन बालू	01.12.2012
1231	2785768एच	हवलदार	जी. विनोद बाबूराव	01.11.2012
1232	2786353ए	हवलदार	इब्राहिम डब्ल्यू	01.01.2013
1233	2785816एक्स	हवलदार	इराया मथद	01.12.2012
1234	2786100एल	हवलदार	जाधव संजय बाबूराव	01.01.2013
1235	2785781एम	हवलदार	काशिनाथ आर चौधरी	01.11.2012
1236	2785667पी	हवलदार	खोसे प्रभाकर नामदेव	01.11.2012
1237	2786013एक्स	हवलदार	कोलकर सुखादियो दिनेश्वर	01.01.2013
1238	2786290एच	हवलदार	कृष्णा शिंदे	01.01.2013
1239	2785949एन	हवलदार	के दीपक नारायण	01.12.2012
1240	2783101एच	हवलदार	मधुकर पांडुरंग पाटिल	01.09.2012
1241	2785459ए	हवलदार	मुले निवरुति परसराम	01.09.2012
1242	2786026पी	हवलदार	एन मणिकंदन	01.01.2013
1243	2786030एक्स	हवलदार	नामा पाटिल	01.01.2013
1244	2786331एफ	हवलदार	एन बाबासाहेब भाउ	01.01.2013
1245	2785423एफ	हवलदार	पी के राव	01.09.2012
1246	2785843एफ	हवलदार	प्राधी घनशाम दाराम	01.12.2012
1247	2785572पी	हवलदार	पोटे प्रहलाद एस	01.09.2012
1248	2785954वाइ	हवलदार	प्रभाकर दास	01.12.2012
1249	2785815पी	हवलदार	प्रकाश एम	01.12.2012
1250	2785794के	हवलदार	प्रसाद ए	01.11.2012
1251	2785706एच	हवलदार	आर गजानन रामराव	01.11.2012
1252	2783123एफ	हवलदार	राज कुमार	01.09.2012
1253	2783192एक्स	हवलदार	राम कुमार	01.10.2012
1254	2785592एच	हवलदार	रामवतार सिंह	01.10.2012
1255	2785603के	हवलदार	रमेश सी	01.10.2012
1256	2785860एफ	हवलदार	रामगोपाल सिंह	01.12.2012
1257	13978001एल	हवलदार	राना राम भाटिया	01.09.2012
1258	14801050पी	हवलदार	रुद्रा कांता स्वर्गियारे	01.10.2012
1259	2785688एल	हवलदार	सदासिव डी.	01.11.2012
1260	2786111एक्स	हवलदार	साहबलाल	01.01.2013
1261	2786343डब्ल्यू	हवलदार	सलीम जमादार	01.01.2013
1262	2785678एफ	हवलदार	एस सैवता रतन	01.11.2012
1263	2786356एन	हवलदार	शबीर के	01.01.2013
1264	2785701के	हवलदार	शेक एम अली	01.11.2012

1265	2783153वाइ	हवलदार	शंकर राम	01.09.2012
1266	2786072के	हवलदार	शिंदे दाराराम राजाराम	01.01.2013
1267	2785789वाइ	हवलदार	शिवाराजू बी	01.11.2012
1268	14800960डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.10.2012
1269	2785971वाइ	हवलदार	थोकरा सूर्यकांत नामदेव	01.12.2012
1270	2785897एम	हवलदार	वी पाटिल	01.11.2012
1271	2785537एम	हवलदार	डब्ल्यू शंकर आबा	01.09.2012
1272	4071578एल	हवलदार	यादव चान्द्राकान्त शंकर	01.09.2012
1273	2786347एम	हवलदार	जाकिर हुसैन	01.01.2013
<u>राजपूताना राईफल्स</u>				

1274	2884209एफ	हवलदार	अनिल कुमार	01.12.2012
1275	2884102एम	हवलदार	बलजीत	01.11.2012
1276	2886301वाइ	हवलदार	मुल्तासम राम	01.01.2013
1277	2886249एफ	हवलदार	बिस्मिल नाथ मिर	01.12.2012
1278	8031910एम	हवलदार	ब्रज किशोर सिंह	01.09.2012
1279	2884074एल	हवलदार	हस्मुद्दीन अली अंसारी	01.10.2012
1280	2884100एफ	हवलदार	जय सिंह	01.11.2012
1281	2884001वाइ	हवलदार	जलालुद्दीन अंसारी	01.09.2012
1282	2886294एन	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.01.2013
1283	2886283एफ	हवलदार	मनोज कुमार	01.01.2013
1284	14915711के	हवलदार	मोहम्मद अकरम	01.12.2012
1285	2886141के	हवलदार	मुकेश कुमार	01.11.2012
1286	2884167ए	हवलदार	पी बी देवमाई	01.12.2012
1287	2884039एच	हवलदार	फाटिक च. डेका	01.09.2012
1288	2884312एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.01.2013
1289	2884311के	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.01.2013
1290	2884217ए	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.12.2012
1291	2884080वाइ	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.10.2012
1292	2884188डब्ल्यू	हवलदार	राम निवास	01.12.2012
1293	2884318एन	हवलदार	रनवीर सिंह	01.01.2013
1294	2886074के	हवलदार	एसजी रेफसवाल	01.09.2012
1295	4426827ए	हवलदार	एस बिरकर्म	01.01.2013
1296	2884284एल	हवलदार	एस मेधी	01.01.2013
1297	2886072वाइ	हवलदार	उमैद सिंह	01.09.2012
1298	2886040डब्ल्यू	हवलदार	विमोद कुमार सिंह	01.09.2012
<u>राजपूत रेजीमेंट</u>				

1299	2986300एल	हवलदार	ए आर एस चौहान	01.10.2012
1300	2989831एन	हवलदार	ए यश	01.01.2013
1301	2989311एच	हवलदार	आरम सिंह	01.10.2012

1302	2986175एम	हवलदार	अशोक सिंह	01.09.2012
1303	2986146एक्स	हवलदार	बच्चू सिंह	01.09.2012
1304	2989395एफ	हवलदार	भाग सिंह	01.10.2012
1305	2989425एन	हवलदार	भवानी सिंह	01.10.2012
1306	2986680पी	हवलदार	चरण सिंह	01.01.2013
1307	2989456एन	हवलदार	धर्म पाल	01.10.2012
1308	2989600एक्स	हवलदार	धर्मवीर	01.11.2012
1309	2986638डब्ल्यू	हवलदार	जमना दास	01.01.2013
1310	14804578एक्स	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.11.2012
1311	2989289एच	हवलदार	कन्हैयालाल राव	01.10.2012
1312	2989772एम	हवलदार	करन सिंह	01.12.2012
1313	2989781एन	हवलदार	करतार सिंह	01.01.2013
1314	2986286के	हवलदार	ख्याली राम	01.10.2012
1315	2989626एम	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.11.2012
1316	2986475एन	हवलदार	एन एस एस	01.12.2012
1317	2594176डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.01.2013
1318	2986398के	हवलदार	पन्ना लाल	01.11.2012
1319	2986183एल	हवलदार	प्रेम लाल गूजर	01.09.2012
1320	2989234वाइ	हवलदार	आर के सिकरवार	01.10.2012
1321	2986409एल	हवलदार	रघुवीर गूजर	01.11.2012
1322	2986631एम	हवलदार	राज कुमार	01.01.2013
1323	2989783वाइ	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.01.2013
1324	2989305पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.10.2012
1325	13618179वाइ	हवलदार	राजीव कुमार	01.01.2013
1326	2989794एल	हवलदार	राजीव कुमार सिंह	01.01.2013
1327	2989264डब्ल्यू	हवलदार	राजीव सिंह चौहान	01.10.2012
1328	2986632पी	हवलदार	राम देव	01.01.2013
1329	2989400एफ	हवलदार	राम राज सिंह	01.10.2012
1330	2986276पी	हवलदार	रामायण प्रताप सिंह	01.09.2012
1331	2989798एफ	हवलदार	रामजीत सिंह	01.01.2013
1332	2989404एक्स	हवलदार	एस बी एस तनवर	01.10.2012
1333	2989796डब्ल्यू	हवलदार	एस पी एस तोमर	01.01.2013
1334	2989500एम	हवलदार	एस एस शेखावत	01.10.2012
1335	2989791एक्स	हवलदार	एस एस शेखावत	01.01.2013
1336	2989164एल	हवलदार	सत्येन्द्र शर्मा	01.09.2012
1337	2986317वाइ	हवलदार	सत्य प्रकाश यादव	01.10.2012
1338	2989213एच	हवलदार	शीश पाल गुर्जर	01.10.2012
1339	2989241पी	हवलदार	सोभा राम बघेल	01.10.2012
1340	2989248वाइ	हवलदार	सुख पाल सिंह	01.10.2012
1341	2989242एक्स	हवलदार	स्वरूप सिंह	01.10.2012
1342	2986544वाइ	हवलदार	उदय वीर सिंह	01.12.2012

1343	2989839ए	हवलदार	विजय प्रकाश तिवारी	01.01.2013
1344	2989537एन	हवलदार	विशराम सिंह	01.10.2012
1345	2989319पी	हवलदार	विशराम सिंह	01.10.2012
<u>जाट रेजीमेंट</u>				
1346	3180141एक्स	हवलदार	अजीत सिंह	01.11.2012
1347	3180017डब्ल्यू	हवलदार	बाबू लाल	01.10.2012
1348	3183145वाइ	हवलदार	बचन सिंह	01.09.2012
1349	2594101वाइ	हवलदार	भनवारा राम ध्याल	01.12.2012
1350	3179882एच	हवलदार	बिजय कुमार रौय	01.09.2012
1351	3180232एफ	हवलदार	देवानंद ठाकुर	01.12.2012
1352	2594028एल	हवलदार	हरी राम जाट	01.10.2012
1353	3183242डब्ल्यू	हवलदार	होशियार सिंह	01.10.2012
1354	3183100वाइ	हवलदार	जैसा राम समोता	01.09.2012
1355	3183356एफ	हवलदार	जसबीर	01.12.2012
1356	3183200के	हवलदार	के कुमार	01.10.2012
1357	3180339डब्ल्यू	हवलदार	केदार सिंह	01.01.2013
1358	3183298एच	हवलदार	लायक सिंह	01.11.2012
1359	3180386एन	हवलदार	महेश बाबू	01.01.2013
1360	3180174एच	हवलदार	महेश कुमार	01.11.2012
1361	3183517वाइ	हवलदार	नरेश कुमार	01.01.2013
1362	3183252ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
1363	3183379एच	हवलदार	ओम प्रकाश माहाला	01.12.2012
1364	3183460पी	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2013
1365	3183495एल	हवलदार	राज कुमार	01.01.2013
1366	3179945ए	हवलदार	राम दास	01.09.2012
1367	3183230एफ	हवलदार	राम किशन हरिजन	01.10.2012
1368	3183363एक्स	हवलदार	राम सिंह	01.12.2012
1369	3183480एच	हवलदार	रिच्च पाल सिंह	01.01.2013
1370	3183474पी	हवलदार	आर सिंह अहलावत	01.01.2013
1371	3183520वाइ	हवलदार	संजीव कुमार	01.01.2013
1372	3183143एन	हवलदार	सोहन सिंह गुर्जर	01.09.2012
1373	3179984वाइ	हवलदार	सुखबीर सिंह	01.09.2012
1374	3180005एफ	हवलदार	सुखेन सरकार	01.10.2012
1375	3183515एन	हवलदार	सुरेश कुमार	01.01.2013
1376	3183464एल	हवलदार	सुरेश कुमार जखर	01.01.2013
1377	3183289एफ	हवलदार	त्रिलोकी राम	01.11.2012
1378	3180108ए	हवलदार	विजय राज सिंह	01.11.2012

सिख रेजीमेंट

1379	3390324एल	हवलदार	अजीत सिंह	01.01.2013
------	-----------	--------	-----------	------------

1380	3390143ए	हवलदार	ए सिंह यादव	01.11.2012
1381	3390343डब्ल्यू	हवलदार	बघेल सिंह	01.01.2013
1382	3389387एफ	हवलदार	बलहार सिंह	01.09.2012
1383	3390214डब्ल्यू	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.12.2012
1384	3389803ए	हवलदार	बलकार सिंह	01.10.2012
1385	3390236पी	हवलदार	बलवीर सिंह	01.12.2012
1386	3387301वाइ	हवलदार	बासुदेव भक्ता	01.11.2012
1387	3387590वाइ	हवलदार	बिशामबर दास	01.01.2013
1388	3387538डब्ल्यू	हवलदार	देव कुमार देव नाथ	01.01.2013
1389	3387585एन	हवलदार	गाजी हुसैन	01.01.2013
1390	3390141पी	हवलदार	गुलाब चन्द राम	01.11.2012
1391	3390223एक्स	हवलदार	गुरमेल सिंह	01.12.2012
1392	3389925के	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.10.2012
1393	3390359एफ	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.01.2013
1394	3389551वाइ	हवलदार	गुरविंदर सिंह	01.10.2012
1395	3390056एम	हवलदार	हरदीप सिंह	01.10.2012
1396	3389434एन	हवलदार	हरजिन्दर सिंह	01.09.2012
1397	3390197एफ	हवलदार	जोरावर सिंह	01.12.2012
1398	3387574एफ	हवलदार	कल्लू करमाली	01.01.2013
1399	3389602एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.10.2012
1400	3390203के	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.12.2012
1401	3387531एम	हवलदार	कुदन महतो	01.01.2013
1402	3389727वाइ	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2012
1403	3389730वाइ	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2012
1404	3387118डब्ल्यू	हवलदार	लालमन राना	01.09.2012
1405	3387548ए	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.01.2013
1406	3390052डब्ल्यू	हवलदार	मनजीत सिंह	01.10.2012
1407	3389760डब्ल्यू	हवलदार	नरिन्दरजीत सिंह	01.10.2012
1408	3390088पी	हवलदार	निशान सिंह	01.10.2012
1409	3390341एल	हवलदार	निशान सिंह	01.01.2013
1410	3390246वाइ	हवलदार	राजेश यादवा	01.12.2012
1411	3389475एक्स	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2012
1412	3389547डब्ल्यू	हवलदार	राजवंत सिंह	01.10.2012
1413	3390253पी	हवलदार	राजविन्दर सिंह	01.12.2012
1414	3389767ए	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2012
1415	3389831एम	हवलदार	रशपाल सिंह	01.10.2012
1416	3387529पी	हवलदार	रवि कुमार	01.01.2013
1417	3389550डब्ल्यू	हवलदार	सतनाम सिंह	01.10.2012
1418	3389576एल	हवलदार	सतनाम सिंह	01.10.2012
1419	3387331डब्ल्यू	हवलदार	सतपाल सिंह	01.11.2012
1420	3387335एम	हवलदार	सोदागर पाल	01.11.2012

1421	3386771एक्स	हवलदार	सिद्धार्थ भौमिक	01.09.2012
1422	3387139एम	हवलदार	सुभ करन	01.10.2012
1423	3389636पी	हवलदार	सुब्रमणि जे	01.10.2012
1424	3389561एच	हवलदार	सुखजिंदर सिंह	01.10.2012
1425	3389618एम	हवलदार	सुखजीत सिंह	01.10.2012
1426	3389973के	हवलदार	सुखविन्दर सिंह	01.10.2012
1427	3390194एन	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.12.2012
1428	3387082डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश राना	01.09.2012
1429	3386901पी	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.09.2012
1430	3389613एन	हवलदार	तरसेम सिंह	01.10.2012
<b>सिख लघु पैदल सेना</b>				
1431	4468984एन	हवलदार	बहादुर सिंह	01.12.2012
1432	4468913एम	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2012
1433	4468912के	हवलदार	भुल्ला सिंह	01.10.2012
1434	4467242एफ	हवलदार	गुलाब राम	01.10.2012
1435	4468919डब्ल्यू	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.01.2013
1436	4468904एल	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.10.2012
1437	4468964ए	हवलदार	गुरमेल सिंह	01.12.2012
1438	4469031एक्स	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.01.2013
1439	4469028एक्स	हवलदार	हाकम सिंह	01.01.2013
1440	4468865एक्स	हवलदार	हरबंस सिंह	01.10.2012
1441	4468999डब्ल्यू	हवलदार	जगतार सिंह	01.12.2012
1442	4468956एफ	हवलदार	जगतार सिंह	01.12.2012
1443	4469045एक्स	हवलदार	जसवीर सिंह	01.01.2013
1444	4467342एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2013
1445	4467247ए	हवलदार	कला सिंह	01.10.2012
1446	4468916ए	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.10.2012
1447	4468957के	हवलदार	कुलदीप सिंह गिल	01.12.2012
1448	4269307वाइ	हवलदार	मनजीत सिंह	01.01.2013
1449	4467381एल	हवलदार	मनजीत सिंह	01.01.2013
1450	4468968डब्ल्यू	हवलदार	पार्श्व सिंह	01.12.2012
1451	4468838एन	हवलदार	प्रीतम शर्मा	01.09.2012
1452	4469083एन	हवलदार	रघुपाल सिंह	01.01.2013
1453	4467399एफ	हवलदार	राजेश कुमार	01.01.2013
1454	4468987एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.12.2012
1455	4467302एल	हवलदार	रंजीत सिंह	01.01.2013
1456	4468950ए	हवलदार	संत्याकन सिंह	01.12.2012
1457	4468877एम	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.10.2012
1458	4269214के	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.11.2012
1459	4468876के	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.10.2012

1460	4468851एक्स	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.09.2012
1461	4468977एक्स	हवलदार	सुंदर लाल	01.12.2012
1462	4469013पी	हवलदार	तरसेम सिंह	01.12.2012
<u>डोगरा रेजीमेंट</u>				
1463	3989238एल	हवलदार	अजय कुमार	01.11.2012
1464	3989236ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2012
1465	3989433एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2013
1466	3987875एच	हवलदार	अशवनी कुमार	01.09.2012
1467	3987945डब्ल्यू	हवलदार	अविनाश कुमार	01.10.2012
1468	3988383डब्ल्यू	हवलदार	बहादुर सिंह	01.01.2013
1469	3988380एच	हवलदार	बलबिंदर सिंह	01.01.2013
1470	3987863एन	हवलदार	बलजोध सिंह	01.09.2012
1471	3988313एक्स	हवलदार	भरत भूषण शर्मा	01.01.2013
1472	3988076वाइ	हवलदार	बी राम	01.11.2012
1473	3988260के	हवलदार	बीकेएस वर्मा	01.12.2012
1474	3988308एम	हवलदार	छगर सिंह	01.01.2013
1475	3988128के	हवलदार	चानन सिंह	01.11.2012
1476	3989342वाइ	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.12.2012
1477	3989130एन	हवलदार	दलजीत सिंह	01.10.2012
1478	3989439के	हवलदार	देश राज	01.01.2013
1479	3989176डब्ल्यू	हवलदार	धर्म चन्द	01.11.2012
1480	3989276एफ	हवलदार	धर्म चन्द	01.11.2012
1481	3989133एफ	हवलदार	दिलावर सिंह	01.10.2012
1482	3988157वाइ	हवलदार	फतेह सिंह	01.12.2012
1483	3989445एक्स	हवलदार	गंगा राम	01.01.2013
1484	3989297एक्स	हवलदार	घर सिंह	01.11.2012
1485	3989412एम	हवलदार	गीता नन्द	01.12.2012
1486	3988069एच	हवलदार	गोविंद राम	01.11.2012
1487	3989332पी	हवलदार	हंस राज	01.11.2012
1488	3988355के	हवलदार	हर सोहन सिंह	01.01.2013
1489	3989246के	हवलदार	हरभजन सिंह	01.11.2012
1490	3183397एल	हवलदार	हरजीत सिंह	01.01.2013
1491	3988060एन	हवलदार	होशियार सिंह	01.11.2012
1492	3988272वाइ	हवलदार	जगदीश चन्द	01.12.2012
1493	3989161एन	हवलदार	जगदीश चन्द	01.11.2012
1494	3989206एच	हवलदार	जगदीश राम	01.11.2012
1495	3988342एम	हवलदार	जगनंदन सिंह	01.01.2013
1496	3989460एम	हवलदार	जय किशन	01.01.2013
1497	3989248पी	हवलदार	जय पाल	01.11.2012
1498	3988176के	हवलदार	जनगम अप्पान्ना	01.12.2012



1499	3989185एक्स	हवलदार	जतिंद्र कुमार	01.11.2012
1500	3989481एच	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2013
1501	3989230वाइ	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2012
1502	3988353वाइ	हवलदार	ज्योती प्रकाश शर्मा	01.01.2013
1503	3988123एल	हवलदार	कमल देव शर्मा	01.11.2012
1504	3989234पी	हवलदार	करन सिंह ठाकुर	01.11.2012
1505	3987917के	हवलदार	करनैल सिंह	01.09.2012
1506	3989088ए	हवलदार	केश राज	01.09.2012
1507	3989210एल	हवलदार	केवल कुमार	01.11.2012
1508	3989323एन	हवलदार	केवल कुमार	01.11.2012
1509	3989431एक्स	हवलदार	किशोर कुमार	01.01.2013
1510	3989409एम	हवलदार	कष्णन चन्द	01.12.2012
1511	3989166एम	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.11.2012
1512	4360346एल	हवलदार	मोहन लाल	01.10.2012
1513	3989449एन	हवलदार	मोती राम	01.01.2013
1514	4360594एफ	हवलदार	मुश्ताक सिंह	01.11.2012
1515	3988295ए	हवलदार	नंदन सिंह	01.12.2012
1516	3989196के	हवलदार	नील चन्द ठाकुर	01.11.2012
1517	3989260डब्ल्यू	हवलदार	नील धर	01.11.2012
1518	3989224एम	हवलदार	ओम सिंह	01.11.2012
1519	3989472एफ	हवलदार	प्रमोद चंद्र	01.01.2013
1520	3989162डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	01.11.2012
1521	3989422डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश चौहान	01.12.2012
1522	3987936पी	हवलदार	प्रताप चन्द	01.10.2012
1523	3989417एल	हवलदार	प्रेम सिंह	01.12.2012
1524	3989107ए	हवलदार	प्रीतम दास	01.09.2012
1525	3987935एम	हवलदार	राज कुमार	01.10.2012
1526	3989273एन	हवलदार	राज मल	01.11.2012
1527	3988089डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.11.2012
1528	3989255एल	हवलदार	राजेश कुमार	01.11.2012
1529	3989309एफ	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.11.2012
1530	3988238वाइ	हवलदार	राजिन्दर पाल वर्मा	01.12.2012
1531	3988354एफ	हवलदार	राम पाल	01.01.2013
1532	4360642डब्ल्यू	हवलदार	राम पौल	01.12.2012
1533	3988119एच	हवलदार	रमेश कुमार	01.11.2012
1534	3987905पी	हवलदार	रवि कुमार	01.09.2012
1535	3987986ए	हवलदार	आरएन परीद	01.10.2012
1536	3988041ए	हवलदार	रूप लाल	01.11.2012
1537	3988048एम	हवलदार	रूप सिंह ठाकुर	01.11.2012
1538	4360674वाइ	हवलदार	सकिन्द कुमार	01.01.2013
1539	3989169ए	हवलदार	संजय कुमार	01.11.2012

1540	3988096एम	हवलदार	संसार सिंह	01.11.2012
1541	3988133पी	हवलदार	सत पाल	01.11.2012
1542	3989228एफ	हवलदार	सतीश कुमार	01.11.2012
1543	3988252एल	हवलदार	सतीश कुमार	01.12.2012
1544	3989349एच	हवलदार	शाम लाल	01.12.2012
1545	3988285डब्ल्यू	हवलदार	शाम लाल	01.12.2012
1546	3989299एच	हवलदार	सुभाष चन्द	01.11.2012
1547	3988037ए	हवलदार	सुधीर कुमार ठाकुर	01.11.2012
1548	3989338डब्ल्यू	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.11.2012
1549	3988493एल	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.09.2012
1550	3989326ए	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.11.2012
1551	3989369डब्ल्यू	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.12.2012
1552	3183396एच	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.01.2013
1553	3988329एच	हवलदार	तारा चन्द	01.01.2013
1554	3989142एच	हवलदार	तिलक राज	01.11.2012
1555	3987939एच	हवलदार	उदय भान सिंह	01.10.2012
1556	3989191एल	हवलदार	उत्तातम राम	01.11.2012
1557	3989089एच	हवलदार	विजय कुमार	01.09.2012
1558	3989074ए	हवलदार	विनोद कुमार	01.09.2012
1559	3988114के	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2012
1560	3989231एफ	हवलदार	वाइ सिंह	01.11.2012
<b>ढवाल राईफल्स</b>				

1561	4071758एन	हवलदार	अमर सिंह	01.11.2012
1562	4071623एम	हवलदार	अवतार सिंह	01.10.2002
1563	4071708एच	हवलदार	बी बी घिलदयाल	01.11.2012
1564	4069681एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2013
1565	4071612ए	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.10.2012
1566	4071768एक्स	हवलदार	बिश्नु प्रसाद	01.11.2012
1567	4360585ए	हवलदार	बृजपाल सिंह	01.11.2012
1568	4071729वाइ	हवलदार	सी लाल	01.11.2012
1569	4071840एच	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.01.2013
1570	4071820पी	हवलदार	देवेन्द्र सिंह रावत	01.01.2013
1571	4071851पी	हवलदार	दिलबर सिंह	01.01.2013
1572	4071826डब्ल्यू	हवलदार	गाबार सिंह	01.01.2013
1573	4069559एफ	हवलदार	गजेन्द्र सिंह नेगी	01.09.2012
1574	4071775एन	हवलदार	गम्भीर सिंह	01.12.2012
1575	4071672पी	हवलदार	गनेश प्रसाद	01.10.2012
1576	4071865पी	हवलदार	गंगा सिंह	01.01.2013
1577	4071709एल	हवलदार	हर्षा मोहन सिंह	01.11.2012
1578	4069568एच	हवलदार	जे सी कापरी	01.09.2012

1579	4071701वाइ	हवलदार	जीत बहादुर थापा	01.10.2012
1580	4071829के	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.01.2013
1581	4071679वाइ	हवलदार	कन्हैया सिंह	01.10.2012
1582	13690474एक्स	हवलदार	कुमार एन	01.10.2012
1583	4071860डब्ल्यू	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.01.2013
1584	4071726एल	हवलदार	महीपाल सिंह	01.11.2012
1585	4071653के	हवलदार	मानबार् सिंह	01.10.2012
1586	4071710ए	हवलदार	मनोहर सिंह	01.11.2012
1587	4069597एक्स	हवलदार	मेहरबान सिंह रावत	01.10.2012
1588	4071596एन	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह रावत	01.10.2012
1589	4360341एम	हवलदार	पूरुष सिंह	01.10.2012
1590	4071649एफ	हवलदार	पुशकर सिंह	01.10.2012
1591	4071613एच	हवलदार	राजेंद्रा पाल सिंह	01.10.2012
1592	4069565पी	हवलदार	राम तीरथ	01.09.2012
1593	4071668एम	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2012
1594	4071844वाइ	हवलदार	एस एन एस रावत	01.01.2013
1595	2886173एम	हवलदार	संतन सिंह	01.12.2012
1596	4071571एफ	हवलदार	शिशु पाल सिंह	01.09.2012
1597	4071818एक्स	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.01.2013
1598	4071825एन	हवलदार	सुंदर सिंह	01.01.2013
1599	4360344ए	हवलदार	सुंदर सिंह बी	01.10.2012
1600	4071715वाइ	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.11.2012
1601	4071681डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह एस एम	01.10.2012
1602	2886120एन	हवलदार	विनोद प्रसाद	01.10.2012

**कुर्माउ रेजीमेंट**

1603	4180837वाइ	हवलदार	अमंता चंद्रा दास	01.09.2012
1604	4180881एच	हवलदार	अनार सिंह	01.10.2012
1605	4180882एल	हवलदार	बच्चे सिंह	01.10.2012
1606	4180987पी	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.01.2013
1607	4183187एफ	हवलदार	विशन सिंह	01.09.2012
1608	4183167एन	हवलदार	चन्दन सिंह	01.09.2012
1609	4183227एक्स	हवलदार	दीवान सिंह	01.10.2012
1610	4180991एक्स	हवलदार	मान श्याम	01.01.2013
1611	4183217एन	हवलदार	मोविंद सिंह एस	01.10.2012
1612	4183235डब्ल्यू	हवलदार	हरीश सिंह	01.10.2012
1613	4183328एल	हवलदार	हवा सिंह	01.12.2012
1614	4182383पी	हवलदार	जगदेव	01.12.2012
1615	4183275एक्स	हवलदार	जय नारायण यादव	01.10.2012
1616	4180895एच	हवलदार	कलाम सिंह धामी	01.10.2012
1617	4180888एम	हवलदार	कृष्ण सिंह सोस	01.10.2012

1618	4183229एच	हवलदार	ललित कुमार जोशी	01.10.2012
1619	4180995एन	हवलदार	महेश चंद्रा	01.01.2013
1620	4183500एफ	हवलदार	रघबीर सिंह	01.01.2013
1621	4180930ए	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.11.2012
1622	4183355पी	हवलदार	राम अवतार यादवा	01.12.2012
1623	4181006एम	हवलदार	रमेश कुमार	01.01.2013
1624	4183189एम	हवलदार	रंजीत सिंह नेगी	01.09.2012
1625	4183304एफ	हवलदार	एस एस चौधरी	01.11.2012
1626	4180960एक्स	हवलदार	श्याम बिहारी	01.11.2012
1627	4180966वाइ	हवलदार	श्याम दत्त	01.12.2012
1628	4183446वाइ	हवलदार	श्याम सिंह	01.12.2012
1629	4183286के	हवलदार	सुंदर सिंह दसिला	01.11.2012
1630	4183487एच	हवलदार	एस चन्द यादव	01.01.2013
1631	4183457एल	हवलदार	विजय सिंह	01.12.2012
1632	4183121एल	हवलदार	यतेन्द्र सिंह	01.09.2012

आसाम रेजीमेंट

1633	4360194पी	हवलदार	ए जॉय कुमार सिंह	01.10.2012
1634	4359928वाइ	हवलदार	अली महोम्मद	01.09.2012
1635	4360628के	हवलदार	अर्जुन कुमार गुरंग	01.12.2012
1636	4360036ए	हवलदार	बेनुधर सिंघा	01.09.2012
1637	4360712के	हवलदार	भीम बहादुर घरती चेतरी	01.01.2013
1638	4360384एफ	हवलदार	भुपेन्द्र मिश्रा	01.10.2012
1639	4360431एन	हवलदार	बिपिन कुमार सिंघा	01.11.2012
1640	4358425एफ	हवलदार	बी राम	01.10.2012
1641	4360488एच	हवलदार	चंद्रा धर बोरा	01.11.2012
1642	4359975डब्ल्यू	हवलदार	दिलीप सेकिआ	01.09.2012
1643	4360227पी	हवलदार	जी. ए संगमा	01.10.2012
1644	4360453एम	हवलदार	गोपी मोहन कलिता	01.11.2012
1645	4360440पी	हवलदार	एच कुकी	01.11.2012
1646	2594106एक्स	हवलदार	एच बराह	01.12.2012
1647	4360718एल	हवलदार	जॉय लाल देब नाथ	01.01.2013
1648	4360074डब्ल्यू	हवलदार	कानू राम बोरुह	01.09.2012
1649	4359983पी	हवलदार	कृष्णा राम सेकिआ	01.09.2012
1650	4358392एफ	हवलदार	एल राम	01.09.2012
1651	4360104एच	हवलदार	महंता कुमार राय	01.09.2012
1652	4360139वाइ	हवलदार	मनजीत कुमार गोगोई	01.10.2012
1653	4360715एक्स	हवलदार	एम आलम बरभुईया	01.01.2013
1654	4426744पी	हवलदार	एम गोपाल रेडी	01.09.2012
1655	4359963एफ	हवलदार	मृणाल बोरुह	01.09.2012
1656	4360686एन	हवलदार	एन बसुमा	01.01.2013

1657	4359972एच	हवलदार	निखिल गोगोई	01.09.2012
1658	4360245एक्स	हवलदार	एन बोरा	01.10.2012
1659	4360605एच	हवलदार	पदमा नाथ बोरो	01.11.2012
1660	4360455एक्स	हवलदार	पांडीधर एस	01.11.2012
1661	4359964के	हवलदार	प्रवीन डी.	01.09.2012
1662	4360494डब्ल्यू	हवलदार	प्रदीप डेका	01.11.2012
1663	4360452के	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01.11.2012
1664	4360233एच	हवलदार	प्रफुल्ला सेकिआ	01.10.2012
1665	4360632एम	हवलदार	रबीन्द्र कुमार सिंघा	01.12.2012
1666	4360385के	हवलदार	रहीम उद्दीन अहमद	01.10.2012
1667	4360177पी	हवलदार	संतोष सिन्हा	01.10.2012
1668	4360016एम	हवलदार	सरत बोराह	01.09.2012
1669	4426750एच	हवलदार	शम्भू नाथ राम	01.01.2013
1670	4360420एफ	हवलदार	एस नाथ	01.10.2012
1671	4360264एच	हवलदार	सिद्धेश्वर सेकिआ	01.10.2012
1672	4360055एल	हवलदार	एस बसुमा	01.09.2012
1673	4359959वाइ	हवलदार	सोनाराम गोहीना	01.09.2012
1674	2594174एल	हवलदार	सुभास चंद्रा एस	01.01.2013
1675	4360375ए	हवलदार	टी बरुयह	01.10.2012
1676	4358426के	हवलदार	यमुना प्रसाद	01.10.2012

बिहार रेजीमेंट

1677	4269414ए	हवलदार	अगरिस्टिन गुरिया	01.01.2013
1678	4269304एल	हवलदार	अखिलेश कुमार सिंह	01.01.2013
1679	2594155ए	हवलदार	अमलेश कुमार	01.01.2013
1680	4269223एल	हवलदार	बदारी नाथ प्रसाद	01.11.2012
1681	4266057एक्स	हवलदार	भोला राम	01.10.2012
1682	4269247पी	हवलदार	भुलन लोहरा	01.11.2012
1683	4269203एक्स	हवलदार	सी एम सवायिन	01.11.2012
1684	4269096एफ	हवलदार	चंद्रा लोक नाथ साह	01.10.2012
1685	4269272एन	हवलदार	देब दास दांस	01.12.2012
1686	4269252ए	हवलदार	धनंजय शर्मा	01.11.2012
1687	4269323डब्ल्यू	हवलदार	धनी लाल प्रसाद	01.01.2013
1688	4269207एन	हवलदार	दिलीप कुमार मिंज	01.11.2012
1689	4266029एल	हवलदार	दिनेश कुमार	01.09.2012
1690	4269190एल	हवलदार	एफ चंद्रा महता	01.10.2012
1691	4269115एफ	हवलदार	फ्रांसी एस बलमुछ	01.10.2012
1692	4266033एन	हवलदार	गंगा राम	01.09.2012
1693	4269146एफ	हवलदार	हरीश चंद्रा देव	01.10.2012
1694	4269415एच	हवलदार	इशाक गुरिया	01.01.2013
1695	4269235ए	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	01.11.2012

1696	4266030ए	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार एस	01.09.2012
1697	4269352एल	हवलदार	कालेश्वर सुन्दी	01.12.2012
1698	4269185ए	हवलदार	कमलेश सिंह	01.10.2012
1699	4269260वाइ	हवलदार	के पांडे	01.11.2012
1700	4269321एल	हवलदार	लाल बाबू प्रसाद	01.01.2013
1701	4269381ए	हवलदार	लालू मुंडा	01.12.2012
1702	4269426पी	हवलदार	लूजरुस कुजुर	01.01.2013
1703	4266794वाइ	हवलदार	एम डेविड	01.09.2012
1704	4269413एक्स	हवलदार	मनोज कुमार झा	01.01.2013
1705	4269196एम	हवलदार	मनोजा कुमार भोई	01.11.2012
1706	8032644एल	हवलदार	मोहन सिंह	
1707	4269366एल	हवलदार	एम सिंह कुदादे	01.12.2012
1708	4269186एच	हवलदार	नन्द किशोर कुमार	01.10.2012
1709	4269290डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा माझी	01.01.2013
1710	4269422वाइ	हवलदार	नरेन्द्रा नाथ ओ	01.01.2013
1711	4266208एल	हवलदार	नवल किशोर सिंह	01.12.2012
1712	4269149पी	हवलदार	एन टोपनो	01.10.2012
1713	4269355वाइ	हवलदार	परमेश्वर जोनको	01.12.2012
1714	4269256डब्ल्यू	हवलदार	परमेश्वरी साह	01.11.2012
1715	4266004वाइ	हवलदार	पी टूडू	01.09.2012
1716	4269074एच	हवलदार	राज बाली यादवा	01.09.2012
1717	4269218ए	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.11.2012
1718	4266155एक्स	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.11.2012
1719	4269161डब्ल्यू	हवलदार	राजा साह	01.10.2012
1720	4269082एफ	हवलदार	राजेंद्रा महतो	01.09.2012
1721	8032621के	हवलदार	राम देव पांडे	01.11.2012
1722	4269261एफ	हवलदार	राम किशन	01.11.2012
1723	4269331पी	हवलदार	राम नाथ शर्मा	01.01.2013
1724	4269407के	हवलदार	आर कुमार आर	01.01.2013
1725	4266103एफ	हवलदार	सकीला मुरमु	01.10.2012
1726	4269111एल	हवलदार	संजीव कुमार सिंह	01.10.2012
1727	8032591एक्स	हवलदार	संतोष कुमार महतो	01.10.2012
1728	4269097के	हवलदार	शैलेश कुमार	01.10.2012
1729	4269148एम	हवलदार	शिव कुमार चतर	01.10.2012
1730	4269023पी	हवलदार	शिव कुमार पाल	01.09.2012
1731	4269073ए	हवलदार	श्याम राज	01.09.2012
1732	4269303एच	हवलदार	श्री भगवान राय	01.01.2013
1733	2591806ए	हवलदार	श्री राम तिवारी	01.01.2013
1734	4269245के	हवलदार	सुनील कुमार लकरा	01.11.2012
1735	2594088ए	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.11.2012
1736	4266117एफ	हवलदार	सुरेश कुमार, एसएम	01.11.2012

1737	4269279एक्स	हवलदार	तिल बहादुर	01.12.2012
1738	4269102के	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.10.2012
1739	4269405वाइ	हवलदार	उमेश्वर सिंह	01.01.2013
1740	4269411एम	हवलदार	विजय नारायण सिंह	01.01.2013
1741	4269402एल	हवलदार	विरेश कुमार सिंह	01.01.2013

महार रेजीमेंट

1742	4560674एच	हवलदार	बसंता बारो	01.09.2012
1743	13970994ए	हवलदार	सी धामोहरण	01.12.2012
1744	4558496एम	हवलदार	दिलीप कुमार के	01.10.2012
1745	4560727डब्ल्यू	हवलदार	डी. माला गोड़ा	01.10.2012
1746	4560851एक्स	हवलदार	गायकवाड सुंदर लाल	01.11.2012
1747	4560971डब्ल्यू	हवलदार	गुले जगन्नाथ देवीदास	01.01.2013
1748	4560846एम	हवलदार	गोपी अधिकारी	01.11.2012
1749	4560837एल	हवलदार	गुरतेज सिंह	01.02.2012
1750	4560909के	हवलदार	गुत्तामल्ला टी	01.12.2012
1751	4558550पी	हवलदार	हरफूल सिंह	01.11.2012
1752	4560675एल	हवलदार	हर्ष पाती	01.09.2012
1753	4560774एन	हवलदार	जगन्नाथ पाल	01.11.2012
1754	4560794एफ	हवलदार	जयंत कुमार मैती	01.11.2012
1755	4560641एक्स	हवलदार	काम्बले उत्तात्म बालक	01.09.2012
1756	4558471ए	हवलदार	कुमार विघाते एस बाल	01.09.2012
1757	4560657एच	हवलदार	के श्रीधर भीमराव	01.09.2012
1758	4560720एम	हवलदार	एल पापा राव	01.10.2012
1759	4560962पी	हवलदार	मधुकर जे	01.01.2013
1760	4560665एफ	हवलदार	महाराज सिंह	01.09.2012
1761	4558451एम	हवलदार	नेत्रा सिंह रावत	01.09.2012
1762	4558549ए	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.12.2012
1763	4560943के	हवलदार	प्रदीप कुमार मंडल	01.12.2012
1764	4560964ए	हवलदार	रहीस राम	01.01.2013
1765	4560861एफ	हवलदार	राम रूप सिंह	01.11.2012
1766	13899716ए	हवलदार	रामआधार सिंह	01.09.2012
1767	4560963एक्स	हवलदार	रोशन लाल	01.01.2013
1768	4560726एन	हवलदार	शबेश्वर बेहेरा	01.10.2012
1769	4560824एन	हवलदार	शेते दिलीप चंद्र	01.11.2012
1770	4560815एम	हवलदार	शिंदे विक्रम गंगाराम	01.11.2012
1771	4560898एच	हवलदार	श्रीसाथ गोकुल डी.	01.12.2012
1772	4560884एच	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.12.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल

1773	13751443डब्ल्यू	हवलदार	बजरंग अप्पा काशीद	01.12.2012
------	-----------------	--------	-------------------	------------

1774	13753080डब्ल्यू	हवलदार	भरत छत्री	01.12.2012
1775	13751345डब्ल्यू	हवलदार	भीखम राम	01.11.2012
1776	13751447एम	हवलदार	बिमल भारती	01.12.2012
1777	13753351एच	हवलदार	डी.बी प्रधान	01.01.2013
1778	13753239डब्ल्यू	हवलदार	धर्म सिंह	01.01.2013
1779	13752450वाइ	हवलदार	धीरेन कुमार बारिक	01.09.2012
1780	13753390एफ	हवलदार	दीवान सिंह	01.01.2013
1781	13751474डब्ल्यू	हवलदार	जे सिंह	01.01.2013
1782	13753437एफ	हवलदार	जरनैल सिंह	01.01.2013
1783	13753135पी	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2013
1784	13752588एन	हवलदार	कमलेश कुमार शर्मा	01.10.2012
1785	13753193वाइ	हवलदार	करतार सिंह	01.01.2013
1786	13752731पी	हवलदार	किशोर सिंह	01.10.2012
1787	13752617एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.10.2012
1788	13753346एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.01.2013
1789	13753401एच	हवलदार	मदन लाल	01.01.2013
1790	13753388के	हवलदार	मान सिंह	01.01.2013
1791	13752792एम	हवलदार	मान सिंह	01.10.2012
1792	13751384पी	हवलदार	मनोहर लाल	01.12.2012
1793	13752740डब्ल्यू	हवलदार	मासूम अली	01.10.2012
1794	13753407के	हवलदार	मोहन सिंह साका	01.01.2013
1795	13752925एक्स	हवलदार	मोहम्मद अमीन	01.11.2012
1796	13752599ए	हवलदार	मुकेश कुमार	01.10.2012
1797	13753240एल	हवलदार	नरेंद्र भंगालिया	01.01.2013
1798	13751439एन	हवलदार	नेक सिंह	01.01.2013
1799	13753172एच	हवलदार	एन बहादुर	01.01.2013
1800	13752749एल	हवलदार	प्रबोध चंद्र	01.10.2012
1801	13751313एन	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.10.2012
1802	13752674वाइ	हवलदार	पर्शोत्तम लाल	01.10.2012
1803	13752611डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह	01.10.2012
1804	13753163एफ	हवलदार	पवन कुमार	01.01.2013
1805	13752774के	हवलदार	पूरन चन्द	01.10.2012
1806	13752557एन	हवलदार	रछपाल सिंह	01.10.2012
1807	13752469एक्स	हवलदार	राजन थापा	01.09.2012
1808	13753303एच	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2013
1809	13752882एन	हवलदार	राकेश कुमार	01.10.2012
1810	13752616पी	हवलदार	राकेश कुमार	01.10.2012
1811	13753226वाइ	हवलदार	राकेश कुमार	01.01.2013
1812	13752624एन	हवलदार	राम कृष्णन वर्मा	01.10.2012
1813	13751438एल	हवलदार	रमेश चन्द	01.01.2013
1814	13753439एम	हवलदार	रमेश चंद्रा भट्ट	01.01.2013



1815	13752681पी	हवलदार	रणधीर सिंह	01.10.2012
1816	13751429के	हवलदार	रवि कुमार	01.12.2012
1817	13753319एन	हवलदार	रोमेश रेना	01.01.2013
1818	13752898वाइ	हवलदार	शेक आबू बाकर	01.11.2012
1819	13751465पी	हवलदार	शाम लाल	01.01.2013
1820	13753429एच	हवलदार	शमशेर सिंह	01.01.2013
1821	13753249ए	हवलदार	श्याम कुमार	01.01.2013
1822	13752495वाइ	हवलदार	श्री राम	01.10.2012
1823	13751409डब्ल्यू	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.12.2012
1824	13752745पी	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2012
1825	13753311एफ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.01.2013
1826	13753241एन	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.01.2013
1827	13753160एन	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.01.2013
1828	13751255पी	हवलदार	स्वरुपा राम भील	01.10.2012
1829	13753136एक्स	हवलदार	वकील सिंह	01.01.2013
1830	13752459एन	हवलदार	वरिंदर सिंह	01.09.2012

गन्धाख स्काउट

1831	9923888के	हवलदार	मोहम्मद फकीर	01.01.2013
1832	9923831पी	हवलदार	मोती राम	01.10.2012
1833	9923906एफ	हवलदार	पी दोरजय	01.01.2013
1834	9923826के	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2012
1835	9923856एफ	हवलदार	सोनम टी	01.11.2012

गंगा रेजीमेंट

1836	4183323एम	हवलदार	हरीश राम	01.11.2012
1837	14702310एम	हवलदार	खेम सिंह	01.12.2012
1838	14702282एल	हवलदार	एन एम	01.09.2012
1839	14702319एफ	हवलदार	सुजान सिंह	01.01.2013

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

1840	9089332के	हवलदार	अब्दुल मुनीर शेख	01.01.2013
1841	9088251एक्स	हवलदार	अब्दुल रशीद	01.01.2013
1842	9088171ए	हवलदार	अब्दुल रॉफ मियां	01.10.2012
1843	9089139एक्स	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2012
1844	9089212एन	हवलदार	बचन सिंह	01.11.2012
1845	9089370ए	हवलदार	बलदेव सिंह	01.01.2013
1846	9089204एम	हवलदार	बलकार सिंह	01.11.2012
1847	9089196वाइ	हवलदार	डाली कुमार	01.11.2012
1848	9089171एम	हवलदार	दलीप कुमार	01.10.2012
1849	9089091पी	हवलदार	दर्शन कुमार एस	01.09.2012

1850	9089065एन	हवलदार	धनी राम	01.09.2012
1851	9089146एन	हवलदार	धर्म सिंह	01.10.2012
1852	4360759पी	हवलदार	फरीद अहमद मन्हास	01.11.2012
1853	4360758एम	हवलदार	गुलज़ार अहमद वाणी	01.11.2012
1854	9088255एन	हवलदार	हरबंस सिंह	01.01.2013
1855	9089075एक्स	हवलदार	हरी राम	01.09.2012
1856	9089280वाइ	हवलदार	इरशाद अहमद शेख	01.11.2012
1857	9089249एम	हवलदार	जगदीश चंद्र	01.11.2012
1858	9089303पी	हवलदार	जगदीश लाल	01.12.2012
1859	9089056एम	हवलदार	कुंज बिहारी प्रधान	01.09.2012
1860	9089374डब्ल्यू	हवलदार	मदन लाल शर्मा	01.01.2013
1861	9089273एच	हवलदार	मनीर हुसैन	01.11.2012
1862	9089125एक्स	हवलदार	मोहम्मद असलम	01.10.2012
1863	9089393एफ	हवलदार	मोहम्मद याकूब के	01.01.2013
1864	9088234एक्स	हवलदार	नरिंदर सिंह मन्हास	01.01.2013
1865	9089040एफ	हवलदार	नसीर अहमद भाट	01.09.2012
1866	9088145वाइ	हवलदार	निमाइ चरण दास	01.09.2012
1867	9089362एफ	हवलदार	पी कुमार, एसएम	01.01.2013
1868	9089101एन	हवलदार	प्यारा लाल शर्मा	01.10.2012
1869	9088241एन	हवलदार	रघबीर सिंह	01.01.2013
1870	9089207ए	हवलदार	राज कुमार	01.11.2012
1871	9089107पी	हवलदार	राज देव	01.10.2012
1872	9088217एक्स	हवलदार	राम सरूप चौधरी	01.12.2012
1873	9089366एक्स	हवलदार	राश पाल	01.01.2013
1874	9089080एच	हवलदार	रशीद मोहम्मद	01.09.2012
1875	9089341एल	हवलदार	रशपाल चन्द	01.01.2013
1876	9089365पी	हवलदार	रोमेश चंद्र	01.01.2013
1877	9089225एन	हवलदार	रोमेश चंद्रा	01.11.2012
1878	9089149एफ	हवलदार	सरदार सिंह	01.10.2012
1879	9089181डब्ल्यू	हवलदार	सोम नाथ	01.10.2012
1880	9089291एल	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.11.2012
1881	9089333एम	हवलदार	एस सिंह, एसएम	01.01.2013
1882	9089066डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.09.2012
1883	9089199एम	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.11.2012
1884	9089331एफ	हवलदार	सुशील कुमार रेना	01.01.2013
1885	9089311एन	हवलदार	तनवीर अहमद	01.12.2012
1886	9089170के	हवलदार	त्रिलोचन सिंह	01.10.2012
1887	9088199ए	हवलदार	विजय कुमार	01.11.2012
1888	15356759एल	हवलदार	यश पाल सिंह	01.12.2012
1889	9088225डब्ल्यू	हवलदार	जेड उल्लाह भाट	01.12.2012

1 गोरखा राईफल्स

1890	5044490एन	हवलदार	अमृत श्रेष्ठा	01.12.2012
1891	5044447एम	हवलदार	बचीना पी	01.12.2012
1892	5044455एल	हवलदार	बाल कृष्णा गुरंग	01.12.2012
1893	15356780एन	हवलदार	बलबीर यादव	01.12.2012
1894	5044542वाइ	हवलदार	भीम बहादुर थापा	01.01.2013
1895	5043897एक्स	हवलदार	बिश्वजीत बेरा	01.11.2012
1896	5044509एफ	हवलदार	चित्रा बहादुर गुरंग	01.12.2012
1897	5044503ए	हवलदार	देव राज गुरंग	01.01.2013
1898	5044385एक्स	हवलदार	डी.आई.यू. बहादुर एस	01.08.2012
1899	5044510डब्ल्यू	हवलदार	डी.यू.एल. बहादुर थापा	01.12.2012
1900	5044484ए	हवलदार	हम बहादुर पुन	01.12.2012
1901	5043901पी	हवलदार	कुलदीप कुमार	01.01.2013
1902	5044421एक्स	हवलदार	लोक राज गुरंग	01.11.2012
1903	5044520ए	हवलदार	मिन बहादुर थापा	01.01.2013
1904	5044567एल	हवलदार	ओमकार सिंह थापा	01.01.2013
1905	5044541डब्ल्यू	हवलदार	पदम बहादुर पुन	01.01.2013
1906	5044537एन	हवलदार	पदम बहादुर थापा	01.01.2013
1907	5043894के	हवलदार	तोप बहादुर थापा	01.10.2012
1908	5043904एच	हवलदार	टुक बहादुर थापा	01.01.2013
1909	5044485पी	हवलदार	विष्णु प्रसाद पुन	01.12.2012

3 गोरखा राईफल्स

1910	5245512एक्स	हवलदार	अतर सिंह कुशवाह	01.10.2012
1911	5245969वाइ	हवलदार	भोज बहादुर थापा	01.10.2012
1912	5246011के	हवलदार	दिल बहादुर गुरंग	01.01.2013
1913	5245967एन	हवलदार	गिरि प्रसाद थापा	01.10.2012
1914	5246005डब्ल्यू	हवलदार	गन बहादुर राना	01.12.2012
1915	5245916ए	हवलदार	खडगा बहादुर राना	01.10.2012
1916	5245972वाइ	हवलदार	खादका प्रसाद रोका	01.10.2012
1917	5245963एक्स	हवलदार	लक्ष्मन कर्की	01.10.2012
1918	5245921एल	हवलदार	महेंद्र सिंह राना	01.10.2012
1919	5246006वाइ	हवलदार	नेत्र बहादुर गुरंग	01.12.2012
1920	5245929एक्स	हवलदार	नेत्र बहादुर पुन	01.10.2012
1921	15358864एफ	हवलदार	रघुबीर सिंह बी	01.12.2012
1922	5245885डब्ल्यू	हवलदार	रवि कुमार	01.11.2012
1923	5245851एच	हवलदार	सोहन बहादुर पुन	01.11.2012

4 गोरखा राईफल्स

1924	13899649ए	हवलदार	र. कलशिमुलू	01.09.2012
------	-----------	--------	-------------	------------

1925	5346707के	हवलदार	पी डी. आर हमबिर	01.01.2013
1926	5345818पी	हवलदार	सुधीर सिंह थापा	01.09.2012
1927	5044461वाइ	हवलदार	तोप बहादुर थापा	01.12.2012

**5 गोरखा राईफल्स**

1928	5450824एफ	हवलदार	ए बी प्रधान	01.11.2012
1929	5450780पी	हवलदार	भीम बहादुर गुरंग	01.09.2012
1930	5450788एफ	हवलदार	सी के गुरंग	01.10.2012
1931	5450847एच	हवलदार	धन बहादुर राना	01.01.2013
1932	5450845एक्स	हवलदार	करण बहादुर राना	01.01.2013
1933	5450839के	हवलदार	करण बहादुर राना	01.12.2012
1934	13618114एल	हवलदार	किशोर भंडारी	01.11.2012
1935	5450822डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा राम थापा	01.10.2012
1936	5450304डब्ल्यू	हवलदार	पी बी थापा	01.01.2013
1937	5450849एन	हवलदार	राम बहादुर पुन	01.01.2013

**8 गोरखा राईफल्स**

1938	5751500एफ	हवलदार	अरुण कुमार	01.11.2012
1939	5752116एम	हवलदार	भक्ता बीर पुन	01.12.2012
1940	5751418एम	हवलदार	छंगुर	01.07.2012
1941	5752158वाइ	हवलदार	दीपक गुरंग	01.12.2012
1942	5752048के	हवलदार	देव बहादुर गुरंग	01.09.2012
1943	5752112डब्ल्यू	हवलदार	दिल प्रसाद प्रधान	01.12.2012
1944	5752074एल	हवलदार	जी. बी गुरंग	01.10.2012
1945	5751591डब्ल्यू	हवलदार	हीरा सिंह राना	01.01.2013
1946	5752143एक्स	हवलदार	के बी थापा	01.12.2012
1947	5752119ए	हवलदार	के वी नारायना	01.12.2012
1948	5752033एफ	हवलदार	कमल गुरंग	01.09.2012
1949	5752107एल	हवलदार	करण बहादुर थापा	01.11.2012
1950	5752076डब्ल्यू	हवलदार	खादका बहादुर गिरि	01.10.2012
1951	5752093डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र यादव	01.10.2012
1952	5751436पी	हवलदार	पोलेबोइन लिंघइयह	01.09.2012
1953	5752094वाइ	हवलदार	रेख बहादुर थापा	01.10.2012
1954	5752054एक्स	हवलदार	एस बी उचाई ठाकुरी	01.09.2012
1955	5752135एक्स	हवलदार	शिवा राज तहप्पा	01.01.2013
1956	5752075एन	हवलदार	टेक बहादुर राना	01.10.2012
1957	5752085एक्स	हवलदार	विनोद कुमार	01.10.2012

**9 गोरखा राईफल्स**

1958	5846837पी	हवलदार	अजय सेन	01.10.2012
1959	5846766वाइ	हवलदार	चित्रा बहादुर थापा	01.09.2012

1960	5846768के	हवलदार	देउ बहादुर अधिकारी	01.09.2012
1961	5846806एफ	हवलदार	गण बहादुर थापा	01.10.2012
1962	5846882एफ	हवलदार	गोकुल प्रसाद छत्री	01.12.2012
1963	5846966पी	हवलदार	ज्ञान बहादुर मल्ला	01.01.2013
1964	15356868एक्स	हवलदार	हरी राम	01.12.2012
1965	5846798एफ	हवलदार	इन्द्रा बहादुर थापा	01.10.2012
1966	5846865एफ	हवलदार	काबिन्द्रा छत्री	01.11.2012
1967	5846331डब्ल्यू	हवलदार	केसरी नंदन	01.09.2012
1968	9418753डब्ल्यू	हवलदार	किताब सिंह	01.11.2012
1969	5846772एम	हवलदार	निम बहादुर थापा	01.09.2012
1970	5846863डब्ल्यू	हवलदार	पदम बहादुर छत्री	01.11.2012
1971	5846339एच	हवलदार	राज देव प्रसाद	01.10.2012
1972	5846401के	हवलदार	राम प्रताप	01.12.2012
1973	5846974एन	हवलदार	राम राज शाही	01.01.2013
1974	5846875एल	हवलदार	संदीप कुमार थापा	01.12.2012
1975	5846318एम	हवलदार	टेक बहादुर थापा	01.09.2012
1976	5846838एक्स	हवलदार	योगेश कुमार सेन	01.10.2012

11 गोरखा राईफल्स

1977	9419554पी	हवलदार	बाल धन राय	01.01.2013
1978	9419483वाइ	हवलदार	भीम प्रसाद राय	01.09.2012
1979	9419508ए	हवलदार	भूमि राज राय	01.11.2012
1980	9419507एक्स	हवलदार	बीर बहादुर राय	01.11.2012
1981	9419534एफ	हवलदार	देउ प्रसाद राय	01.12.2012
1982	9419516वाइ	हवलदार	दिले राम राय	01.11.2012
1983	9419532डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश कुमार राय	01.12.2012
1984	9419513एल	हवलदार	दुर्गा बहादुर लिम्बू	01.10.2012
1985	9418747एच	हवलदार	हरीश चन्द बाल्मीकि	01.10.2012
1986	9419468के	हवलदार	इन्द्रा बहादुर थापा	01.10.2012
1987	9418713पी	हवलदार	महेश चंद्रा	01.09.2012
1988	9419535के	हवलदार	नार कुमार टी	01.12.2012
1989	9418688एफ	हवलदार	पारस नाथ सिंह यादव	01.09.2012
1990	9419519एम	हवलदार	प्रजा बहादुर राय	01.11.2012
1991	9418707एफ	हवलदार	राबिन देव नाथ	01.09.2012
1992	9419548एफ	हवलदार	राजेंद्रा कुमार राय	01.01.2013
1993	9419529डब्ल्यू	हवलदार	सरन बहादुर राय	01.12.2012
1994	9419512एच	हवलदार	सोम बहादुर गुरंग	01.10.2012
1995	9418711के	हवलदार	सुरेश एस	01.09.2012
1996	9419505एम	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.11.2012

सेना सेवा कोर दक्षिण

1997	6383003एन	हवलदार	ए मूवीन्दरण	01.01.2013
1998	13899890एम	हवलदार	ऐश नंदन सिंह	01.10.2012
1999	14804654वाइ	हवलदार	अच्युत नंदा प्रधान	01.10.2012
2000	6382372वाइ	हवलदार	ए खान	01.09.2012
2001	14801240एफ	हवलदार	अमर चन्द	01.12.2012
2002	6382148एम	हवलदार	ए दत्ता	01.09.2012
2003	14804706के	हवलदार	अमरनाथ	01.01.2013
2004	6382260वाइ	हवलदार	आनंदा बोरदोलइ	01.09.2012
2005	6382994ए	हवलदार	अनिल कुमार	01.01.2013
2006	13899827एक्स	हवलदार	अनिल कुमार कश्यप	01.10.2012
2007	14801023एल	हवलदार	अन्नाम रेडी श्रीनिवासु	01.10.2012
2008	14801112के	हवलदार	एंथोनी एमटी	01.11.2012
2009	14801111एफ	हवलदार	अनूथास आर	01.11.2012
2010	13896007ए	हवलदार	अर्जुन अपईय कम्मर	01.10.2012
2011	6382344एम	हवलदार	अश्विनी कुमार सिंह	01.09.2012
2012	6382935एन	हवलदार	अवतार सिंह	01.01.2013
2013	14804662एक्स	हवलदार	बी सुरेन्द्र गोड़	01.12.2012
2014	1480634एल	हवलदार	बाबन कुमार सिंह	01.11.2012
2015	14801405पी	हवलदार	बाबू दयाल	01.01.2013
2016	6386659एन	हवलदार	बी दान	01.10.2012
2017	6382746के	हवलदार	बालक राम	01.11.2012
2018	14801334वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.12.2012
2019	13971168एम	हवलदार	बलजीत	01.10.2012
2020	6382253एच	हवलदार	बसीर अहमद चौधरी	01.09.2012
2021	6382958पी	हवलदार	बासुदेब पाल	01.01.2013
2022	13896011एच	हवलदार	भगवान राम	01.11.2012
2023	6387086एफ	हवलदार	भूपेंद्र सिंह	01.01.2013
2024	13899828ए	हवलदार	भुपेन्द्र कुमार	01.10.2012
2025	6382947एच	हवलदार	बिजय कुमार मोहंती	01.01.2013
2026	6382587एक्स	हवलदार	बिमल एम	01.11.2012
2027	14804753एफ	हवलदार	बिनोद कुमार पाठक	01.01.2013
2028	14801424ए	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह बर्तवाल	01.01.2013
2029	6382789वाइ	हवलदार	ब्रज भूषण यादवा	01.10.2012
2030	15356308एल	हवलदार	ब्रज किशोर कुमार	01.11.2012
2031	6382749एक्स	हवलदार	बुसी लक्ष्मना मूर्ती	01.11.2012
2032	14801259ए	हवलदार	सी के सामी	01.12.2012
2033	6382156एल	हवलदार	सी वेकटेशन	01.09.2012
2034	14804563पी	हवलदार	चंद्रा किशोर चौधरी	01.11.2012
2035	14801397एफ	हवलदार	छोटे लाल राम	01.01.2013

2036	14804725पी	हवलदार	छोटे लाल यादव	01.01.2013
2037	6382501एन	हवलदार	चितरंजन सिंह	01.10.2012
2038	6382854एन	हवलदार	चौधरी	01.12.2012
2039	6382622पी	हवलदार	डी. कप्पूरंगम	01.11.2012
2040	13899656डब्ल्यू	हवलदार	दशरथ लाल यादव	01.09.2012
2041	13896002एफ	हवलदार	दयानन्द माहालदर	01.10.2012
2042	14801408एच	हवलदार	देवेन्द्र प्रसाद	01.01.2013
2043	638262एक्स	हवलदार	धाकलू एच	01.01.2013
2044	14801295एल	हवलदार	धुंधी राम	01.12.2012
2045	6382780के	हवलदार	दिबाकर बेहेरा	01.10.2012
2046	6382766एक्स	हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	01.11.2012
2047	14804707एम	हवलदार	द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी	01.12.2013
2048	63825000एन	हवलदार	डी. कृष्णा साहू	01.10.2012
2049	6382621एम	हवलदार	फाविलन आर	01.10.2012
2050	6382697एम	हवलदार	गाधव टी धर्माजी	01.11.2012
2051	14804534ए	हवलदार	गनेश चंद्रा दास	01.11.2012
2052	8031960एक्स	हवलदार	गिरधर उपाध्याय	01.10.2012
2053	6382872डब्ल्यू	हवलदार	गिरधारी लाल	01.12.2012
2054	13896027एन	हवलदार	गोरी शंकर	01.10.2013
2055	14801090डब्ल्यू	हवलदार	गुरु दयाल सिंह	01.12.2012
2056	14801066ए	हवलदार	जी. रवि कुमार	01.12.2012
2057	14804732एल	हवलदार	हंस राज	01.01.2013
2058	6383280वाइ	हवलदार	हरे राम यादव	01.12.2012
2059	13896015वाइ	हवलदार	हयात सिंह थापा	01.12.2012
2060	14801299एफ	हवलदार	एच थोसाली	01.12.2012
2061	6382605पी	हवलदार	आइ मोल्ला	01.10.2012
2062	14804760एक्स	हवलदार	जबार सिंह	01.01.2013
2063	14800868एक्स	हवलदार	झबार मल रेगल	01.09.2012
2064	8031926एक्स	हवलदार	जितेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.09.2012
2065	6382250पी	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2012
2066	14801273एम	हवलदार	जोहरी मल	01.12.2012
2067	14801428डब्ल्यू	हवलदार	जोशी के टी	01.12.2013
2068	14801073डब्ल्यू	हवलदार	जॉय देव अधिकारी	01.12.2012
2069	13899587एल	हवलदार	के बाबूकाकांत बाबू-बाबू	01.12.2012
2070	6382326के	हवलदार	काजल दास	01.12.2012
2071	6382714एफ	हवलदार	कैलासकर संजय राज	01.12.2012
2072	6383014ए	हवलदार	कल्याणम्पू बी	01.12.2012
2073	6382658एन	हवलदार	कमल किशोर	01.12.2012
2074	14804776एच	हवलदार	कमल किशोर पांडे	01.12.2012
2075	13899880पी	हवलदार	कमल सिंह	01.10.2012
2076	13899794एक्स	हवलदार	कर्नति ब्रह्मानन्दम	01.12.2012

2077	6382354डब्ल्यू	हवलदार	कार्तिक चंद्रा मंडल	01.09.2012
2078	6382597एफ	हवलदार	केशर सिंह रावत	01.10.2012
2079	6384863एन	हवलदार	के राम मेघवाल	01.12.2012
2080	14801344एच	हवलदार	कृष्णन कुमार	01.01.2013
2081	13899836वाइ	हवलदार	कृष्णन सिंह	01.10.2012
2082	1480633एम	हवलदार	कृष्णा कुमार राम	01.11.2012
2083	6386846एम	हवलदार	कृष्णा पीएडी. मोहंता	01.12.2012
2084	14801287एम	हवलदार	कुवर पाल सिंह	01.12.2012
2085	6382423एफ	हवलदार	एल मारिआ के थंबु राज	01.10.2012
2086	6386919एन	हवलदार	ललित कुमार	01.12.2012
2087	6382251एक्स	हवलदार	लवकुश तिवारी	01.09.2012
2088	6382364ए	हवलदार	लिंगाराज बी	01.09.2012
2089	14804588एफ	हवलदार	लोचन सिंह	01.12.2012
2090	15356114एच	हवलदार	एल सिंह	01.10.2012
2091	13896009एल	हवलदार	एम राजा	01.11.2012
2092	6382410के	हवलदार	माधव कलिता	01.10.2012
2093	6382765पी	हवलदार	महेंद्र कुमार कुशवाहा	01.11.2012
2094	14801238के	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.12.2012
2095	14801009वाइ	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.10.2012
2096	6382240एल	हवलदार	महेश्वर ठाकुर	01.09.2012
2097	14804751डब्ल्यू	हवलदार	महिदा महेंद्र सिंह	01.01.2013
2098	6382724एल	हवलदार	महताब सिंह भाटी	01.11.2012
2099	6383735के	हवलदार	मलकीत सिंह	01.11.2012
2100	6382873वाइ	हवलदार	मल्लीत सिंह	01.12.2012
2101	6387053डब्ल्यू	हवलदार	मानस रंजन ओझा	01.01.2013
2102	6382515एन	हवलदार	मनगुलि स्वेन	01.10.2012
2103	6383079एन	हवलदार	मनेम रंगना वाइ	01.01.2013
2104	15357272के	हवलदार	मनोज पण्डित	01.01.2013
2105	6382590एक्स	हवलदार	एम पुथान वालापिल	01.11.2012
2106	14800899एक्स	हवलदार	माया कृष्णन पी	01.09.2012
2107	6382555पी	हवलदार	मेवा सिंह	01.10.2012
2108	6386658एल	हवलदार	मोहन स्वरूप	01.10.2012
2109	13898810एक्स	हवलदार	मोहेश चंद्रा दत्ता	01.10.2012
2110	6382184एक्स	हवलदार	मोहम्मद यूसुफ	01.09.2012
2111	6383049डब्ल्यू	हवलदार	मोनुज कुमार सिंघा	01.01.2013
2112	6383098वाइ	हवलदार	मुकेश कुमार	01.01.2013
2113	13899727एम	हवलदार	मुनेश कुमार	01.10.2012
2114	13899823एफ	हवलदार	एन मुरुगेसन	01.10.2012
2115	14801360ए	हवलदार	एन सुरेश कुमार	01.01.2013
2116	6382313एम	हवलदार	नबीन कुमार झा	01.09.2012
2117	14801064पी	हवलदार	नाग नारायण ममोलर्य	01.11.2012



2118	14804541डब्ल्यू	हवलदार	नगेन्द्रा नाथ कर्माकर	01.11.2012
2119	8031971एन	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.11.2012
2120	13899831ए	हवलदार	नरेन्द्रा बहादुर सिंह	01.10.2012
2121	14804508वाइ	हवलदार	नरेश चंद्रा दास	01.11.2012
2122	6382514एल	हवलदार	नरेश चंद्रा महापात्रा	01.10.2012
2123	13896016एफ	हवलदार	नाथी लाल	01.12.2012
2124	6383077एच	हवलदार	नयन कुमार राय	01.01.2013
2125	14804650एच	हवलदार	एन नायक	01.09.2012
2126	6386898एच	हवलदार	नेकी राम	01.12.2012
2127	6382421डब्ल्यू	हवलदार	निनामा जिवाजी कालाजी	01.10.2012
2128	6382680वाइ	हवलदार	निरंजन कुमार मैती	01.10.2012
2129	6482316पी	हवलदार	औकिल सिंह	01.10.2012
2130	14804537एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2012
2131	6382175डब्ल्यू	हवलदार	पी बलवंत सिंह एम भाई	01.09.2012
2132	13899845ए	हवलदार	पंच देव यादवा	01.10.2012
2133	6382422वाइ	हवलदार	परमशिवन बी	01.10.2012
2134	14801146एक्स	हवलदार	परमार श्यामजी भाई गंगा भाई	01.11.2012
2135	15355504वाइ	हवलदार	पी पाबन कर्माकर	01.09.2012
2136	14800941एल	हवलदार	पवन कुमार	01.10.2012
2137	14801352एफ	हवलदार	फूल सिंह	01.01.2013
2138	6382490एम	हवलदार	प्रदीप्त कुमार मजूमदार	01.10.2012
2139	6382193वाइ	हवलदार	प्रदीप्त कुमार साहू	01.09.2012
2140	13899637एल	हवलदार	प्रमोद कुमार राय	01.09.2012
2141	14801195ए	हवलदार	प्रसांत कुमार दास	01.12.2012
2142	6384764एल	हवलदार	प्रेम बहादुर राम	01.11.2012
2143	6382464एल	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2012
2144	6382509ए	हवलदार	रबीन्द्र कुमार साहू	01.10.2012
2145	6382382एच	हवलदार	राधा कृष्णा तिवारी	01.09.2012
2146	15356794एन	हवलदार	राधा कृष्णन एम के	01.12.2012
2147	6386923डब्ल्यू	हवलदार	राधे श्याम कटारिया	01.12.2012
2148	6382853एल	हवलदार	रघु नंदन	01.12.2012
2149	6382445ए	हवलदार	रघुबीर सिंह यादव	01.10.2012
2150	13899886के	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.10.2012
2151	14801444एन	हवलदार	राज बहादुर सिंह	01.01.2013
2152	13899894एच	हवलदार	राज कुमार पांडे	01.11.2012
2153	14801180एक्स	हवलदार	राज कुमार पासवान	01.11.2012
2154	6382931एक्स	हवलदार	राजा राम यादव	01.12.2012
2155	6382796पी	हवलदार	राजबीर सिंह	01.12.2012
2156	6382340डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद रजाक	01.10.2012
2157	6383106एम	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.01.2013
2158	6382477एच	हवलदार	राजेंद्रा कुमार यादव	01.10.2012

2159	14801054एल	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2012
2160	15356870पी	हवलदार	राजीव	01.12.2012
2161	14800861एन	हवलदार	राकेश कुमार	01.09.2012
2162	14800935एक्स	हवलदार	राम अभिलाश सिंह	01.10.2012
2163	13896030एन	हवलदार	राम बृक्ष यादव	01.11.2012
2164	14804683एन	हवलदार	राम चंद्रा	01.12.2012
2165	14804566एच	हवलदार	राम चंद्रा शर्मा	01.11.2012
2166	6382887वाइ	हवलदार	राम कृष्णा	01.12.2012
2167	14801204डब्ल्यू	हवलदार	राम कुमार झा	01.12.2012
2168	6383093ए	हवलदार	राम एल माथुर	01.01.2013
2169	6482399एल	हवलदार	राम पी	01.01.2013
2170	14801057वाइ	हवलदार	राम प्रताप वर्मा	01.10.2012
2171	6382722ए	हवलदार	राम सिंह यादव	01.11.2012
2172	6386701एफ	हवलदार	रमा कांत परीद	01.10.2012
2173	14801058एफ	हवलदार	रामायण प्रसाद वर्मा	01.10.2012
2174	6382816एक्स	हवलदार	रामबीर सिंह	01.12.2012
2175	14804737के	हवलदार	रमेश चंद्र	01.01.2013
2176	6382192डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा जोशी	01.09.2012
2177	14801276ए	हवलदार	रमेश कुमार	01.12.2012
2178	14804671वाइ	हवलदार	रमेश एल	01.12.2012
2179	13896022पी	हवलदार	रमेश यादव	01.01.2013
2180	13899924पी	हवलदार	रंजीत आटा	01.11.2012
2181	6382474पी	हवलदार	रंजीत सरकार	01.10.2012
2182	6382424के	हवलदार	रवि चंद्रन शिवम टी	01.10.2012
2183	6383017एन	हवलदार	रवि कांत राय	01.01.2013
2184	14801251एन	हवलदार	रवि कांथ गुरंग	01.12.2012
2185	6382833एक्स	हवलदार	रतना कुमार वीजे	01.12.2012
2186	6386680डब्ल्यू	हवलदार	आर राम बजरोलिया	01.10.2012
2187	6382851ए	हवलदार	रूप सिंह	01.12.2012
2188	6382667पी	हवलदार	आरवीवी मुरली कृष्णा	01.11.2012
2189	6383078एल	हवलदार	सचिनानन्धन एन	01.01.2013
2190	6382787एन	हवलदार	साहब सिंह	01.10.2012
2191	13899871एफ	हवलदार	समंदर सिंह	01.10.2012
2192	6382386वाइ	हवलदार	सनत कुमार सरकार	01.09.2012
2193	6382602एफ	हवलदार	संकर कुमार दास	01.10.2012
2194	6387085वाइ	हवलदार	सरवर सिंह	01.01.2013
2195	6382718एक्स	हवलदार	शशि बी	01.11.2012
2196	6385299डब्ल्यू	हवलदार	सतपाल	01.12.2012
2197	14801362एल	हवलदार	सत्रार अंसारी	01.01.2013
2198	6382208डब्ल्यू	हवलदार	सत्यपाल सिंह	01.09.2012
2199	6383088पी	हवलदार	एस कुमार ठाकुर	01.01.2013

2200	6382375एम	हवलदार	सैयद सैयद बाशा	01.09.2012
2201	6382327एम	हवलदार	एस लाल	01.09.2012
2202	14804709एक्स	हवलदार	शाजी राजन	01.01.2013
2203	14801422पी	हवलदार	सम्भू नाथ मुत्ता	01.09.2012
2204	64823227एफ	हवलदार	सम्भू प्रसाद यादव	01.09.2012
2205	14800938ए	हवलदार	शिव कुमार	01.09.2012
2206	6382441के	हवलदार	शिबा शंकर नायक	01.10.2012
2207	14804733एन	हवलदार	शीश राम	01.01.2013
2208	6382181के	हवलदार	शिव बचन केवट	01.09.2012
2209	6383044एक्स	हवलदार	शिव की यादव	01.09.2013
2210	6382888डब्ल्यू	हवलदार	शिव कुमार	01.09.2012
2211	6382271एल	हवलदार	श्री एन फाउण्डे	01.09.2012
2212	6482288डब्ल्यू	हवलदार	एसके सन्तोष एच	01.09.2012
2213	6382209वाइ	हवलदार	सोहन पाल सिंह	01.09.2012
2214	14800406एल	हवलदार	सोहनकर आनन्द बरबत	01.12.2012
2215	6382779पी	हवलदार	श्री कुमार बेहरे	01.10.2012
2216	6382507पी	हवलदार	सुदर्शन बेहरे	01.10.2012
2217	14801261एक्स	हवलदार	सुख पाल सिंह	01.12.2012
2218	6384770वाइ	हवलदार	सुखबिंदर सिंह	01.01.2013
2219	14801069एन	हवलदार	सुलेन्द्र कुमार	01.11.2012
2220	6382819एल	हवलदार	सुरेश सिंह	01.12.2012
2221	6382014एन	हवलदार	सुनील कुमार बिस्वास	01.10.2012
2222	6382880पी	हवलदार	सुरेन्द्र पाल	01.12.2012
2223	6382161डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	01.09.2012
2224	14801392एच	हवलदार	सुरेश	01.01.2013
2225	13899961एच	हवलदार	सुरेश कुमार के सी	01.11.2012
2226	13899622एच	हवलदार	सुरेश लाडेगे	01.09.2012
2227	14800776एल	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.09.2012
2228	6382996एल	हवलदार	एस फुकन	01.01.2013
2229	6382924एफ	हवलदार	सुसंता कुमार रजाक	01.12.2012
2230	6382305एन	हवलदार	सुनील कुमार श्रीवास्तव	01.09.2012
2231	1480668वाइ	हवलदार	एस कुमार पांडे	01.12.2012
2232	6387058पी	हवलदार	टी दत्तिका मूर्ती	01.01.2013
2233	6382139एल	हवलदार	टी दत्त उमाजी	01.09.2012
2234	15360465पी	हवलदार	तन्वेष कलिता	01.10.2012
2235	14804615पी	हवलदार	तन्वेष कुमार बिस्वास	01.11.2012
2236	6382933एच	हवलदार	तन्वेष कुमार सव	01.12.2012
2237	6382870एल	हवलदार	तन्वेष लाल	01.12.2012
2238	6382210एन	हवलदार	तन्वेष सिंह पाल	01.09.2012
2239	14801441ए	हवलदार	तीनार सखु जी	01.01.2013
2240	14801176पी	हवलदार	टी भरत बिसजी भाई	01.11.2012

2241	15357046एम	हवलदार	टी राम कुमावत	01.01.2013
2242	6383007के	हवलदार	उदय सिंह अस्वाल	01.01.2013
2243	14801368एम	हवलदार	उदय कुमार सिंह	01.01.2013
2244	14801385एम	हवलदार	उदयवीर	01.01.2013
2245	6382258एफ	हवलदार	उपेंद्र सिंह	01.09.2012
2246	13899933डब्ल्यू	हवलदार	उत्पल कुमार बाला	01.11.2012
2247	6382955एफ	हवलदार	उत्तातम कुमार पाल	01.01.2013
2248	13899999एम	हवलदार	वी करुनानिथी	01.11.2012
2249	6382874एफ	हवलदार	वरिंदर सिंह	01.12.2012
2250	6386524एम	हवलदार	वासदेव	01.09.2012
2251	6382269एन	हवलदार	वेद प्रकाश जदली	01.09.2012
2252	13898631एक्स	हवलदार	विजय कुमार यादव	01.12.2012
2253	6382179एम	हवलदार	विजय प्रसाद तिवारी	01.09.2012
2254	13898418एक्स	हवलदार	वीरेंद्र दुबे	01.10.2012
2255	6382855डब्ल्यू	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.12.2012

### सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

2256	6383086के	दफादार	अख्तर हुसैन	01.01.2013
2257	6382303एच	हवलदार	अक्षय कुमार गुप्ता	01.09.2012
2258	6482369एन	हवलदार	अनिल कुमार	01.11.2012
2259	6482192एल	हवलदार	आरधी कांता राव	01.09.2012
2260	6482314के	दफादार	अशोक कुमार शुक्ला	01.11.2012
2261	6482380एम	हवलदार	अवध प्रसाद	01.12.2012
2262	6483211एक्स	हवलदार	बसवराज एम एच	01.09.2012
2263	6482378पी	हवलदार	बशीर अहमद मीर	01.12.2012
2264	6387007एफ	दफादार	बेद प्रकाश सिंह	01.01.2013
2265	6382731एफ	हवलदार	भरत राम पटेल	01.11.2012
2266	6482217एम	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.09.2012
2267	6382404डब्ल्यू	दफादार	बृज कुमार उपाध्याय	01.10.2012
2268	6482262वाइ	हवलदार	बृज लाल सिंह	01.09.2012
2269	6382400ए	हवलदार	बृज मोहन	01.10.2012
2270	6483176ए	हवलदार	चैन सिंह	01.09.2012
2271	6482317एक्स	हवलदार	दलीप सिंह	01.11.2012
2272	6483213एच	हवलदार	दरलापुदी श्रीनिवास राव	01.09.2012
2273	6382383एल	हवलदार	दोलत सिंह	01.09.2012
2274	6482196एफ	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.09.2012
2275	6482794वाइ	हवलदार	धर्म पाल सिंह	01.12.2012
2276	6382157एन	दफादार	धीर सिंह	01.09.2012
2277	6382783एक्स	हवलदार	दीवान सिंह	01.10.2012
2278	6482248एम	दफादार	गनेश खुशाल तिड़के	01.09.2012
2279	6482302पी	दफादार	हरी कृष्णा सिंह	01.11.2012

2280	6482471डब्ल्यू	दफादार	हरी मोहन विश्वास	01.10.2012
2281	6482392एफ	हवलदार	हरी शंकर	01.12.2012
2282	6482386एन	हवलदार	हरी शंकर यादव	01.12.2012
2283	13898046एक्स	हवलदार	इन्द्रजीत राय	01.12.2012
2284	6483235एफ	हवलदार	जग मोहन	01.10.2012
2285	6382946ए	हवलदार	जगादीश प्रसाद यादव	01.01.2013
2286	6482263एफ	हवलदार	जया प्रकाश	01.09.2012
2287	6382898एल	हवलदार	जे सिंह	01.12.2012
2288	6482429एक्स	दफादार	जे एमओवाई पौल	01.01.2013
2289	6482231वाइ	दफादार	करन सिंह यादव	01.09.2012
2290	6482324एन	हवलदार	कष्णन लाल	01.11.2012
2291	6482198एम	दफादार	के वीरा पी	01.09.2012
2292	6483335एम	दफादार	कुंवर सिंह	01.01.2013
2293	6482275डब्ल्यू	हवलदार	के शिवाजी रामचंद्र	01.10.2012
2294	6482233के	दफादार	एल बालकृष्णा रेडी	01.09.2012
2295	6483249एफ	दफादार	लखविन्दर सिंह	01.10.2012
2296	6382389एम	दफादार	मानस कुमार पात्रा	01.09.2012
2297	6382903एल	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.12.2012
2298	6483298के	हवलदार	एन पुना भाई एम भाई	01.12.2012
2299	13898052एल	हवलदार	नार सिंह लकरा	01.11.2012
2300	6482205एक्स	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.09.2012
2301	6382339एफ	दफादार	नीलप्पु कृष्णा रेडी	01.10.2012
2302	6383092एक्स	दफादार	नेमी चन्द	01.01.2013
2303	6482390डब्ल्यू	हवलदार	निंगप्पा लक्ष्मप्पा तलवार	01.12.2012
2304	6482377एम	दफादार	एन कुमार प्रधान	01.12.2012
2305	13898048एच	दफादार	पी मनी कनदन	01.01.2013
2306	6386791एन	हवलदार	पी वलेयुथम	01.11.2012
2307	6382929ए	हवलदार	पवन कुमार सिंह	01.12.2012
2308	6483277एन	दफादार	पी संजय पांडुरंग	01.11.2012
2309	6482213डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश संगी	01.09.2012
2310	6482292डब्ल्यू	हवलदार	प्रसन्ना कुमार सिंह	01.10.2012
2311	6383083डब्ल्यू	दफादार	आर अंबालागन	01.01.2013
2312	6382914एक्स	हवलदार	आर सिल्वाराज	01.01.2013
2313	6386673ए	दफादार	राधे श्याम यादव	01.10.2012
2314	6482241एच	दफादार	राम मोहन राजवंशी	01.09.2012
2315	6482319एच	दफादार	रमेश चंद्रा	01.11.2012
2316	6383047एल	हवलदार	रमेश सिंह	01.01.2013
2317	6382892के	हवलदार	रनबीर सिंह	01.12.2012
2318	6482403एच	दफादार	समर कुमार मोन्दल	01.09.2012
2319	6482303एक्स	हवलदार	एस सिंह	01.11.2012
2320	6482340एल	हवलदार	शैलेंद्र कुमार सिंह	01.11.2012

2321	6482347पी	दफादार	एस बी ए	01.11.2012
2322	6482407वाइ	दफादार	शिव दास	01.01.2013
2323	6482375एफ	हवलदार	शिव दयाल	01.12.2012
2324	6482234एम	हवलदार	शिव कुमार सिंह चौहान	01.09.2012
2325	13898049एल	हवलदार	सीता राम	01.01.2013
2326	6482428पी	हवलदार	सुभाष प्रसाद वर्मा	01.01.2013
2327	6482211एल	हवलदार	सुधीर कुमार चौधरी	01.09.2012
2328	6483262एल	दफादार	तापस कुमार रौय	01.11.2012
2329	6482385एल	हवलदार	उमाकांत सिंह	01.12.2012
2330	6482228वाइ	दफादार	वी गनेश राजेन्द्रन	01.09.2012
2331	6482331के	हवलदार	विजय कुमार गोस्वामी	01.11.2012
2332	6482371एल	दफादार	वीरेंद्र सिंह	01.11.2012

### सेना चिकित्सा कोर

2333	13969463डब्ल्यू	हवलदार	ए संतोष भीकाजी	01.09.2012
2334	13969903वाइ	हवलदार	अब्दुस सलाम	01.10.2012
2335	13969584एक्स	हवलदार	अछार सिंह	01.09.2012
2336	13969282एल	हवलदार	अलोक घोष	01.09.2012
2337	13969646एम	हवलदार	अनिल कुमार	01.09.2012
2338	13970088एच	हवलदार	अनिल पाटिल	01.10.2012
2339	13969639डब्ल्यू	हवलदार	अरुण कुमार	01.09.2012
2340	13969771डब्ल्यू	हवलदार	अरुण कुमार बेरा	01.09.2012
2341	13969452के	हवलदार	आशीम कुमार महतो	01.09.2012
2342	13969756एफ	हवलदार	अशोक कुमार नायक	01.09.2012
2343	13969269एफ	हवलदार	अवतार सिंह	01.09.2012
2344	13969741वाइ	हवलदार	बी सी वी रंगैया	01.09.2012
2345	13971388डब्ल्यू	हवलदार	बी चीन्ना बाबू	01.01.2013
2346	13969284डब्ल्यू	हवलदार	बी के भगत	01.09.2012
2347	13969635ए	हवलदार	बी एस शेखावत	01.09.2012
2348	13970175डब्ल्यू	हवलदार	बाबू जी.	01.10.2012
2349	13969336एफ	हवलदार	बलदेव सिंह	01.09.2012
2350	13969673डब्ल्यू	हवलदार	बालीस्टार मथुरिया	01.09.2012
2351	13971369एल	हवलदार	बलजिन्दर पाल	01.01.2013
2352	7239852डब्ल्यू	हवलदार	बसंत बहादुर थापा	01.09.2012
2353	13970104पी	हवलदार	बी बंधु साहू	01.10.2012
2354	13969329एल	हवलदार	बी परदेस बी	01.09.2012
2355	13969674वाइ	हवलदार	भरत सिंह नेगी	01.09.2012
2356	13969312एक्स	हवलदार	भास्कर दत्त जोशी	01.09.2012
2357	13969615एम	हवलदार	बीजू जॉन	01.09.2012
2358	13969406पी	हवलदार	बिमल बोराह	01.09.2012
2359	13970204ए	हवलदार	बिमल कुमार मैती	01.10.2012

2360	13969432डब्ल्यू	हवलदार	बिमल कुमार पांडे	01.09.2012
2361	13969399के	हवलदार	बिमन पात्रा	01.09.2012
2362	13969297एन	हवलदार	बीरबल साहू	01.09.2012
2363	13969454पी	हवलदार	बिसम्बर दयाल	01.09.2012
2364	13969315एल	हवलदार	बिंश नाथ भगत	01.09.2012
2365	13970120एम	हवलदार	ब्लेस्सेनसम	01.09.2012
2366	13969668एल	हवलदार	ब्रह्मपाल सोलंकी	01.09.2012
2367	13970116के	हवलदार	बी एन एस	01.10.2012
2368	13969604ए	हवलदार	सी बुराथोकी	01.09.2012
2369	13970057एच	हवलदार	सी पी राजोरिया	01.10.2012
2370	13969458एल	हवलदार	चंद्रा देव राम	01.09.2012
2371	13969746एक्स	हवलदार	सी रामी रेडी	01.09.2012
2372	13969994एल	हवलदार	चौधुरी साहू	01.10.2012
2373	13969254वाइ	हवलदार	डी. सी एस मादर सिंह	01.09.2012
2374	13969910पी	हवलदार	डी. रशीद हीरा लाल	01.10.2012
2375	13970103एम	हवलदार	धनेश्वर बी	01.10.2012
2376	13969357एक्स	हवलदार	धर्म पाल	01.09.2012
2377	13970133के	हवलदार	दिलीप कुमार बारिक	01.10.2012
2378	13969447वाइ	हवलदार	दिनेश नंदन सिंह	01.09.2012
2379	13969579एम	हवलदार	दिनेश शर्मा	01.09.2012
2380	13970151एम	हवलदार	दीपक बोरुह	01.10.2012
2381	13971190एक्स	हवलदार	डी. मूल्या	01.01.2013
2382	13970126एन	हवलदार	डी. चंद्रा देव	01.10.2012
2383	13969672एन	हवलदार	जी. सी बहुगुणा	01.09.2012
2384	13969912ए	हवलदार	जी. आर शंकर	01.10.2012
2385	13970036एम	हवलदार	जी. एस भदोरिया	01.10.2012
2386	13969630एफ	हवलदार	जी. एस नगरकोटी	01.09.2012
2387	13971044एक्स	हवलदार	गनेश प्रसाद मिश्रा	01.12.2012
2388	13969489एल	हवलदार	गंगा सिंह कोरंगा	01.09.2012
2389	13969998के	हवलदार	गंगादीन	01.10.2012
2390	13969754डब्ल्यू	हवलदार	गयाधर बारिक	01.09.2012
2391	13969774के	हवलदार	घनशाम	01.09.2012
2392	13969441एक्स	हवलदार	घनशाम दास	01.09.2012
2393	13970191एन	हवलदार	गिरीश कुमार एन	01.10.2012
2394	13969786वाइ	हवलदार	जी. लोकान्धा	01.09.2012
2395	13970096एफ	हवलदार	ज्ञान चन्द शर्मा	01.10.2012
2396	13969651एक्स	हवलदार	एच के बुधाकोटी	01.09.2012
2397	13969995डब्ल्यू	हवलदार	हनीफ अहमद	01.10.2012
2398	13970047वाइ	हवलदार	हृदयानन्द सिंह	01.10.2012
2399	13971118एफ	हवलदार	हरेश सिंह	01.01.2013
2400	13969218एन	हवलदार	हरी किशन	01.09.2012

2401	13969321वाइ	हवलदार	हरी कुमार टी	01.09.2012
2402	13969538एच	हवलदार	हरी नंदन ठाकुर	01.09.2012
2403	13969831ए	हवलदार	हरी सिंह राघव	01.10.2012
2404	13971373एन	हवलदार	हेमैंद्र सिंह	01.01.2013
2405	13969969पी	हवलदार	आइ एस विथोवा	01.02.2012
2406	13970000एन	हवलदार	इंदल सिंह	01.09.2012
2407	13969421के	हवलदार	इंद्र सिंह	01.09.2012
2408	13969459एन	हवलदार	इन्द्रा हैंडिक	01.09.2012
2409	13969451एफ	हवलदार	जबार सिंह	01.09.2012
2410	13969941पी	हवलदार	जगादीश कुमार	01.10.2012
2411	13970205एच	हवलदार	जगन्मथ मोन्डल	01.10.2012
2412	13970046डब्ल्यू	हवलदार	जय नारायण सिंह	01.10.2012
2413	13969652ए	हवलदार	जयपाल सिंह	01.09.2012
2414	13969271वाइ	हवलदार	जसदेव सिंह	01.09.2012
2415	13969730एम	हवलदार	जयंत कुमार खटुआ	01.09.2012
2416	13970178के	हवलदार	जीजी पी वी	01.10.2012
2417	13970153एक्स	हवलदार	जीतेन छलिया	01.10.2012
2418	13969737डब्ल्यू	हवलदार	जॉन डी.	01.09.2012
2419	13970093एन	हवलदार	जुगल किशोर सामंत	01.10.2012
2420	13969482एफ	हवलदार	के बूमीनाथन	01.09.2012
2421	13969868एफ	हवलदार	के डी. वेष्मवा	01.10.2012
2422	13969382डब्ल्यू	हवलदार	के गोविन्द सामी	01.09.2012
2423	13969521पी	हवलदार	के जयबल	01.09.2012
2424	13969525एल	हवलदार	के मुरुगेसन	01.09.2012
2425	13969804डब्ल्यू	हवलदार	के एन रमा चंद्रा	01.09.2012
2426	13970109एन	हवलदार	के पी पटेल	01.10.2012
2427	13969915एन	हवलदार	के प्रभाकर बी	01.10.2012
2428	13970111एल	हवलदार	के एस द्विवेदी	01.10.2012
2429	13969479एफ	हवलदार	के सेल्वकुमार	01.09.2012
2430	13969830एक्स	हवलदार	के वी प्रसाद रेडी	01.10.2012
2431	13970068पी	हवलदार	कमलेश रौय प्रधान	01.10.2012
2432	13969825एम	हवलदार	केशर सिंह झाला	01.09.2012
2433	13969607एन	हवलदार	खिम राम	01.09.2012
2434	13969368के	हवलदार	किशन लाल	01.09.2012
2435	13969234एल	हवलदार	किशुन साह	01.09.2012
2436	13969815एच	हवलदार	कुंदन सिंह	01.09.2012
2437	13969891पी	हवलदार	लालजी राम	01.10.2012
2438	13969415डब्ल्यू	हवलदार	एम डी. यशवंत	01.09.2012
2439	13971285एक्स	हवलदार	एम आर शिवलिंगप्पा	01.01.2013
2440	13970016वाइ	हवलदार	एम एस कुशवाह	01.10.2012
2441	13970201एम	हवलदार	महम्मद अली मोन्डल	01.10.2012



2442	13969537ए	हवलदार	महेंद्र ठाकुर	01.09.2012
2443	13969889एक्स	हवलदार	माही पाल	01.10.2012
2444	13969688वाइ	हवलदार	मलकीत सिंह	01.09.2012
2445	13969201ए	हवलदार	मान मोहन सिंह	01.09.2012
2446	13969763एक्स	हवलदार	मणिकंदन वी	01.09.2012
2447	13969567एक्स	हवलदार	मनोज कुमार	01.09.2012
2448	13970200के	हवलदार	मनोज कुमार टी	01.10.2012
2449	13969481वाइ	हवलदार	मैरी मुथु एस	01.09.2012
2450	13969655एन	हवलदार	माता प्रसाद	01.09.2012
2451	13969242के	हवलदार	मोहम्मद इमरान	01.09.2012
2452	13969313ए	हवलदार	मिमइ विश्वास	01.09.2012
2453	13969610एन	हवलदार	मोहन चंद्रा सिंह	01.09.2012
2454	13969873एम	हवलदार	मोटा राम	01.10.2012
2455	13969352वाइ	हवलदार	मृदुल गोगोई	01.09.2012
2456	13970106ए	हवलदार	मुकेश कुमार डोंगरे	01.10.2012
2457	13969906एम	हवलदार	मुन्ना लाल	01.10.2012
2458	13970031एन	हवलदार	मुरुगन टी	01.10.2012
2459	13969292पी	हवलदार	एन सी पाठक	01.09.2012
2460	13969985एम	हवलदार	एन के राव	01.10.2012
2461	13969802एल	हवलदार	एन महादेवप्पा बी	01.09.2012
2462	13969484एम	हवलदार	एन सुंदरा मूर्ती	01.09.2012
2463	13970447एल	हवलदार	एन यू भदा भाई	01.11.2012
2464	13969259एक्स	हवलदार	नन्हें राम	01.09.2012
2465	13969842एम	हवलदार	नरेंद्र मोहन जोशी	01.10.2012
2466	13969369एम	हवलदार	नरेश	01.09.2012
2467	13969564के	हवलदार	नरेश कुमार	01.09.2012
2468	13969263ए	हवलदार	नरेश कुमार	01.09.2012
2469	13969751एच	हवलदार	नरयन प्रसाद दास	01.09.2012
2470	13969820एन	हवलदार	निरंजन पाणिग्रही	01.09.2012
2471	13969619एच	हवलदार	नरिपेन कुमार दास	01.09.2012
2472	13969821डब्ल्यू	हवलदार	पी एलनकथिरन	01.09.2012
2473	13969745पी	हवलदार	पी राधाकृष्ण	01.09.2012
2474	13969211के	हवलदार	पी राजगोपाल	01.09.2012
2475	13969791के	हवलदार	पी श्रीनिवास राव	01.09.2012
2476	13969485पी	हवलदार	पलानी एस	01.09.2012
2477	13969978डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल प्रकाश आबा	01.10.2012
2478	13969683ए	हवलदार	पवन कुमार	01.09.2012
2479	13969562वाइ	हवलदार	फूल चंद्रा यादव	01.09.2012
2480	13969759पी	हवलदार	प्रदीप कुमार स्वेन	01.09.2012
2481	13969874पी	हवलदार	पी कुमार	01.10.2012
2482	13969401डब्ल्यू	हवलदार	प्रदीप डे	01.09.2012

2483	13969624एन	हवलदार	पुनीत राम पारकर	01.09.2012
2484	13969339पी	हवलदार	पूरन सिंह	01.09.2012
2485	13969475एल	हवलदार	आर जेयाचन्द्रन	01.09.2012
2486	13971265के	हवलदार	आर मुरुगेसन	01.01.2013
2487	13969294ए	हवलदार	आर पी प्रजापति	01.09.2012
2488	13969923एम	हवलदार	आर पी रंभु	01.10.2012
2489	13971365पी	हवलदार	आर पोनु सामी	01.01.2013
2490	13970560ए	हवलदार	आर एस चौहान	01.11.2012
2491	13969308पी	हवलदार	आर एस त्रिपाठी	01.09.2012
2492	13969696एक्स	हवलदार	आर एस थामस	01.09.2012
2493	13969706डब्ल्यू	हवलदार	राधा कृष्णन ए	01.09.2012
2494	13969457एच	हवलदार	राजा राम	01.09.2012
2495	13970037पी	हवलदार	राजबीर सिंह तोमर	01.10.2012
2496	13969787एफ	हवलदार	राजेंद्रा कुमार बाला	01.09.2012
2497	13970170एक्स	हवलदार	राजेन्द्रन नायर वी	01.10.2012
2498	13969445एन	हवलदार	राजकुमार पासवान	01.09.2012
2499	13969257एम	हवलदार	राम अवतार	01.09.2012
2500	13970114वाइ	हवलदार	राम बालक सिंह	01.10.2012
2501	13969858एक्स	हवलदार	राम लाल मिथरवाल	01.10.2012
2502	13969695पी	हवलदार	राम महेश कुशवाहा	01.09.2012
2503	13971100एल	हवलदार	राम नाथ शर्मा	01.12.2012
2504	13969773एफ	हवलदार	राम प्रसाद सिंह	01.09.2012
2505	13969680एम	हवलदार	रामजी ममोलर्य	01.09.2012
2506	13969944एच	हवलदार	रामनाथ रौय	01.10.2012
2507	13976432वाइ	हवलदार	रश्मि कुमार साहू	01.09.2012
2508	13969867वाइ	हवलदार	रतन पुरी	01.10.2012
2509	13970318एल	हवलदार	रवीन्द्रन के	01.11.2012
2510	13970141एच	हवलदार	रविचंद्रन सी	01.10.2012
2511	13969612वाइ	हवलदार	रवीन्द्र पाल सिंह	01.09.2012
2512	13969460एच	हवलदार	रोबिन दुअरह	01.09.2012
2513	13969765एच	हवलदार	एस सी हालदार	01.09.2012
2514	13970094डब्ल्यू	हवलदार	एस सी मलिक	01.10.2012
2515	13969398एफ	हवलदार	एस के प्रमानिक	01.09.2012
2516	13969795ए	हवलदार	एस नारायण बदात्या	01.09.2012
2517	13969574एन	हवलदार	एस पी एस मलिक	01.09.2012
2518	13969693के	हवलदार	एस पी सिंह यादव	01.09.2012
2519	13969498एम	हवलदार	एस समनत्रे	01.09.2012
2520	13969679एक्स	हवलदार	एस अहमद	01.09.2012
2521	13969387पी	हवलदार	सजीव कुमार एस ए	01.09.2012
2522	13970123ए	हवलदार	साजी एम	01.10.2012
2523	13969316एन	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.09.2012

2524	13970134एम	हवलदार	सारथा कुमार सारंगी	01.10.2012
2525	13969379डब्ल्यू	हवलदार	सरफराज अली खान	01.09.2012
2526	13969534एम	हवलदार	सतेंद्र नाथ तिवारी	01.09.2012
2527	13969670एच	हवलदार	सत्य सिंह	01.09.2012
2528	13969258पी	हवलदार	शंकर लाल	01.09.2012
2529	13969261पी	हवलदार	शंकर लाल	01.09.2012
2530	13969253डब्ल्यू	हवलदार	शारदा यादव	01.09.2012
2531	13969676के	हवलदार	श्री राम यादव	01.09.2012
2532	13969388एक्स	हवलदार	एस नायर टी	01.09.2012
2533	13969838के	हवलदार	श्री कान्त गिरि	01.10.2012
2534	13969598एक्स	हवलदार	श्रीधर शर्मा	01.09.2012
2535	13969609वाइ	हवलदार	श्याम सिंह दोसाद	01.09.2012
2536	13970050वाइ	हवलदार	श्यामल कुमार शर्मा	01.10.2012
2537	13970199ए	हवलदार	एस सरकार	01.10.2012
2538	13969785डब्ल्यू	हवलदार	एसके. मोहंती	01.09.2012
2539	13969704एल	हवलदार	श्री कुमार सी	01.09.2012
2540	13969658एफ	हवलदार	सुभास राम	01.09.2012
2541	13969296एल	हवलदार	सुभास कुमार	01.09.2012
2542	13971402एक्स	हवलदार	सुधाकर सिंह	01.01.2013
2543	13969894एच	हवलदार	सुधीर कुमार ध्वेदी	01.10.2012
2544	13969374एक्स	हवलदार	सुकुमार साहा	01.09.2012
2545	13969611डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह दोसाद	01.09.2012
2546	13969641एन	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.09.2012
2547	13969840एफ	हवलदार	सुरेश कुम्र	01.10.2012
2548	13969829एच	हवलदार	सुरेश पी	01.10.2012
2549	13969430एल	हवलदार	सुरेश सिंह	01.09.2012
2550	13971370ए	हवलदार	सुशील कुमार	01.01.2013
2551	13970070एम	हवलदार	सैयद नूरुल इस्लाम	01.10.2012
2552	13970086एक्स	हवलदार	टी अन्नामलाई	01.10.2012
2553	13969265एल	हवलदार	ताज मोहम्मद	01.09.2012
2554	13969331एच	हवलदार	तारा चन्द	01.09.2012
2555	13969681पी	हवलदार	भिल्लोवन सिंह	01.09.2012
2556	13970122एक्स	हवलदार	वामन वरधेसे	01.10.2012
2557	13969758एम	हवलदार	टी फाती	01.09.2012
2558	13969689एफ	हवलदार	भिल्लोवन सिंह दसिला	01.09.2012
2559	13969783एल	हवलदार	त्रिलोचन दास	01.09.2012
2560	13969529एफ	हवलदार	त्रिलोचन कुमार	01.09.2012
2561	13969958एक्स	हवलदार	उमेश कुमार मिश्रा	01.10.2012
2562	13969278एच	हवलदार	उमेश कुमार फांटे	01.09.2012
2563	13970029डब्ल्यू	हवलदार	वी. अर्जुन	01.10.2012
2564	13969599ए	हवलदार	वी. विजयलक्ष्मी	01.09.2012

2565	13969613एफ	हवलदार	वरघेसे पी जे	01.09.2012
2566	13969196ए	हवलदार	वेद प्रकाश सिंह	01.09.2012
2567	13969561डब्ल्यू	हवलदार	विजय शंकर मौर्या	01.09.2012
2568	13969310एम	हवलदार	विजय कुमार	01.09.2012
2569	13969841के	हवलदार	विजय कुमार डोगरा	01.10.2012
2570	13969553एक्स	हवलदार	विजय कुमार राना	01.09.2012
2571	13969340के	हवलदार	विनोद कुमार	01.09.2012
2572	13969563एफ	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.09.2012
2573	13969232ए	हवलदार	वकील दास	01.09.2012
2574	13969595के	हवलदार	वाइ एस भंडारी	01.09.2012

### सेना आयुध कोर

2575	6926608एन	हवलदार	अभिजीत कुमार मोन्डल	01.01.2013
2576	6926665पी	हवलदार	ए सुभाष बापू राव	01.01.2013
2577	6926600एफ	हवलदार	अखिलेश कुमार पाठक	01.01.2013
2578	6929698एल	हवलदार	अमूल्य कुमार सिंह	01.12.2012
2579	6926231पी	हवलदार	अशोक कुमार	01.12.2012
2580	6926549एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2013
2581	6926333एल	हवलदार	अशोक कुमार पायल	01.12.2012
2582	6926248एच	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2012
2583	6925861एच	हवलदार	असित चक्रवर्ती	01.09.2012
2584	6926139डब्ल्यू	हवलदार	बालाकृष्णन जी.	01.11.2012
2585	6926151एक्स	हवलदार	बनमाली प्रसाद	01.11.2012
2586	6925867के	हवलदार	भूरी सिंह	01.09.2012
2587	6926239एफ	हवलदार	भुपेन्द्र पांडे	01.12.2012
2588	6926543एल	हवलदार	भूवन चंद्रा कापरी	01.01.2013
2589	6926434वाइ	हवलदार	ब्रज लाल सिंह	01.01.2013
2590	6926195पी	हवलदार	सी मल्ली जी.	01.12.2012
2591	6926046एफ	हवलदार	चंद्रा सेकार वी	01.10.2012
2592	6926419के	हवलदार	चंद्रा शेखर पीई	01.01.2013
2593	6926176के	हवलदार	चरण लाल शर्मा	01.12.2012
2594	6926334एन	हवलदार	दया नन्द	01.12.2012
2595	6926058डब्ल्यू	हवलदार	धन सिंह	01.10.2012
2596	6925863एन	हवलदार	धर्म पाल सिंह	01.09.2012
2597	6926599एक्स	हवलदार	ध्रुवा चंद्रा पैटरो	01.01.2013
2598	6926570पी	हवलदार	दिनेश कुमार मिश्रा	01.01.2013
2599	6925835एफ	हवलदार	डूंगर सिंह इनडे	01.09.2012
2600	6929670एल	हवलदार	जी. बालाकृष्णन	01.12.2012
2601	6926003एम	हवलदार	जी. लक्ष्मन राव	01.10.2012
2602	13971199एम	हवलदार	जी. महादेव निवरुत्ती	01.01.2013
2603	6928210एक्स	हवलदार	जी. सुरेश दादा भाउ	01.09.2012

2604	6925981एफ	हवलदार	गोपाल कृष्णन ई	01.10.2012
2605	6925864डब्ल्यू	हवलदार	जी. चंद्रा बर्मन	01.09.2012
2606	6926591एल	हवलदार	गोड चंद्रा मोन्डल	01.01.2013
2607	6926274के	हवलदार	हीरा बहादुर छत्री	01.12.2012
2608	13969942एक्स	हवलदार	एच राम	01.10.2012
2609	6925819के	हवलदार	इकितदार अली खान	01.09.2012
2610	6926383डब्ल्यू	हवलदार	जागर नाथ राम	01.12.2012
2611	6926080एफ	हवलदार	जगबीर सिंह	01.11.2012
2612	6926493एल	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2013
2613	6926116पी	हवलदार	जय चन्द	01.11.2012
2614	6926235एल	हवलदार	जसवंत सिंह	01.12.2012
2615	6926607एल	हवलदार	जतेन्द्रा सिंह	01.01.2013
2616	6926535एम	हवलदार	झाल मान सिंह	01.01.2013
2617	6926365एन	हवलदार	जे सिंह	01.12.2012
2618	6926120एक्स	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2012
2619	6929466एम	हवलदार	कालिका प्रसाद सिंह	01.09.2012
2620	6926345ए	हवलदार	कर्म सिंह	01.12.2012
2621	6926594वाइ	हवलदार	केशव प्रसाद	01.01.2013
2622	6926175एफ	हवलदार	खुशीद आलम	01.12.2012
2623	6926205एन	हवलदार	कुलदीप कुमार शर्मा	01.12.2012
2624	13971376एफ	हवलदार	लाल सिंह	01.01.2013
2625	6926656एन	हवलदार	लाल सिंह	01.01.2013
2626	6926252एल	हवलदार	लव कुश	01.12.2012
2627	6926149ए	हवलदार	एल पंडा	01.11.2012
2628	6926240डब्ल्यू	हवलदार	मान सिंह	01.12.2012
2629	6926192एफ	हवलदार	माने राम	01.12.2012
2630	6926605ए	हवलदार	मनिन्द्र नाथ तरफदार	01.01.2013
2631	6926396एन	हवलदार	एम कुमार सिंह	01.01.2013
2632	6929094एम	हवलदार	एम विजय बाबा	01.01.2013
2633	6926568एक्स	हवलदार	माता शरण पांडे	01.01.2013
2634	6926390एम	हवलदार	मेवा लाल	01.12.2012
2635	6926200पी	हवलदार	एन गनाना मूर्ती	01.12.2012
2636	6926699एच	हवलदार	नाबा कांता बौराह	01.01.2013
2637	6926597एम	हवलदार	नाबा कुमार विश्वास	01.01.2013
2638	6926511एच	हवलदार	नगेन्द्र प्रसाद	01.01.2013
2639	6926464डब्ल्यू	हवलदार	नारायण सिंह	01.01.2013
2640	6925862एल	हवलदार	नित्यानन्दा परही	01.09.2012
2641	6925894एन	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.10.2012
2642	6925927एन	हवलदार	पड़वाल शिवाजी एकनाथ	01.10.2012
2643	6926043एन	हवलदार	पी राधा कुर्णी उत्तातम राव	01.10.2012
2644	6926507ए	हवलदार	पीतम सिंह	01.01.2013

2645	6926687एन	हवलदार	पूरन मल हरिजन	01.01.2013
2646	6926685एच	हवलदार	प्रदायत कुमार मैती	01.01.2013
2647	6926148एक्स	हवलदार	पी विश्वास	01.11.2012
2648	6925800एल	हवलदार	आर एलांगुवान	01.09.2012
2649	6926696एन	हवलदार	रबीन्द्र नाथ बाला	01.01.2013
2650	6929700एक्स	हवलदार	राधे शाम	01.01.2013
2651	6926193के	हवलदार	राज कुमार	01.12.2012
2652	6926672एल	हवलदार	राज कुमार वर्मा	01.01.2013
2653	6926586ए	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2013
2654	6926439एक्स	हवलदार	राजेन्द्रन पी	01.01.2013
2655	6926357पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.12.2012
2656	6926362ए	हवलदार	रज्जन लाल वर्मा	01.12.2012
2657	6926090एल	हवलदार	रक्षपाल सिंह	01.11.2012
2658	6926688एक्स	हवलदार	राम ए सोनी	01.01.2013
2659	6929623एन	हवलदार	राम चंद्र	01.12.2012
2660	6926243के	हवलदार	राम सीरोमणी जायसवाल	01.12.2012
2661	6926684ए	हवलदार	रमा नन्द	01.01.2013
2662	6925768एफ	हवलदार	रमा शंकर	01.09.2012
2663	13971354एच	हवलदार	रामदास कुशवाह	01.01.2013
2664	6926411एक्स	हवलदार	रामदेव मीना	01.01.2013
2665	6926332एच	हवलदार	रमेश चंद्रा कापरी	01.12.2012
2666	6929595एम	हवलदार	रमेश चंद्रा मिश्रा	01.11.2012
2667	6926427एच	हवलदार	रामपाल सिंह	01.10.2012
2668	6926430एच	हवलदार	रणधीर सिंह	01.01.2013
2669	6925953पी	हवलदार	रंजीत कुमार राय	01.10.2012
2670	6925821एफ	हवलदार	आर सिंह कुशवाहा	01.09.2012
2671	6926194एम	हवलदार	रनवीर सिंह	01.12.2012
2672	6925858एच	हवलदार	रतन कुमार बोस	01.09.2012
2673	6926284एन	हवलदार	रवि प्रताप सिंह	01.12.2012
2674	6926029एफ	हवलदार	रेवी पी डी.	01.10.2012
2675	6926123एल	हवलदार	आर आर खान	01.11.2012
2676	6925832एन	हवलदार	रोहताश कुमार	01.09.2012
2677	6926448वाइ	हवलदार	एस एस चक्रवर्ती	01.01.2013
2678	6929653एल	हवलदार	साबू यू	01.12.2012
2679	6926595एफ	हवलदार	साजल राय	01.01.2013
2680	6926291के	हवलदार	संथू राम यादव	01.12.2012
2681	6926245पी	हवलदार	सत पाल सिंह	01.12.2012
2682	6926001एफ	हवलदार	सतीश कुमार के	01.10.2012
2683	6925796एन	हवलदार	सत्यबीर सिंह	01.09.2012
2684	6926386के	हवलदार	सेवान यादव	01.12.2012
2685	6926028वाइ	हवलदार	शाहाजन वी थामस	01.10.2012

2686	6926548के	हवलदार	शंकर दयाल मिश्रा	01.01.2013
2687	6926093वाइ	हवलदार	श्रवण कुमार मिश्रा	01.11.2012
2688	6926141एन	हवलदार	एस मलप्पा शिगुनाशी	01.11.2012
2689	6926602एम	हवलदार	सीमांचल एन	01.01.2013
2690	6926584पी	हवलदार	सोमेन भट्टाचार्य	01.01.2013
2691	6929527वाइ	हवलदार	श्री एन बेहेरा	01.10.2012
2692	6928195एन	हवलदार	सुभाष चन्द शर्मा	01.10.2012
2693	6926617पी	हवलदार	सुभाष चंद्रा शर्मा	01.01.2013
2694	6926677के	हवलदार	सुधीर कुमार पारीजा	01.01.2013
2695	6925793ए	हवलदार	सुक देव चटजी	01.09.2012
2696	6926371एफ	हवलदार	सुख रतन	01.12.2012
2697	6926136एच	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.11.2012
2698	6926042एल	हवलदार	स्वप्न कुमार चौधरी	01.10.2012
2699	6926589एन	हवलदार	स्वप्न कुमार ज्ञाना	01.01.2013
2700	6926657डब्ल्यू	हवलदार	उपेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2013
2701	6926503के	हवलदार	उत्तातम चक्रवर्ती	01.01.2013
2702	6926461एच	हवलदार	वी एन	01.01.2013
2703	6925773एम	हवलदार	वेद प्रकाश शर्मा	01.09.2012
2704	6926544एन	हवलदार	विजय कुमार	01.01.2013
2705	6926601के	हवलदार	विक्रमा जीत सिंह	01.01.2013
2706	6926241वाइ	हवलदार	विनोद कुमार	01.12.2012
2707	6926604एक्स	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.01.2013
<u>कोर्पस इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल</u>				

2708	14601244एन	हवलदार	ए श्रीनिवास जया कुमार	01.12.2012
2709	14599695एम	हवलदार	अभिराम मिश्रा	01.10.2012
2710	14601840ए	हवलदार	ए पटनायक	01.01.2013
2711	14599471एम	हवलदार	आबू टी	01.10.2012
2712	14599199एल	हवलदार	अबुल कलाम मंडल	01.11.2012
2713	14600298एच	हवलदार	अहिबेरन सिंह	01.11.2012
2714	14597918ए	हवलदार	अजय कुमार दुबे	01.10.2012
2715	14613266वाइ	हवलदार	अजय कुमार तिवारी	01.12.2012
2716	14601419एल	हवलदार	अजीत राज	01.01.2013
2717	14601019वाइ	हवलदार	अलख प्रकाश	01.12.2012
2718	14598639एफ	हवलदार	अमल कुमार विश्वास	01.09.2012
2719	14601445एम	हवलदार	अमल कुमार मंडल	01.01.2013
2720	14601933पी	हवलदार	अमल शुक्ला बैद्य	01.01.2013
2721	14598131एक्स	हवलदार	अमर सिंह	01.09.2012
2722	14597257एल	हवलदार	अमर सिंह शाकयावर	01.10.2012
2723	14600077डब्ल्यू	हवलदार	अमरनाथ सिंह	01.11.2012
2724	14599502एफ	हवलदार	अमीर अली	01.10.2012

2725	145969942के	हवलदार	अमीर चन्द	01.09.2012
2726	14600267एच	हवलदार	अमीरुल हुक मजूमदार	01.11.2012
2727	14600270एच	हवलदार	अमिताभ के	01.11.2012
2728	14598482एम	हवलदार	अंचल कुमार	01.09.2012
2729	14597857एन	हवलदार	अनिल चंद्रा घोष	01.10.2012
2730	14598442एल	हवलदार	अनिल कुमार	01.10.2012
2731	14601111एक्स	हवलदार	अनिल कुमार मिश्रा	01.11.2012
2732	14599518एम	हवलदार	अनिल कुमार पी	01.10.2012
2733	14598205एफ	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.09.2012
2734	14599597एम	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.10.2012
2735	14602930एन	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.01.2013
2736	14599398वाइ	हवलदार	अनूप कुमार शर्मा	01.10.2012
2737	14598317एफ	हवलदार	अनूप कुमार	01.09.2012
2738	14599583एम	हवलदार	अरुण कुमार नाथ	01.10.2012
2739	14600080डब्ल्यू	हवलदार	आशीश सिंह	01.11.2012
2740	14599590एच	हवलदार	अशोक एवी	01.10.2012
2741	14599652एक्स	हवलदार	अशोक कुमार एम	01.12.2012
2742	14597916पी	हवलदार	अशोक कुमार पांडे	01.10.2012
2743	14599944ए	हवलदार	अशोक कुमार तिवारी	01.12.2012
2744	14613054एन	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.11.2012
2745	14598641वाइ	हवलदार	असीम कुमार विश्वास	01.09.2012
2746	14598795एल	हवलदार	अशोकन सी	01.09.2012
2747	14601042एम	हवलदार	अशोकन पीवी	01.12.2012
2748	14599667ए	हवलदार	ए रहमान	01.10.2012
2749	14598496एम	हवलदार	अवधेश कुमार	01.09.2012
2750	14612903एक्स	हवलदार	अवधेश कुमार	01.09.2012
2751	14598370एम	हवलदार	अयोध्या प्रसाद तिवारी	01.09.2012
2752	14600676डब्ल्यू	हवलदार	बब्लू बर्मन	01.12.2012
2753	14599596के	हवलदार	बादाम सिंह यादव	01.10.2012
2754	14598536एच	हवलदार	बाम बहादुर अले	01.09.2012
2755	14598955ए	हवलदार	बंदा अमरुता रेडी	01.10.2012
2756	14601911डब्ल्यू	हवलदार	भाबेण नाथ	01.01.2013
2757	14601926वाइ	हवलदार	भाग चन्द	01.01.2013
2758	14598884के	हवलदार	भागवत बेहुरिया	01.10.2012
2759	14598604एल	हवलदार	भगत लक्ष्मन बापू	01.09.2012
2760	14600108एल	हवलदार	भागीरथी महापात्रा	01.11.2012
2761	14597010के	हवलदार	भागु राम देवासी	01.09.2012
2762	14599591एल	हवलदार	भरत सिंह	01.10.2012
2763	14600869डब्ल्यू	हवलदार	बी कुमार	01.12.2012
2764	14600886डब्ल्यू	हवलदार	भीम राज नगर	01.12.2012
2765	14597787ए	हवलदार	भोपाल सिंह बलवान	01.09.2012



2766	14598380डब्ल्यू	हवलदार	भूदेव सिंह	01.09.2012
2767	8031945एच	हवलदार	बी नाथ शर्मा	01.09.2012
2768	14597581एच	हवलदार	बिजय प्रसाद	01.10.2012
2769	14599319वाइ	हवलदार	बिजेंद्र सिंह	01.10.2012
2770	14600457पी	हवलदार	बिजय कुमार कोच	01.12.2012
2771	14600522के	हवलदार	बिन्ध्याचल सिंह	01.12.2012
2772	14600613एन	हवलदार	बिंदेश	01.12.2012
2773	14613350वाइ	हवलदार	बिपिन कुमार	01.12.2012
2774	14596992पी	हवलदार	बिपुल चंद्रा दास	01.09.2012
2775	14596774डब्ल्यू	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.09.2012
2776	14600763के	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.12.2012
2777	14599488ए	हवलदार	बिशन दास	01.10.2012
2778	14599284एन	हवलदार	ब्रम स्वरूप	01.11.2012
2779	14600089एल	हवलदार	बृज भूषण	01.11.2012
2780	14597886एच	हवलदार	बी घोष	01.10.2012
2781	14601129एन	हवलदार	बुध्दन राय	01.11.2012
2782	14596952एन	हवलदार	सी मुरुगन	01.09.2012
2783	14599860एम	हवलदार	सी नाग भुषनाम	01.11.2012
2784	14599845एक्स	हवलदार	चंद्र महेश	01.11.2012
2785	14597617डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रा भूषण ठाकुर	01.10.2012
2786	14601535एन	हवलदार	चंद्रा देव मेहता	01.01.2013
2787	14599320एन	हवलदार	चंद्रा पाल	01.10.2012
2788	14601449एच	हवलदार	चंद्रा शेखर	01.01.2013
2789	14601416एक्स	हवलदार	चरण सिंह	01.01.2013
2790	14599037ए	हवलदार	चौधरी संतोष बाजीराव	01.10.2012
2791	14597822एक्स	हवलदार	चव्हाण रामचंद्र भीमराव	01.10.2012
2792	14601458के	हवलदार	छतर पाल	01.01.2013
2793	14600126एन	हवलदार	छेदी लाल यादव	01.11.2012
2794	14600672ए	हवलदार	छोटे लाल	01.12.2012
2795	14597910एन	हवलदार	कांग्रेस दकुआ	01.10.2012
2796	14599708वाइ	हवलदार	डी. रवि	01.10.2012
2797	7775226ए	हवलदार	दलबीर सिंह	01.01.2013
2798	14597781वाइ	हवलदार	दयाशंकर विश्वाकर्मा	01.09.2012
2799	14598748एन	हवलदार	देबेन्द्र नाथ सारंगी	01.11.2012
2800	14596943एम	हवलदार	देश राज	01.09.2012
2801	14601450एक्स	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.01.2013
2802	14601882एम	हवलदार	देवपाल सिंह	01.01.2013
2803	14600054पी	हवलदार	देवराज सिंह	01.11.2012
2804	14613470एक्स	हवलदार	डी. कुमार सिंह	01.01.2013
2805	14598519एच	हवलदार	धर्म चन्द	01.09.2012
2806	14600110एच	हवलदार	धर्मबीर	01.11.2012

2807	14598424एच	हवलदार	धर्मिन्दर सिंह	01.11.2012
2808	14598550पी	हवलदार	धरूवा नारायण सिंह	01.09.2012
2809	14601205पी	हवलदार	दिलीप कुमार यादव	01.12.2012
2810	14600406एफ	हवलदार	दिलीप कुमार दास	01.12.2012
2811	14596968वाइ	हवलदार	दिलीप कुमार माझी	01.09.2012
2812	14599682पी	हवलदार	दिलीप पौल	01.10.2012
2813	14601910एन	हवलदार	दिनेश चंद्रा शर्मा	01.01.2013
2814	14600733एम	हवलदार	दिनेश चौधरी	01.12.2012
2815	14599289एम	हवलदार	दिनेश प्रसाद सिंह	01.11.2012
2816	14599169एन	हवलदार	दीप चंद्रा	01.11.2012
2817	14599766एच	हवलदार	दीपक कुमार आर	01.10.2012
2818	14598459वाइ	हवलदार	दीवान सिंह बिस्ट	01.09.2012
2819	14600118पी	हवलदार	फोजदार यादव	01.11.2012
2820	14597858डब्ल्यू	हवलदार	फोजी राम	01.10.2012
2821	14597018डब्ल्यू	हवलदार	जी. जयरामन	01.09.2012
2822	14598436एक्स	हवलदार	जी. कादर कराई	01.11.2012
2823	14613011वाइ	हवलदार	जी. कृष्णा मूर्ती	01.11.2012
2824	14600443पी	हवलदार	जी. राम मोहन	01.12.2012
2825	14599468एम	हवलदार	गनेश चंद्रा रौय	01.10.2012
2826	14600526ए	हवलदार	गनेश दत्ता चोबे	01.12.2012
2827	14598930एन	हवलदार	गनेश पांडे	01.10.2012
2828	14599031वाइ	हवलदार	गवाली लहु राम चंद्रा	01.10.2012
2829	14596664एफ	हवलदार	जी. कुमार	01.09.2012
2830	14598464के	हवलदार	गिरीश चंद्रा जोशी	01.09.2012
2831	14602936पी	हवलदार	गोपीनाथ बेहेरा	01.01.2013
2832	14597789एल	हवलदार	ग्यासुद्दीन	01.09.2012
2833	14598537एल	हवलदार	एच मुन्नू स्वामी	01.09.2012
2834	14612945के	हवलदार	हजारी राम	01.09.2012
2835	14600287डब्ल्यू	हवलदार	हंस राज	01.11.2012
2836	14600032डब्ल्यू	हवलदार	हर सिंह	01.11.2012
2837	14613300एन	हवलदार	हरधन विश्वास	01.12.2012
2838	14598596एक्स	हवलदार	हरबंस सिंह	01.09.2012
2839	14600512ए	हवलदार	हरी कुमार एन	01.12.2012
2840	14603944ए	हवलदार	हरी लाल	01.01.2013
2841	14598385पी	हवलदार	हरी शंकर	01.09.2012
2842	14597359एफ	हवलदार	हरीबल्लभ	01.10.2012
2843	14600250पी	हवलदार	हरिनाम	01.11.2012
2844	14596688एल	हवलदार	हरिद्रा नाथ	01.09.2012
2845	14599768एन	हवलदार	हरीश चंद्रा राम	01.11.2012
2846	14598848वाइ	हवलदार	एच सिंह	01.09.2012
2847	14598456एल	हवलदार	हेयाद सिंह	01.09.2012

2848	14599044डब्ल्यू	हवलदार	हेम सिंह	01.10.2012
2849	14598556डब्ल्यू	हवलदार	हीरा लाल	01.09.2012
2850	14597247एफ	हवलदार	होशियार सिंह	01.10.2012
2851	14597337एच	हवलदार	हृदय नन्द सिंह	01.10.2012
2852	14601068एफ	हवलदार	आइ विजया कुमार	01.12.2012
2853	14599133पी	हवलदार	इन्द्रा देव प्रसाद	01.10.2012
2854	14598386एक्स	हवलदार	इशत्याक अहमद	01.09.2012
2855	14597782एफ	हवलदार	इश्वर सिंह	01.09.2012
2856	14599432एन	हवलदार	जादव चंद्रा कलिता	01.11.2012
2857	14599628एफ	हवलदार	जाधव गजानन तुकाराम	01.10.2012
2858	14599616एम	हवलदार	जगत नासयण	01.10.2012
2859	14597801एफ	हवलदार	जगदीश शर्मा	01.09.2012
2860	14598484एक्स	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.09.2012
2861	14601923एल	हवलदार	जगवीर सिंह	01.01.2013
2862	14598831एल	हवलदार	जय सिंह	01.09.2012
2863	14599382एन	हवलदार	जय सिंह यादव	01.10.2012
2864	14600196एम	हवलदार	जाले सिंह कुम्हार	01.11.2012
2865	14613286एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.12.2012
2866	14596644एन	हवलदार	जवाहर लाल साह	01.09.2012
2867	14600160एन	हवलदार	जय नासयण पांडे	01.11.2012
2868	14599405के	हवलदार	जया किशोर तिवारी	01.10.2012
2869	14613023एन	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.11.2012
2870	14598275ए	हवलदार	जितेन्द्र तिवारी	01.09.2012
2871	14601324एल	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.01.2013
2872	14597772एक्स	हवलदार	जोगेश्वर साहू	01.09.2012
2873	14597003एन	हवलदार	जॉय राम डेका	01.09.2012
2874	14601067वाइ	हवलदार	के डेविड राज	01.12.2012
2875	14599699एच	हवलदार	के रवि	01.10.2012
2876	14600410के	हवलदार	केसर खान	01.12.2012
2877	14597898एक्स	हवलदार	कमल किशोर प्रसाद	01.10.2012
2878	14613486एच	हवलदार	कमल कुमार घोष	01.01.2013
2879	14600503वाइ	हवलदार	कमल सिंह	01.12.2012
2880	14599550एफ	हवलदार	कमलान सिंह यादव	01.10.2012
2881	14599234एच	हवलदार	करतार चन्द	01.11.2012
2882	14597827डब्ल्यू	हवलदार	कोल राम	01.10.2012
2883	14599346ए	हवलदार	कोमल दास	01.10.2012
2884	14597875डब्ल्यू	हवलदार	कुमार अहमद	01.10.2012
2885	14600041एक्स	हवलदार	कुमार सिंह	01.11.2012
2886	14601802के	हवलदार	किरण मोमोई	01.01.2013
2887	14598840एम	हवलदार	कोल्हे भगवत साध साहेब	01.09.2012
2888	14600962एक्स	हवलदार	कमल चंद	01.12.2012

2889	14599180एम	हवलदार	कष्णन कुमार	01.11.2012
2890	14600273डब्ल्यू	हवलदार	कुलदीप कुमार	01.11.2012
2891	14602961एन	हवलदार	कुमार सीताराम एम	01.01.2013
2892	14599716एक्स	हवलदार	कुन्ही कानन्न एन	01.10.2012
2893	14597288एल	हवलदार	किरियाचन सांसद	01.10.2012
2894	14599268डब्ल्यू	हवलदार	लाल बाबू सिंह यादव	01.11.2012
2895	14600866एच	हवलदार	लाल मनी पांडे	01.12.2012
2896	14600358एम	हवलदार	लाला लाजपथ राउत	01.11.2012
2897	14598311ए	हवलदार	लाला राम	01.09.2012
2898	14596793एफ	हवलदार	एल नागराजू	01.09.2012
2899	14599565के	हवलदार	लक्ष्मी मंडल	01.10.2012
2900	14599626डब्ल्यू	हवलदार	एम गोविन्द राजूलू	01.10.2012
2901	14598553एच	हवलदार	एम पांडि	01.09.2012
2902	14599971के	हवलदार	एम रामामूर्ती रेडी	01.11.2012
2903	14600008ए	हवलदार	मदन लाल	01.11.2012
2904	14598226एक्स	हवलदार	मदन लाल शर्मा	01.09.2012
2905	14600046डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर गिरि	01.11.2012
2906	14600073ए	हवलदार	महादेव धोंडिबा सावन्त	01.11.2012
2907	14600711एन	हवलदार	महेंद्र प्रसाद सिंह	01.12.2012
2908	14599536पी	हवलदार	महावीर प्रसाद यादव	01.10.2012
2909	14598285के	हवलदार	महेंद्र कुमार शर्मा	01.09.2012
2910	14600720पी	हवलदार	महेंद्र नाथ जी.	01.12.2012
2911	14599325एम	हवलदार	महेंद्र पाल सिंह	01.10.2012
2912	14600879ए	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.12.2012
2913	14598952एम	हवलदार	महेन्द्रन के	01.10.2012
2914	14598535ए	हवलदार	महेश बाबू	01.09.2012
2915	14601082एन	हवलदार	महीपाल सिंह रावत	01.01.2013
2916	14600082एफ	हवलदार	मकसुदन सिंह यादव	01.11.2012
2917	14598686वाइ	हवलदार	एम धीरजलाल के	01.09.2012
2918	14600697एम	हवलदार	मानिक चंद्रा मैती	01.12.2012
2919	14598435पी	हवलदार	मनोहरन जी.	01.11.2012
2920	14598483पी	हवलदार	मनोहर लाल	01.09.2012
2921	14600714एफ	हवलदार	मनोहर सिंह	01.12.2012
2922	14599586ए	हवलदार	मनोज कुमार	01.10.2012
2923	14601593एक्स	हवलदार	मनोज कुमार	01.01.2013
2924	14600505के	हवलदार	मानवेन्द्र कुमार	01.12.2012
2925	14600513एच	हवलदार	एम प्रभाकर रमेश	01.12.2012
2926	14600382एच	हवलदार	मारिआ सुसाइ	01.12.2012
2927	14598332डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद ए हुसैन	01.09.2012
2928	14599575एन	हवलदार	मोहम्मद रफीक	01.10.2012
2929	14601675ए	हवलदार	मीना के राव कोना	01.01.2013

2930	14598413डब्ल्यू	हवलदार	एम कुमार सिंह	01.09.2012
2931	14599574एल	हवलदार	मोहन कुमार सिंह	01.10.2012
2932	14598703एन	हवलदार	मोहन लाल	01.11.2012
2933	14601221एम	हवलदार	मोहन यादव	01.12.2012
2934	14598440ए	हवलदार	मोहानन पी	01.11.2012
2935	14599011एल	हवलदार	मोहर सिंह	01.10.2012
2936	14599187डब्ल्यू	हवलदार	मोरे विष्णु एन	01.11.2012
2937	14599181पी	हवलदार	मोतीलाल	01.11.2012
2938	14613013के	हवलदार	मुख्त्यार सिंह	01.11.2012
2939	14600293के	हवलदार	मूल सिंह	01.11.2012
2940	14598145एक्स	हवलदार	मुनेनदर पाल	01.09.2012
2941	14599135ए	हवलदार	मुरारी सिंह	01.10.2012
2942	14599322वाइ	हवलदार	नन्द लाल	01.10.2012
2943	14598696एच	हवलदार	नंदजी चौधरी	01.11.2012
2944	14602966एम	हवलदार	नंदलाल केसरी	01.01.2013
2945	14600427एक्स	हवलदार	नारायण देबनाथ	01.12.2012
2946	14600025ए	हवलदार	नरेंदर कुमार	01.11.2012
2947	14600016वाइ	हवलदार	नरेंदर सिंह	01.11.2012
2948	14612976के	हवलदार	नरेश कुमार	01.10.2012
2949	14600453वाइ	हवलदार	निधु लाल सेन	01.11.2012
2950	14598269एम	हवलदार	एन रौय	01.09.2012
2951	14600885एन	हवलदार	निरंजन सिंह राजपूत	01.12.2012
2952	14600308एफ	हवलदार	निर्मल चंद्रा परीद	01.11.2012
2953	14598268के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2012
2954	14597242एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2012
2955	14600935एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.12.2012
2956	14600310वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2012
2957	14598135एन	हवलदार	ओमवीर सिंह	01.09.2012
2958	14613199वाइ	हवलदार	पी गोपीनाथ	01.11.2012
2959	14600150के	हवलदार	पी लक्ष्मणन	01.11.2012
2960	14613340पी	हवलदार	पी मरिमुथु	01.12.2012
2961	14601212एल	हवलदार	पी मुरुगावल	01.12.2012
2962	14599600एफ	हवलदार	पी राज मोहन	01.10.2012
2963	14600977ए	हवलदार	पी श्रीनिवास कुमार	01.12.2012
2964	14598591वाइ	हवलदार	पंकजाकेशा कुरुप वीआर	01.09.2012
2965	14601780डब्ल्यू	हवलदार	पी रमना बाबू	01.01.2013
2966	14598568एल	हवलदार	पी राय	01.09.2012
2967	14598042वाइ	हवलदार	पटेल प्रकाश भाई एन भाई	01.10.2012
2968	14598918एम	हवलदार	पाटिल अशोक विथोवा	01.10.2012
2969	14600755एल	हवलदार	पी अप्पला नायडू	01.12.2012 <sup>E</sup>
2970	14598379एफ	हवलदार	पवन कुमार	01.09.2012

2971	14598255एम	हवलदार	पजानिया ए	01.09.2012
2972	14598533पी	हवलदार	पी पोल्हिया	01.09.2012
2973	14599864एच	हवलदार	पिल्ला पी	01.11.2012
2974	14601085एफ	हवलदार	पूरन सिंह	01.01.2013
2975	14601850के	हवलदार	प्रभु दयाल पाल	01.01.2013
2976	14612929एम	हवलदार	प्रदीप कुमार बर्मन	01.09.2012
2977	14601527पी	हवलदार	प्रद्युम्न कुमार सामल	01.01.2013
2978	14599470के	हवलदार	प्रफुल्ल कुमार परीद	01.10.2012
2979	14599100के	हवलदार	प्रहलाद प्रसाद यादव	01.10.2012
2980	14598599एल	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.09.2012
2981	14598318के	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.09.2012
2982	14600269एन	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.11.2012
2983	14599339एम	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.10.2012
2984	14600350ए	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.11.2012
2985	14597887एल	हवलदार	प्रमोद कुमार सिन्हा	01.10.2012
2986	14599990पी	हवलदार	प्रशांता कुमार पी	01.11.2012
2987	14597013एक्स	हवलदार	प्रेम चंद्रा	01.09.2012
2988	14597803एम	हवलदार	प्रेम पाल सिंह	01.09.2012
2989	14599621एक्स	हवलदार	प्रेम शंकर दुबे	01.10.2012
2990	14598028एम	हवलदार	प्रेम सिंह	01.09.2012
2991	14599159के	हवलदार	प्रेम सिंह	01.11.2012
2992	14599167एच	हवलदार	प्रेसाना कुमार नायर केआर	01.11.2012
2993	14597848एम	हवलदार	पी एन शर्मा	01.10.2012
2994	14601895के	हवलदार	प्रोबीन चंद्रा गोगोई	01.01.2013
2995	14600754एच	हवलदार	पुनयादयो सिंह	01.12.2012
2996	14601542के	हवलदार	पूर्णा चंद्रा राउत	01.01.2013
2997	14597338एल	हवलदार	आर अरिवालागन	01.10.2012
2998	14598555एन	हवलदार	आर राधा कृष्णन	01.09.2012
2999	14601202एफ	हवलदार	आर शानमुगा सुंदरम	01.12.2012
3000	14598716एल	हवलदार	आर सुब्बू राज	01.11.2012
3001	14600612एल	हवलदार	रबींद्र सिंह यादव	01.12.2012
3002	14598684एन	हवलदार	रबीन्द्र कुमार	01.09.2012
3003	14596964एच	हवलदार	रबीन्द्र कुमार गिरि के	01.09.2012
3004	14600068पी	हवलदार	रछपाल सिंह	01.11.2012
3005	14599160वाइ	हवलदार	राधा कृष्णन नायर एस	01.11.2012
3006	14598181एच	हवलदार	राधाकान्ता पंडा	01.09.2012
3007	14601102डब्ल्यू	हवलदार	राधे श्याम सिंह	01.11.2012
3008	8031906के	हवलदार	राधिका मोहन पन्ती	01.09.2012
3009	14599765ए	हवलदार	रघु नाथ रौय	01.10.2012
3010	14612887एल	हवलदार	रघुनाथन नायर एस	01.09.2012
3011	14599045वाइ	हवलदार	राहेश सिंह	01.10.2012

3012	14599178के	हवलदार	राज बहादुर सिंह	01.11.2012
3013	14601131एल	हवलदार	राज किशोर यादव	01.11.2012
3014	14613128एक्स	हवलदार	राज कुमार मिश्रा	01.11.2012
3015	14598184डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.09.2012
3016	14598518ए	हवलदार	राज कुमार सिंह यादव	01.09.2012
3017	14596999वाइ	हवलदार	राज कुमार सिंघा	01.09.2012
3018	14600256डब्ल्यू	हवलदार	राज सिंह	01.11.2012
3019	14601756ए	हवलदार	राजन के टी	01.01.2013
3020	14598284एफ	हवलदार	राजन सिंह	01.09.2012
3021	14599008एल	हवलदार	राजावेल जे	01.10.2012
3022	14600575एच	हवलदार	राजबीर सिंह	01.12.2012
3023	14600815पी	हवलदार	राजबीर सिंह	01.12.2012
3024	14600910एफ	हवलदार	राजेन सेकिआ	01.12.2012
3025	14601351पी	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.01.2013
3026	14599075डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद पटेल	01.10.2012
3027	14600611एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2012
3028	14597230एन	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.09.2012
3029	14599444एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.11.2012
3030	14600827के	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2012
3031	14597866पी	हवलदार	राजेश के	01.10.2012
3032	14599849एन	हवलदार	राजेश कुमार	01.11.2012
3033	14601648डब्ल्यू	हवलदार	राजेश मनी पांडे	01.01.2013
3034	14598239पी	हवलदार	राजेश सिंह	01.09.2012
3035	14599853डब्ल्यू	हवलदार	राजेश सिंह ठाकुर	01.11.2012
3036	14597834एम	हवलदार	राजेश्वर पांडे	01.10.2012
3037	14599993एच	हवलदार	राजेश्वर सिंह	01.11.2012
3038	14600302ए	हवलदार	राजीव कुमार शर्मा	01.11.2012
3039	14599615के	हवलदार	आर	01.10.2012
3040	14602926एल	हवलदार	राकेश चंद्रा	01.01.2013
3041	14599286वाइ	हवलदार	राकेश कुमार	01.11.2012
3042	14597896एम	हवलदार	राकेश कुमार	01.10.2012
3043	14597342एन	हवलदार	राकेश कुमार मिश्रा	01.10.2012
3044	14598594एम	हवलदार	राम आसरा वर्मा	01.09.2012
3045	14598428वाइ	हवलदार	राम आसरे राठोड़	01.11.2012
3046	14596632वाइ	हवलदार	राम बाबू सिंह	01.09.2012
3047	14596674एल	हवलदार	राम बहादुर	01.09.2012
3048	14600156एल	हवलदार	राम बी झा	01.11.2012
3049	14600939के	हवलदार	राम बिलास यादव	01.12.2012
3050	14598927एन	हवलदार	राम चैला यादव	01.10.2012
3051	14601516एच	हवलदार	राम दर्शन	01.01.2013
3052	14599173डब्ल्यू	हवलदार	राम इकबाल रजाक	01.11.2012

3053	14596963ए	हवलदार	राम जनम	01.09.2012
3054	14598243एक्स	हवलदार	राम कृष्णापाल यादव	01.09.2012
3055	14597826एन	हवलदार	राम लखन	01.10.2012
3056	14599873के	हवलदार	राम लाल	01.11.2012
3057	14600832पी	हवलदार	राम नरेश राय	01.12.2012
3058	14600863पी	हवलदार	राम नवल यादव	01.12.2012
3059	14601864के	हवलदार	राम निवास	01.01.2013
3060	14599894ए	हवलदार	राम निवास	01.12.2012
3061	14600592एच	हवलदार	राम प्रकाश सिंह	01.12.2012
3062	14599331ए	हवलदार	राम राज्य सिंह	01.10.2012
3063	14597305ए	हवलदार	राम समुन्द्र शुक्ला	01.10.2012
3064	14601852पी	हवलदार	राम विलास	01.01.2013
3065	14600371डब्ल्यू	हवलदार	राम वीर मिश्रा	01.11.2012
3066	14597295एफ	हवलदार	रमा चंद्रन पीवी	01.10.2012
3067	14599139डब्ल्यू	हवलदार	रमा कांत यादव	01.10.2012
3068	14598460एन	हवलदार	रमन चंद्र धर्वाल	01.09.2012
3069	14597591एम	हवलदार	रामआशीष यादव	01.10.2012
3070	14598324के	हवलदार	रामवतर	01.09.2012
3071	14600206एल	हवलदार	रामायण प्रसाद पी	01.11.2012
3072	14600596वाइ	हवलदार	रामबीर सिंह यादव	01.12.2012
3073	14600049के	हवलदार	आर सिंह यादव	01.11.2012
3074	14597020एन	हवलदार	रामचंद्र सिंह	01.09.2012
3075	14598932वाइ	हवलदार	रामेंदर यादव	01.10.2012
3076	14598595पी	हवलदार	रामेन्द्र कुमार त्रिपाठी	01.09.2012
3077	14597229वाइ	हवलदार	रमेश चंद्रा कुशवाहा	01.09.2012
3078	14613655वाइ	हवलदार	रमेश कुमार	01.01.2013
3079	14601924एन	हवलदार	रमेश सिंह एम	01.01.2013
3080	14601114एल	हवलदार	रामजी प्रसाद	01.11.2012
3081	14598387ए	हवलदार	रामजी लाल डी.	01.09.2012
3082	14597227एन	हवलदार	रामलखन सिंह	01.09.2012
3083	14600251एक्स	हवलदार	रामसागर	01.11.2012
3084	14597587के	हवलदार	राना प्रताप सिंह	01.10.2012
3085	14599563वाइ	हवलदार	आर नरेन्द्रा कुमार बी	01.10.2012
3086	14600590एक्स	हवलदार	रवि आनंद	01.12.2012
3087	14601258एन	हवलदार	रवि चंद्र	01.12.2012
3088	14599482वाइ	हवलदार	रवीन्द्र कुमार साह	01.10.2012
3089	14599509एल	हवलदार	आर वरघेसे	01.10.2012
3090	14598415एफ	हवलदार	ऋषि पाल	01.09.2012
3091	14598897एफ	हवलदार	रोहिणी कुमार	01.10.2012
3092	14598033एक्स	हवलदार	रोमेश चन्द	01.09.2012
3093	14599847एच	हवलदार	रूप लाल	01.11.2012



3094	14597262डब्ल्यू	हवलदार	आर लाल	01.10.2012
3095	14596930पी	हवलदार	साबू जोर्ज	01.09.2012
3096	14600171ए	हवलदार	सधन सरकार	01.11.2012
3097	14599516एफ	हवलदार	सलील कुमार ता	01.10.2012
3098	14599364एल	हवलदार	सल्लन प्रसाद	01.10.2012
3099	14613571एल	हवलदार	समर भट्टाचार्य	01.12.2012
3100	14597239एच	हवलदार	संदीप कुमार	01.09.2012
3101	14613659पी	हवलदार	संजय कुमार शुक्ला	01.01.2013
3102	14598522एच	हवलदार	संत राम	01.09.2012
3103	14599552एम	हवलदार	संतोष कुमार साहू	01.10.2012
3104	14598977वाइ	हवलदार	सरदार सिंह यादव	01.09.2012
3105	14600633एफ	हवलदार	ससिधरन पिल्लई के	01.12.2012
3106	14596657एल	हवलदार	सतीश कुमार	01.09.2012
3107	14601350एम	हवलदार	सत्य पाल सिंह	01.01.2013
3108	14598539डब्ल्यू	हवलदार	सीपाना राजा राव	01.09.2012
3109	14600153एक्स	हवलदार	शेखरा पिल्लई के	01.11.2012
3110	14599089डब्ल्यू	हवलदार	एस इश्वर डी.	01.10.2012
3111	14599925पी	हवलदार	शेख सिराज	01.12.2012
3112	1460035के	हवलदार	शंकर दत्त	01.11.2012
3113	14600387एफ	हवलदार	शंकर कुमार चौरसिया	01.12.2012
3114	14598367एम	हवलदार	शत्रुघन	01.09.2012
3115	14598401एफ	हवलदार	शत्रुघन सिंह	01.09.2012
3116	14596685एक्स	हवलदार	शेर सिंह	01.09.2012
3117	14601018डब्ल्यू	हवलदार	शेर सिंह यादव	01.12.2012
3118	14601749के	हवलदार	शिव शंकर पौल	01.01.2013
3119	14599275एम	हवलदार	शिशु कुमार	01.11.2012
3120	14598572एन	हवलदार	शिव चरण सिंह नेगी	01.09.2012
3121	14613225पी	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01.11.2012
3122	14600260वाइ	हवलदार	श्रवण कुमार	01.11.2012
3123	14599425एक्स	हवलदार	श्री भगवान शर्मा	01.10.2012
3124	14600386वाइ	हवलदार	श्री किशन चौहान	01.12.2012
3125	14600491पी	हवलदार	श्याम लाल	01.12.2012
3126	14598807पी	हवलदार	श्यामल कुमार सिंघा	01.09.2012
3127	14599606एच	हवलदार	सिकंदर सिंह	01.10.2012
3128	14598972ए	हवलदार	सिराजुद्दीन	01.09.2012
3129	14598957एल	हवलदार	एस बलरामी रेडी	01.10.2012
3130	14597021डब्ल्यू	हवलदार	सीता राम	01.09.2012
3131	14597596एल	हवलदार	सीता राम यादव	01.10.2012
3132	14598341एक्स	हवलदार	श्री केवल कण्ठन	01.09.2012
3133	14598451एम	हवलदार	एस गूजर	01.09.2012
3134	14600934एल	हवलदार	सुबाष चंद्रा	01.12.2012

3135	14599356एम	हवलदार	सुबाष चंद्रा सिंह	01.10.2012
3136	14601107पी	हवलदार	सूबे सिंह	01.11.2012
3137	14598132ए	हवलदार	सुबेदार सिंह	01.09.2012
3138	14598638वाइ	हवलदार	सुभाष विश्वास	01.09.2012
3139	14597344वाइ	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.10.2012
3140	14600198एक्स	हवलदार	सुबीर कुमार घोष	01.11.2012
3141	14602789एक्स	हवलदार	सुबीर पुरकायस्था	01.09.2012
3142	14598944एन	हवलदार	सुदर्शन सिंह	01.10.2012
3143	14600473एम	हवलदार	सुधाकर पांडे	01.12.2012
3144	14601331एफ	हवलदार	सुधीर झा	01.01.2013
3145	14601592पी	हवलदार	सुधीर कुमार	01.01.2013
3146	14598330एल	हवलदार	सुलखान सिंह	01.09.2012
3147	14598466पी	हवलदार	सुंदर सिंह दरियाल	01.09.2012
3148	14600455के	हवलदार	सुनील कुमार विश्वास	01.11.2012
3149	14600573एक्स	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.12.2012
3150	14601279के	हवलदार	सूरज पाल सिंह	01.12.2012
3151	14598520एक्स	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.09.2012
3152	14600536के	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	01.12.2012
3153	14599837वाइ	हवलदार	सुरेन्द्र पाल	01.11.2012
3154	14598893एल	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.10.2012
3155	14601580ए	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.01.2013
3156	14600950एच	हवलदार	सुरेन्द्रा राम	01.12.2012
3157	14601442वाइ	हवलदार	सुरेश चंद्रा तिवारी	01.01.2013
3158	14600601वाइ	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.12.2012
3159	14600547डब्ल्यू	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.12.2012
3160	14596792वाइ	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.09.2012
3161	14600330एम	हवलदार	सुशील कुमार राना	01.11.2012
3162	14599129एम	हवलदार	टी गजानन विथोवा	01.10.2012
3163	14601521एन	हवलदार	तारा चन्द	01.01.2013
3164	14599420वाइ	हवलदार	तेज कुमार शर्मा	01.10.2012
3165	14596633एफ	हवलदार	तेज नारायन महतो	01.09.2012
3166	14599731एम	हवलदार	ठाकुर जैना भाई पंजा भाई	01.10.2012
3167	14598123वाइ	हवलदार	ठाकुर सिंह करायाद	01.09.2012
3168	14599497एफ	हवलदार	थामस पी डेनिअल	01.10.2012
3169	14597590के	हवलदार	तिलक राज शर्मा	01.10.2012
3170	14601849पी	हवलदार	उदयबीर	01.01.2013
3171	14596945एक्स	हवलदार	उज्ज्वल शर्मा	01.09.2012
3172	14597017एन	हवलदार	उमेद सिंह	01.09.2012
3173	14599490एक्स	हवलदार	उन्नी कृष्णन एस	01.10.2012
3174	14598498एक्स	हवलदार	उपेंद्र प्रसाद	01.09.2012
3175	14598953पी	हवलदार	वी सत्यनारायना रेडी	01.10.2012

3176	14600806एन	हवलदार	वधेला प्रवीण कुमार एन भाई	01.12.2012
3177	14598032पी	हवलदार	वी सिम्मन्ना	01.09.2012
3178	14599209के	हवलदार	विजय कुमार	01.11.2012
3179	14601080एच	हवलदार	वीजेन्द्र सिंह	01.12.2012
3180	14600548वाइ	हवलदार	विनोद कुमार सिंह	01.12.2012
3181	14601040एफ	हवलदार	वी अनटोनी	01.12.2012
3182	14599435एफ	हवलदार	विरेंद्र कुमार	01.11.2012
3183	14600553के	हवलदार	विरेंद्र कुमार	01.12.2012
3184	14599617पी	हवलदार	विशराम सिंह	01.10.2012
3185	14600531एल	हवलदार	विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	01.12.2012
3186	14599083पी	हवलदार	यदू नाथ प्रसाद	01.10.2012
3187	14600383एल	हवलदार	यश पाल	01.12.2012
3188	14599084एक्स	हवलदार	वाइ स्वेन	01.10.2012
3189	14598675एम	हवलदार	यशवंत सिंह	01.09.2012
3190	14601617डब्ल्यू	हवलदार	झाला अमरुतलाल वी	01.01.2013
<u>सेना शिक्षा कोर</u>				

3191	9509916एम	हवलदार	इन्द्रा प्रसाद तिवारी	01.10.2012
3192	9509684वाइ	हवलदार	यू चलपति	01.09.2012
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				

3193	7240015डब्ल्यू	दफादार	औतार सिंह	01.12.2012
3194	7239893ए	दफादार	अवधेश कुमार	01.09.2012
3195	7239937एम	दफादार	अवध बिहारी सिंह	01.10.2012
3196	7239855के	हवलदार	बलवंत राय	01.09.2012
3197	7240018एक्स	दफादार	भाग्यावानजी चौधरी	01.12.2012
3198	7239986पी	दफादार	बिनय कुमार मिश्रा	01.11.2012
3199	7239875एक्स	दफादार	चंद्रा शेखर परमार	01.09.2012
3200	7239863एच	दफादार	चेत राम	01.09.2012
3201	7239927एच	दफादार	चिक्कान्ना सी एस	01.10.2012
3202	7239849डब्ल्यू	दफादार	दीना नाथ	01.09.2012
3203	7239891पी	दफादार	गणेश राम थोलिया	01.09.2012
3204	7239872के	हवलदार	काली राम	01.09.2012
3205	7240103एम	दफादार	केएएम बाबू	01.01.2013
3206	7239885एफ	दफादार	मंगल स्वरूप	01.09.2012
3207	7239856एम	दफादार	मोहम्मद नूर इस्लाम	01.09.2012
3208	7239892एक्स	दफादार	मुन्ना सिंह	01.09.2012
3209	7239878एल	दफादार	मुकून ए सी	01.09.2012
3210	7240009एच	दफादार	ओंकार चन्द	01.12.2012
3211	7239864एल	दफादार	पी रौल	01.09.2012
3212	7240032डब्ल्यू	दफादार	प्रेमानंद	01.12.2012

3213	7239912ए	दफादार	राम इकबाल भगत	01.09.2012
3214	7239874पी	दफादार	राम कष्णन	01.09.2012
3215	7240036एम	दफादार	राम सुरेश महतो	01.12.2012
3216	7239971एम	दफादार	राश बिहारी प्रसाद	01.11.2012
3217	7240057एच	हवलदार	रोशन लाल	01.12.2012
3218	7239925एक्स	दफादार	संतोष कुमार	01.10.2012
3219	7239932एन	दफादार	शिव सिंह	01.10.2012
3220	7240000एन	दफादार	सुभाष यादव	01.12.2012
3221	7240041एक्स	दफादार	सुधीर कुमार	01.12.2012
3222	7239881एल	दफादार	सुमन कुमार	01.09.2012
3223	7240016वाइ	दफादार	सुरेंद्र सिंह	01.12.2012
3224	7239868एफ	दफादार	सुरेश चंद्रा	01.09.2012
3225	7240097के	हवलदार	वी नारायण सिंह	01.01.2013
3226	7239931एल	दफादार	योगेश चंद्रा सिंह	01.10.2012

आसुचना कोर

3227	7430740वाइ	हवलदार	नन्द लाल	01.11.2012
3228	14801263एच	हवलदार	पी वी ब्रमा एम	01.12.2012
3229	7430857एक्स	हवलदार	राम यश यादव	01.10.2012
3230	6386565डब्ल्यू	हवलदार	शेक एम	01.10.2012
3231	7430745एक्स	हवलदार	थोमस टी एन बाबू अरेमन्दा	01.01.2013

सेना पुलिस कोर

3232	7776221एन	हवलदार	बच्चू डे	01.01.2013
3233	7775231एल	हवलदार	बलकार सिंह	01.01.2013
3234	7775209ए	हवलदार	बीन्नदा बर्मन	01.11.2012
3235	7775197डब्ल्यू	हवलदार	बिनोद कुमार मिश्रा	01.10.2012
3236	7775196एन	हवलदार	देवी सिंह	01.10.2012
3237	7775216डब्ल्यू	हवलदार	दीपक कुमार रौय	01.12.2012
3238	7776154एन	हवलदार	जय सिंह	01.11.2012
3239	7775183डब्ल्यू	हवलदार	के एस डी. राव	01.09.2012
3240	7775179एन	हवलदार	कालू राम दिवाकर	01.09.2012
3241	7775160पी	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.09.2012
3242	7775187एम	हवलदार	लोक बहादुर गुरंग	01.10.2012
3243	7775200एल	हवलदार	मोहम्मद इस्माइल हक	01.11.2012
3244	7775825ए	हवलदार	मिथलेश सिंह	01.10.2012
3245	7775236के	हवलदार	मुन्नी लाल	01.01.2013
3246	7775194एच	हवलदार	एन एस महादेव	01.10.2012
3247	7775224पी	हवलदार	पी आर के बाबू लाल	01.12.2012
3248	7775192एक्स	हवलदार	पन्ना लाल दत्ता	01.10.2012
3249	7775251वाइ	हवलदार	आर रामास्वामी	01.01.2013

3250	7775191पी	हवलदार	आर कुमार गुप्ता	01.10.2012
3251	7776105एल	हवलदार	रमेश	01.10.2012
3252	7775234वाइ	हवलदार	रमेश कुमार	01.01.2013
3253	7776152एच	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2012
3254	7776158के	हवलदार	सूर्या देव	01.11.2012
3255	7775218एफ	हवलदार	टी कुमार	01.12.2012

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3256	4360577एफ	हवलदार	एम सेकार	01.11.2012
3257	14396061एफ	हवलदार	आर संकर	01.09.2012

पायोनियर कोर

3258	8031973पी	हवलदार	अविनाथ	01.11.2012
3259	8031938एम	हवलदार	बाला कृष्णा महंता	01.09.2012
3260	8032560एक्स	हवलदार	भवानी सिंह	01.09.2012
3261	8032008एक्स	हवलदार	कोल्हे रामनाथ करभरी	01.12.2012
3262	15302327एच	हवलदार	एन भास्कर रेडी	01.10.2012
3263	8031959एच	हवलदार	पुष्प राज सिंह	01.10.2012
3264	8031927ए	हवलदार	राजेश कुमार	01.09.2012
3265	8031939पी	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2012
3266	8031902एन	हवलदार	एस अली मंडल	01.09.2012
3267	8032616वाइ	हवलदार	शंकर कुमार मोन्दल	01.11.2012

रक्षा सुरक्षा कोर

3268	10181240एफ	हवलदार	गंगा राम	01.09.2012
3269	10388933एल	हवलदार	गमपति	01.01.2013
3270	10289799एच	हवलदार	जॉनी पीडी	01.10.2012
3271	10389090पी	हवलदार	कामता प्रसाद	01.01.2013
3272	10243614एक्स	हवलदार	पीसी देव राजा	01.01.2013
3273	7237047एन	हवलदार	राम अवतार	01.01.2013
3274	10389355एन	हवलदार	राजधर पटेल	01.09.2012
3275	10388956एम	हवलदार	शेष मनी पटेल	01.09.2012
3276	3972068डब्ल्यू	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	01.01.2013
3277	10289499एफ	हवलदार	टी चंद्रन	01.10.2012

प्रदेशिक सेना

3278	10166702एल	हवलदार	ए थामस	01.11.2012
3279	10374456के	हवलदार	अरुण कुमार आर	01.10.2012
3280	10212965एल	हवलदार	निल महाब पांडा	01.12.2012
3281	10362147पी	हवलदार	बहादुर सिंह	01.09.2012
3282	10421029एफ	हवलदार	भिमाप्पा एस	01.01.2012

3283	10421038एच	हवलदार	दिगम्बर पाटिल	01.10.2012
3284	10150273एल	हवलदार	डिशमाने चान्द्राकान्त शंकर	01.10.2012
3285	10362152ए	हवलदार	दोलत राम ठाकुर	01.09.2012
3286	10274641एच	हवलदार	गोपाल चंद्रा हीरा	01.10.2012
3287	10119844एक्स	हवलदार	जी. अनिल	01.10.2012
3288	10314865एन	हवलदार	जसवंत सिंह	01.11.2012
3289	10150343वाइ	हवलदार	कदम विजय दत्तू	01.01.2013
3290	10362175एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.09.2012
3291	10452775एल	हवलदार	एम पेरियासामी	01.10.2012
3292	10303077के	हवलदार	नार सिंह	01.10.2012
3293	10362148एक्स	हवलदार	नारायण दास ठाकुर	01.09.2012
3294	10260295एम	हवलदार	पी महतो	01.01.2013
3295	10302969एच	हवलदार	प्रभु दयाल	01.10.2012
3296	10228131एच	हवलदार	रघुवीर सिंह राजपूत	01.09.2012
3297	10436896एफ	हवलदार	राज कुमार	01.10.2012
3298	10135354एन	हवलदार	राकेश	01.01.2013
3299	10274655एच	हवलदार	रंजीत कुमार मोन्डल	01.10.2012
3300	10405427वाइ	हवलदार	राजीव कुमार मिश्रा	01.03.2012
3301	10135341डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.01.2013
3302	10260309एफ	हवलदार	सरोज कुमार भूयान	01.01.2013
3303	10374470डब्ल्यू	हवलदार	सरोज राय	01.10.2012
3304	10135331एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.01.2013
3305	10274649पी	हवलदार	तापस हल्दर	01.10.2012
3306	10452779एफ	हवलदार	वी रामालिंगम	01.10.2012
3307	10359530एच	हवलदार	विलसन टी	01.10.2012

[सं. बी/43432/आरडी-13/एजी/सीडब्ल्यू-2]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 03(E) dated 26th January, 2013.**—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement on the eve of Republic Day 2013 under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

### TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS

#### 75 ARMOURED REGIMENT

1	1088247X	DFR	MAKKHAN SINGH RAJPUT	01-01-2013
---	----------	-----	----------------------	------------

#### 41 ARMOURED REGIMENT

2	1088035M	DFR	HARENDRA SINGH	01-12-2012
---	----------	-----	----------------	------------

#### ARMOURED CORPS

3	1577765A	DFR	ANIL KUMAR	01-12-2012
---	----------	-----	------------	------------

4	1088807Y	DFR	BAL MUKUND PRASAD	01-09-2012
5	1088845P	DFR	BASAPPA C K	01-11-2012
6	1087867F	DFR	DIK BAHADUR CHETTRI	01-10-2012
7	1088894X	DFR	G B BHUSAL CHHETRI	01-01-2013
8	1087980W	DFR	HIRAN PAL	01-10-2012
9	1087949K	DFR	KRASHNA NANDAN SINGH	01-11-2012
10	1088876P	DFR	KRISHAN KUMAR	01-01-2013
11	1088881A	DFR	M SAGAYAM	01-01-2013
12	1087887P	DFR	MADHAN M	01-10-2012
13	1088873F	DFR	MOHITE MARUTI J	01-01-2013
14	1088864A	DFR	NARENDRA KUMAR	01-01-2013
15	1087860X	DFR	NIRMAL CHANDRA B	01-09-2012
16	1087862H	DFR	R BACHAN SINGH YADAV	01-09-2012
17	1088850A	DFR	RAM DAS	01-11-2012
18	1087962N	DFR	RAM SARAN	01-11-2012
19	1087866Y	DFR	RATHVA ANSINH B N B	01-10-2012
20	1088024A	DFR	ROSON KUMAR NAIK	01-12-2012
21	1087917F	DFR	S MARIA MICHAEL	01-11-2012
22	1088532W	DFR	SHARAN DASS	01-10-2012
23	1087827A	DFR	SHARWAN KUMAR SINGH	01-09-2012
24	1087831H	DFR	SHIV SAGAR RAM	01-09-2012
25	1088874K	DFR	SIVA KUMAR R	01-01-2013
26	1087861A	DFR	UDYBER SINGH	01-09-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

27	15367736K	HAV	A SURESH KUMAR	01-12-2012
28	14396007N	HAV	ABHAI KUMAR SINGH	01-09-2012
29	15111915N	HAV	ACHHE LAL	01-09-2012
30	14396140W	HAV	AMAR CHAND	01-09-2012
31	14396815L	HAV	ANAND PRAKASH	01-01-2013
32	14396251N	HAV	ANANT SINGH	01-10-2012
33	15112815P	HAV	ANGREJ SINGH	01-01-2013
34	14398982A	HAV	ANIL KUMAR	01-09-2012
35	14395830N	HAV	ANU KUMAR S	01-09-2012
36	14396677P	HAV	ASHWANI KUMAR	01-12-2012
37	14396505A	HAV	ASHWINI KUMAR ROUT RAY	01-10-2012
38	14399792A	HAV	ASLAM KHAN	01-09-2012
39	14395741P	HAV	BADAL SINGH	01-09-2012
40	14396137W	HAV	BALAKOTI REDDY	01-09-2012
41	14395776L	HAV	BALBIR SINGH	01-09-2012
42	15112839Y	DFR	BALRAJ SINGH	01-01-2013
43	15112741L	HAV	BALWANT SINGH	01-01-2013
44	15112803A	HAV	BALWINDER SINGH	01-01-2013
45	15112738L	HAV	BALWINDER SINGH	01-01-2013
46	14396767W	HAV	BHANWR LAL BHATI	01-01-2013
47	14396019H	HAV	BHIM SINGH	01-09-2012
48	15110766Y	HAV	BILESH KUMAR YADAV	01-11-2012
49	15112042A	HAV	BIPIN BIHARI RAM	01-09-2012
50	15110848F	HAV	BISWANATH GHOSH	01-09-2012
51	13978788L	HAV	BIVASH CHANDRA SAHA	01-01-2013
52	14396828H	HAV	CHANDRA DEO DAS	01-01-2013
53	15109180W	HAV	CHANDRAMA ROY	01-01-2013
54	14396748L	HAV	CHITTARANJAN BEHERA	01-01-2013

55	15109068K	HAV	D G LAXMAN	01-12-2012
56	14396760M	HAV	D T P K RAO	01-01-2013
57	14395819P	HAV	DATAR SINGH	01-09-2012
58	15109091X	HAV	DEV SINGH	01-12-2012
59	14396504X	HAV	DHRUBA KUNDU	01-10-2012
60	15112285L	HAV	DIBYAMBAR P D SINHA	01-09-2012
61	14400807M	HAV	DILBAG SINGH	01-01-2013
62	14396658K	HAV	DONTHA NEMILI GUNDAM	01-12-2012
63	14396414W	HAV	DOODH NATH SINGH	01-10-2012
64	14399126P	HAV	ESDOR KUJUR	01-09-2012
65	14395731L	HAV	GAJE SINGH	01-09-2012
66	14396109K	HAV	GAJENDER SINGH NETAM	01-09-2012
67	13978906N	HAV	GAYTRI DUTT	01-01-2013
68	15109250K	HAV	GEORGE KT	01-01-2013
69	14399625K	HAV	GHANSHYAM	01-09-2012
70	15109087P	HAV	HANS RAJ	01-12-2012
71	13978288N	HAV	HANUMAN SAHAI GURJAR	01-10-2012
72	15111398F	HAV	HARE RAM DUBEY	01-09-2012
73	15109283P	HAV	HARISH CHANDRA	01-01-2013
74	14398363M	HAV	HARPAL SINGH	01-09-2012
75	15112765P	HAV	HAWA SINGH	01-01-2013
76	14397664K	HAV	HEM RAJ	01-12-2012
77	14396698L	HAV	HIRDYA NARAYAN PANDEY	01-12-2012
78	15112762F	HAV	HUKAM SINGH YADAV	01-01-2013
79	15111782H	HAV	ISHWARI PRASAD	01-09-2012
80	13978775N	HAV	JAGDAMBA PRASAD	01-01-2013
81	14395962F	HAV	JAGDHARI RAM	01-09-2012
82	14396278L	HAV	JAGDISH PRASAD	01-10-2012
83	14395811H	HAV	JAI SINGH KANAWAT	01-09-2012
84	15109181Y	HAV	JAIBIR	01-01-2013
85	15110515P	HAV	JAIRAJ SINGH YADAV	01-12-2012
86	15109111A	HAV	JOGENDRA SINGH VERMA	01-12-2012
87	14398650W	HAV	KAMAL KISHORE LAKRA	01-10-2012
88	14400694P	HAV	KAMAL KUMAR	01-11-2012
89	14396817W	HAV	KAMLESH KUMAR	01-10-2012
90	13978230W	HAV	KEWAL KRISHAN	01-10-2012
91	15111423P	HAV	KISHAN SINGH	01-09-2012
92	14395839H	HAV	LAKSHMAN HEMBRAM	01-09-2012
93	14395961Y	HAV	LAL BHADUR DUBE	01-09-2012
94	14396422P	HAV	LALAN KUMAR	01-10-2012
95	14397014W	HAV	MAHABIR SINGH	01-11-2012
96	14396659M	HAV	MEKALA THIRUPAL	01-12-2012
97	14801245A	HAV	MOHANAN G	01-12-2012
98	15112724L	HAV	MOHINDER SINGH	01-12-2012
99	14396893H	HAV	NAVIN KUMAR	01-01-2013
100	14396800H	HAV	NRIPENDRA CHANDRA DAS	01-01-2013
101	14396259A	HAV	OM PRAKASH YADAV	01-10-2012
102	14396784W	HAV	ONKAR SINGH	01-01-2013
103	14396327H	HAV	P P K G BHAI	01-10-2012
104	14400742K	HAV	P T R NAIDU	01-01-2013
105	15112729K	HAV	PAI WINDER SINGH	01-01-2013
106	14396315N	HAV	PARASHU RAM SINGH	01-10-2012
107	14915686W	HAV	PARMODH SINGH	01-12-2012
108	15109191H	HAV	PASHUPATHI SINGH	01-01-2013



109	15111797L	HAV	PHATIK SHAMRAO NATHMAL	01-11-2012
110	14396300L	HAV	PUSHKAR SINGH KARKI	01-10-2012
111	14397051K	HAV	RADHEY SHYAM	01-01-2013
112	15109019F	HAV	RAJ KARAN YADAV	01-10-2012
113	15109146W	HAV	RAJAN SINGH	01-01-2013
114	15110598L	HAV	RAJENDRA PRASAD TEWARI	01-09-2012
115	13970720P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2012
116	14399360L	HAV	RAJESAB BANADAR	01-01-2013
117	14396078P	HAV	RAJESH KUMAR	01-09-2012
118	7775239X	HAV	RAKESH	01-01-2013
119	14396241K	HAV	RAM AVTAR SINGH	01-10-2012
120	1579628A	HAV	RAM BACHAN	01-11-2012
121	13971180N	HAV	RAM NARAYAN MEENA	01-01-2013
122	15109118K	HAV	RAM PALAT RAM	01-12-2012
123	14396026Y	HAV	RAMA NAND	01-09-2012
124	15109266P	HAV	RAMAN SINGH	01-01-2013
125	14395837X	HAV	RAMENDRA DEBNATH	01-09-2012
126	13969600K	HAV	RAMESH CHAND	01-09-2012
127	14400733H	HAV	RAMESH KUMAR	01-01-2013
128	14801343A	HAV	RAV SAHEB NANA SALUNKHE	01-01-2013
129	13970466W	HAV	RAVINDRA NATH RAM	01-11-2012
130	14395852M	HAV	RC KARMAKAR	01-09-2012
131	14396182H	HAV	RD SHARMA	01-09-2012
132	14396738F	HAV	RUSTAM ANSARI	01-01-2013
133	14397277P	HAV	S K KUSHWAHA	01-09-2012
134	15109105M	HAV	S S R MANE	01-12-2012
135	15357206F	HAV	SAHADEV DAS	01-01-2013
136	15109167M	HAV	SANTOKH RAM	01-01-2013
137	14396410A	HAV	SARVAN KUMAR	01-10-2012
138	14396720L	HAV	SASI DHARAN K	01-01-2013
139	13978943F	HAV	SATISH KUMAR	01-01-2013
140	13969359H	HAV	SHAQEEN AHMED	01-09-2012
141	14395870P	HAV	SHRI RAM	01-09-2012
142	13970682K	HAV	SUBHASH	01-11-2012
143	14396139F	HAV	SUBHASH CHAND THAKUR	01-09-2012
144	15112812F	HAV	SUKHMANDER SINGH	01-01-2013
145	13978703K	HAV	SUMER SINGH	01-12-2012
146	14396085L	HAV	SUNDAR RAM	01-09-2012
147	15109096W	HAV	SURESH KUMAR SAIN	01-12-2012
148	14396191K	HAV	SURYA BHAN YADAV	01-09-2012
149	14396689K	HAV	T SELVANAYAKAM	01-12-2012
150	14395908N	HAV	TEK BAHADUR	01-09-2012
151	14915579P	HAV	TIRATH RAM	01-10-2012
152	14396880L	HAV	UTTAM SINGH	01-01-2013
153	15109083Y	HAV	VARUN KUMAR	01-12-2012
154	15111179A	HAV	VIKRAM SINGH	01-09-2012
155	14396543W	HAV	VINOD KUMAR	01-10-2012
156	14396683H	HAV	VINOD P	01-12-2012

**CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY**

157	14396212P	HAV	ANIL VARUGHESE	01-09-2012
158	15112780K	HAV	BHALBHIT SINGH	01-01-2013
159	13978501H	HAV	CHOPADA NARASHI RAMJI	01-12-2012
160	14396197L	HAV	DEEPAK SINGH	01-09-2012

161	14397011H	HAV	LAXMAN SINGH	01-11-2012
162	15112851A	HAV	MAHENDRA KUMAR	01-01-2013
163	14395960W	HAV	MARKNDAY	01-09-2012
164	14395953A	HAV	MITHAI LAL YADAV	01-09-2012
165	14396171W	HAV	NAND KUMAR SINGH	01-09-2012
166	14396783N	HAV	NAND LAL PRASAD	01-01-2013
167	14396083A	HAV	NANDAN SINGH KANWAL	01-09-2012
168	13978717K	HAV	NARAD MUNI PANDEY	01-01-2013
169	14395784K	HAV	NARJINDER SINGH	01-09-2012
170	13978913K	HAV	P RAVINDRA BHIMA RAO	01-01-2013
171	14395845W	HAV	PRASANTA KUMAR MANDAL	01-09-2012
172	14396913L	HAV	RAKESH BABU	01-01-2013
173	14396729A	HAV	RAM ABHILASH	01-09-2012
174	14396506H	HAV	RUPESH KUMAR SINGH	01-10-2012
175	13978758N	HAV	SATAN NAYAK	01-01-2013
176	14396773K	HAV	SHRI PAL	01-01-2013
177	14400673Y	HAV	SUKHWANT SINGH	01-09-2012
178	13978914M	HAV	UJJAGAR SINGH	01-01-2013
179	14396020X	HAV	UTTAM YADAV	01-09-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

180	15302222Y	HAV	A RAYAPPAN	01-09-2012
181	15306346L	HAV	ALANDARI PAYANI CHETTY	01-01-2013
182	15305671Y	HAV	ASHOK	01-10-2012
183	15306356P	HAV	ASHOK RATHOD	01-01-2013
184	15303193F	HAV	ASOKAN TG	01-01-2013
185	15303133M	HAV	B CHINNA YESU	01-01-2013
186	15302679A	HAV	B MOHAN	01-11-2012
187	15302511N	HAV	BALASUBRAMANIK	01-11-2012
188	15302777A	HAV	BASA VENKATA RAMANA	01-12-2012
189	15305665L	HAV	BASAYYA HARUGOPPA	01-10-2012
190	15303183X	HAV	BASKARAN K	01-01-2013
191	15306000F	HAV	BIRSA TIRKEY	01-12-2012
192	15302983K	HAV	CHANDRAN PP	01-01-2013
193	15305940A	HAV	D KASI	01-11-2012
194	15305729L	HAV	D RAJENDRA PRASAD REDDY	01-11-2012
195	15305549H	HAV	DEVADASAN M	01-09-2012
196	15302874X	HAV	DEVENDHRAN K	01-12-2012
197	15302248N	HAV	DUNNA DHARMA RAO	01-09-2012
198	15302815L	HAV	E RANGANATHAN	01-12-2012
199	15305704Y	HAV	G SARAVANAN	01-10-2012
200	15302632P	HAV	G SUKUMARAN NAIR	01-11-2012
201	15305581X	HAV	G VENKATARAMA SASTRY	01-09-2012
202	15305563P	HAV	GIREESH KUMAR J	01-09-2012
203	15302929W	HAV	GIRI R	01-01-2013
204	15302894L	HAV	GUNALAN S	01-12-2012
205	15305860H	HAV	GUVA C BALAVEERIAH	01-11-2012
206	15302297W	HAV	HARI HARAN T	01-10-2012
207	15302380N	HAV	HARIDAS MR	01-10-2012
208	15306021X	HAV	HARIDASAN KV	01-12-2012
209	15302206F	HAV	I MARIADHAS	01-09-2012
210	15302764H	HAV	J JAYASANKAR	01-12-2012
211	15306251L	HAV	JAGADISH V	01-01-2013

212	15303122A	HAV	JAYA PRAKASH N	01-01-2013
213	15305603L	HAV	JAYANNA P	01-09-2012
214	15303074L	HAV	JAYASANKAR PK	01-01-2013
215	15302378W	HAV	K GOVINDUDU	01-10-2012
216	15306169W	HAV	K KOTHANDAPANI	01-01-2013
217	15302492N	HAV	K SAMPATH	01-11-2012
218	15305608K	HAV	KALESHA BABA	01-09-2012
219	15305972H	HAV	KANNAPPAN T	01-11-2012
220	15302487H	HAV	KE MOHANAN	01-11-2012
221	15303199H	HAV	KEMPANNA KURBET	01-01-2013
222	15302049A	HAV	KORAPANA APPANNA	01-09-2012
223	15302188K	HAV	KRISHNAN T	01-09-2012
224	15302061F	HAV	KRISHNAPPA SV	01-09-2012
225	15305782W	HAV	KUMMARI SHIVAIAH	01-11-2012
226	15303006X	HAV	KYPU VASUDEVA SARMA	01-10-2012
227	15302091Y	HAV	MEKAMBARAM	01-09-2012
228	15302410A	HAV	M KALAIIVANAN	01-10-2012
229	15306091W	HAV	M NAGAPPAN	01-12-2012
230	15305818K	HAV	M PERUMAL	01-11-2012
231	15302493W	HAV	M RAMA MOORTHY	01-11-2012
232	15302140W	HAV	MAHESAN N	01-09-2012
233	15302848W	HAV	MALLESHPA CS	01-12-2012
234	15302870F	HAV	MUNIASAMY A	01-12-2012
235	15305493F	HAV	MURALI DHARAN PILLAI	01-09-2012
236	15303145F	HAV	MURUGAN C	01-01-2013
237	15302655W	HAV	N LAKSHMI PATHI	01-11-2012
238	15306137N	HAV	P MURALI	01-12-2012
239	15302892A	HAV	P PRABHAKARA NAIDU	01-12-2012
240	15302299F	HAV	P SUNDARA RAJ	01-10-2012
241	15305739P	HAV	PASUPATHY K	01-11-2012
242	15306203L	HAV	POLEBOYINA KRISHNA MURTHY	01-01-2013
243	15306142Y	HAV	PRASAD P	01-12-2012
244	15305942L	HAV	R ALAGAR SAMY	01-11-2012
245	15302658K	HAV	R MANIKANDAN	01-11-2012
246	15302398K	HAV	R MOHAN	01-10-2012
247	15302489N	HAV	R SREERAMULU	01-11-2012
248	15302736W	HAV	R SRINIVASAN	01-11-2012
249	15302880L	HAV	RADHAKRISHNAN TK	01-12-2012
250	15302819F	HAV	RAJEEV K	01-12-2012
251	15302388A	HAV	RANGANATHAN A	01-10-2012
252	15305843H	HAV	RAVI K	01-11-2012
253	15305601A	HAV	RAVICHANDIRAN V	01-09-2012
254	15306172W	HAV	REGHU N	01-01-2013
255	15305618N	HAV	S JAYARAMAN	01-10-2012
256	15305958W	HAV	S NAGA NATHAN	01-11-2012
257	15305485H	HAV	S SHANTHAKUMAR	01-09-2012
258	15302628M	HAV	S SRIDHAR	01-11-2012
259	15305632A	HAV	SANTHOSH D	01-10-2012
260	15302966K	HAV	SASIDHARAN PILLAI K	01-01-2013
261	15302195A	HAV	SELVARAJAN R	01-09-2012
262	15303117P	HAV	SHAIK ABDUL KARIM	01-01-2013
263	15305582A	HAV	SHAIK DEENA SHAHID	01-09-2012
264	15306308P	HAV	SHAIK MEERAJUDDIN	01-01-2013
265	15303028W	HAV	SHIVAPPA B B	01-01-2013

266	15305933K	HAV	SIDAPPA BHAVKANA P	01-11-2012
267	15302739K	HAV	SIVAKUMAR S	01-11-2012
268	15302293A	HAV	SURESH TV	01-10-2012
269	15305670W	HAV	SURYAKANT JOTAWAR	01-10-2012
270	15302210K	HAV	T BANU RAJENDRAN	01-09-2012
271	15302194X	HAV	T SATHASIVAM	01-09-2012
272	15303115K	HAV	THUMMALA C K	01-10-2012
273	15303188W	HAV	V SIVAKUMAR	01-01-2013
274	15306290K	HAV	V SWAMI KANNU	01-01-2013
275	15302226P	HAV	VASU VP	01-09-2012
276	15306218N	HAV	VENUGOPALAN R	01-01-2013
277	15302688F	HAV	VIJAYAN AP	01-11-2012
278	15302497M	HAV	Y MUNI KRISHNAIAH	01-11-2012
279	15305486L	HAV	YALLA SAIBABU	01-09-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

280	1480106F	HAV	ACHEN KUNJU T	01-09-2012
281	1480490N	HAV	ADESH KUMAR	01-11-2012
282	1480385X	HAV	AJAIB SINGH	01-10-2012
283	1482732K	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-01-2013
284	1482306W	HAV	AMANVIR SINGH	01-09-2012
285	1480567L	HAV	AMBIKA RAM	01-11-2012
286	1480500M	HAV	ANAND KUMAR SINGH	01-11-2012
287	1480110K	HAV	ANIL KUMAR PANDEY	01-09-2012
288	1480589K	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-11-2012
289	1480245L	HAV	ARJUN SINGH	01-10-2012
290	1482290W	HAV	ASHIS KUMAR BHOWMICK	01-09-2012
291	1480686F	HAV	AYODHYA SINGH	01-12-2012
292	1480355A	HAV	BABAN THAKUR	01-10-2012
293	1480318M	HAV	BALJIT DANGI	01-10-2012
294	1480206N	HAV	BALJIT SINGH	01-10-2012
295	1480083L	HAV	BALKAR SINGH	01-09-2012
296	1480218F	HAV	BASUDEB DAS	01-10-2012
297	1480383M	HAV	BEER BHAN SINGH	01-10-2012
298	1481387P	HAV	BHAGAT RAM	01-09-2012
299	1480266F	HAV	BHAIYA RAM	01-10-2012
300	1480063X	HAV	BHIM SINGH	01-09-2012
301	1480664H	HAV	BHUPINDER SINGH	01-12-2012
302	1482631W	HAV	BIKASH CHANDRA RAY	01-12-2012
303	1482715K	HAV	BIKRAM SINGH	01-01-2013
304	1482487M	HAV	CHAMPA LAL VYAS	01-10-2012
305	1480494K	HAV	CHANDAN SINGH	01-11-2012
306	1482332X	HAV	CHANDER BHAN	01-09-2012
307	1480795N	HAV	CHANDRA KUMAR RK	01-01-2013
308	1480441L	HAV	CHARU CHANDRA KOTHARI	01-11-2012
309	1480203Y	HAV	CHATTER SINGH BHATI	01-10-2012
310	1480713A	HAV	DALBIR	01-12-2012
311	1480184Y	HAV	DATTATRY	01-09-2012
312	1480292H	HAV	DAYA KISHAN	01-10-2012
313	14396864N	HAV	DAYA NAND	01-01-2013
314	1480170Y	HAV	DEVESH KUNWAR CHAND	01-09-2012
315	1482573X	HAV	DILIP KUMAR JENA	01-11-2012
316	1480744A	HAV	DINA NATH SINGH YADAV	01-12-2012
317	1480365K	HAV	DINESH KUMAR SINGH	01-10-2012

318	1480685Y	HAV	DINESH SINGH	01-12-2012
319	1480397M	HAV	FIROZ KHAN	01-10-2012
320	1480058M	HAV	GANESH DATT	01-09-2012
321	1480722F	HAV	GURCHARAN SINGH	01-12-2012
322	1480677A	HAV	HANS RAJ	01-12-2012
323	1480830L	HAV	HAREN CHANDRA DAS	01-01-2013
324	1482458X	HAV	HARENDER SINGH	01-10-2012
325	1480896F	HAV	HEM RAJ SINGH	01-01-2013
326	1480237M	HAV	ISHAWARI LAL SAH	01-10-2012
327	1480606Y	HAV	ISHWAR SINGH	01-11-2012
328	1577407P	HAV	JAGDISH SINGH	01-10-2012
329	1480417P	HAV	JAGVIR SINGH	01-10-2012
330	1480789A	HAV	JAI PRAKASH SUKLA	01-12-2012
331	1480737K	HAV	JAIPAL SINGH	01-12-2012
332	1480568N	HAV	JANAK SINGH	01-11-2012
333	1480597H	HAV	JARNAIL SINGH	01-11-2012
334	1480141K	HAV	JASBIR SINGH	01-09-2012
335	1480558K	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-2012
336	1482359P	HAV	KALP NATH YADAV	01-09-2012
337	1480168F	HAV	KAMLA KANT JOSHI	01-09-2012
338	1480699Y	HAV	KAMLESH SINGH	01-12-2012
339	1480305P	HAV	KRISHAN KUMAR	01-10-2012
340	1480860H	HAV	KRISHNA KUMAR RAHA	01-01-2013
341	1480086Y	HAV	KULDIP SINGH	01-09-2012
342	1482481L	HAV	KUMAR PAL SHARMA	01-10-2012
343	1482467Y	HAV	LAKH PATI SINGH	01-10-2012
344	1482016Y	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-11-2012
345	1480204F	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-10-2012
346	1480511Y	HAV	LAL BABU SINGH	01-11-2012
347	1480123F	HAV	LAL BAHADUR SINGH	01-09-2012
348	1480897K	HAV	LAL SINGH	01-01-2013
349	1480809H	HAV	LALIT MOHAN RATURI	01-01-2013
350	14396820W	HAV	M THASTHA GHEER	01-01-2013
351	1480687K	HAV	MADAN KUMAR JHA	01-12-2012
352	1480263N	HAV	MADHESHWAR SINGH	01-10-2012
353	1480693X	HAV	MAHENDER SINGH	01-12-2012
354	1480527K	HAV	MAHENDRA NATH TIWARI	01-11-2012
355	1480636W	HAV	MAHENDRA PAL SINGH	01-11-2012
356	1480124K	HAV	MANASA KUMAR BEHERA	01-09-2012
357	1480519L	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-11-2012
358	1482668X	HAV	MD NAZRUL HODA	01-01-2013
359	1480485H	HAV	MEHTAB SINGH	01-11-2012
360	1480215N	HAV	MITHILESH KUMAR SINGH	01-10-2012
361	1480601A	HAV	MIYAN SINGH	01-11-2012
362	1480758A	HAV	MOHAN SINGH	01-12-2012
363	1482551Y	HAV	MUKESH KUMAR	01-11-2012
364	1482595W	HAV	MUNNA LAL YADAWA	01-12-2012
365	1480399X	HAV	NAND KISHOR SINGH	01-10-2012
366	1480839A	HAV	NARANG RAM	01-01-2013
367	1480491W	HAV	NARESH KUMAR SINGH	01-11-2012
368	1480257A	HAV	NARESH SINGH	01-10-2012
369	1480275H	HAV	NIRMAL SINGH	01-10-2012
370	1480721Y	HAV	PARSHU RAM SINGH	01-12-2012

371	1480607F	HAV	PATELIA KURABHAI DHULAJI	01-11-2012
372	1480230H	HAV	PRIT PAL SINGH	01-10-2012
373	1480612M	HAV	PULAM SINGH	01-11-2012
374	1480736F	HAV	PURAN CHANDRA	01-12-2012
375	1480148N	HAV	PYAR SINGH	01-09-2012
376	1480214L	HAV	R VIBUSHANAN	01-10-2012
377	1482684P	HAV	RACHH PAL SINGH	01-01-2013
378	1480069Y	HAV	RAJ BIR	01-09-2012
379	1480314W	HAV	RAJ SINGH	01-10-2012
380	1480706K	HAV	RAJENDER SINGH	01-12-2012
381	1480658P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2012
382	1482650F	HAV	RAKESH KUMAR	01-12-2012
383	1480458Y	HAV	RAM ISHWAR SINGH YADAV	01-11-2012
384	1480105Y	HAV	RAM LAKHAN	01-09-2012
385	1480468H	HAV	RAM MURAT VERMA	01-11-2012
386	1480944W	HAV	RAM SHRI LAL	01-01-2013
387	1480531M	HAV	RAMESH KUMAR	01-11-2012
388	1480641F	HAV	RAMESH TIWARI	01-12-2012
389	1482521F	HAV	RAMESHWAR DAYAL	01-11-2012
390	1480796W	HAV	RATHOD AMBADAS NANU	01-01-2013
391	1480904P	HAV	RATNAKAR SAMANTARAY	01-01-2013
392	1480690K	HAV	ROHIT KUMAR SINGH	01-12-2012
393	1480367P	HAV	SAHADEV GUNJIKAR	01-10-2012
394	1480924H	HAV	SAT PAL SINGH	01-01-2013
395	1482673H	HAV	SATBIR SINGH	01-01-2013
396	1480595X	HAV	SATSIH CHANDRA	01-11-2012
397	1480532P	HAV	SHAILNDRA SINGH	01-11-2012
398	1480530K	HAV	SHAMBHU NATH MISHRA	01-11-2012
399	1480470A	HAV	SHESHA NATH SINGH	01-11-2012
400	1480479P	HAV	SHIV SHANKAR RAI	01-11-2012
401	1480656K	HAV	SHYAM BABU SINGH	01-12-2012
402	1480469L	HAV	SIBLAN TOPNO	01-11-2012
403	1480749Y	HAV	SINDHU KUMAR	01-12-2012
404	1480936X	HAV	SINGURUWARA PRASAD RAO	01-01-2013
405	1482508X	HAV	SUJIT KUMAR NEOGI	01-11-2012
406	1480386A	HAV	SUKHDEV SINGH	01-10-2012
407	1480467A	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-11-2012
408	1480211X	HAV	SUMER SINGH GEHLOT	01-10-2012
409	1480291A	HAV	SURENDER	01-10-2012
410	1480492Y	HAV	SURENDER KUMAR	01-11-2012
411	1480716N	HAV	SURENDER KUMAR	01-12-2012
412	1480252F	HAV	SURENDRA SINGH	01-10-2012
413	1480614X	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2012
414	1480324A	HAV	SURESH KUMAR	01-10-2012
415	1482430X	HAV	SURINDER SINGH	01-10-2012
416	1577496Y	HAV	SURJIT SINGH	01-11-2012
417	1482614W	HAV	SUSHIL KUMAR	01-12-2012
418	1480360L	HAV	SWARAN SINGH	01-10-2012
419	1480402M	HAV	T MOIESAN	01-10-2012
420	1480855X	HAV	TAPAN KUMAR SAMAL	01-01-2013
421	1480569W	HAV	TARAK KUMAR GHOSH	01-11-2012
422	1480480K	HAV	THAKUR JETENDRA KUMAR SINGH	01-11-2012

423	1480172K	HAV	UDAY RAJ VERMA	01-09-2012
424	1480826H	HAV	UMESH CHANDRA SHARMA	01-01-2013
425	1480431F	HAV	V MANI	01-10-2012
426	1480542Y	HAV	VIJAI PRATAP SINGH	01-11-2012
427	1480775A	HAV	VIJANDER KUMAR	01-12-2012
428	1480608K	HAV	VIJAY SINGH	01-11-2012
429	1480950K	HAV	VIJAY VITHAL RAO MUNESHWAR	01-01-2013
430	1480613P	HAV	VIJENDRA SINGH THAKUR	01-11-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

431	1577791F	HAV	ARJUN LAL RAVI DAS	01-01-2013
432	1577826M	HAV	BABU SINGH	01-01-2013
433	1577523X	HAV	BACHAN SINGH	01-11-2012
434	1578178F	HAV	BEHRU LAL HUDA	01-01-2013
435	1577778X	HAV	BIJOY KUMAR PATEL	01-01-2013
436	1577672L	HAV	CHAMKOUR SINGH	01-12-2012
437	1577502F	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-11-2012
438	1577596K	HAV	GAYA MAHTO	01-11-2012
439	1577758K	HAV	GOVIND BALAB	01-12-2012
440	1577377H	HAV	JASWINDER SINGH	01-10-2012
441	1577593W	HAV	KUSHAL KISHOR SHARMA	01-11-2012
442	1577820L	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-01-2013
443	1577312P	HAV	MOHAR SINGH MEENA	01-09-2012
444	1577437M	HAV	MOHD SHAFI SHEIKH	01-10-2012
445	1578796M	HAV	MORON PAL	01-11-2012
446	1577829A	HAV	MUKHTIAR SINGH	01-01-2013
447	1577891M	HAV	NARAYAN LAL GUJAR	01-12-2012
448	1577394H	HAV	NARESH KUMAR	01-10-2012
449	1577670A	HAV	PARAMJIT SINGH	01-12-2012
450	1577409A	HAV	PREM SINGH	01-10-2012
451	1577736L	HAV	RAJENDER	01-12-2012
452	1577525H	HAV	RAMAWATAR KHATI	01-11-2012
453	1577483H	HAV	SOHAN SINGH	01-11-2012
454	1577292M	HAV	SRIBAS CHANDRA SHILL	01-09-2012
455	1577853W	HAV	SULINDER PAL SINGH	01-01-2013
456	1577343P	HAV	UMASH KUMAR	01-09-2012
457	1577584P	HAV	VYAWAHARE JAGANATH A	01-11-2012

**CORPS OF SIGNALS**

458	15357191K	HAV	A K SINGH YADAV	01-01-2013
459	15356238X	HAV	ABBUSHAHMA ALI AHAMAD	01-11-2012
460	15369136A	HAV	ABDUL OHAB	01-01-2013
461	15356418A	HAV	AHSANUL HAQE ANSARI	01-11-2012
462	15366546L	HAV	AJAY KUMAR ROY	01-10-2012
463	15367831W	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-11-2012
464	15367798K	HAV	AJAYA KUMAR S	01-12-2012
465	15366404N	HAV	AJIT PAL	01-10-2012
466	15367510Y	HAV	AJIT KUMAR SEN	01-11-2012
467	15368552X	HAV	AJITH KUMAR P K	01-01-2013
468	15367006Y	HAV	ANGAD SINGH	01-11-2012

469	15369171H	HAV	ANIL KUMAR	01-01-2013
470	15366517W	HAV	ANIL KUMAR	01-10-2012
471	15357118L	HAV	ANIL KUMAR SINHA	01-12-2012
472	15366083F	HAV	ANIRUDHAN N P	01-09-2012
473	15368726M	HAV	ANURUDDH KUMAR MISHRA	01-01-2013
474	15356126X	HAV	ANWAR HUSSAIN	01-10-2012
475	15356741P	HAV	ARJUN RAM RAYAL	01-12-2012
476	15356516A	HAV	ARUN KUMAR MISHRA	01-11-2012
477	15356121Y	HAV	ARUN KUMAR PATEL	01-10-2012
478	15355055P	HAV	ARVIND PRASAD SINGH	01-09-2012
479	15355854L	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2012
480	15356305X	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2012
481	15367222M	HAV	ASOK KUMAR S	01-11-2012
482	15366564N	HAV	ASOKE KUMAR METIA	01-10-2012
483	15356116N	HAV	AWADHESH KUMAR AWASTHI	01-10-2012
484	15367460Y	HAV	B G YATTINAMANI	01-11-2012
485	15355280K	HAV	B K KODARBHAI	01-09-2012
486	15367739X	HAV	B YUVARAJ	01-12-2012
487	15355711L	HAV	BABAN KUMAR	01-10-2012
488	15356414K	HAV	BABU LAL	01-11-2012
489	15366937W	HAV	BABU T	01-11-2012
490	15367313W	HAV	BALASHANKAR PANDEY	01-11-2012
491	15356080A	HAV	BALESHWAR SINGH	01-10-2012
492	15367945F	HAV	BALI RAM	01-12-2012
493	15367951P	HAV	BALKISHOR AWASTHI	01-12-2012
494	15355242N	HAV	BALWANT SINGH	01-09-2012
495	15367026M	HAV	BANARJI C J	01-11-2012
496	15368687Y	HAV	BARUNA KUMAR BEHERA	01-01-2013
497	15355891Y	HAV	BASANT KUMAR BARIK	01-09-2012
498	15355967N	HAV	BHAGABN JENA	01-10-2012
499	15366233M	HAV	BHAJAHARI DEY	01-09-2012
500	15355874Y	HAV	BHARAT KUMAR	01-10-2012
501	15368946W	HAV	BHOSALE DILIP BHAGWAN	01-01-2013
502	15366339Y	HAV	BHUBANESWAR PRADHAN	01-09-2012
503	15368308X	HAV	BIJAY KUMAR SAMAL	01-12-2012
504	15368001M	HAV	BINOD KUMAR GUPTA	01-12-2012
505	15356063A	HAV	BINOD KUMAR JHA	01-10-2012
506	15355787L	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-10-2012
507	15365820L	HAV	BIRENDER	01-09-2012
508	15356974W	HAV	BIRENDRA PRATAP SINGH	01-12-2012
509	15368590N	HAV	BRAM PAL SINGH	01-01-2013
510	15368499X	HAV	BRIJ KISHOR	01-12-2012
511	15369186L	HAV	BRIJ MOHAN VERMA	01-01-2013
512	15366728Y	HAV	BRIJ RAJ SINGH	01-10-2012
513	15366269L	HAV	C J PHILIP	01-09-2012
514	15366306N	HAV	C LINGAN	01-09-2012
515	15367682N	HAV	CHANCHAL SINGH	01-11-2012
516	15356323A	HAV	CHANDER SINGH	01-11-2012
517	15367452A	HAV	CHANDRA SHEKHAR KUMAR	01-11-2012
518	15366671P	HAV	CHANDRA SINGH	01-10-2012



519	15356834K	HAV	CHANDRAKET KUMAR SINGH	01-11-2012
520	15368479K	HAV	CHARLES DICKSON C	01-12-2012
521	15355445X	HAV	CHHEDI LAL	01-09-2012
522	15367469N	HAV	D R RAJASHEKAR	01-11-2012
523	15367679N	HAV	DALBIR SINGH	01-11-2012
524	15367543K	HAV	DAM BARUDHAR MAHANTA	01-11-2012
525	15367434X	HAV	DARSHN LAL	01-11-2012
526	15366435N	HAV	DAULAT SINGH KUMPAWAT	01-09-2012
527	15356311L	HAV	DAYANAND	01-11-2012
528	15366585K	HAV	DEBA PRASAD SAHOO	01-10-2012
529	15369129K	HAV	DEEPAK KUMAR RAY	01-01-2013
530	15356427F	HAV	DELOWAR HUSSAIN	01-11-2012
531	13688395K	HAV	DEO NARAYAN RAM	01-10-2012
532	15368624W	HAV	DEV KUMAR TYAGI	01-01-2013
533	15368383F	HAV	DEVENDER SINGH	01-12-2012
534	15355424F	HAV	DEVENDRA SINGH	01-09-2012
535	15366295M	HAV	DEVENDRA SINGH	01-09-2012
536	15369014W	HAV	DEVI CHARAN PRAJAPATI	01-01-2013
537	15356980K	HAV	DHAN BAHADUR MOCHI	01-12-2012
538	15366991K	HAV	DHANNJAI KUMAR GUPTA	01-11-2012
539	15356471L	HAV	DHARAM VIR SINGH	01-11-2012
540	15367801Y	HAV	DHARAMBIR	01-12-2012
541	15356149X	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-11-2012
542	15356307H	HAV	DILIP KUMAR MEHTA	01-11-2012
543	15356734Y	HAV	DINESH KUMAR MAKODE	01-12-2012
544	15367665N	HAV	DIVAKARAN A	01-11-2012
545	15355998N	HAV	DS TRIPATHI	01-10-2012
546	15368824M	HAV	G EKANATH TANBAJI	01-01-2013
547	15355143L	HAV	G RAVI	01-09-2012
548	15356173P	HAV	G S REDDY	01-11-2012
549	15367241X	HAV	G VENKATESWARA RAO	01-11-2012
550	15368640N	HAV	GANGA SINGH GANGOLA	01-12-2012
551	15368397F	HAV	GANGADHARAN M V	01-12-2012
552	15366840L	HAV	GAWADE GANPAT MAHADEO	01-10-2012
553	15366148K	HAV	GIRDHARE LAL SHARMA	01-09-2012
554	15356473W	HAV	GOPALA KRISHNAN P S	01-11-2012
555	15366738H	HAV	GORDHAN RAM	01-10-2012
556	15356585W	HAV	GOUR CHANDRA DAS	01-11-2012
557	15367261L	HAV	GOVIND RAM	01-10-2012
558	15368989L	HAV	GUJAR RAJENDRA NANDU	01-01-2013
559	15367614A	HAV	GURVINDER SINGH	01-11-2012
560	15356174X	HAV	GYAN PRAKASH PANDEY	01-11-2012
561	15355857Y	HAV	H K P VEETIL	01-10-2012
562	15368411H	HAV	HANS RAJ	01-12-2012
563	15366511P	HAV	HARI KISHAN	01-10-2012
564	15368275X	HAV	HARI PRASAD	01-12-2012
565	15367542F	HAV	HARISH CHANDRA KAR	01-11-2012
566	15366138A	HAV	HEMANT KUMAR VERMA	01-09-2012
567	15357071L	HAV	HIRA PRASAD SINGH	01-01-2013
568	15367777N	HAV	IDRISH ALI	01-12-2012

569	15356423L	HAV	IMAMUDDIN	01-11-2012
570	15368234N	HAV	J D SATYAVAN	01-11-2012
571	15366290N	HAV	J J MACHINDRA	01-09-2012
572	15367107M	HAV	J RAJESH RAMKRISHNA	01-11-2012
573	15368249W	HAV	JADHAV BALASO KISAN	01-11-2012
574	15356068Y	HAV	JAGDEVA PRASAD	01-10-2012
575	15368825P	HAV	JAGDISH PRASAD	01-01-2013
576	15367382M	HAV	JAGTAR	01-11-2012
577	15356140K	HAV	JAI NARAIN	01-11-2012
578	15357305K	HAV	JAI PAKASH BHARDWAJ	01-01-2013
579	15366695Y	HAV	JALLU RAMANJULU	01-10-2012
580	15368604H	HAV	JAMESH T A	01-01-2013
581	15355366H	HAV	JAY RAM YADAV	01-09-2012
582	15367589M	HAV	JAY SHANKER SHUKLA	01-11-2012
583	15367758H	HAV	JAYARAJAN KUDAKKAL	01-11-2012
584	15357039W	HAV	JITENDER SHARMA	01-01-2013
585	15355309F	HAV	JOHNSON D	01-09-2012
586	15367051L	HAV	JOSEMON T	01-10-2012
587	15356203F	HAV	K P SINGH TOMAR	01-10-2012
588	15367208A	HAV	K PANDI DURAI	01-10-2012
589	15367999H	HAV	K S CHANDRA HEMRAJ	01-12-2012
590	15355729F	HAV	K S SANKAR MORE	01-10-2012
591	15355346P	HAV	K SRINIVASAN	01-09-2012
592	15367648N	HAV	K V CHANDRAKANT	01-11-2012
593	15356362Y	HAV	K Y BABA RAO	01-11-2012
594	15355555M	HAV	KAMAL SINGH	01-09-2012
595	15356608M	HAV	KAMALA RAM	01-11-2012
596	15367439W	HAV	KAMANI KISHOR NARSI	01-11-2012
597	15355450H	HAV	KANWAL KUMAR	01-09-2012
598	15355489P	HAV	KARAN SINGH	01-09-2012
599	15367375W	HAV	KARTAR SINGH	01-11-2012
600	15369036P	HAV	KARTHIKEYAN P	01-01-2013
601	15355158N	HAV	KHARAT RAMESH NANA	01-09-2012
602	15355241L	HAV	KHOKEN CH DEBNATH	01-09-2012
603	15356310H	HAV	KHUSHE RAM SINGH	01-11-2012
604	15355396A	HAV	KIRAT SINGH	01-09-2012
605	15356145H	HAV	KISHORI LAL	01-11-2012
606	15355863M	HAV	KOMAROLU THIRUPATHAIAH	01-10-2012
607	15366700Y	HAV	KONDALA RAVI KUMAR	01-10-2012
608	15356150N	HAV	KRISHAN CHAND	01-11-2012
609	15367740N	HAV	KRISHAN KUMAR	01-12-2012
610	15356141M	HAV	KRISHAN SINGH	01-11-2012
611	15367144A	HAV	KRISHNA KUMAR C	01-10-2012
612	15367276N	HAV	KULBIR SINGH RAWAT	01-10-2012
613	15356445K	HAV	KULDEEP SINGH	01-11-2012
614	15367447P	HAV	KULDEEP SINGH	01-11-2012
615	15368024N	HAV	KULDIP SINGH	01-11-2012
616	15356358W	HAV	KULWANT SINGH	01-11-2012
617	15367613X	HAV	KULWANT SINGH CHAUHAN	01-11-2012
618	15355444P	HAV	KUMAR DUTT TIWARI	01-09-2012

619	15356859W	HAV	KUMARESAN A	01-12-2012
620	15368714X	HAV	KUNJUMON P C	01-01-2013
621	15367386H	HAV	LAIQ RAM	01-11-2012
622	15367957W	HAV	LAL BAHADUR GARG	01-12-2012
623	15367834K	HAV	LAL SINGH ALMIYA	01-12-2012
624	15368377N	HAV	LALIT KUMAR	01-12-2012
625	15355888Y	HAV	LALIT MOHAN PATEL	01-09-2012
626	15356826L	HAV	LALU SHARMA	01-12-2012
627	15366187H	HAV	LAXMAN INGALAGI	01-09-2012
628	15356622Y	HAV	LAXMAN MUNDA	01-11-2012
629	15367544M	HAV	LAXMAN SINGH	01-11-2012
630	15355810N	HAV	LR SHRIPATI	01-10-2012
631	15366544A	HAV	M JEYA KUMAR	01-10-2012
632	15366930M	HAV	M KARTHIGAI KOVALAN	01-11-2012
633	15366774N	HAV	M RADHAKRISHNAN	01-10-2012
634	15366747K	HAV	M SELVAM	01-10-2012
635	15366689L	HAV	M SRINIVASA RAO	01-10-2012
636	15367527M	HAV	M VENKATESAN	01-11-2012
637	15355868L	HAV	M VENKATESWAR REDDY	01-10-2012
638	15369156N	HAV	MADAN GOPAL	01-01-2013
639	15356483A	HAV	MADAN SINGH KARKI	01-11-2012
640	15366096Y	HAV	MADHU SUDAN MONDAL	01-09-2012
641	15355673A	HAV	MAHA SINGH	01-10-2012
642	15355384L	HAV	MAHENDRA SINGH	01-09-2012
643	15368802N	HAV	MAHENDRA SINGH YADAV	01-01-2013
644	15368413N	HAV	MAHESH CHAND	01-12-2012
645	15355425K	HAV	MAHESH KUMAR	01-09-2012
646	15366231F	HAV	MAHESH KUMAR TYAGI	01-09-2012
647	15356485L	HAV	MAHESH SINGH CHAUHAN	01-11-2012
648	15356543K	HAV	MAHI PAL	01-11-2012
649	15357214A	HAV	MAHINDER SINGH	01-01-2013
650	15368671N	HAV	MALI DEVU BALIRAM	01-01-2013
651	15355178F	HAV	MANE RAJ KUMAR SHAMRAO	01-09-2012
652	15366294K	HAV	MANE SUDAM VISHNU	01-09-2012
653	15355054M	HAV	MANINDRA NATH ROY	01-09-2012
654	15355570F	HAV	MANOJ KUMAR	01-09-2012
655	15356062X	HAV	MANOJ KUMAR	01-10-2012
656	15368695X	HAV	MANORANJAN PANIGRAHI	01-01-2013
657	15355824N	HAV	MARGAN N	01-10-2012
658	15355797P	HAV	MATBAR SINGH	01-10-2012
659	15367200N	HAV	MD MABUD SHAIKH	01-10-2012
660	15367164N	HAV	MEENAKSHI SUNDARAM M	01-10-2012
661	15367352P	HAV	MOHAN KUMAR	01-11-2012
662	15355448L	HAV	MOHAN LAL	01-09-2012
663	15367949X	HAV	MOHAN PRASAD PAL	01-12-2012
664	15355432A	HAV	MOHD AKHTAR KHAN	01-09-2012
665	15356944Y	HAV	MOHINDER PAL	01-12-2012
666	15369402N	HAV	MOHINDER SINGH	01-01-2013
667	15366499Y	HAV	MULAGACHARLA SIVADAYAL	01-10-2012
668	15357130M	HAV	MURALEEDHARAN P	01-01-2013

669	15355368N	HAV	MUSAFIR YADAV	01-09-2012
670	15368947Y	HAV	N D DIGAMBER	01-01-2013
671	15366796M	HAV	N K MOHAN LAL	01-10-2012
672	15368415Y	HAV	N RAMA MOORTHY	01-12-2012
673	15360603L	HAV	NAGENDRA PAL SINGH	01-01-2013
674	15367934P	HAV	NAND LAL	01-11-2012
675	15368540H	HAV	NANDA KUMAR K	01-01-2013
676	15367009M	HAV	NANDJI SINGH	01-11-2012
677	15366737A	HAV	NARAYAN SINGH	01-10-2012
678	15366260W	HAV	NARENDRA PRASAD SINGH	01-09-2012
679	15355657H	HAV	NARINDER KUMAR	01-10-2012
680	15355318H	HAV	NETRA PAL ARYAL	01-09-2012
681	15355144N	HAV	NIRAB SONOWAL	01-09-2012
682	15357015M	HAV	NIRMAL KUMAR	01-01-2013
683	15357247L	HAV	NIRMAL KUMAR BISWAS	01-01-2013
684	15368422P	HAV	NIRPAL SINGH	01-12-2012
685	15366780F	HAV	OM PRAKASH	01-10-2012
686	15356764W	HAV	OM PRAKASH	01-12-2012
687	15356929K	HAV	ONKAR NATH MISHRA	01-12-2012
688	15355273N	HAV	P B CHELAJI	01-09-2012
689	15368078P	HAV	P B S KRISHNAN	01-12-2012
690	15367506W	HAV	P K CHOUDHARY	01-11-2012
691	15367990N	HAV	P L RAMCHANDRA	01-12-2012
692	15356179W	HAV	P PRABHAKARA PATTI	01-11-2012
693	15356167F	HAV	P R SUBRAMANYAM RAJU	01-11-2012
694	15356883M	HAV	P THANIGACHALAM	01-12-2012
695	15366523K	HAV	P VELLASAMY	01-10-2012
696	15357010N	HAV	PALANI G	01-01-2013
697	15355636M	HAV	PALLAB KUMAR GOSWAMI	01-09-2012
698	15367480M	HAV	PARDEEP KUMAR	01-11-2012
699	15366898H	HAV	PARVESH KUMAR	01-10-2012
700	15356845W	HAV	PATEL MOHIDDIN VAZIR	01-12-2012
701	15368211M	HAV	PATIL MADHUKAR GANPAT	01-11-2012
702	15367195N	HAV	PAWAN KUMAR	01-10-2012
703	15367692X	HAV	PAWAN KUMAR DADHEECH	01-11-2012
704	15355728Y	HAV	PAWAR AMBADAS DATTU	01-10-2012
705	15367791A	HAV	PAWAR ARJUN JAGANNATH	01-12-2012
706	15367636Y	HAV	PAWAR BALU VITTAL	01-11-2012
707	15355502N	HAV	PHADSAHI RAO	01-09-2012
708	15357315N	HAV	PHONI BHUSAN DAS	01-01-2013
709	15357162P	HAV	PONNAPPA M T	01-01-2013
710	15355972Y	HAV	PRADEEP KUMAR MOHANTY	01-10-2012
711	15368634A	HAV	PRAHLAD KUMAR THAKUR	01-01-2013
712	15368319K	HAV	PRAKASH KUMAR PARIJA	01-12-2012
713	15356206P	HAV	PRALOY KUMAR DEY	01-10-2012
714	15356753K	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-12-2012
715	15355975M	HAV	PRAMODA KUMAR SAMAL	01-10-2012
716	15355894M	HAV	PRASANTA KUMAR SWAIN	01-09-2012
717	15357281L	HAV	PREMANANDA MISRA	01-01-2013
718	15355930M	HAV	PURI DAS ROY	01-10-2012

719	15356120W	HAV	PURNA RAM	01-10-2012
720	15357085L	HAV	R D K CHIMANLAL	01-01-2013
721	15357099L	HAV	R JAMBULINGAM	01-01-2013
722	15366750K	HAV	R RAGHU	01-10-2012
723	15367163L	HAV	R SUBBA RAYUDU	01-10-2012
724	15367147N	HAV	RADHAKRISHNAN NAIR V	01-10-2012
725	15356051L	HAV	RADHESHYAM SINGH	01-10-2012
726	15357024N	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2013
727	15355836N	HAV	RAJ MOHAN THAKUR	01-10-2012
728	15356615H	HAV	RAJ PAL SINGH YADAV	01-11-2012
729	15356330W	HAV	RAJA KANWAR	01-11-2012
730	15357255K	HAV	RAJAKISHORE MALLICK	01-01-2013
731	15356026M	HAV	RAJAN PRASAD GUPTA	01-10-2012
732	15357213X	HAV	RAJENDER PARSAD	01-01-2013
733	15355681Y	HAV	RAJENDRA SINGH	01-09-2012
734	15360828N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2012
735	15355498W	HAV	RAJESH KUMAR	01-09-2012
736	15366652K	HAV	RAJESH KUMAR	01-10-2012
737	15356012M	HAV	RAJESH KUMAR PANDEY	01-10-2012
738	15367623F	HAV	RAJINDER KUMAR	01-11-2012
739	15357109K	HAV	RAJINDER KUMAR SHARMA	01-01-2013
740	15355869N	HAV	RAJUMON B	01-10-2012
741	15356662A	HAV	RAJVIR SINGH	01-11-2012
742	15356515X	HAV	RAJVIR SINGH	01-11-2012
743	15355588X	HAV	RAKESH CHANDR RATURI	01-09-2012
744	15369006X	HAV	RAKESH KUMAR MISHRA	01-01-2013
745	15365847H	HAV	RAM BAHADUR	01-09-2012
746	15369146K	HAV	RAM BAHADUR KUNWAR	01-01-2013
747	15366025X	HAV	RAM BHAN VERMA	01-09-2012
748	15357250L	HAV	RAM CHANDRA	01-01-2013
749	15368729A	HAV	RAM DIN PATEL	01-01-2013
750	15366634F	HAV	RAM KRIPAL YADAV	01-10-2012
751	15355604K	HAV	RAM KRISHAN	01-09-2012
752	15355238L	HAV	RAM KUMAR PRASAD	01-09-2012
753	15367187P	HAV	RAM NARESH	01-10-2012
754	15355490K	HAV	RAM NARESH SINGH	01-09-2012
755	15367438N	HAV	RAM NATH	01-11-2012
756	15356658X	HAV	RAM NATH SINGH	01-11-2012
757	15367616L	HAV	RAM PAL	01-11-2012
758	15356416P	HAV	RAM PRAKASH CHAUDHARY	01-11-2012
759	15357177X	HAV	RAM PRASAD LODHI	01-01-2013
760	15369115K	HAV	RAM PRASAD RAM	01-01-2013
761	15356071Y	HAV	RAM PRAVESH SINGH	01-10-2012
762	15355388F	HAV	RAM SAHAY	01-09-2012
763	15356261L	HAV	RAMADASS K	01-11-2012
764	15355906W	HAV	RAMAKANTA BEHERA	01-09-2012
765	15356660P	HAV	RAMESH SINGH	01-11-2012
766	15357297W	HAV	RAMJEE PRASAD	01-01-2013
767	15355717M	HAV	RAMJIVAN PRASAD SINGH	01-10-2012
768	15367479X	HAV	RANDHIR SINGH	01-11-2012

769	15368791M	HAV	RATAN SINGH	01-01-2013
770	15356522N	HAV	RATHNAKARAN T V	01-11-2012
771	15366987F	HAV	RATTAN LAL	01-11-2012
772	15356766F	HAV	ROHITASHVA YADAV	01-12-2012
773	15356571W	HAV	RONJIT SAIKIA	01-11-2012
774	15368675K	HAV	S BHOOPAL	01-01-2013
775	15368039W	HAV	S D DATTARAYA	01-12-2012
776	15368441A	HAV	S K PRABHAKARAN	01-12-2012
777	15356256A	HAV	S KAMALANATHAN	01-11-2012
778	15366425K	HAV	S P PANDURANG	01-09-2012
779	15369110L	HAV	S PACKIAM	01-01-2013
780	15367217F	HAV	S R SARAN BISHNOI	01-10-2012
781	15355958M	HAV	S S RAMACHANDRA	01-10-2012
782	15367843L	HAV	SADEQUE ALI	01-12-2012
783	15356377F	HAV	SAHAJAHAN CHOUDHARY	01-11-2012
784	15355219A	HAV	SAMBHU NATH MISHRA	01-09-2012
785	15366250M	HAV	SAMIR KUMAR ROY	01-09-2012
786	15368833N	HAV	SAMSHER SINGH	01-01-2013
787	15356182W	HAV	SANJAY KUMAR	01-11-2012
788	15355202M	HAV	SANKARAN NAIR N	01-09-2012
789	15367167F	HAV	SANT UDAYA SINGH	01-10-2012
790	15355643H	HAV	SANTANU KUMAR DALAI	01-09-2012
791	15364683L	HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	01-11-2012
792	15356006Y	HAV	SANTU PRASAD	01-10-2012
793	15356624K	HAV	SANU RAM DAIMARY	01-12-2012
794	15355076L	HAV	SARVJIT SINGH	01-09-2012
795	15366557X	HAV	SATHARLA CHENNAIAH	01-10-2012
796	15366068M	HAV	SATHY RAJAN O	01-09-2012
797	15367265F	HAV	SATYA PRAKASH SHARMA	01-10-2012
798	13688522N	HAV	SATYA RAM SINGH	01-10-2012
799	15356139P	HAV	SATYAWAN	01-11-2012
800	15368280H	HAV	SENDUR PANDIAN P	01-12-2012
801	15356109X	HAV	SHAJI MATHEW	01-10-2012
802	15357041N	HAV	SHATROHAN SINGH	01-01-2013
803	15356584N	HAV	SHATYENDRA SINGH	01-11-2012
804	15367508F	HAV	SHIBA PRASAD HALDAR	01-11-2012
805	15366939F	HAV	SHIJI KUMAR A	01-11-2012
806	15368114P	HAV	SHISH PAL	01-12-2012
807	15368803W	HAV	SHIV KUMAR	01-01-2013
808	15356454L	HAV	SHIV RAM SINGH	01-11-2012
809	15356032A	HAV	SHIV SHANKER SINGH	01-10-2012
810	15367576P	HAV	SHIVE KUMAR	01-11-2012
811	15357048X	HAV	SHRAWAN KUMAR MEGHWAL	01-01-2013
812	15357200A	HAV	SHREEPAL SINGH	01-01-2013
813	15356408W	HAV	SHRI NATH MISHRA	01-11-2012
814	15355442K	HAV	SHRI PRAKASH	01-09-2012
815	15368498P	HAV	SHYAM LAL KAUSHIK	01-12-2012
816	15356467H	HAV	SHYAM SHARAN	01-11-2012
817	15356714L	HAV	SHYAM SUNDER	01-12-2012
818	15366067K	HAV	SIVASUTHAN S	01-09-2012

819	15366209W	HAV	SOM LAL	01-09-2012
820	15356446M	HAV	SOM NATH	01-11-2012
821	15366182K	HAV	SREE KUMAR P N	01-09-2012
822	15366262F	HAV	SREE PATI NARAYAN	01-09-2012
823	15368173F	HAV	SREEDHAR DASH	01-01-2013
824	15368830A	HAV	SRI NARENDER SINGH	01-01-2013
825	15355612H	HAV	SRI RAM SAH	01-09-2012
826	15355900P	HAV	SRIKANTA PARIDA	01-09-2012
827	15367342L	HAV	SUBASH KUMAR PANDEY	01-11-2012
828	15355240H	HAV	SUBH NARAYAN	01-09-2012
829	15369003K	HAV	SUBHABRAT GHOSH	01-01-2013
830	15368867F	HAV	SUBHASH CHAND	01-01-2013
831	15368060Y	HAV	SUBHASH CHAND	01-12-2012
832	15356773X	HAV	SUBHASH CHAND RANOUT	01-12-2012
833	15367270M	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-10-2012
834	15355053K	HAV	SUBODH PATHAK	01-09-2012
835	15366210L	HAV	SUBRATA KANTA DAS	01-09-2012
836	15366665F	HAV	SUKHARAM SWAMI	01-10-2012
837	15356143X	HAV	SUKHBIR SINGH	01-11-2012
838	15368999P	HAV	SUNIL KUMAR JHA	01-01-2013
839	15368167N	HAV	SUNIT CHAND	01-01-2013
840	15368632P	HAV	SURENDRA KUMAR VERMA	01-01-2013
841	15356576P	HAV	SURENDRA RAI	01-11-2012
842	15355580L	HAV	SURENDRA SINGH	01-09-2012
843	15366062L	HAV	SURESH BABU C	01-09-2012
844	15356713H	HAV	SURESH KUMAR	01-12-2012
845	15368354M	HAV	SURESH KUMAR	01-12-2012
846	15366976P	HAV	SURESH KUMAR ACHARY B	01-11-2012
847	15366649K	HAV	SURESH KUMAR M B	01-10-2012
848	15356763N	HAV	SURESH RAM	01-12-2012
849	15357106W	HAV	SURESH V	01-01-2013
850	15356155M	HAV	SURRIENDER PAL SINGH	01-11-2012
851	15368213X	HAV	SURVE PRAVIN PRABHKER	01-11-2012
852	15355056X	HAV	SURYA KUMAR DEURI	01-09-2012
853	15368990A	HAV	SUTAR SUNIL JAYARAM	01-01-2013
854	15368493W	HAV	T K CHAKRABARTY	01-12-2012
855	15367233Y	HAV	T S INDRAHAHADUR	01-11-2012
856	15368994W	HAV	T SHIVAJI GANGA	01-01-2013
857	15366089H	HAV	TAPAS DEBNATH	01-09-2012
858	15369013N	HAV	TARA CHANDRA	01-01-2013
859	15356563X	HAV	THAGESWAR GOGOI	01-11-2012
860	15357014K	HAV	THOKALA RAJA REDDY	01-01-2013
861	15367043M	HAV	UDAYA KUMAR MB	01-10-2012
862	15356031X	HAV	UDEY BHAN SHARMA	01-10-2012
863	15356045X	HAV	UMESH PRASAD	01-10-2012
864	15355587P	HAV	UMMED SINGH RAWAT	01-09-2012
865	15355187H	HAV	UPPADA TRINADHU	01-09-2012
866	15367701N	HAV	V RAJASEKARAN	01-11-2012
867	15367962F	HAV	V V SOMA BHAI	01-12-2012
868	15356429M	HAV	V VENKATA RAMANAN	01-11-2012

869	15366484W	HAV	VED PRAKASH	01-10-2012
870	15355387Y	HAV	VED RAM PAL	01-09-2012
871	15366264M	HAV	VENKATACHALAM A P	01-09-2012
872	15356992Y	HAV	VERRENDER MOHAN	01-12-2012
873	15366078W	HAV	VIJAYA KUMAR B	01-09-2012
874	15355376M	HAV	VIJENDRA NATH GIRI	01-09-2012
875	15368549X	HAV	VIJOY DANIEL	01-01-2013
876	15367577X	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2012
877	15355556P	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-09-2012
878	15366193W	HAV	VIRENDRA SINGH	01-09-2012
879	15355395X	HAV	VIRENDRA SINGH ARYA	01-09-2012
880	15357035A	HAV	VISHAMBHAR	01-01-2013
881	15355225N	HAV	VISWANATH	01-09-2012
882	15366779M	HAV	YOGENDRA SINGH	01-10-2012
883	15355371N	HAV	Z K S BALU SINH	01-09-2012
884	15367578A	HAV	ZAKIR HUSEN	01-11-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

885	2886013M	HAV	BANS LAL	01-09-2012
886	13690487P	HAV	DEV RAJ	01-10-2012
887	13690699A	HAV	DEVI DAYAL AWASTHI	01-12-2012
888	13978416A	HAV	GOPAL BISWAS	01-11-2012
889	13690498F	HAV	JAS MASIH	01-10-2012
890	13690826K	HAV	JIT SINGH	01-01-2013
891	13688831W	HAV	K MURUGAN	01-01-2013
892	13690690L	HAV	KAMOD SINGH	01-12-2012
893	13690689W	HAV	KESHAV DAS	01-12-2012
894	13690771L	HAV	KHAJAN SINGH	01-12-2012
895	13690780M	HAV	LAXMAN RAM	01-01-2013
896	13690950L	HAV	MOOL CHAND GUJAR	01-01-2013
897	13690806W	HAV	NIRVANI SHETTY HP	01-01-2013
898	8032030H	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-01-2013
899	13688354A	HAV	PAWAN KUMAR	01-09-2012
900	13690837W	HAV	PHOOL CHAND	01-01-2013
901	13690658W	HAV	PYARE LAL	01-12-2012
902	13690509H	HAV	RAJEEVAN PULAPPADI	01-10-2012
903	3390350M	HAV	RAJENDRA YADAV	01-01-2013
904	13688401M	HAV	RAM CHANDER RAUT	01-10-2012
905	4070037X	HAV	RAM SHROMAN	01-01-2013
906	13690568P	HAV	SHANTI KUMAR SINGHA	01-11-2012
907	13690839F	HAV	SHIV RAM PRAJAPATI	01-01-2013
908	13688809L	HAV	SHIV SHANKER TIWARI	01-01-2013
909	13690426X	HAV	SHIWDAS SINGH YADAWA	01-09-2012
910	13690666P	HAV	SIYA RAM	01-12-2012
911	13690795P	HAV	TARLOK CHAND	01-01-2013
912	13688835M	HAV	VINAY KUMAR SINGH	01-01-2013
913	13690691N	HAV	VINOD SINGH TOMAR	01-12-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

914	13617970W	HAV	AMRIK SINGH	01-09-2012
915	13616976L	HAV	ASHOK KUMAR PRASAD	01-12-2012



916	13617952K	HAV	BALWANT SINGH KANTURA	01-09-2012
917	13616859A	HAV	DAYA NAND SHARMA	01-10-2012
918	13618061X	HAV	GANESH SINGH	01-10-2012
919	13616813X	HAV	GODHAN SINGH	01-10-2012
920	13618052W	HAV	GOVIND BALLABH JOSHI	01-10-2012
921	13616906M	HAV	JAGAT PAL	01-11-2012
922	13618016L	HAV	JANARDAN PRASAD SINHA	01-10-2012
923	13616901N	HAV	JASBIR SINGH SC	01-11-2012
924	13617930P	HAV	JOGINDER SINGH	01-09-2012
925	13617993X	HAV	KALIKATHAN R	01-10-2012
926	13617988M	HAV	KHUSHI RAM	01-10-2012
927	13617971Y	HAV	KULDEEP RAJ	01-09-2012
928	13617920L	HAV	LAKHAN SINGH	01-09-2012
929	13618169P	HAV	MALAY KUMAR KUCHARJEE	01-01-2013
930	13617039A	HAV	MUKESH	01-01-2013
931	13616794X	HAV	MUNNA LAL	01-09-2012
932	13617951L	HAV	MURTI LAL	01-09-2012
933	13617035K	HAV	PRITHVI SINGH	01-01-2013
934	13618026P	HAV	RAKESH KUMAR	01-10-2012
935	5450299W	HAV	RAM BUJH	01-01-2013
936	13618018W	HAV	RAM VINAY SINGH	01-10-2012
937	13616771W	HAV	RAVI CHANDRA BAHADUR S	01-09-2012
938	13616868F	HAV	RUPAN YADAV	01-10-2012
939	13617979L	HAV	SUKH DEV RAJ	01-09-2012

#### **THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

940	14915626F	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2012
941	14915386P	HAV	ASITBARAN NANDI	01-09-2012
942	14914201W	HAV	AYODIYA RAY	01-10-2012
943	14915540H	HAV	BACHITTAR SINGH	01-10-2012
944	14915769F	HAV	BAKSHISH SINGH	01-12-2012
945	2989293L	HAV	BHAGMAL GURJAR	01-10-2012
946	14914349P	HAV	BHAGWATI PRASAD	01-12-2012
947	2989489Y	HAV	BHAWANI SINGH	01-10-2012
948	14915492N	HAV	BHOGILAL PARMAR	01-10-2012
949	2989402M	HAV	BRIJENDER SINGH	01-10-2012
950	14915466M	HAV	BRIJNANDAN PRASAD	01-09-2012
951	14915826X	HAV	CHANDGI RAM	01-12-2012
952	14915538L	HAV	DALIP KUMAR	01-10-2012
953	14915690Y	HAV	DEEPAK KUMAR ROKA	01-12-2012
954	2989231L	HAV	DEVPAL SINGH	01-10-2012
955	14915436P	HAV	DIL RAM SINGH YADAV	01-09-2012
956	14915862H	HAV	DILLIP KUMAR KABI	01-01-2013
957	14915564M	HAV	DUNDAPPA MASUTI	01-11-2012
958	14915557W	HAV	G BASKAR	01-11-2012
959	14915524L	HAV	GOLLA SANKARAIH	01-10-2012
960	14915633X	HAV	HARI LAL MANDAL	01-11-2012
961	14914296F	HAV	HARI NARAYAN	01-11-2012
962	14914231N	HAV	HARI RAM	01-10-2012
963	14915673Y	HAV	HEM RAJ	01-12-2012

964	2989638F	HAV	JAGDISH KUMAR	01-11-2012
965	14915778H	HAV	JAGDISH PRASAD SWAMI	01-12-2012
966	14915788M	HAV	JUGENDRA SINGH	01-12-2012
967	14914256A	HAV	KAMLESH PRASAD DUBEY	01-11-2012
968	14915685N	HAV	KARTAR CHAND	01-12-2012
969	14914334M	HAV	LOK NATH NAYAK	01-11-2012
970	14915515K	HAV	M ARUMUGAM	01-10-2012
971	14915827A	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-12-2012
972	2989486L	HAV	MATU RAM	01-10-2012
973	14915460L	HAV	MOHAMAD ASALAM	01-09-2012
974	2989218F	HAV	MOHAR SINGH GURJAR	01-10-2012
975	2989304M	HAV	NAHAR SINGH SISODIA	01-10-2012
976	14915421M	HAV	NAKUL CHANDRA GHOSH	01-09-2012
977	14915535X	HAV	NANHE RAM	01-10-2012
978	2989287X	HAV	NARAYAN SINGH	01-10-2012
979	2989555W	HAV	NARENDRA SINGH	01-11-2012
980	14915728X	HAV	NARESH KUMAR	01-12-2012
981	14914134W	HAV	NRIPENDRA NATH M	01-09-2012
982	14915452M	HAV	PRAHLAD SINGH S	01-09-2012
983	2989320K	HAV	PRAKASH SINGH	01-10-2012
984	14915467P	HAV	PRAMOD SINGH BISHT	01-09-2012
985	14915809X	HAV	PRITHI RAI SINGH	01-12-2012
986	14915560W	HAV	RAJ KISHOR MALL	01-11-2012
987	14915478F	HAV	RAJESH KUMAR MISHRA	01-10-2012
988	14915553A	HAV	RAJESH SINGH YADAV	01-11-2012
989	14915445W	HAV	RAJPAL SINGH	01-09-2012
990	14915719W	HAV	RAM BHAGAT	01-12-2012
991	14915502M	HAV	RAM BILAND	01-10-2012
992	14914147N	HAV	RAM CHANDRA SINGH	01-09-2012
993	14915649H	HAV	RAM VISHWAS NAI	01-11-2012
994	14915845H	HAV	RAMESH CHANDRA SAHU	01-01-2013
995	14915764H	HAV	RAMESHA	01-12-2012
996	14915735N	HAV	RAMKHILADI SINGH S	01-12-2012
997	2989656K	HAV	RATANPAL SINGH	01-11-2012
998	14915552X	HAV	RAVI V	01-11-2012
999	14914152Y	HAV	ROYAL NETAJI	01-09-2012
1000	14915852Y	HAV	SAIFUL ISLAM	01-01-2013
1001	14915603A	HAV	SANG NORBU	01-11-2012
1002	14914386H	HAV	SHASHI BHUSHAN KUMAR	01-11-2012
1003	14915622L	HAV	SHEKHAPPA KURUBAR	01-11-2012
1004	14914316K	HAV	SHER SINGH	01-12-2012
1005	14914367X	HAV	SHISH RAM	01-12-2012
1006	2986650X	HAV	SHIV KUMAR	01-01-2013
1007	14914161A	HAV	SHOBH NATH RAM	01-09-2012
1008	14915561Y	HAV	SIVA KUMAR C	01-11-2012
1009	14915425H	HAV	SOHAN LAL	01-09-2012
1010	14915602X	HAV	SUBIR KUMAR GHOSH	01-11-2012
1011	14915426L	HAV	SUDIP KUMAR DAS	01-09-2012
1012	14915810M	HAV	SULTAN SINGH SAHARAN	01-12-2012
1013	14915435M	HAV	SURENDRA KUMAR M	01-09-2012

1014	2989662X	HAV	TEJ RAJ SINGH	01-11-2012
1015	14915313H	HAV	VOKIL PRASAD	01-09-2012
1016	14915647X	HAV	YOGENDRA PRASAD Y	01-11-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

1017	2482073W	HAV	AMRIK SINGH	01-01-2013
1018	2481889N	HAV	AVTAR SINGH	01-12-2012
1019	2481757A	HAV	AVTAR SINGH	01-09-2012
1020	2482094M	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2013
1021	2481907L	HAV	BALWANT SINGH	01-12-2012
1022	2479441P	HAV	DALIP SINGH	01-01-2013
1023	2481808H	HAV	DARSHAN LAL KHAJURIA	01-10-2012
1024	2481962F	HAV	DUNI CHAND	01-12-2012
1025	2481938L	HAV	GURNAM SINGH	01-12-2012
1026	2481931F	HAV	JAGTAR SINGH	01-12-2012
1027	2479297L	HAV	JAGTAR SINGH	01-11-2012
1028	2479319Y	HAV	JASBIR SINGH	01-11-2012
1029	2482059K	HAV	JASBIR SINGH	01-01-2013
1030	2481968H	HAV	JIWAN KUMAR	01-12-2012
1031	2481818M	HAV	KALI DASS	01-10-2012
1032	7240114Y	HAV	M BASKARAN	01-01-2013
1033	2481780N	HAV	PREM SINGH	01-10-2012
1034	2482034X	HAV	PURAN SINGH	01-01-2013
1035	2481810A	HAV	RAJ KUMAR	01-10-2012
1036	2481958Y	HAV	RAJESH KUMAR	01-12-2012
1037	2481862W	HAV	RAJINDER PAL	01-11-2012
1038	2479236N	HAV	RAMESH CHAND	01-11-2012
1039	2481887H	HAV	RAVEL SINGH	01-12-2012
1040	2481843L	HAV	SIKANDER SINGH	01-11-2012
1041	2480216M	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2012
1042	2482060Y	HAV	VARINDER SINGH	01-01-2013

**THE MADRAS REGIMENT**

1043	2594125H	HAV	A DESIGAN	01-12-2012
1044	13978843W	HAV	A NARAIH	01-01-2013
1045	2594154X	HAV	A SANKARAN	01-01-2013
1046	2594007P	HAV	ALAPATI BHASKARA RAO	01-10-2012
1047	2594008X	HAV	BATTU CHINNA BASAVIAH	01-10-2012
1048	2591657X	HAV	C VELAN	01-11-2012
1049	2593055H	HAV	CHINNAKULLAYI REDDY N	01-09-2012
1050	2594031L	HAV	DAVID P CHACKO	01-10-2012
1051	2594022K	HAV	DUNNA JOGEESWARA RAO	01-10-2012
1052	2594068M	HAV	GADIGAPP TIMASAGAR	01-11-2012
1053	2593985K	HAV	GEE VARGHESE T	01-09-2012
1054	2683975F	HAV	HARI RAM	01-12-2012
1055	2594137X	HAV	JITHENDRA KUMAR KS	01-12-2012
1056	2594002W	HAV	K GOPALAKRISHNAN	01-09-2012
1057	2593974X	HAV	K MUTHAIAH	01-09-2012
1058	2593971K	HAV	KANAKAIAH BANDARU	01-09-2012
1059	2591792L	HAV	KARAMVIR SINGH	01-12-2012

1060	2591487Y	HAV	KRISHAN DEO PRASAD KUSHWAHA	01-10-2012
1061	2594153P	HAV	MADHESWARAN A	01-01-2013
1062	2594151K	HAV	MADINA SANKARA RAO	01-01-2013
1063	8032555M	HAV	MALLIKARJUN TIGADI	01-09-2012
1064	2594162W	HAV	MANOHARAN NAIR KK	01-01-2013
1065	2593999K	HAV	MEKALA VENKATESWARLU	01-09-2012
1066	2594114W	HAV	NAKKALAPALLI KESAVA REDDY	01-12-2012
1067	2594061H	HAV	NIZAR M	01-11-2012
1068	13978768X	HAV	OMVIR SINGH	01-01-2013
1069	4360439A	HAV	PANKAJAKSHAN PILLAI G	01-11-2012
1070	13978836A	HAV	PRAKASH CHANDRA SARKAR	01-01-2013
1071	2593952Y	HAV	R PAUL DASS	01-09-2012
1072	2593943X	HAV	RAMACHANDRAN NAIR G	01-09-2012
1073	4360433Y	HAV	RAMESH KUMAR PR	01-11-2012
1074	2591574M	HAV	RAVI G	01-11-2012
1075	4360260M	HAV	RAVICHANDRA RAJUKATTA	01-10-2012
1076	13978832K	HAV	S ARUL	01-01-2013
1077	2594001N	HAV	S GUNASEKARAN	01-09-2012
1078	2593963L	HAV	S SUSAI MANICKAM	01-09-2012
1079	2591742A	HAV	SAJEEV G	01-12-2012
1080	2594120K	HAV	SARAVANA S	01-12-2012
1081	13978871H	HAV	SEWA SINGH	01-01-2013
1082	2594003Y	HAV	SHANKAR P	01-10-2012
1083	2683406N	HAV	SHER MOHAMMAD	01-10-2012
1084	2591582L	HAV	SREE RAMA SETTI SEKHAR	01-11-2012
1085	13978175L	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2012
1086	2594143L	HAV	SURESH KIRAGI	01-12-2012
1087	2591803M	HAV	SURJIT KUMAR	01-01-2013
1088	2594134K	HAV	SURYAKANT AMBADAGATTI	01-12-2012
1089	2591794W	HAV	TUNNU RAM	01-12-2012
1090	2593984F	HAV	UNNIKRISHNAN K	01-09-2012
1091	8032618K	HAV	V GANESAN	01-11-2012

**THE GRENADIERS**

1092	2683706P	HAV	ALI HASSAN KHAN	01-11-2012
1093	2683956W	HAV	AMAR SINGH	01-12-2012
1094	2681188F	HAV	ANGAD PRASAD	01-01-2013
1095	2683231W	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2012
1096	2683196Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2012
1097	2683284P	HAV	AYYUB ALI	01-10-2012
1098	2683352X	HAV	BABOO RAM	01-10-2012
1099	2683039M	HAV	BABU LAL MEENA	01-09-2012
1100	2683134Y	HAV	BABU LAL RATHI	01-09-2012
1101	2683076A	HAV	BASU DEB PAL	01-09-2012
1102	2683349X	HAV	BHARAT SINGH	01-10-2012
1103	2683369L	HAV	BIRPAL SINGH	01-10-2012
1104	2683861W	HAV	BRAJENDRA PRATAP SINGH GAUTAM	01-12-2012
1105	13618022Y	HAV	BUADITTA	01-10-2012
1106	2683826N	HAV	CHET RAM GURJAR	01-12-2012
1107	2683193L	HAV	CHHAJU RAM	01-10-2012

1108	2683160A	HAV	DASHRATH KUMAR	01-10-2012
1109	2683615L	HAV	DEVENDRA SINGH	01-11-2012
1110	2682972F	HAV	DHARAM PAL	01-09-2012
1111	2684047X	HAV	DHARAM PAL	01-01-2013
1112	2683851M	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-12-2012
1113	2683015H	HAV	DHRUV SINGH	01-09-2012
1114	2683290H	HAV	DHRUVA CHAND	01-10-2012
1115	2683105K	HAV	DINESH KUMAR	01-09-2012
1116	2683226W	HAV	GOPAL SINGH	01-10-2012
1117	2683331F	HAV	GOSWAMI KETU GIRI DHANGIRI	01-10-2012
1118	2681176M	HAV	GURDIAL SINGH	01-01-2013
1119	2683028A	HAV	HANUMAN SINGH YADAV	01-09-2012
1120	2683972N	HAV	HEM RAJ	01-12-2012
1121	2684002X	HAV	HEM RAJ	01-01-2013
1122	2683372L	HAV	INDERJEET	01-10-2012
1123	2683755X	HAV	ISHWAR SINGH	01-11-2012
1124	2683707X	HAV	JAGAT RAJ	01-11-2012
1125	2683760H	HAV	JAGRAM	01-11-2012
1126	2683782F	HAV	JAYA PAL SINGH	01-12-2012
1127	2683329K	HAV	JITENDRA PAL	01-10-2012
1128	2683484L	HAV	KAMLESH SINGH	01-10-2012
1129	2683505W	HAV	KARAN SINGH	01-10-2012
1130	8032652K	HAV	KARTAR SINGH	01-12-2012
1131	2683982X	HAV	KESHAR SINGH	01-12-2012
1132	14915388A	HAV	KHEM LAL DAMAHE	01-09-2012
1133	2683190X	HAV	KISHNA RAM	01-10-2012
1134	2684006N	HAV	KULDEEP SINGH	01-01-2013
1135	2683188A	HAV	LAXMAN DASS	01-10-2012
1136	2683336A	HAV	LAXMAN SINGH	01-10-2012
1137	2683630A	HAV	LAXMAN SINGH SHEKHAWAT	01-11-2012
1138	2683969N	HAV	LEKH RAJ	01-12-2012
1139	2683719M	HAV	MADHU N	01-11-2012
1140	2680995K	HAV	MADHU PRASAD SUBIDI	01-10-2012
1141	2683532A	HAV	MAHARAJ SINGH	01-10-2012
1142	2683017N	HAV	MAHINDER SINGH	01-09-2012
1143	2681141W	HAV	MANI RAM	01-12-2012
1144	2683568Y	HAV	MANI RAM SINGH	01-10-2012
1145	2683919H	HAV	MOHAMMAD SHAHID KHAN	01-12-2012
1146	2683838H	HAV	MOHAMMED AYYUB	01-12-2012
1147	2683286A	HAV	MOHD USMAN	01-10-2012
1148	2683576X	HAV	MUKAT SINGH TANWAR	01-10-2012
1149	2683233F	HAV	MUKESH KUMAR	01-10-2012
1150	2683304X	HAV	MUNNAR SINGH YADAVA	01-10-2012
1151	2683107P	HAV	ONKAR SINGH CHOUHAN	01-09-2012
1152	2683836X	HAV	PAPU SINGH	01-12-2012
1153	2683515A	HAV	PRATAP SINGH	01-10-2012
1154	2683651W	HAV	PREM SINGH PARIHAR	01-11-2012
1155	2683315K	HAV	PURA RAM CHOUDHARY	01-10-2012
1156	2683792L	HAV	RAJ KUMAR	01-12-2012
1157	2683031A	HAV	RAJBEER	01-09-2012

1158	2683618Y	HAV	RAJBIR SINGH	01-11-2012
1159	2683589P	HAV	RAJENDER SINGH	01-11-2012
1160	2683632L	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-11-2012
1161	2683478X	HAV	RAJESH SINGH	01-10-2012
1162	2683955N	HAV	RAJINDER KUMAR	01-12-2012
1163	2684023N	HAV	RAJU GURJAR	01-01-2013
1164	2683565L	HAV	RAM DEV	01-10-2012
1165	2683929M	HAV	RAM KARAN	01-12-2012
1166	2683191A	HAV	RAM SWAROOP YADAV	01-10-2012
1167	2683207A	HAV	RAMAWATAR	01-10-2012
1168	2683357W	HAV	RAMESHWAR YADAV	01-10-2012
1169	2683869H	HAV	RAMJI SINGH YADAV	01-12-2012
1170	2683171M	HAV	RAMJIT GURJAR	01-10-2012
1171	2683790A	HAV	RAVINDAR SINGH	01-12-2012
1172	2684000M	HAV	RILAK RAJ	01-01-2013
1173	2683090M	HAV	ROSHAN ALI	01-09-2012
1174	1577656N	HAV	SALUNKE TUKARAM DNYANU	01-12-2012
1175	2683501A	HAV	SAMSAD ALI	01-10-2012
1176	2683987W	HAV	SANJEEV KUMAR	01-01-2013
1177	2681163P	HAV	SAT PAL	01-12-2012
1178	2680937A	HAV	SATISH CHANDRA TALUKDAR	01-09-2012
1179	2680955H	HAV	SATTAR KHAN NURKHANI	01-09-2012
1180	2683214W	HAV	SATYABIR SINGH	01-10-2012
1181	2683260L	HAV	SAYEED HUSSAIN BARBHUIYA	01-10-2012
1182	2682953W	HAV	SHALINDER SINGH	01-09-2012
1183	2681151A	HAV	SHIV DAYAL	01-12-2012
1184	2683816K	HAV	SHIV DAYAL GURJAR	01-12-2012
1185	2682992P	HAV	SHIV NATH SINGH	01-09-2012
1186	2681189K	HAV	SHIV RATAN CHARM	01-01-2013
1187	2683208H	HAV	SITA RAM YADAV	01-10-2012
1188	2683547H	HAV	SIYA RAM GURJAR	01-10-2012
1189	2683857H	HAV	SOBARANA SINGH YADAV	01-12-2012
1190	2684011Y	HAV	SOHAN LAL	01-01-2013
1191	2683722M	HAV	SRI TARSEM LAL	01-11-2012
1192	2683728N	HAV	SUBHASH CHAND	01-11-2012
1193	2681178X	HAV	SUBHASH CHANDER	01-12-2012
1194	2683387N	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-10-2012
1195	2683737P	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-11-2012
1196	2682954Y	HAV	SUDESH CHAND	01-09-2012
1197	2682956K	HAV	SUDHIR CHAND	01-09-2012
1198	2683748F	HAV	SULAKHAN SINGH	01-11-2012
1199	2683934X	HAV	SUMER SINGH	01-12-2012
1200	2683971L	HAV	SURENDRA KUMAR	01-12-2012
1201	2681149H	HAV	SURESH	01-12-2012
1202	2683391W	HAV	TIRLOK SINGH YADAV	01-10-2012
1203	2681112F	HAV	UDAI SINGH	01-11-2012
1204	2680862N	HAV	UTTAM CHAND	01-09-2012
1205	2683220K	HAV	VED PRAKASH	01-10-2012
1206	2683787A	HAV	VED PRAKASH	01-12-2012
1207	2684077P	HAV	VIDYA SHAKAR SINGH	01-01-2013

1208	2683422L	HAV	VIJAY KUMAR	01-10-2012
1209	2683423N	HAV	VIJAY KUMAR	01-10-2012
1210	2683236P	HAV	VIJAY SINGH	01-10-2012
1211	2683570W	HAV	VIJAY SINGH GURJAR	01-10-2012
1212	2683584W	HAV	YASHRAM SINGH	01-11-2012
1213	2683433X	HAV	ZAKIR HUSSAIN	01-10-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

1214	2783109P	HAV	APPASAHEB LAXMAN KOLEKAR	01-09-2012
1215	8032556P	HAV	ARJUN JADHAV	01-09-2012
1216	2785514L	HAV	ASHOK JOTIBA JADHAV	01-09-2012
1217	14800891L	HAV	AVID HUSSAIN KHAN	01-09-2012
1218	2784181X	HAV	BACHITTAR SINGH	01-01-2013
1219	2785818H	HAV	BALAPPA KAMMAR	01-12-2012
1220	2785641A	HAV	BARGE SUNIL BALASAHEB	01-10-2012
1221	2783141K	HAV	BASAVIAH KANNEGANTI	01-09-2012
1222	2785698P	HAV	BHIMAPPA JADHAV	01-11-2012
1223	2786167K	HAV	BHOSALE RAJENDRA VILAS	01-01-2013
1224	2785976X	HAV	CHAUDHARI DILIP MURLIDHAR	01-12-2012
1225	2785897H	HAV	CHOUGALE RAJENDRA KERBA	01-12-2012
1226	2783368X	HAV	DHARAMVIR	01-01-2013
1227	2785888F	HAV	DHOTRE PRAKASH ATAMARAM	01-12-2012
1228	2785639A	HAV	GADE RAJU NAMDEO	01-10-2012
1229	2785704X	HAV	GAIKWAD TANAJI ANANDA	01-11-2012
1230	2785863P	HAV	GAWADE WAMAN BALU	01-12-2012
1231	2785768H	HAV	GORVE VINOD BABURAO	01-11-2012
1232	2786353A	HAV	IBRAHIM WATANGI	01-01-2013
1233	2785816X	HAV	IRAYYA MATHAD	01-12-2012
1234	2786100L	HAV	JADHAV SANJAY BABURAO	01-01-2013
1235	2785781M	HAV	KASHINATH REVJI CHAUDHARI	01-11-2012
1236	2785667P	HAV	KHOSE PRABHAKAR NAMDEO	01-11-2012
1237	2786013X	HAV	KOLEKAR SUKHADEO DNYANESHWAR	01-01-2013
1238	2786290H	HAV	KRISHNA SHINDE	01-01-2013
1239	2785949N	HAV	KUMBHALKAR DIPAK NARAYAN	01-12-2012
1240	2783101H	HAV	MADHUKAR PANDURANG PATIL	01-09-2012
1241	2785459A	HAV	MULEY NIVRUTTI PARASRAM	01-09-2012
1242	2786026P	HAV	N MANIKANDAN	01-01-2013
1243	2786030X	HAV	NAMA PATIL	01-01-2013
1244	2786331F	HAV	NIKRAD BABASAHEB BHAU	01-01-2013
1245	2785423F	HAV	PALAKEETI KURUPA RAO	01-09-2012
1246	2785843F	HAV	PARADHI GHANSHYAM DATTARAM	01-12-2012
1247	2785572P	HAV	POTE PRALHAD SHRAVANJI	01-09-2012
1248	2785954Y	HAV	PRABHAKAR DAS	01-12-2012
1249	2785815P	HAV	PRAKASH MALLADE	01-12-2012
1250	2785794K	HAV	PRASAD A	01-11-2012
1251	2785706H	HAV	RAHATE GAJANAN RAMRAO	01-11-2012
1252	2783123F	HAV	RAJ KUMAR	01-09-2012
1253	2783192X	HAV	RAM KUMAR	01-10-2012
1254	2785592H	HAV	RAMAVTAR SINGH	01-10-2012
1255	2785603K	HAV	RAMESH CHANDANASHIV	01-10-2012

1256	2785860F	HAV	RAMGOPAL SINGH	01-12-2012
1257	13978001L	HAV	RANA RAM BHATIA	01-09-2012
1258	14801050P	HAV	RUDRA KANTA SWARGIARY	01-10-2012
1259	2785688L	HAV	SADASHIV DESURKAR	01-11-2012
1260	2786111X	HAV	SAHABLAL	01-01-2013
1261	2786343W	HAV	SALEEM JAMADAR	01-01-2013
1262	2785678F	HAV	SENDANE SAVATA RATAN	01-11-2012
1263	2786356N	HAV	SHABEER KALAVANT	01-01-2013
1264	2785701K	HAV	SHAIK MOULA ALI	01-11-2012
1265	2783153Y	HAV	SHANKAR RAM	01-09-2012
1266	2786072K	HAV	SHINDE DATTARAM RAJARAM	01-01-2013
1267	2785789Y	HAV	SHIVARAJU B	01-11-2012
1268	14800960W	HAV	SURESH KUMAR	01-10-2012
1269	2785971Y	HAV	THOKAL SURYAKANT NAMDEO	01-12-2012
1270	2785697M	HAV	VEERANAGOUD PATIL	01-11-2012
1271	2785537M	HAV	WAGHAMODE SHANKAR ABA	01-09-2012
1272	4071578L	HAV	YADAV CHANDRAKANT SHANKAR	01-09-2012
1273	2786347M	HAV	ZAKIR HUSEN	01-01-2013

**THE RAJPUTANA RIFLES**

1274	2884209F	HAV	ANIL KUMAR	01-12-2012
1275	2884102M	HAV	BALJIT	01-11-2012
1276	2886301Y	HAV	BHULLAN RAM	01-01-2013
1277	2886249F	HAV	BISWA NATH GIRI	01-12-2012
1278	8031910M	HAV	BRAJ KISHOR SINGH	01-09-2012
1279	2884074L	HAV	HASMUDDIN ALI ANSARI	01-10-2012
1280	2884100F	HAV	JAI SINGH	01-11-2012
1281	2884001Y	HAV	JALALUDIN ANSARI	01-09-2012
1282	2886294N	HAV	JITENDRA SINGH	01-01-2013
1283	2886283F	HAV	MANOJ KUMAR	01-01-2013
1284	14915711K	HAV	MD AKRAM	01-12-2012
1285	2886141K	HAV	MUKESH KUMAR	01-11-2012
1286	2884167A	HAV	PB DEVUBHAI	01-12-2012
1287	2884039H	HAV	PHATIK CH DEKA	01-09-2012
1288	2884312M	HAV	POORAN SINGH	01-01-2013
1289	2884311K	HAV	PRAMOD KUMAR	01-01-2013
1290	2884217A	HAV	RAJENDER KUMAR	01-12-2012
1291	2884080Y	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-10-2012
1292	2884188W	HAV	RAM NIWAS	01-12-2012
1293	2884318N	HAV	RANVIR SINGH	01-01-2013
1294	2886074K	HAV	SC REPSWAL	01-09-2012
1295	4426827A	HAV	SHUKURAM BISHWAKARMA	01-01-2013
1296	2884284L	HAV	SUNESWAR MEDHI	01-01-2013
1297	2886072Y	HAV	UMED SINGH	01-09-2012
1298	2886040W	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-09-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

1299	2986300L	HAV	A R S CHAUHAN	01-10-2012
1300	2989831N	HAV	ANGRES PAL	01-01-2013
1301	2989311H	HAV	ARAM SINGH	01-10-2012



1302	2986175M	HAV	ASHOK SINGH	01-09-2012
1303	2986146X	HAV	BACHU SINGH	01-09-2012
1304	2989395F	HAV	BHAG SINGH	01-10-2012
1305	2989425N	HAV	BHAWANI SINGH	01-10-2012
1306	2986680P	HAV	CHARAN SINGH	01-01-2013
1307	2989456N	HAV	DHARAM PAL	01-10-2012
1308	2989600X	HAV	DHARAM VIR	01-11-2012
1309	2986638W	HAV	JAMNA DAS	01-01-2013
1310	14804578X	HAV	JITENDER SINGH	01-11-2012
1311	2989289H	HAV	KANHAIYALAL RAV	01-10-2012
1312	2989772M	HAV	KARAN SINGH	01-12-2012
1313	2989781N	HAV	KARTAR SINGH	01-01-2013
1314	2986286K	HAV	KHIYALI RAM	01-10-2012
1315	2989626M	HAV	MAHENDRA SINGH	01-11-2012
1316	2986475N	HAV	N S SOMVANSI	01-12-2012
1317	2594176W	HAV	OM PRAKASH	01-01-2013
1318	2986398K	HAV	PANNA LAL	01-11-2012
1319	2986183L	HAV	PREM LAL GUJAR	01-09-2012
1320	2989234Y	HAV	R K SIKARWAR	01-10-2012
1321	2986409L	HAV	RAGHUVEER GUJAR	01-11-2012
1322	2986631M	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2013
1323	2989783Y	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-01-2013
1324	2989305P	HAV	RAJESH KUMAR	01-10-2012
1325	13618179Y	HAV	RAJIV KUMAR	01-01-2013
1326	2989794L	HAV	RAJIV KUMAR SINGH	01-01-2013
1327	2989264W	HAV	RAJIV SINGH CHOUHAN	01-10-2012
1328	2986632P	HAV	RAM DEO	01-01-2013
1329	2989400F	HAV	RAM RAJ SINGH	01-10-2012
1330	2986276P	HAV	RAMAYAN PRATAP SINGH	01-09-2012
1331	2989798F	HAV	RAMJIT SINGH	01-01-2013
1332	2989404X	HAV	S B S TANWAR	01-10-2012
1333	2989796W	HAV	S P S TOMAR	01-01-2013
1334	2989500M	HAV	S S SHEKHAWAT	01-10-2012
1335	2989791X	HAV	S S SHEKHAWAT	01-01-2013
1336	2989164L	HAV	SATENDER SHARMA	01-09-2012
1337	2986317Y	HAV	SATYA PRAKASH YADAV	01-10-2012
1338	2989213H	HAV	SHISH PAL GURJAR	01-10-2012
1339	2989241P	HAV	SOBHA RAM BAGHEL	01-10-2012
1340	2989248Y	HAV	SUKH PAL SINGH	01-10-2012
1341	2989242X	HAV	SWAROOP SINGH	01-10-2012
1342	2986544Y	HAV	UDAY VEER SINGH	01-12-2012
1343	2989839A	HAV	VIJAY PRAKASH TIWARI	01-01-2013
1344	2989537N	HAV	VISHRAM SINGH	01-10-2012
1345	2989319P	HAV	VISHRAM SINGH	01-10-2012

**THE JAT REGIMENT**

1346	3180141X	HAV	AJIT SINGH	01-11-2012
1347	3180017W	HAV	BABU LAL	01-10-2012
1348	3183145Y	HAV	BACHAN SINGH	01-09-2012
1349	2594101Y	HAV	BHANWARA RAM DHAYAL	01-12-2012

1350	3179882H	HAV	BIJAY KUMAR ROY	01-09-2012
1351	3180232F	HAV	DEVANAND THAKUR	01-12-2012
1352	2594028L	HAV	HARI RAM JAT	01-10-2012
1353	3183242W	HAV	HOSHIAR SINGH	01-10-2012
1354	3183100Y	HAV	JAISA RAM SAMOTA	01-09-2012
1355	3183356F	HAV	JASBIR	01-12-2012
1356	3183200K	HAV	KARASHAN KUMAR	01-10-2012
1357	3180339W	HAV	KEDAR SINGH	01-01-2013
1358	3183298H	HAV	LAIK SINGH	01-11-2012
1359	3180386N	HAV	MAHESH BABU	01-01-2013
1360	3180174H	HAV	MAHESH KUMAR	01-11-2012
1361	3183517Y	HAV	NARESH KUMAR	01-01-2013
1362	3183252A	HAV	OM PRAKASH	01-10-2012
1363	3183379H	HAV	OM PRAKASH MAHALA	01-12-2012
1364	3183460P	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-01-2013
1365	3183495L	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2013
1366	3179945A	HAV	RAM DAS	01-09-2012
1367	3183230F	HAV	RAM KISHAN HARIJAN	01-10-2012
1368	3183363X	HAV	RAM SINGH	01-12-2012
1369	3183480H	HAV	RICHH PAL SINGH	01-01-2013
1370	3183474P	HAV	ROHATASH SINGH AHALAWAT	01-01-2013
1371	3183520Y	HAV	SANJEEV KUMAR	01-01-2013
1372	3183143N	HAV	SOHAN SINGH GURJAR	01-09-2012
1373	3179984Y	HAV	SUKHBIR SINGH	01-09-2012
1374	3180005F	HAV	SUKHEN SARKAR	01-10-2012
1375	3183515N	HAV	SURESH KUMAR	01-01-2013
1376	3183464L	HAV	SURESH KUMAR JAKHAR	01-01-2013
1377	3183289F	HAV	TRILOKI RAM	01-11-2012
1378	3180108A	HAV	VIJAY RAJ SINGH	01-11-2012

**THE SIKH REGIMENT**

1379	3390324L	HAV	AJIT SINGH	01-01-2013
1380	3390143A	HAV	AWADHU SINGH YADAV	01-11-2012
1381	3390343W	HAV	BAGHEL SINGH	01-01-2013
1382	3389387F	HAV	BALHAR SINGH	01-09-2012
1383	3390214W	HAV	BALJINDER SINGH	01-12-2012
1384	3389803A	HAV	BALKAR SINGH	01-10-2012
1385	3390236P	HAV	BALVIR SINGH	01-12-2012
1386	3387301Y	HAV	BASUDEV BHAKTA	01-11-2012
1387	3387590Y	HAV	BISHEMBER DASS	01-01-2013
1388	3387538W	HAV	DEV KUMAR DEV NATH	01-01-2013
1389	3387585N	HAV	GAZI HUSSAIN	01-01-2013
1390	3390141P	HAV	GULAB CHAND RAM	01-11-2012
1391	3390223X	HAV	GURMAIL SINGH	01-12-2012
1392	3389925K	HAV	GURMEET SINGH	01-10-2012
1393	3390359F	HAV	GURMIT SINGH	01-01-2013
1394	3389551Y	HAV	GURWINDER SINGH	01-10-2012
1395	3390056M	HAV	HARDIP SINGH	01-10-2012
1396	3389434N	HAV	HARJINDER SINGH	01-09-2012
1397	3390197F	HAV	JORAWAR SINGH	01-12-2012

1398	3387574F	HAV	KALLU KARMALI	01-01-2013
1399	3389602F	HAV	KULDIP SINGH	01-10-2012
1400	3390203K	HAV	KULWANT SINGH	01-12-2012
1401	3387531M	HAV	KUNDAN MAHTO	01-01-2013
1402	3389727Y	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-10-2012
1403	3389730Y	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-10-2012
1404	3387118W	HAV	LALMAN RANA	01-09-2012
1405	3387548A	HAV	MAHINDER SINGH	01-01-2013
1406	3390052W	HAV	MANJIT SINGH	01-10-2012
1407	3389760W	HAV	NARINDERJIT SINGH	01-10-2012
1408	3390088P	HAV	NISHAN SINGH	01-10-2012
1409	3390341L	HAV	NISHAN SINGH	01-01-2013
1410	3390246Y	HAV	RAJESH YADAWA	01-12-2012
1411	3389475X	HAV	RAJINDER SINGH	01-09-2012
1412	3389547W	HAV	RAJWANT SINGH	01-10-2012
1413	3390253P	HAV	RAJWINDER SINGH	01-12-2012
1414	3389767A	HAV	RANJIT SINGH	01-10-2012
1415	3389831M	HAV	RASHPAL SINGH	01-10-2012
1416	3387529P	HAV	RAVI KUMAR	01-01-2013
1417	3389550W	HAV	SATNAM SINGH	01-10-2012
1418	3389576L	HAV	SATNAM SINGH	01-10-2012
1419	3387331W	HAV	SATPAL SINGH	01-11-2012
1420	3387335M	HAV	SAUDAGAR PAL	01-11-2012
1421	3386771X	HAV	SIDDHARTHA BHOWMICK	01-09-2012
1422	3387139M	HAV	SUBH KARAN	01-10-2012
1423	3389636P	HAV	SUBRAMANI J	01-10-2012
1424	3389561H	HAV	SUKHJINDER SINGH	01-10-2012
1425	3389618M	HAV	SUKHJIT SINGH	01-10-2012
1426	3389973K	HAV	SUKHVINDER SINGH	01-10-2012
1427	3390194N	HAV	SUKHVIR SINGH	01-12-2012
1428	3387082W	HAV	SURESH RANA	01-09-2012
1429	3386901P	HAV	SURINDER SINGH	01-09-2012
1430	3389613N	HAV	TARSEM SINGH	01-10-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

1431	4468984N	HAV	BAHADUR SINGH	01-12-2012
1432	4468913M	HAV	BALWINDER SINGH	01-10-2012
1433	4468912K	HAV	BHULLA SINGH	01-10-2012
1434	4467242F	HAV	GULAB RAM	01-10-2012
1435	4469019W	HAV	GURCHARAN SINGH	01-01-2013
1436	4468904L	HAV	GURDEEP SINGH	01-10-2012
1437	4468964A	HAV	GURMAIL SINGH	01-12-2012
1438	4469031X	HAV	GURMEET SINGH	01-01-2013
1439	4469028X	HAV	HAKAM SINGH	01-01-2013
1440	4468865X	HAV	HARBANS SINGH	01-10-2012
1441	4468999W	HAV	JAGTAR SINGH	01-12-2012
1442	4468956F	HAV	JAGTAR SINGH	01-12-2012
1443	4469045X	HAV	JASVIR SINGH	01-01-2013
1444	4467342M	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2013
1445	4467247A	HAV	KALA SINGH	01-10-2012

1446	4468916A	HAV	KASHMIR SINGH	01-10-2012
1447	4468957K	HAV	KULDIP SINGH GILL	01-12-2012
1448	4269307Y	HAV	MANJIT SINGH	01-01-2013
1449	4467381L	HAV	MANJIT SINGH	01-01-2013
1450	4468968W	HAV	PARSHOTAM SINGH	01-12-2012
1451	4468838N	HAV	PRITAM SHARMA	01-09-2012
1452	4469083N	HAV	RACHPAL SINGH	01-01-2013
1453	4467399F	HAV	RAJESH KUMAR	01-01-2013
1454	4468987F	HAV	RAJINDER SINGH	01-12-2012
1455	4467302L	HAV	RANJIT SINGH	01-01-2013
1456	4468950A	HAV	SATYAWAN SINGH	01-12-2012
1457	4468877M	HAV	SUKHDEV SINGH	01-10-2012
1458	4269214K	HAV	SUKHDEV SINGH	01-11-2012
1459	4468876K	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-10-2012
1460	4468851X	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-09-2012
1461	4468977X	HAV	SUNDER LAL	01-12-2012
1462	4469013P	HAV	TARSEM SINGH	01-12-2012

**THE DOGRA REGIMENT**

1463	3989238L	HAV	AJAY KUMAR	01-11-2012
1464	3989236A	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2012
1465	3989433H	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2013
1466	3987875H	HAV	ASHWANI KUMAR	01-09-2012
1467	3987945W	HAV	AVINASH KUMAR	01-10-2012
1468	3988383W	HAV	BAHADUR SINGH	01-01-2013
1469	3988380H	HAV	BALBINDER SINGH	01-01-2013
1470	3987863N	HAV	BALJODH SINGH	01-09-2012
1471	3988313X	HAV	BHARAT BHUSHAN SHARMA	01-01-2013
1472	3988076Y	HAV	BHRAVTU RAM	01-11-2012
1473	3988260K	HAV	BKS VERMA	01-12-2012
1474	3988308M	HAV	CHAGAR SINGH	01-01-2013
1475	3988128K	HAV	CHANAN SINGH	01-11-2012
1476	3989342Y	HAV	CHARANJIT SINGH	01-12-2012
1477	3989130N	HAV	DALJEET SINGH	01-10-2012
1478	3989439K	HAV	DESH RAJ	01-01-2013
1479	3989176W	HAV	DHARAM CHAND	01-11-2012
1480	3989276F	HAV	DHARAM CHAND	01-11-2012
1481	3989133F	HAV	DILAWAR SINGH	01-10-2012
1482	3988157Y	HAV	FATEH SINGH	01-12-2012
1483	3989445X	HAV	GANGA RAM	01-01-2013
1484	3989297X	HAV	GHAR SINGH	01-11-2012
1485	3989412M	HAV	GITA NAND	01-12-2012
1486	3988069H	HAV	GOVIND RAM	01-11-2012
1487	3989332P	HAV	HANS RAJ	01-11-2012
1488	3988355K	HAV	HAR SOHAN SINGH	01-01-2013
1489	3989246K	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-11-2012
1490	3183397L	HAV	HARJEET SINGH	01-01-2013
1491	3988060N	HAV	HOSHIAR SINGH	01-11-2012
1492	3988272Y	HAV	JAGDISH CHAND	01-12-2012
1493	3989161N	HAV	JAGDISH CHAND	01-11-2012

1494	3989206H	HAV	JAGDISH RAM	01-11-2012
1495	3988342M	HAV	JAGNANDAN SINGH	01-01-2013
1496	3989460M	HAV	JAI KISHAN	01-01-2013
1497	3989248P	HAV	JAI PAL	01-11-2012
1498	3988176K	HAV	JANGAM APPANNA	01-12-2012
1499	3989185X	HAV	JATINDER KUMAR	01-11-2012
1500	3989481H	HAV	JOGINDER SINGH	01-01-2013
1501	3989230Y	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-2012
1502	3988353Y	HAV	JYOTI PRAKASH SHARMA	01-01-2013
1503	3988123L	HAV	KAMAL DEV SHARMA	01-11-2012
1504	3989234P	HAV	KARAN SINGH THAKUR	01-11-2012
1505	3987917K	HAV	KARNAIL SINGH	01-09-2012
1506	3989088A	HAV	KESH RAJ	01-09-2012
1507	3989210L	HAV	KEWAL KUMAR	01-11-2012
1508	3989323N	HAV	KEWAL KUMAR	01-11-2012
1509	3989431X	HAV	KISHORE KUMAR	01-01-2013
1510	3989409M	HAV	KRISHAN CHAND	01-12-2012
1511	3989166M	HAV	MAHINDER SINGH	01-11-2012
1512	4360346L	HAV	MOHAN LAL	01-10-2012
1513	3989449N	HAV	MOTI RAM	01-01-2013
1514	4360594F	HAV	MUSHTAQ SINGH	01-11-2012
1515	3988295A	HAV	NANDAN SINGH	01-12-2012
1516	3989196K	HAV	NEEL CHAND THAKUR	01-11-2012
1517	3989260W	HAV	NEEL DHAR	01-11-2012
1518	3989224M	HAV	OM SINGH	01-11-2012
1519	3989472F	HAV	PARMODH CHANDER	01-01-2013
1520	3989162W	HAV	PAWAN KUMAR	01-11-2012
1521	3989422W	HAV	PRAKASH CHAUHAN	01-12-2012
1522	3987936P	HAV	PRATAP CHAND	01-10-2012
1523	3989417L	HAV	PREM SINGH	01-12-2012
1524	3989107A	HAV	PRITAM DASS	01-09-2012
1525	3987935M	HAV	RAJ KUMAR	01-10-2012
1526	3989273N	HAV	RAJ MAL	01-11-2012
1527	3988089W	HAV	RAJENDER KUMAR	01-11-2012
1528	3989255L	HAV	RAJESH KUMAR	01-11-2012
1529	3989309F	HAV	RAJINDER KUMAR	01-11-2012
1530	3988238Y	HAV	RAJINDER PALL VERMA	01-12-2012
1531	3988354F	HAV	RAM PAL	01-01-2013
1532	4360642W	HAV	RAM PAUL	01-12-2012
1533	3988119H	HAV	RAMESH KUMAR	01-11-2012
1534	3987905P	HAV	RAVI KUMAR	01-09-2012
1535	3987986A	HAV	RN PARIDA	01-10-2012
1536	3988041A	HAV	ROOP LAL	01-11-2012
1537	3988048 M	HAV	RUP SINGH THAKUR	01-11-2012
1538	4360674Y	HAV	SAKINDER KUMAR	01-01-2013
1539	3989169A	HAV	SANJAY KUMAR	01-11-2012
1540	3988096M	HAV	SANSAR SINGH	01-11-2012
1541	3988133P	HAV	SAT PAL	01-11-2012
1542	3989228F	HAV	SATISH KUMAR	01-11-2012
1543	3988252L	HAV	SATISH KUMAR	01-12-2012

1544	3989349H	HAV	SHAM LAL	01-12-2012
1545	3988285W	HAV	SHAM LAL	01-12-2012
1546	3989299H	HAV	SUBHASH CHAND	01-11-2012
1547	3988037A	HAV	SUDHIR KUMAR THAKUR	01-11-2012
1548	3989338W	HAV	SUKHDEV SINGH	01-11-2012
1549	3988493L	HAV	SURJEET KUMAR	01-09-2012
1550	3989326A	HAV	SURJIT KUMAR	01-11-2012
1551	3989369W	HAV	SURJIT SINGH	01-12-2012
1552	3183396H	HAV	SWARN SINGH	01-01-2013
1553	3988329H	HAV	TARA CHAND	01-01-2013
1554	3989142H	HAV	TILAK RAJ	01-11-2012
1555	3987939H	HAV	UDAI BHAN SINGH	01-10-2012
1556	3989191L	HAV	UTTAM RAM	01-11-2012
1557	3989089H	HAV	VIJAY KUMAR	01-09-2012
1558	3989074A	HAV	VINOD KUMAR	01-09-2012
1559	3988114K	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2012
1560	3989231F	HAV	YODHBIR SINGH	01-11-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

1561	4071758N	HAV	AMAR SINGH	01-11-2012
1562	4071623M	HAV	AWTAR SINGH	01-10-2002
1563	4071708H	HAV	B B GHILDIYAL	01-11-2012
1564	4069681X	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2013
1565	4071612A	HAV	BIRPAL SINGH	01-10-2012
1566	4071768X	HAV	BISHNU PRASAD	01-11-2012
1567	4360585A	HAV	BRIJPAL SINGH	01-11-2012
1568	4071729Y	HAV	CHIRANGEE LAL	01-11-2012
1569	4071840H	HAV	DEVENDRA SINGH	01-01-2013
1570	4071820P	HAV	DEVENDRA SINGH RAWAT	01-01-2013
1571	4071851P	HAV	DILBAR SINGH	01-01-2013
1572	4071826W	HAV	GABAR SINGH	01-01-2013
1573	4069559F	HAV	GAJENDRA SINGH NEGI	01-09-2012
1574	4071775N	HAV	GAMBHIR SINGH	01-12-2012
1575	4071672P	HAV	GANESH PRASAD	01-10-2012
1576	4071865P	HAV	GANGA SINGH	01-01-2013
1577	4071709L	HAV	HARSHA MOHAN SINGH	01-11-2012
1578	4069568H	HAV	J C KAPRI	01-09-2012
1579	4071701Y	HAV	JIT BAHADUR THAPA	01-10-2012
1580	4071829K	HAV	JITENDRA SINGH	01-01-2013
1581	4071679Y	HAV	KANHAIYA SINGH	01-10-2012
1582	13690474X	HAV	KUMAR N	01-10-2012
1583	4071860W	HAV	MAHENDRA SINGH	01-01-2013
1584	4071726L	HAV	MAHIPAL SINGH	01-11-2012
1585	4071653K	HAV	MANBAR SINGH	01-10-2012
1586	4071710A	HAV	MANOHAR SINGH	01-11-2012
1587	4069597X	HAV	MEHARBAN SINGH RAWAT	01-10-2012
1588	4071596N	HAV	NARENDRA SINGH RAWAT	01-10-2012
1589	4360341M	HAV	PURN SINGH	01-10-2012
1590	4071649F	HAV	PUSHKAR SINGH	01-10-2012
1591	4071613H	HAV	RAJENDRA PAL SINGH	01-10-2012

1592	4069565P	HAV	RAM TIRATH	01-09-2012
1593	4071668M	HAV	RANJEET SINGH	01-10-2012
1594	4071844Y	HAV	S N S RAWAT	01-01-2013
1595	2886173M	HAV	SANTAN SINGH	01-12-2012
1596	4071571F	HAV	SHISHU PAL SINGH	01-09-2012
1597	4071818X	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-01-2013
1598	4071825N	HAV	SUNDAR SINGH	01-01-2013
1599	4360344A	HAV	SUNDER SINGH BAGIYAL	01-10-2012
1600	4071715Y	HAV	SURENDER SINGH	01-11-2012
1601	4071681W	HAV	SURENDRA SINGH S M	01-10-2012
1602	2886120N	HAV	VINOD PRASAD	01-10-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

1603	4180837Y	HAV	ANANTA CHANDRA DAS	01-09-2012
1604	4180881H	HAV	ANAR SINGH	01-10-2012
1605	4180882L	HAV	BACHE SINGH	01-10-2012
1606	4180987P	HAV	BIRENDER SINGH	01-01-2013
1607	4183187F	HAV	BISHAN SINGH	01-09-2012
1608	4183167N	HAV	CHANDAN SINGH	01-09-2012
1609	4183227X	HAV	DIWAN SINGH	01-10-2012
1610	4180991X	HAV	GHAN SHYAM	01-01-2013
1611	4183217N	HAV	GOVIND SINGH SIRARI	01-10-2012
1612	4183235W	HAV	HARISH SINGH	01-10-2012
1613	4183328L	HAV	HAWA SINGH	01-12-2012
1614	4182383P	HAV	JAGDEV	01-12-2012
1615	4183275X	HAV	JAI NARAYAN YADAV	01-10-2012
1616	4180895H	HAV	KALAM SINGH DHAMI	01-10-2012
1617	4180888M	HAV	KRISHNA SINGH BORA	01-10-2012
1618	4183229H	HAV	LALIT KUMAR JOSHI	01-10-2012
1619	4180995N	HAV	MAHESH CHANDRA	01-01-2013
1620	4183500F	HAV	RAGHBIR SINGH	01-01-2013
1621	4180930A	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-11-2012
1622	4183355P	HAV	RAM AWATAR YADAVA	01-12-2012
1623	4181006M	HAV	RAMESH KUMAR	01-01-2013
1624	4183189M	HAV	RANJIT SINGH NEGI	01-09-2012
1625	4183304F	HAV	S S CHAUDHARI	01-11-2012
1626	4180960X	HAV	SHYAM BIHARI	01-11-2012
1627	4180966Y	HAV	SHYAM DATT	01-12-2012
1628	4183446Y	HAV	SHYAM SINGH	01-12-2012
1629	4183286K	HAV	SUNDER SINGH DASILA	01-11-2012
1630	4183487H	HAV	SUWASH CHAND YADAV	01-01-2013
1631	4183457L	HAV	VIJAY SINGH	01-12-2012
1632	4183121L	HAV	YATENDRA SINGH	01-09-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

1633	4360194P	HAV	A JOY KUMAR SINGH	01-10-2012
1634	4359928Y	HAV	ALI MAHAMMED	01-09-2012
1635	4360628K	HAV	ARJUN KUMAR GURUNG	01-12-2012
1636	4360036A	HAV	BENUDHAR SINGHA	01-09-2012
1637	4360712K	HAV	BHIM BHADUR GHARTI CHETRI	01-01-2013

1638	4360384F	HAV	BHUPENDRA MISRA	01-10-2012
1639	4360431N	HAV	BIPIN KUMAR SINGHA	01-11-2012
1640	4358425F	HAV	BREST RAM	01-10-2012
1641	4360488H	HAV	CHANDRA DHAR BORA	01-11-2012
1642	4359975W	HAV	DILIP SAIKIA	01-09-2012
1643	4360227P	HAV	GOLIBAR A SANGMA	01-10-2012
1644	4360453M	HAV	GOPI MOHAN KALITA	01-11-2012
1645	4360440P	HAV	HAOKHOLAL KUKI	01-11-2012
1646	2594106X	HAV	HIRANATH BARAH	01-12-2012
1647	4360718L	HAV	JOY LAL DEB NATH	01-01-2013
1648	4360074W	HAV	KANU RAM BORUAH	01-09-2012
1649	4359983P	HAV	KRISHNA RAM SAIKIA	01-09-2012
1650	4358392F	HAV	LICHHA RAM	01-09-2012
1651	4360104H	HAV	MAHANTA KUMAR RAY	01-09-2012
1652	4360139Y	HAV	MANJIT KUMAR GOGOI	01-10-2012
1653	4360715X	HAV	MASUK ALAM BARBHUIYA	01-01-2013
1654	4426744P	HAV	MOTALI GOPAL REDDY	01-09-2012
1655	4359963F	HAV	MRINAL BORUAH	01-09-2012
1656	4360686N	HAV	NARKESWAR BASUMATARY	01-01-2013
1657	4359972H	HAV	NIKHIL GOGOI	01-09-2012
1658	4360245X	HAV	NIPUL BORA	01-10-2012
1659	4360605H	HAV	PADMA NATH BORO	01-11-2012
1660	4360455X	HAV	PHANIDHAR SARANIA	01-11-2012
1661	4359964K	HAV	PRABIN DOLAKASARIA	01-09-2012
1662	4360494W	HAV	PRADIP DEKA	01-11-2012
1663	4360452K	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-11-2012
1664	4360233H	HAV	PROFULLA SAIKIA	01-10-2012
1665	4360632M	HAV	RABINDRA KUMAR SINGHA	01-12-2012
1666	4360385K	HAV	RAHIM UDDIN AHMED	01-10-2012
1667	4360177P	HAV	SANTOSH SINHA	01-10-2012
1668	4360016M	HAV	SARAT BORAH	01-09-2012
1669	4426750H	HAV	SHAMBHU NATH RAM	01-01-2013
1670	4360420F	HAV	SHASHADHAR NATH	01-10-2012
1671	4360264H	HAV	SIDHESWAR SAIKIA	01-10-2012
1672	4360055L	HAV	SOCHIN BASUMATARY	01-09-2012
1673	4359959Y	HAV	SONARAM GOHAIN	01-09-2012
1674	2594174L	HAV	SUBHAS CHANDRA SENAPATY	01-01-2013
1675	4360375A	HAV	THANURAM BARUAH	01-10-2012
1676	4358426K	HAV	YAMUNA PRASAD	01-10-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

1677	4269414A	HAV	AGUSTIN GURIA	01-01-2013
1678	4269304L	HAV	AKHILESH KUMAR SINGH	01-01-2013
1679	2594155A	HAV	AMLESH KUMAR	01-01-2013
1680	4269223L	HAV	BADRI NATH PRASAD	01-11-2012
1681	4266057X	HAV	BHOLA RAM	01-10-2012
1682	4269247P	HAV	BHULAN LOHRA	01-11-2012
1683	4269203X	HAV	C M SAWAIYAN	01-11-2012
1684	4269096F	HAV	CHANDRA LOK NATH SAH	01-10-2012
1685	4269272N	HAV	DEB DAS DAS	01-12-2012



1686	4269252A	HAV	DHANANJAY SHARMA	01-11-2012
1687	4269323W	HAV	DHANI LAL PRASAD	01-01-2013
1688	4269207N	HAV	DILIP KUMAR MINZ	01-11-2012
1689	4266029L	HAV	DINESH KUMAR	01-09-2012
1690	4269190L	HAV	FATIK CHANDRA MAHATA	01-10-2012
1691	4269115F	HAV	FRANCI S BALMUCH	01-10-2012
1692	4266033N	HAV	GANGA RAM	01-09-2012
1693	4269146F	HAV	HARISH CHANDRA DEO	01-10-2012
1694	4269415H	HAV	ISHAK GURIA	01-01-2013
1695	4269235A	HAV	JAI PRAKASH SINGH	01-11-2012
1696	4266030A	HAV	JITENDRA KUMAR SAHMAR	01-09-2012
1697	4269352L	HAV	KALESHWAR SUNDI	01-12-2012
1698	4269185A	HAV	KAMLESH SINGH	01-10-2012
1699	4269260Y	HAV	KANHIYAMUNI PANDEY	01-11-2012
1700	4269321L	HAV	LAL BABU PRASAD	01-01-2013
1701	4269381A	HAV	LALU MUNDA	01-12-2012
1702	4269426P	HAV	LAZRUS KUJUR	01-01-2013
1703	4266794Y	HAV	M DAVID	01-09-2012
1704	4269413X	HAV	MANOJ KUMAR JHA	01-01-2013
1705	4269196M	HAV	MANOJA KUMAR BHOI	01-11-2012
1706	8032644L	HAV	MOHAN SINGH	
1707	4269366L	HAV	MORAM SINGH KUDADA	01-12-2012
1708	4269186H	HAV	NAND KISHORE KUMAR	01-10-2012
1709	4269290W	HAV	NARENDRA MAJHI	01-01-2013
1710	4269422Y	HAV	NARENDRA NATH OHDAR	01-01-2013
1711	4266208L	HAV	NAWAL KISHORE SINGH	01-12-2012
1712	4269149P	HAV	NIMRODH TOPNO	01-10-2012
1713	4269355Y	HAV	PARMESHWAR JONKO	01-12-2012
1714	4269256W	HAV	PARMESHWARI SAH	01-11-2012
1715	4266004Y	HAV	PITHO TUDU	01-09-2012
1716	4269074H	HAV	RAJ BALI YADAVA	01-09-2012
1717	4269218A	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-11-2012
1718	4266155X	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-11-2012
1719	4269161W	HAV	RAJA SAH	01-10-2012
1720	4269082F	HAV	RAJENDRA MAHTO	01-09-2012
1721	8032621K	HAV	RAM DEO PANDEY	01-11-2012
1722	4269261F	HAV	RAM KISHAN	01-11-2012
1723	4269331P	HAV	RAM NATH SHARMA	01-01-2013
1724	4269407K	HAV	RAMAWADESH KUMAR R	01-01-2013
1725	4266103F	HAV	SAKILA MURMU	01-10-2012
1726	4269111L	HAV	SANJIV KUMAR SINGH	01-10-2012
1727	8032591X	HAV	SANTOSH KUMAR MAHTO	01-10-2012
1728	4269097K	HAV	SHAILESH KUMAR	01-10-2012
1729	4269148M	HAV	SHIV KUMAR CHATAR	01-10-2012
1730	4269023P	HAV	SHIV KUMAR PAL	01-09-2012
1731	4269073A	HAV	SHYAM RAJ	01-09-2012
1732	4269303H	HAV	SRI BHAGWAN RAI	01-01-2013
1733	2591806A	HAV	SRI RAM TIWARY	01-01-2013
1734	4269245K	HAV	SUNIL KUMAR LAKRA	01-11-2012
1735	2594088A	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-11-2012

1736	4266117F	HAV	SURESH KUMAR, SM	01-11-2012
1737	4269279X	HAV	TIL BAHADUR	01-12-2012
1738	4269102K	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-10-2012
1739	4269405Y	HAV	UMESHWAR SINGH	01-01-2013
1740	4269411M	HAV	VIJAY NARAYAN SINGH	01-01-2013
1741	4269402L	HAV	VIRESH KUMAR SINGH	01-01-2013

**THE MAHAR REGIMENT**

1742	4560674H	HAV	BASANTA BARO	01-09-2012
1743	13970994A	HAV	C DHAMODARAN	01-12-2012
1744	4558496M	HAV	DILIP KUMR KEWARA	01-10-2012
1745	4560727W	HAV	DYNDAPPA MALA GOUDA	01-10-2012
1746	4560851X	HAV	GAIKWAD SUNDAR LAXMAN	01-11-2012
1747	4560971W	HAV	GHULE JAGANNATH DEVIDAS	01-01-2013
1748	4560846M	HAV	GOPI ADHIKARI	01-11-2012
1749	4560837L	HAV	GURTEJ SINGH	01-02-2012
1750	4560909K	HAV	GUTTAMALLA THIRIPELU	01-12-2012
1751	4558550P	HAV	HARPHOOL SINGH	01-11-2012
1752	4560675L	HAV	HARSH PATI	01-09-2012
1753	4560774N	HAV	JAGANNATH PAL	01-11-2012
1754	4560794F	HAV	JAYANTA KUMAR MAITY	01-11-2012
1755	4560641X	HAV	KAMBLE UTTAM ANANDA	01-09-2012
1756	4558471A	HAV	KUMAR VIDHATE SHANTOVEN REVAJI	01-09-2012
1757	4560657H	HAV	KUPEKAR SHRIDHAR BHIMRAO	01-09-2012
1758	4560720M	HAV	L PAPA RAO	01-10-2012
1759	4560962P	HAV	MADHUKAR JAISAWAL	01-01-2013
1760	4560665F	HAV	MAHARAJ SINGH	01-09-2012
1761	4558451M	HAV	NETRA SINGH RAWAT	01-09-2012
1762	4558549A	HAV	PARKASH CHAND	01-12-2012
1763	4560943K	HAV	PRADIP KUMAR MANDAL	01-12-2012
1764	4560964A	HAV	RAHEES RAM	01-01-2013
1765	4560861F	HAV	RAM ROOP SINGH	01-11-2012
1766	13899716A	HAV	RAMADHAR SINGH	01-09-2012
1767	4560963X	HAV	ROSHAN LAL	01-01-2013
1768	4560726N	HAV	SARBESWAR BEHERA	01-10-2012
1769	4560824N	HAV	SHETE DILIP CHANDER	01-11-2012
1770	4560815M	HAV	SHINDE VIKRAM GANGARAM	01-11-2012
1771	4560898H	HAV	SHIRSATH GOKUL DEOCHAND	01-12-2012
1772	4560884H	HAV	VIRENDRA SINGH	01-12-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

1773	13751443W	HAV	BAJRANG APPA KASHID	01-12-2012
1774	13753080W	HAV	BHARAT CHHETRI	01-12-2012
1775	13751345W	HAV	BHIKHAM RAM	01-11-2012
1776	13751447M	HAV	BIMAL BHARATI	01-12-2012
1777	13753351H	HAV	DB PRADHAN	01-01-2013
1778	13753239W	HAV	DHARM SINGH	01-01-2013
1779	13752450Y	HAV	DHIREN KUMAR BARIK	01-09-2012
1780	13753390F	HAV	DIWAN SINGH	01-01-2013
1781	13751474W	HAV	JARMEJ SINGH	01-01-2013

1782	13753437F	HAV	JARNAIL SINGH	01-01-2013
1783	13753135P	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2013
1784	13752588N	HAV	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-10-2012
1785	13753193Y	HAV	KARTAR SINGH	01-01-2013
1786	13752731P	HAV	KISHOR SINGH	01-10-2012
1787	13752617X	HAV	MADAN LAL	01-10-2012
1788	13753346X	HAV	MADAN LAL	01-01-2013
1789	13753401H	HAV	MADAN LAL	01-01-2013
1790	13753388K	HAV	MAN SINGH	01-01-2013
1791	13752792M	HAV	MAN SINGH	01-10-2012
1792	13751384P	HAV	MANOHAR LAL	01-12-2012
1793	13752740W	HAV	MASOOM ALI	01-10-2012
1794	13753407K	HAV	MOHAN SINGH SAKA	01-01-2013
1795	13752925X	HAV	MOHD AMEEN	01-11-2012
1796	13752599A	HAV	MUKESH KUMAR	01-10-2012
1797	13753240L	HAV	NARENDER BHANGALIA	01-01-2013
1798	13751439N	HAV	NEK SINGH	01-01-2013
1799	13753172H	HAV	NOON BAHADUR	01-01-2013
1800	13752749L	HAV	PARBODH CHANDER	01-10-2012
1801	13751313N	HAV	PARMOD KUMAR	01-10-2012
1802	13752674Y	HAV	PARSHOTAM LAL	01-10-2012
1803	13752611W	HAV	PARTAP SINGH	01-10-2012
1804	13753163F	HAV	PAWAN KUMAR	01-01-2013
1805	13752774K	HAV	PURAN CHAND	01-10-2012
1806	13752557N	HAV	RACHHPAL SINGH	01-10-2012
1807	13752469X	HAV	RAJAN THAPA	01-09-2012
1808	13753303H	HAV	RAJINDER SINGH	01-01-2013
1809	13752882N	HAV	RAKESH KUMAR	01-10-2012
1810	13752616P	HAV	RAKESH KUMAR	01-10-2012
1811	13753226Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-01-2013
1812	13752624N	HAV	RAM KRISHAN VERMA	01-10-2012
1813	13751438L	HAV	RAMESH CHAND	01-01-2013
1814	13753439M	HAV	RAMESH CHANDRA BHATT	01-01-2013
1815	13752681P	HAV	RANDHIR SINGH	01-10-2012
1816	13751429K	HAV	RAVI KUMAR	01-12-2012
1817	13753319N	HAV	ROMESH RAINA	01-01-2013
1818	13752898Y	HAV	SHAIK ABU BAKAR	01-11-2012
1819	13751465P	HAV	SHAM LAL	01-01-2013
1820	13753429H	HAV	SHAMSHER SINGH	01-01-2013
1821	13753249A	HAV	SHYAM KUMAR	01-01-2013
1822	13752495Y	HAV	SRI RAM	01-10-2012
1823	13751409W	HAV	SUBASH CHANDER	01-12-2012
1824	13752745P	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2012
1825	13753311F	HAV	SURESH KUMAR	01-01-2013
1826	13753241N	HAV	SURJEET SINGH	01-01-2013
1827	13753160N	HAV	SURJIT SINGH	01-01-2013
1828	13751255P	HAV	SWARUPA RAM BHIL	01-10-2012
1829	13753136X	HAV	VAKIL SINGH	01-01-2013
1830	13752459N	HAV	VARINDER SINGH	01-09-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

1831	9923888K	HAV	MOHD FAQIR	01-01-2013
1832	9923831P	HAV	MOTI RAM	01-10-2012
1833	9923906F	HAV	PHUNTSOK DORJAY	01-01-2013
1834	9923826K	HAV	PREM SINGH	01-10-2012
1835	9923856F	HAV	SONAM TARGAIS	01-11-2012

**THE NAGA REGIMENT**

1836	4183323M	HAV	HARISH RAM	01-11-2012
1837	14702310M	HAV	KHEM SINGH	01-12-2012
1838	14702282L	HAV	NULA MORENG	01-09-2012
1839	14702319F	HAV	SUJAN SINGH	01-01-2013

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

1840	9089332K	HAV	ABDUL MUNIR SHEIKH	01-01-2013
1841	9088251X	HAV	ABDUL RASHID	01-01-2013
1842	9088171A	HAV	ABDUL ROUF MIAN	01-10-2012
1843	9089139X	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2012
1844	9089212N	HAV	BACHAN SINGH	01-11-2012
1845	9089370A	HAV	BALDEV SINGH	01-01-2013
1846	9089204M	HAV	BALKAR SINGH	01-11-2012
1847	9089196Y	HAV	DALI KUMAR	01-11-2012
1848	9089171M	HAV	DALIP KUMAR	01-10-2012
1849	9089091P	HAV	DARSHAN KUMAR SULHOTRA	01-09-2012
1850	9089065N	HAV	DHANI RAM	01-09-2012
1851	9089146N	HAV	DHARAM SINGH	01-10-2012
1852	4360759P	HAV	FAREED AHMAD MANHAS	01-11-2012
1853	4360758M	HAV	GULZAR AHMAD WANI	01-11-2012
1854	9088255N	HAV	HARBANS SINGH	01-01-2013
1855	9089075X	HAV	HARI RAM	01-09-2012
1856	9089280Y	HAV	IRSHAD AHMAD SHEIKH	01-11-2012
1857	9089249M	HAV	JAGDISH CHANDER	01-11-2012
1858	9089303P	HAV	JAGDISH LAL	01-12-2012
1859	9089056M	HAV	KUNJA BIHARI PRADHAN	01-09-2012
1860	9089374W	HAV	MADAN LAL SHARMA	01-01-2013
1861	9089273H	HAV	MANIR HUSSAIN	01-11-2012
1862	9089125X	HAV	MOHD ASLAM	01-10-2012
1863	9089393F	HAV	MOHD YAQOOB KADA	01-01-2013
1864	9088234X	HAV	NARINDER SINGH MANHAS	01-01-2013
1865	9089040F	HAV	NASEER AHMAD BHAT	01-09-2012
1866	9088145Y	HAV	NIMAI CHARAN DAS	01-09-2012
1867	9089362F	HAV	PARVEN KUMAR, SM	01-01-2013
1868	9089101N	HAV	PAYARA LAL SHARMA	01-10-2012
1869	9088241N	HAV	RAGHBIR SINGH	01-01-2013
1870	9089207A	HAV	RAJ KUMAR	01-11-2012
1871	9089107P	HAV	RAJ DEV	01-10-2012
1872	9088217X	HAV	RAM SAROOP CHOWDHARY	01-12-2012
1873	9089366X	HAV	RASH PAL	01-01-2013
1874	9089080H	HAV	RASHID MOHD	01-09-2012

1875	9089341L	HAV	RASHPAL CHAND	01-01-2013
1876	9089365P	HAV	ROMESH CHANDER	01-01-2013
1877	9089225N	HAV	ROMESH CHANDRA	01-11-2012
1878	9089149F	HAV	SARDAR SINGH	01-10-2012
1879	9089181W	HAV	SOM NATH	01-10-2012
1880	9089291L	HAV	SUKHDEV SINGH	01-11-2012
1881	9089333M	HAV	SUKHRIB SINGH. SM	01-01-2013
1882	9089066W	HAV	SURESH KUMAR	01-09-2012
1883	9089199M	HAV	SURJEET SINGH	01-11-2012
1884	9089331F	HAV	SUSHIL KUMAR RAINA	01-01-2013
1885	9089311N	HAV	TANVEER AHMED	01-12-2012
1886	9089170K	HAV	TARLOCHAN SINGH	01-10-2012
1887	9088199A	HAV	VIJAY KUMAR	01-11-2012
1888	15356759L	HAV	YASH PAL SINGH	01-12-2012
1889	9088225W	HAV	ZAFFR ULLAH BHAT	01-12-2012

**1 GORKHA RIFLES**

1890	5044490N	HAV	AMRIT SHRESTHA	01-12-2012
1891	5044447M	HAV	BACHINA PURNAIAH	01-12-2012
1892	5044455L	HAV	BAL KRISHNA GURUNG	01-12-2012
1893	15356780N	HAV	BALBIR YADAV	01-12-2012
1894	5044542Y	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	01-01-2013
1895	5043897X	HAV	BISWAJIT BERA	01-11-2012
1896	5044509F	HAV	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-12-2012
1897	5044503A	HAV	DEV RAJ GURUNG	01-01-2013
1898	5044385X	HAV	DIU BAHADUR SHARKI	01-09-2012
1899	5044510W	HAV	DUL BAHADUR THAPA	01-12-2012
1900	5044484A	HAV	HAM BAHADUR PUN	01-12-2012
1901	5043901P	HAV	KULDIP KUMAR	01-01-2013
1902	5044421X	HAV	LOK RAJ GURUNG	01-11-2012
1903	5044520A	HAV	MIN BAHADUR THAPA	01-01-2013
1904	5044567L	HAV	OMKAR SINGH THAPA	01-01-2013
1905	5044541W	HAV	PADAM BAHADUR PUN	01-01-2013
1906	5044537N	HAV	PADAM BAHADUR THAPA	01-01-2013
1907	5043894K	HAV	TOP BAHADUR THAPA	01-10-2012
1908	5043904H	HAV	TUK BAHADUR THAPA	01-01-2013
1909	5044465P	HAV	VISHNU PRASAD PUN	01-12-2012

**3 GORKHA RIFLES**

1910	5245512X	HAV	ATAR SINGH KUSHWAH	01-10-2012
1911	5245969Y	HAV	BHOJ BAHADUR THAPA	01-10-2012
1912	5246011K	HAV	DIL BAHADUR GURUNG	01-01-2013
1913	5245967N	HAV	GIRI PRASAD THAPA	01-10-2012
1914	5246005W	HAV	GUN BAHADUR RANA	01-12-2012
1915	5245916A	HAV	KHADGA BAHADUR RANA	01-10-2012
1916	5245972Y	HAV	KHADKA PRASAD ROKA	01-10-2012
1917	5245963X	HAV	LAXMAN KARKI	01-10-2012
1918	5245921L	HAV	MAHENDRA SINGH RANA	01-10-2012
1919	5246006Y	HAV	NETRA BAHADUR GURUNG	01-12-2012
1920	5245929X	HAV	NETRA BAHADUR PUN	01-10-2012

1921	15356864F	HAV	RAGHUBIR SINGH BORHRA	01-12-2012
1922	5245985W	HAV	RAVI KUMAR	01-11-2012
1923	5245951H	HAV	SOHAN BAHADUR PUN	01-11-2012

**4 GORKHA RIFLES**

1924	13899649A	HAV	ARRE BALASIDDULU	01-09-2012
1925	5346707K	HAV	P D R HAMBIR	01-01-2013
1926	5345818P	HAV	SUDHIR SINGH THAPA	01-09-2012
1927	5044461Y	HAV	TOP BAHADUR THAPA	01-12-2012

**5 GORKHA RIFLES**

1928	5450824F	HAV	A B PARDHAN	01-11-2012
1929	5450780P	HAV	BHIM BAHADUR GURUNG	01-09-2012
1930	5450788F	HAV	C K GURUNG	01-10-2012
1931	5450847H	HAV	DHAN BAHADUR RANA	01-01-2013
1932	5450845X	HAV	KARNA BAHADUR RANA	01-01-2013
1933	5450839K	HAV	KARNA BAHADUR RANA	01-12-2012
1934	13618114L	HAV	KISHOR BHANDARI	01-11-2012
1935	5450822W	HAV	KRISHNA RAM THAPA	01-10-2012
1936	5450304W	HAV	P B THAPA	01-01-2013
1937	5450849N	HAV	RAM BAHADUR PUN	01-01-2013

**8 GORKHA RIFLES**

1938	5751500F	HAV	ARUN KUMAR	01-11-2012
1939	5752116M	HAV	BHAKTA BIR PUN	01-12-2012
1940	5751418M	HAV	CHHANGUR	01-07-2012
1941	5752158Y	HAV	DEEPAK GURUNG	01-12-2012
1942	5752048K	HAV	DEO BAHADUR GURUNG	01-09-2012
1943	5752112W	HAV	DIL PRASAD PRADHAN	01-12-2012
1944	5752074L	HAV	G B GURUNG	01-10-2012
1945	5751591W	HAV	HIRA SINGH RANA	01-01-2013
1946	5752143X	HAV	K B THAPA	01-12-2012
1947	5752119A	HAV	K V NARAYANA	01-12-2012
1948	5752033F	HAV	KAMAL GURUNG	01-09-2012
1949	5752107L	HAV	KARNA BAHADUR THAPA	01-11-2012
1950	5752076W	HAV	KHADKA BAHADUR GIRI	01-10-2012
1951	5752093W	HAV	MAHENDRA YADAV	01-10-2012
1952	5751436P	HAV	POLEBOINA LINGAIAH	01-09-2012
1953	5752094Y	HAV	REKH BAHADUR THAPA	01-10-2012
1954	5752054X	HAV	S B UCHAI THAKURI	01-09-2012
1955	5752135X	HAV	SHIVA RAJ THAPA	01-01-2013
1956	5752075N	HAV	TEK BAHADUR RANA	01-10-2012
1957	5752085X	HAV	VINOD KUMAR	01-10-2012

**9 GORKHA RIFLES**

1958	5846837P	HAV	AJAY SEN	01-10-2012
1959	5846766Y	HAV	CHITRA BAHADUR THAPA	01-09-2012
1960	5846768K	HAV	DEU BAHADUR ADHIKARI	01-09-2012
1961	5846806F	HAV	GAN BAHADUR THAPA	01-10-2012
1962	5846882F	HAV	GOKUL PRASAD CHHETRI	01-12-2012

1963	5846966P	HAV	GYAN BAHADUR MALLA	01-01-2013
1964	15356868X	HAV	HARI RAM	01-12-2012
1965	5846798F	HAV	INDRA BAHADUR THAPA	01-10-2012
1966	5846865F	HAV	KABINDRA CHHETRI	01-11-2012
1967	5846331W	HAV	KESRI NANDAN	01-09-2012
1968	9418753W	HAV	KITAB SINGH	01-11-2012
1969	5846772M	HAV	NIM BAHADUR THAPA	01-09-2012
1970	5846863W	HAV	PADAM BAHADUR CHHETRI	01-11-2012
1971	5846339H	HAV	RAJ DEV PRASAD	01-10-2012
1972	5846401K	HAV	RAM PRATAP	01-12-2012
1973	5846974N	HAV	RAM RAJ SHAHI	01-01-2013
1974	5846875L	HAV	SANDIP KUMAR THAPA	01-12-2012
1975	5846318M	HAV	TEK BAHADUR THAPA	01-09-2012
1976	5846838X	HAV	YOGESH KUMAR SEN	01-10-2012

**11 GORKHA RIFLES**

1977	9419554P	HAV	BAL DHAN RAI	01-01-2013
1978	9419483Y	HAV	BHIM PRASAD RAI	01-09-2012
1979	9419508A	HAV	BHUMI RAJ RAI	01-11-2012
1980	9419507X	HAV	BIR BAHADUR RAI	01-11-2012
1981	9419534F	HAV	DEU PRASAD RAI	01-12-2012
1982	9419516Y	HAV	DILA RAM RAI	01-11-2012
1983	9419532W	HAV	DINESH KUMAR RAI	01-12-2012
1984	9419513L	HAV	DURGA BAHADUR LIMBU	01-10-2012
1985	9418747H	HAV	HARISH CHAND BALMIKI	01-10-2012
1986	9419468K	HAV	INDRA BAHADUR THAPA	01-10-2012
1987	9418713P	HAV	MAHESH CHANDRA	01-09-2012
1988	9419535K	HAV	NAR KUMAR TUMBAHAMEF	01-12-2012
1989	9418688F	HAV	PARAS NATH SINGH YADAV	01-09-2012
1990	9419519M	HAV	PRAJA BAHADUR RAI	01-11-2012
1991	9418707F	HAV	RABIN DEV NATH	01-09-2012
1992	9419548F	HAV	RAJENDRA KUMAR RAI	01-01-2013
1993	9419529W	HAV	SARAN BAHADUR RAI	01-12-2012
1994	9419512H	HAV	SOM BAHADUR GURUNG	01-10-2012
1995	9418711K	HAV	SURESH S	01-09-2012
1996	9419505M	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-11-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

1997	6383003N	HAV	A MOOVENDRAN	01-01-2013
1998	13899890M	HAV	AASH NANDAN SINGH	01-10-2012
1999	14804654Y	HAV	ACHYUTA NANDA PRADHAN	01-10-2012
2000	6382372Y	HAV	AFAJAL KHAN	01-09-2012
2001	14801240F	HAV	AMAR CHAND	01-12-2012
2002	6382148M	HAV	AMARES DUTTA	01-09-2012
2003	14804706K	HAV	AMARNATH	01-01-2013
2004	6382260Y	HAV	ANANDA BORDOLOI	01-09-2012
2005	6382994A	HAV	ANIL KUMAR	01-01-2013
2006	13899827X	HAV	ANIL KUMAR KASHYAP	01-10-2012
2007	14801023L	HAV	ANNAM REDDI SRINIVASU	01-10-2012
2008	14801112K	HAV	ANTHONY MT	01-11-2012

2009	14801111F	HAV	ANUTHAS R	01-11-2012
2010	13896007A	HAV	ARJUN APPAYYA KAMMAR	01-10-2012
2011	6382344M	HAV	ASHWINI KUMAR SINGH	01-09-2012
2012	6382935N	HAV	AVTAR SINGH	01-01-2013
2013	14804662X	HAV	B SURENDAR GOUD	01-12-2012
2014	1480634L	HAV	BABAN KUMAR SINGH	01-11-2012
2015	14801405P	HAV	BABU DAYAL	01-01-2013
2016	6386659N	HAV	BAGEERATH DAN	01-10-2012
2017	6382746K	HAV	BALAK RAM	01-11-2012
2018	14801334Y	HAV	BALBIR SINGH	01-12-2012
2019	13971168M	HAV	BALJIT	01-10-2012
2020	6382253H	HAV	BASIR AHMED CHOUDHURY	01-09-2012
2021	6382958P	HAV	BASUDEB PAL	01-01-2013
2022	13896011H	HAV	BHAGWAN RAM	01-11-2012
2023	6387086F	HAV	BHOOPENDRA SINGH	01-01-2013
2024	13899828A	HAV	BHUPENDRA KUMAR	01-10-2012
2025	6382947H	HAV	BIJOY KUMAR MOHANTY	01-01-2013
2026	6382587X	HAV	BIMAL MAHANTO	01-11-2012
2027	14804753F	HAV	BINOD KUMAR PATHAK	01-01-2013
2028	14801424A	HAV	BIRENDRA SINGH BARTWAL	01-01-2013
2029	6382789Y	HAV	BRAJ BHUSHAN YADAVA	01-10-2012
2030	15356308L	HAV	BRAJ KISHOR KUMAR	01-11-2012
2031	6382749X	HAV	BUSI LAKSHMANA MURTY	01-11-2012
2032	14801259A	HAV	C KOLANDAI SAMY	01-12-2012
2033	6382156L	HAV	C VENKATESAN	01-09-2012
2034	14804563P	HAV	CHANDRA KISHOR CHOUDHARY	01-11-2012
2035	14801397F	HAV	CHHOTE LAL RAM	01-01-2013
2036	14804725P	HAV	CHHOTE LAL YADAV	01-01-2013
2037	6382501N	HAV	CHITRANJAN SINGH	01-10-2012
2038	6382854N	HAV	CHOUDHARI	01-12-2012
2039	6382622P	HAV	D KUPPURANGAN	01-11-2012
2040	13899656W	HAV	DASHRATH LAL YADAV	01-09-2012
2041	13896002F	HAV	DAYANAND MAHALDAR	01-10-2012
2042	14801408H	HAV	DEVENDRA PRASAD	01-01-2013
2043	638262X	HAV	DHAKALU HEBBALKAR	01-01-2013
2044	14801295L	HAV	DHONDI RAM	01-12-2012
2045	6382780K	HAV	DIBAKAR BEHERA	01-10-2012
2046	6382766X	HAV	DINESH KUMAR SINGH	01-11-2012
2047	14804707M	HAV	DWARIKA PRASAD CHATURVEDI	01-01-2013
2048	6382576L	HAV	DWITI KRISHNA SAHOO	01-10-2012
2049	6382621M	HAV	FRANKLIN RUPERT	01-10-2012
2050	6382697M	HAV	GADHAVE TANHAJI DHARMAJI	01-11-2012
2051	14804534A	HAV	GANESH CHANDRA DAS	01-11-2012
2052	8031960X	HAV	GIRDHAR UPADHYAY	01-10-2012
2053	6382872W	HAV	GIRDHARI LAL	01-12-2012
2054	13896027N	HAV	GORI SHANKAR	01-01-2013
2055	14801090W	HAV	GURU DAYAL SINGH	01-11-2012
2056	14801066A	HAV	GUWALA RAVI KUMAR	01-11-2012
2057	14804732L	HAV	HANS RAJ	01-01-2013
2058	6383280Y	HAV	HARE RAM YADAV	01-12-2012



2059	13896015Y	HAV	HAYAT SINGH THAPA	01-12-2012
2060	14801299F	HAV	HUVAPPA THORALI	01-12-2012
2061	6382605P	HAV	ICCHHAHAQUE MOLLA	01-10-2012
2062	14804760X	HAV	JABAR SINGH	01-01-2013
2063	14800868X	HAV	JHABAR MAL REGAR	01-09-2012
2064	8031926X	HAV	JITENDRA PRASAD SINGH	01-09-2012
2065	6382250P	HAV	JOGINDER SINGH	01-09-2012
2066	14801273M	HAV	JOHARI MAL	01-12-2012
2067	14801428W	HAV	JOSHI K T	01-01-2013
2068	14801073W	HAV	JOY DEV ADHIKARY	01-11-2012
2069	13899587L	HAV	K CHANDRAKANT BABU RAO	01-09-2012
2070	6382326K	HAV	KAJAL DAS	01-09-2012
2071	6382714F	HAV	KALASKAR SANJAY RAJARAM	01-11-2012
2072	6383014A	HAV	KALYANAPU BANGARAYYA	01-12-2012
2073	6382658N	HAV	KAMAL KISHORE	01-11-2012
2074	14804776H	HAV	KAMAL KISHORE PANDEY	01-11-2012
2075	13899860P	HAV	KAMAL SINGH	01-10-2012
2076	13899794X	HAV	KARNATI BRAHMANANDAM	01-09-2012
2077	6382354W	HAV	KARTICK CHANDRA MANDAL	01-09-2012
2078	6382597F	HAV	KESHAR SINGH RAWAT	01-10-2012
2079	6384863N	HAV	KOJA RAM MEGHWAL	01-12-2012
2080	14801344H	HAV	KRISHAN KUMAR	01-01-2013
2081	13899836Y	HAV	KRISHAN SINGH	01-10-2012
2082	1480633M	HAV	KRISHNA KUMAR RAM	01-11-2012
2083	6386846M	HAV	KRISHNA PAD MOHANTA	01-12-2012
2084	14801287M	HAV	KUNWAR PAL SINGH	01-12-2012
2085	6382423F	HAV	L MARIA KULANTHAI THAMBU RAJ	01-10-2012
2086	6386919N	HAV	LALIT KUMAR	01-12-2012
2087	6382251X	HAV	LAVKUSH TIWARI	01-09-2012
2088	6382364A	HAV	LINGARAJ BHARASAGAR	01-09-2012
2089	14804588F	HAV	LOCHAN SINGH	01-12-2012
2090	15356114H	HAV	LULAN SINGH	01-10-2012
2091	13896009L	HAV	M RAJA	01-11-2012
2092	6382410K	HAV	MADHAB KALITA	01-10-2012
2093	6382765P	HAV	MAHENDRA KUMAR KUSHWAHA	01-11-2012
2094	14801238K	HAV	MAHENDRA SINGH	01-12-2012
2095	14801009Y	HAV	MAHENDRA SINGH	01-10-2012
2096	6382240L	HAV	MAHESWAR THAKUR	01-09-2012
2097	14804751W	HAV	MAHIDA MAHENDRA SINGH	01-01-2013
2098	6382724L	HAV	MAHTAB SINGH BHATI	01-11-2012
2099	6383735K	HAV	MALKEET SINGH	01-11-2012
2100	6382873Y	HAV	MALKIT SINGH	01-12-2012
2101	6387053W	HAV	MANAS RANJAN OJHA	01-01-2013
2102	6382515N	HAV	MANGULI SWAIN	01-10-2012
2103	6383079N	HAV	MANNEM RANGANA YAKULU	01-01-2013
2104	15357272K	HAV	MANOJ PANDIT	01-01-2013
2105	6382590X	HAV	MANOJAN PUTHAN VALAPPIL	01-11-2012
2106	14800899X	HAV	MAYA KRISHNAN P	01-09-2012
2107	6382555P	HAV	MEWA SINGH	01-10-2012
2108	6386658L	HAV	MOHAN SWARUP	01-10-2012

2109	13898810X	HAV	MOHESH CHANDRA DUTTA	01-10-2012
2110	6382184X	HAV	MOHMAD YUSUF	01-09-2012
2111	6383049W	HAV	MONUJ KUMAR SINGHA	01-01-2013
2112	6383098Y	HAV	MUKESH KUMAR	01-01-2013
2113	13899727M	HAV	MUNESH KUMAR	01-10-2012
2114	13899823F	HAV	N. MURUGESAN	01-10-2012
2115	14801360A	HAV	N. SURESH KUMAR	01-01-2013
2116	6382313M	HAV	NABIN KUMAR JHA	01-09-2012
2117	14801064P	HAV	NAG NARAYAN MOURYA	01-11-2012
2118	14804541W	HAV	NAGENDRA NATH KARMAKAR	01-11-2012
2119	8031971N	HAV	NARENDER SINGH	01-11-2012
2120	13899831A	HAV	NARENDRA BAHADUR SINGH	01-10-2012
2121	14804508Y	HAV	NARESH CHANDRA DAS	01-11-2012
2122	6382514L	HAV	NARESH CHANDRA MAHAPATRA	01-10-2012
2123	13896016F	HAV	NATHI LAL	01-12-2012
2124	6383077H	HAV	NAYAN KUMAR RAI	01-01-2013
2125	14804650H	HAV	NEELOKANTHO NAYAK	01-09-2012
2126	6386898H	HAV	NEKI RAM	01-12-2012
2127	6382421W	HAV	NIHAMA JIVAJI KALAJI	01-10-2012
2128	6382680Y	HAV	NIRANJAN KUMAR MAITY	01-10-2012
2129	6482316P	HAV	OKIL SINGH	01-10-2012
2130	14804537N	HAV	OM PRAKASH	01-11-2012
2131	6382175W	HAV	PADHIAR BALVANT SINGH MAHIJI BHAI	01-09-2012
2132	13899845A	HAV	PANCH DEO YADAVA	01-10-2012
2133	6382422Y	HAV	PARAMASIVAN B	01-10-2012
2134	14801146X	HAV	PARMAR SHYAMJI BHAI GAGA BHAI	01-11-2012
2135	15355504Y	HAV	PATAT PABAN KARMAKAR	01-09-2012
2136	14800941L	HAV	PAWAN KUMAR	01-10-2012
2137	14801352F	HAV	PHOOL SINGH	01-01-2013
2138	6382490M	HAV	PRADIPTA KUMAR MAJUMDAR	01-10-2012
2139	6382193Y	HAV	PRADIPTA KUMAR SAHOO	01-09-2012
2140	13899637L	HAV	PRAMOD KUMAR RAI	01-09-2012
2141	14801195A	HAV	PRASANTA KUMAR DAS	01-12-2012
2142	6384764L	HAV	PREM BAHADUR RAM	01-11-2012
2143	6382464L	HAV	PREM SINGH	01-10-2012
2144	6382509A	HAV	RABINDRA KUMAR SAHOO	01-10-2012
2145	6382382H	HAV	RADHA KRISHNA TIWARY	01-09-2012
2146	15356794N	HAV	RADHA KRISHNAN MK	01-12-2012
2147	6386923W	HAV	RADHE SHYAM KATARIA	01-12-2012
2148	6382853L	HAV	RAGHU NANDAN	01-12-2012
2149	6382445A	HAV	RAGHUBIR SINGH YADAV	01-10-2012
2150	13899886K	HAV	RAGHUVIR SINGH	01-10-2012
2151	14801444N	HAV	RAJ BAHADUR SINGH	01-01-2013
2152	13899894H	HAV	RAJ KUMAR PANDEY	01-11-2012
2153	14801180X	HAV	RAJ KUMAR PASWAN	01-11-2012
2154	6382931X	HAV	RAJA RAM YADAV	01-12-2012
2155	6382796P	HAV	RAJBIR SINGH	01-12-2012
2156	6382340W	HAV	RAJENDER PRASAD RAJAK	01-10-2012
2157	6383106M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-2013
2158	6382477H	HAV	RAJENDRA KUMAR YADAV	01-10-2012

2159	14801054L	HAV	RAJINDER SINGH	01-10-2012
2160	15356870P	HAV	RAJIV	01-12-2012
2161	14800861N	HAV	RAKESH KUMAR	01-09-2012
2162	14800935X	HAV	RAM ABHILASH SINGH	01-10-2012
2163	13896030N	HAV	RAM BRIKSH YADAV	01-11-2012
2164	14804683N	HAV	RAM CHANDRA	01-12-2012
2165	14804566H	HAV	RAM CHANDRA SHARMA	01-11-2012
2166	6382887Y	HAV	RAM KRISHNA	01-12-2012
2167	14801204W	HAV	RAM KUMAR JHA	01-12-2012
2168	6383093A	HAV	RAM LARHATE MATHUR	01-01-2013
2169	6482399L	HAV	RAM POLHAWAN	01-01-2013
2170	14801057Y	HAV	RAM PRATAP VERMA	01-10-2012
2171	6382722A	HAV	RAM SINGH YADAV	01-11-2012
2172	6386701F	HAV	RAMA KANT PARIDA	01-10-2012
2173	14801058F	HAV	RAMAYAN PRASAD VERMA	01-10-2012
2174	6382816X	HAV	RAMBIR SINGH	01-12-2012
2175	14804737K	HAV	RAMESH CHANDER	01-01-2013
2176	6382192W	HAV	RAMESH CHANDRA JOSHI	01-09-2012
2177	14801276A	HAV	RAMESH KUMAR	01-12-2012
2178	14804671Y	HAV	RAMESH LAMANI	01-12-2012
2179	13896022P	HAV	RAMESH YADAV	01-01-2013
2180	13899924P	HAV	RANJIT ATTA	01-11-2012
2181	6382474P	HAV	RANJIT SARKAR	01-10-2012
2182	6382424K	HAV	RAVI CHANDRAN SIVAM T	01-10-2012
2183	6383017N	HAV	RAVI KANT RAI	01-01-2013
2184	14801251N	HAV	RAVI KANTH GURUNG	01-12-2012
2185	6382833X	HAV	RETNA KUMAR VJ	01-12-2012
2186	6386680W	HAV	RUGA RAM BAJROLIYA	01-10-2012
2187	6382851A	HAV	RUP SINGH	01-12-2012
2188	6382667P	HAV	RVV MURALI KRISHNA	01-11-2012
2189	6383078L	HAV	SACHIDHANANDHAN N	01-01-2013
2190	6382787N	HAV	SAHAB SINGH	01-10-2012
2191	13899871F	HAV	SAMANDAR SINGH	01-10-2012
2192	6382386Y	HAV	SANAT KUMAR SARKAR	01-09-2012
2193	6382602F	HAV	SANKAR KUMAR DAS	01-10-2012
2194	6387085Y	HAV	SARVAR SINGH	01-01-2013
2195	6382718X	HAV	SASI B	01-11-2012
2196	6385299W	HAV	SATPAL	01-12-2012
2197	14801362L	HAV	SATTAR ANSARI	01-01-2013
2198	6382208W	HAV	SATYAPAL SINGH	01-09-2012
2199	6383088P	HAV	SATYNDRA KUMAR THAKUR	01-01-2013
2200	6382375M	HAV	SAYED SAYED BASHA	01-09-2012
2201	6382327M	HAV	SHAIN LAL	01-09-2012
2202	14804709X	HAV	SHAJI RAJAN	01-01-2013
2203	14801422P	HAV	SHAMBHU NATH GUPTA	01-01-2013
2204	64823227F	HAV	SHAMBHU PRASAD YADAV	01-11-2012
2205	14800936A	HAV	SHEO KUMAR	01-10-2012
2206	6382441K	HAV	SHIBA SHANKAR NAYAK	01-10-2012
2207	14804733N	HAV	SHISH RAM	01-01-2013
2208	6382181K	HAV	SHIV BACHAN KEWAT	01-09-2012

2209	6383044X	HAV	SHIV BALEE YADAV	01-01-2013
2210	6382886W	HAV	SHRAVAN KUMAR	01-12-2012
2211	6382271L	HAV	SHRI NEWAS PATHAK	01-09-2012
2212	6482289W	HAV	SK SAMSER HOSSAION	01-10-2012
2213	6382209Y	HAV	SOHAN PAL SINGH	01-09-2012
2214	14800406L	HAV	SOLANKAR ANANDA YASHVANT	01-12-2012
2215	6382779P	HAV	SREE KUMAR VS	01-10-2012
2216	6382507P	HAV	SUDARSHANA BEHERA	01-10-2012
2217	14801261X	HAV	SUKH PAL SINGH	01-12-2012
2218	6384770Y	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-01-2013
2219	14801069N	HAV	SULINDER KUMAR	01-11-2012
2220	6382819L	HAV	SUMER SINGH	01-12-2012
2221	6382014N	HAV	SUNIL KUMAR BISWAS	01-10-2012
2222	6382880P	HAV	SURENDAR PAL	01-12-2012
2223	6382161W	HAV	SURENDRA KUMAR VERMA	01-09-2012
2224	14801392H	HAV	SURESH	01-01-2013
2225	13899961H	HAV	SURESH KUMAR K C	01-11-2012
2226	13899622H	HAV	SURESH LANDGE	01-09-2012
2227	14800776L	HAV	SURJIT SINGH	01-09-2012
2228	6382996L	HAV	SUROTH PHUKAN	01-01-2013
2229	6382924F	HAV	SUSANTA KUMAR RAJAK	01-12-2012
2230	6382305N	HAV	SUSHIL KUMAR SRIVASTAVA	01-09-2012
2231	1480668Y	HAV	SWENDRA KUMAR PANDEY	01-12-2012
2232	6387058P	HAV	T DAKSHINA MURTHY	01-01-2013
2233	6382139L	HAV	TAGAD DATTU UMAJI	01-09-2012
2234	15360465P	HAV	TANKESWAR KALITA	01-10-2012
2235	14804515P	HAV	TAPAN KUMAR BISWAS	01-11-2012
2236	6382933H	HAV	TARA KRISHNA RAO	01-12-2012
2237	6382870L	HAV	TARSEM LAL	01-12-2012
2238	6382210N	HAV	THAN SINGH PAL	01-09-2012
2239	14801441A	HAV	THIMMA RASU G	01-01-2013
2240	14801176P	HAV	TILALA BHARAT HIRAJI BHAI	01-11-2012
2241	15357046M	HAV	TULCHHI RAM KUMAWAT	01-01-2013
2242	6383007K	HAV	UDAI SINGH ASWAL	01-01-2013
2243	14801368M	HAV	UDAY KUMAR SINGH	01-01-2013
2244	14801385M	HAV	UDAYVIR	01-01-2013
2245	6382258F	HAV	UPENDER SINGH	01-09-2012
2246	13899933W	HAV	UTPAL KUMAR BALA	01-11-2012
2247	6382955F	HAV	UTTAM KUMAR PAL	01-01-2013
2248	13899999M	HAV	V KARUNANITHI	01-11-2012
2249	6382874F	HAV	VARINDER SINGH	01-12-2012
2250	6386524M	HAV	VASDEV	01-09-2012
2251	6382269N	HAV	VED PRAKASH JADLI	01-09-2012
2252	13898631X	HAV	VIJAY KUMAR YADAV	01-12-2012
2253	6382179M	HAV	VIJAY PRASAD TIWARI	01-09-2012
2254	13898418X	HAV	VIRENDRA DUBEY	01-10-2012
2255	6382855W	HAV	VIRENDRA SINGH	01-12-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

2256	6383086K	DFR	AKHTAR HUSSAIN	01-01-2013
------	----------	-----	----------------	------------

2257	6382303H	HAV	AKSHAYA KUMAR GUPTA	01-09-2012
2258	6482369N	HAV	ANIL KUMAR	01-11-2012
2259	6482192L	HAV	ARDHI KANTHA RAO	01-09-2012
2260	6482314K	DFR	ASHOK KUMAR SHUKLA	01-11-2012
2261	6482380M	HAV	AWADH PRASAD	01-12-2012
2262	6483211X	HAV	BASAVARAJ MELGIREPPA HANSIKATTI	01-09-2012
2263	6482378P	HAV	BASHIR AHMAD MIR	01-12-2012
2264	6387007F	DFR	BED PRAKASH SINGH	01-01-2013
2265	6382731F	HAV	BHARAT RAM PATEL	01-11-2012
2266	6482217M	HAV	BIRENDRA KUMAR	01-09-2012
2267	6382404W	DFR	BRIJ KUMAR UPADHAYA	01-10-2012
2268	6482262Y	HAV	BRIJ LAL SINGH	01-09-2012
2269	6382400A	HAV	BRIJ MOHAN	01-10-2012
2270	6483176A	HAV	CHAIN SINGH	01-09-2012
2271	6482317X	HAV	DALIP SINGH	01-11-2012
2272	6483213H	HAV	DARLAPUDI SRINIVASA RAO	01-09-2012
2273	6382383L	HAV	DAULAT SINGH	01-09-2012
2274	6482196F	HAV	DEVENDRA SINGH	01-09-2012
2275	6482794Y	HAV	DHARAM PAL SINGH	01-12-2012
2276	6382157N	DFR	DHIR SINGH	01-09-2012
2277	6382783X	HAV	DIWAN SINGH	01-10-2012
2278	6482248M	DFR	GANESH KHUSHAL TIDKE	01-09-2012
2279	6482302P	DFR	HARI KRISHNA SINGH	01-11-2012
2280	6482471W	DFR	HARI MOHAN BISWAS	01-10-2012
2281	6482392F	HAV	HARI SHANKAR	01-12-2012
2282	6482386N	HAV	HARI SHANKAR YADAV	01-12-2012
2283	13898046X	HAV	INDRAJEET RAY	01-12-2012
2284	6483235F	HAV	JAG MOHAN	01-10-2012
2285	6382946A	HAV	JAGADISH PRASAD YADAV	01-01-2013
2286	6482263F	HAV	JAYA PRAKASH	01-09-2012
2287	6382898L	HAV	JAYBEER SINGH	01-12-2012
2288	6482429X	DFR	JYOTIR MOY PAUL	01-01-2013
2289	6482231Y	DFR	KARAN SINGH YADAV	01-09-2012
2290	6482324N	HAV	KRISHAN LAL	01-11-2012
2291	6482198M	DFR	KUNCHA VEERA PATRUDU	01-09-2012
2292	6483335M	DFR	KUNWAR SINGH	01-01-2013
2293	6482275W	HAV	KUTRE SHIVAJI RAMACHANDRA	01-10-2012
2294	6482233K	DFR	L BALAKRISHNA REDDY	01-09-2012
2295	6483249F	DFR	LAKHWINDER SINGH	01-10-2012
2296	6382389M	DFR	MANAS KUMAR PATRA	01-09-2012
2297	6382903L	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-12-2012
2298	6483298K	HAV	NANGAS PUNA BHAI MURA BHAI	01-12-2012
2299	13898052L	HAV	NAR SINGH LAKRA	01-11-2012
2300	6482205X	HAV	NARENDRA SINGH	01-09-2012
2301	6382339F	DFR	NEELAPU KRISHNA REDDY	01-10-2012
2302	6383092X	DFR	NEMI CHAND	01-01-2013
2303	6482390W	HAV	NINGAPPA LAXMAPPA TALWAR	01-12-2012
2304	6482377M	DFR	NIRODH KUMAR PRADHAN	01-12-2012
2305	13898048H	DFR	P MANI KANDAN	01-01-2013
2306	6386791N	HAV	P VELAYUTHAM	01-11-2012

2307	6382929A	HAV	PAWAN KUMAR SINGH	01-12-2012
2308	6483277N	DFR	PHAKADE SANJAY PANDURANG	01-11-2012
2309	6482213W	HAV	PRAKASH SANGA	01-09-2012
2310	6482292W	HAV	PRASANA KUMAR SINGH	01-10-2012
2311	6383083W	DFR	R ANBALAGAN	01-01-2013
2312	6382914X	HAV	R SELVARAJ	01-01-2013
2313	6386673A	DFR	RADHE SHYAM YADAV	01-10-2012
2314	6482241H	DFR	RAM MOHAN RAJBANSHI	01-09-2012
2315	6482319H	DFR	RAMESH CHANDRA	01-11-2012
2316	6383047L	HAV	RAMESH SINGH	01-01-2013
2317	6382892K	HAV	RANBIR SINGH	01-12-2012
2318	6482403H	DFR	SAMAR KUMAR MONDAL	01-09-2012
2319	6482303X	HAV	SANTHOSHI SINGH	01-11-2012
2320	6482340L	HAV	SHAILENDRA KUMAR SINGH	01-11-2012
2321	6482347P	DFR	SHIDAPPA BIMRAYAPPA AJJANIKATHI	01-11-2012
2322	6482407Y	DFR	SHIV DAS	01-01-2013
2323	6482375F	HAV	SHIV DAYAL	01-12-2012
2324	6482234M	HAV	SHIV KUMAR SINGH CHOUHAN	01-09-2012
2325	13898049L	HAV	SITA RAM	01-01-2013
2326	6482428P	HAV	SUBHASH PRASAD VERMA	01-01-2013
2327	6482211L	HAV	SUDHIR KUMAR CHOUDHARY	01-09-2012
2328	6483262L	DFR	TAPAS KUMAR ROY	01-11-2012
2329	6482385L	HAV	UMAKANT SINGH	01-12-2012
2330	6482228Y	DFR	V GANESH RAJENDRAN	01-09-2012
2331	6482331K	HAV	VIJAY KUMAR GOSWAMY	01-11-2012
2332	6482371L	DFR	VIRENDRA SINGH	01-11-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

2333	13969463W	HAV	A SANTOSH BHIKAJI	01-09-2012
2334	13969903Y	HAV	ABDUS SALAM	01-10-2012
2335	13969584X	HAV	ACHHAR SINGH	01-09-2012
2336	13969282L	HAV	ALOKE GHOSH	01-09-2012
2337	13969646M	HAV	ANIL KUMAR	01-09-2012
2338	13970088H	HAV	ANIL PATIL	01-10-2012
2339	13969639W	HAV	ARUN KUMAR	01-09-2012
2340	13969771W	HAV	ARUP KUAMR BERA	01-09-2012
2341	13969452K	HAV	ASHIM KUMAR MAHATO	01-09-2012
2342	13969756F	HAV	ASHOK KUMAR NAYAK	01-09-2012
2343	13969269F	HAV	AVTAR SINGH	01-09-2012
2344	13969741Y	HAV	B C V RANGAIAH	01-09-2012
2345	13971388W	HAV	B CHINA BABU	01-01-2013
2346	13969284W	HAV	B K BHAGAT	01-09-2012
2347	13969635A	HAV	B S SHEKHAWAT	01-09-2012
2348	13970175W	HAV	BABU G	01-10-2012
2349	13969336F	HAV	BALDEV SINGH	01-09-2012
2350	13969673W	HAV	BALISTER MATHURIA	01-09-2012
2351	13971369L	HAV	BALJINDER PAL	01-01-2013
2352	7239852W	HAV	BASANT BHADUR THAPA	01-09-2012
2353	13970104P	HAV	BAURI BANDHU SAHOO	01-10-2012
2354	13969329L	HAV	BGEDOO PERSAD BRONA	01-09-2012

2355	13969674Y	HAV	BHARAT SINGH NEGI	01-09-2012
2356	13969312X	HAV	BHASKAR DATT JOSHI	01-09-2012
2357	13969615M	HAV	BIJU JOHN	01-09-2012
2358	13969406P	HAV	BIMAL BORAH	01-09-2012
2359	13970204A	HAV	BIMAL KUMAR MAITY	01-10-2012
2360	13969432W	HAV	BIMAL KUMAR PANDEY	01-09-2012
2361	13969399K	HAV	BIMAN PATRA	01-09-2012
2362	13969297N	HAV	BIRBAL SAHU	01-09-2012
2363	13969454P	HAV	BISAMBER DAYAL	01-09-2012
2364	13969315L	HAV	BISHWA NATH BHAGAT	01-09-2012
2365	13970120M	HAV	BLESSANSAM	01-10-2012
2366	13969668L	HAV	BRAHAMPAL SOLANKI	01-09-2012
2367	13970116K	HAV	BYJU N S	01-10-2012
2368	13969604A	HAV	C BURHATHOKI	01-09-2012
2369	13970057H	HAV	C P RAJORIA	01-10-2012
2370	13969458L	HAV	CHANDRA DEO RAM	01-09-2012
2371	13969746X	HAV	CHANGAM RAMI REDDY	01-09-2012
2372	13969864L	HAV	CHOUDHURY SAHU	01-10-2012
2373	13969254Y	HAV	D C S MADAR SINH	01-09-2012
2374	13969910P	HAV	D RASHID HIRA LAL	01-10-2012
2375	13970103M	HAV	DHANESWAR BASANTIA	01-10-2012
2376	13969357X	HAV	DHARAM PAL	01-09-2012
2377	13970133K	HAV	DILLIP KUMAR BARICK	01-10-2012
2378	13969447Y	HAV	DINESH NANDAN SINGH	01-09-2012
2379	13969579M	HAV	DINESH SHARMA	01-09-2012
2380	13970151M	HAV	DIPAK BORUAH	01-10-2012
2381	13971190X	HAV	DOGU MOOLYA	01-01-2013
2382	13970126N	HAV	DULAN CHANDRA DEB	01-10-2012
2383	13969672N	HAV	G C BAHUGUNA	01-09-2012
2384	13969912A	HAV	G R SHANKAR	01-10-2012
2385	13970036M	HAV	G S BHADORIA	01-10-2012
2386	13969630F	HAV	G S NAGARKOTI	01-09-2012
2387	13971044X	HAV	GANESH PRASAD MISHRA	01-12-2012
2388	13969489L	HAV	GANGA SINGH KORANGA	01-09-2012
2389	13969998K	HAV	GANGADEEN	01-10-2012
2390	13969754W	HAV	GAYADHAR BARIK	01-09-2012
2391	13969774K	HAV	GHANSHYAM	01-09-2012
2392	13969441X	HAV	GHANSHYAM DAS	01-09-2012
2393	13970191N	HAV	GIREESH KUMAR N	01-10-2012
2394	13969786Y	HAV	GUNTHA LOKANATH	01-09-2012
2395	13970096F	HAV	GYAN CHAND SHARMA	01-10-2012
2396	13969651X	HAV	H K BUDHAKOTI	01-09-2012
2397	13969995W	HAV	HANIF AHMED	01-10-2012
2398	13970047Y	HAV	HARDYANAND SINGH	01-10-2012
2399	13971118F	HAV	HARESH SINGH	01-01-2013
2400	13969218N	HAV	HARI KISHAN	01-09-2012
2401	13969321Y	HAV	HARI KUMAR T	01-09-2012
2402	13969538H	HAV	HARI NANDAN THAKUR	01-09-2012
2403	13969831A	HAV	HARI SINGH RAGHAW	01-10-2012
2404	13971373N	HAV	HEMENDRA SINGH	01-01-2013

2405	13969969P	HAV	I S VITHOBA	01-02-2012
2406	13970000N	HAV	INDAL SINGH	01-09-2012
2407	13969421K	HAV	INDER SINGH	01-09-2012
2408	13969459N	HAV	INDRA HANDIQUE	01-09-2012
2409	13969451F	HAV	JABAR SINGH	01-09-2012
2410	13969941P	HAV	JAGADISH KUMAR	01-10-2012
2411	13970205H	HAV	JAGANNATH MONDAL	01-10-2012
2412	13970046W	HAV	JAI NARAYAN SINGH	01-10-2012
2413	13969652A	HAV	JAIPAL SINGH	01-09-2012
2414	13969271Y	HAV	JASDEV SINGH	01-09-2012
2415	13969730M	HAV	JAYANTA KUMAR KHATUA	01-09-2012
2416	13970178K	HAV	JIJY P V	01-10-2012
2417	13970153X	HAV	JITEN CHALIHA	01-10-2012
2418	13969737W	HAV	JOHN D	01-09-2012
2419	13970093N	HAV	JUGAL KISHORE SAMANT	01-10-2012
2420	13969482F	HAV	K BOOMINATHAN	01-09-2012
2421	13969868F	HAV	K D VAISHANAVA	01-10-2012
2422	13969382W	HAV	K GOVINDA SAMY	01-09-2012
2423	13969521P	HAV	K JEYABAL	01-09-2012
2424	13969525L	HAV	K MURUGESAN	01-09-2012
2425	13969804W	HAV	K N RAMA CHANDRA	01-09-2012
2426	13970109N	HAV	K P PATEL	01-10-2012
2427	13969915N	HAV	K PRABHAKAR BHATU	01-10-2012
2428	13970111L	HAV	K S DWIVEDI	01-10-2012
2429	13969479F	HAV	K SELVAKUMAR	01-09-2012
2430	13969830X	HAV	K V PRASAD REDDY	01-10-2012
2431	13970068P	HAV	KAMALESH ROY PRADHAN	01-10-2012
2432	13969825M	HAV	KESHAR SINGH JHALA	01-09-2012
2433	13969607N	HAV	KHIM RAM	01-09-2012
2434	13969368K	HAV	KISHAN LAL	01-09-2012
2435	13969234L	HAV	KISHUN SAH	01-09-2012
2436	13969815H	HAV	KUNDAN SINGH	01-09-2012
2437	13969891P	HAV	LALJI RAM	01-10-2012
2438	13969415W	HAV	M D YASHVANT	01-09-2012
2439	13971285X	HAV	M R SHIVALINGAPPA	01-01-2013
2440	13970016Y	HAV	M S KUSHWAH	01-10-2012
2441	13970201M	HAV	MAHAMMAD ALI MONDAL	01-10-2012
2442	13969537A	HAV	MAHENDRA THAKUR	01-09-2012
2443	13969889X	HAV	MAHI PAL	01-10-2012
2444	13969688Y	HAV	MALKEET SINGH	01-09-2012
2445	13969201A	HAV	MAN MOHAN SINGH	01-09-2012
2446	13969763X	HAV	MANIKANDAN V	01-09-2012
2447	13969567X	HAV	MANOJ KUMAR	01-09-2012
2448	13970200K	HAV	MANOJ KUMAR TIKADAR	01-10-2012
2449	13969481Y	HAV	MARI MUTHU S	01-09-2012
2450	13969655N	HAV	MATA PRASAD	01-09-2012
2451	13969242K	HAV	MD IMRAN	01-09-2012
2452	13969313A	HAV	MIMAI BISWAS	01-09-2012
2453	13969610N	HAV	MOHAN CHANDRA SINGH	01-09-2012
2454	13969873M	HAV	MOTA RAM	01-10-2012



2455	13969352Y	HAV	MRIDUL GOGOI	01-09-2012
2456	13970106A	HAV	MUKESH KUMAR DONGRE	01-10-2012
2457	13969906M	HAV	MUNNA LAL	01-10-2012
2458	13970031N	HAV	MURUGAN T	01-10-2012
2459	13969292P	HAV	N C PATHAK	01-09-2012
2460	13969985M	HAV	N KRISHNARAJUNA RAO	01-10-2012
2461	13969802L	HAV	N MAHADEVAPPA BOGUR	01-09-2012
2462	13969484M	HAV	N SUNDRA MOORTHY	01-09-2012
2463	13970447L	HAV	N U BHADA BHAI	01-11-2012
2464	13969259X	HAV	NANHEY RAM	01-09-2012
2465	13969842M	HAV	NARENDER MOHAN JOSHI	01-10-2012
2466	13969369M	HAV	NARESH	01-09-2012
2467	13969564K	HAV	NARESH KUMAR	01-09-2012
2468	13969263A	HAV	NARESH KUMAR	01-09-2012
2469	13969751H	HAV	NARYAN PRASAD DAS	01-09-2012
2470	13969820N	HAV	NIRANJAN PANIGRAHI	01-09-2012
2471	13969619H	HAV	NRIPEN KUMAR DAS	01-09-2012
2472	13969821W	HAV	P ELANKATHIRAVAN	01-09-2012
2473	13969745P	HAV	P RADHAKRISHNAN	01-09-2012
2474	13969211K	HAV	P RAJAGOPAL	01-09-2012
2475	13969791K	HAV	P SRINIVASA RAO	01-09-2012
2476	13969485P	HAV	PALANI S	01-09-2012
2477	13969978W	HAV	PATIL PRAKASH ABA	01-10-2012
2478	13969683A	HAV	PAWAN KUMAR	01-09-2012
2479	13969562Y	HAV	PHOOL CHANDRA YADAV	01-09-2012
2480	13969759P	HAV	PRADEEP KUMAR SWAIN	01-09-2012
2481	13969874P	HAV	PRAVISH KUMAR	01-10-2012
2482	13969401W	HAV	PRODIP DEY	01-09-2012
2483	13969624N	HAV	PUNIT RAM PARKAR	01-09-2012
2484	13969339P	HAV	PURAN SINGH	01-09-2012
2485	13969475L	HAV	R JEYACHANDRAN	01-09-2012
2486	13971265K	HAV	R MURUGESAN	01-01-2013
2487	13969294A	HAV	R P PRAJAPATI	01-09-2012
2488	13969923M	HAV	R P RAMBHAU	01-10-2012
2489	13971365P	HAV	R PONNU SAMY	01-01-2013
2490	13970560A	HAV	R S CHAUHAN	01-11-2012
2491	13969308P	HAV	R S TRIPATHI	01-09-2012
2492	13969696X	HAV	R SAYMAN TAMAS	01-09-2012
2493	13969706W	HAV	RADHA KRISHNAN A	01-09-2012
2494	13969457H	HAV	RAJA RAM	01-09-2012
2495	13970037P	HAV	RAJBIR SINGH TOMAR	01-10-2012
2496	13969787F	HAV	RAJENDRA KUMAR BALA	01-09-2012
2497	13970170X	HAV	RAJENDRAN NAIR V	01-10-2012
2498	13969445N	HAV	RAJKUMAR PASWAN	01-09-2012
2499	13969257M	HAV	RAM AVTAR	01-09-2012
2500	13970114Y	HAV	RAM BALAK SINGH	01-10-2012
2501	13969858X	HAV	RAM LAL MITHARWAL	01-10-2012
2502	13969695P	HAV	RAM MAHESH KUSHAWAHA	01-09-2012
2503	13971100L	HAV	RAM NATH SHARMA	01-12-2012
2504	13969773F	HAV	RAM PRASAD SINGH	01-09-2012

2505	13969680M	HAV	RAMJI MOURYA	01-09-2012
2506	13969944H	HAV	RAMNATH ROY	01-10-2012
2507	13976432Y	HAV	RASHMI KUMAR SAHU	01-09-2012
2508	13969867Y	HAV	RATAN PURI	01-10-2012
2509	13970318L	HAV	RAVEENDRAN KOMATH	01-11-2012
2510	13970141H	HAV	RAVICHANDRAN C	01-10-2012
2511	13969612Y	HAV	RAVINDRA PAL SINGH	01-09-2012
2512	13969460H	HAV	ROBIN DUARAH	01-09-2012
2513	13969765H	HAV	S C HALDAR	01-09-2012
2514	13970094W	HAV	S C MALLIK	01-10-2012
2515	13969398F	HAV	S K PRAMANICK	01-09-2012
2516	13969795A	HAV	S NARAYAN BADATYA	01-09-2012
2517	13969574N	HAV	S P S MALIK	01-09-2012
2518	13969693K	HAV	S P SINGH YADAV	01-09-2012
2519	13969498M	HAV	S SAMANTARAY	01-09-2012
2520	13969679X	HAV	SAFIQUE AHMAD	01-09-2012
2521	13969387P	HAV	SAJEEV KUMAR S A	01-09-2012
2522	13970123A	HAV	SAJI M	01-10-2012
2523	13969316N	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-09-2012
2524	13970134M	HAV	SARATA KUMAR SARANGI	01-10-2012
2525	13969379W	HAV	SARFARAJ ALI KHAN	01-09-2012
2526	13969534M	HAV	SATENDRA NATH TIWARI	01-09-2012
2527	13969670H	HAV	SATYA SINGH	01-09-2012
2528	13969258P	HAV	SHANKER LAL	01-09-2012
2529	13969261P	HAV	SHANKER LAL	01-09-2012
2530	13969253W	HAV	SHARDA YADAV	01-09-2012
2531	13969676K	HAV	SHREE RAM YADAV	01-09-2012
2532	13969388X	HAV	SHREEKANTAN NAIR T	01-09-2012
2533	13969838K	HAV	SHRI KANT GIRI	01-10-2012
2534	13969598X	HAV	SHRIDHAR SHARMA	01-09-2012
2535	13969609Y	HAV	SHYAM SINGH DOSAD	01-09-2012
2536	13970050Y	HAV	SHYAMAL KUMAR SARMA	01-10-2012
2537	13970199A	HAV	SITANATH SARKAR	01-10-2012
2538	13969785W	HAV	SK MAHANTY	01-09-2012
2539	13969704L	HAV	SREE KUMAR C	01-09-2012
2540	13969658F	HAV	SUBAS RAM	01-09-2012
2541	13969296L	HAV	SUBHAS KUMAR	01-09-2012
2542	13971402X	HAV	SUDHAKAR SINGH	01-01-2013
2543	13969894H	HAV	SUDHIR KUMAR DWIWEDI	01-10-2012
2544	13969374X	HAV	SUKUMAR SAHA	01-09-2012
2545	13969611W	HAV	SURENDAR SINGH DOSAD	01-09-2012
2546	13969641N	HAV	SURENDER SINGH	01-09-2012
2547	13969840F	HAV	SURESH KUAMR	01-10-2012
2548	13969829H	HAV	SURESH P	01-10-2012
2549	13969430L	HAV	SURESH SINGH	01-09-2012
2550	13971370A	HAV	SUSHEEL KUMAR	01-01-2013
2551	13970070M	HAV	SYED NURUL ISLAM	01-10-2012
2552	13970086X	HAV	T ANNAMALAI	01-10-2012
2553	13969265L	HAV	TAJ MOHD	01-09-2012
2554	13969331H	HAV	TARA CHAND	01-09-2012

2555	13969681P	HAV	TARLOCHAN SINGH	01-09-2012
2556	13970122X	HAV	THOMAS VARGHESE	01-10-2012
2557	13969758M	HAV	TRIBIKRAM PATI	01-09-2012
2558	13969689F	HAV	TRILOK SINGH DASILA	01-09-2012
2559	13969783L	HAV	TRIPATI DAS	01-09-2012
2560	13969529F	HAV	TRIVENI KUMAR	01-09-2012
2561	13969956X	HAV	UMAKANT MISHRA	01-10-2012
2562	13969278H	HAV	UMESH KUMAR PANDEY	01-09-2012
2563	13970029W	HAV	V AYYANAR	01-10-2012
2564	13969599A	HAV	V VILLIALWAR	01-09-2012
2565	13969613F	HAV	VARGHESE P J	01-09-2012
2566	13969196A	HAV	VED PRAKASH SINGH	01-09-2012
2567	13969561W	HAV	VIJAI SHANKAR MAURYA	01-09-2012
2568	13969310M	HAV	VIJAY KUMAR	01-09-2012
2569	13969841K	HAV	VIJAY KUMAR DOGRA	01-10-2012
2570	13969553X	HAV	VIJAY KUMAR RANA	01-09-2012
2571	13969340K	HAV	VINOD KUMAR	01-09-2012
2572	13969563F	HAV	VIRENDRA SINGH	01-09-2012
2573	13969232A	HAV	WAKIL DAS	01-09-2012
2574	13969595K	HAV	Y S BHANDARI	01-09-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

2575	6926608N	HAV	ABHIJIT KUMAR MONDAL	01-01-2013
2576	6926665P	HAV	AKAVADE SUBHASH BAPU RAO	01-01-2013
2577	6926600F	HAV	AKHILESH KUMAR PATHAK	01-01-2013
2578	6929698L	HAV	AMULYA KUMAR SINGH	01-12-2012
2579	6926231P	HAV	ASHOK KUMAR	01-12-2012
2580	6926549M	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2013
2581	6926333L	HAV	ASHOK KUMAR PAYAL	01-12-2012
2582	6926248H	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2012
2583	6925861H	HAV	ASIT CHAKRABORTY	01-09-2012
2584	6926139W	HAV	BALAKRISHNAN G	01-11-2012
2585	6926151X	HAV	BANMALI PRASAD	01-11-2012
2586	6925867K	HAV	BHOORI SINGH	01-09-2012
2587	6926239F	HAV	BHUPENDRA PANDEY	01-12-2012
2588	6926543L	HAV	BHUWAN CHANDRA KAPRI	01-01-2013
2589	6926434Y	HAV	BRAJ LAL SINGH	01-01-2013
2590	6926195P	HAV	C MALLI GARJUNAN	01-12-2012
2591	6926046F	HAV	CHANDRA SEKAR V	01-10-2012
2592	6926419K	HAV	CHANDRA SHEKHAR PE	01-01-2013
2593	6926176K	HAV	CHARAN LAL SHARMA	01-12-2012
2594	6926334N	HAV	DAYA NAND	01-12-2012
2595	6926058W	HAV	DHAN SINGH	01-10-2012
2596	6925863N	HAV	DHARAM PAL SINGH	01-09-2012
2597	6926599X	HAV	DHRUBA CHANDRA PATRO	01-01-2013
2598	6926570P	HAV	DINESH KUMAR MISHRA	01-01-2013
2599	6925835F	HAV	DUNGAR SINGH INDA	01-09-2012
2600	6929670L	HAV	G BALKARISHNAN	01-12-2012
2601	6926003M	HAV	G LAXMAN RAO	01-10-2012
2602	13971199M	HAV	GHANAWAT MAHADEV NIVRUTI	01-01-2013

2603	6928210X	HAV	GHAWATE SURESH DADA BHAU	01-09-2012
2604	6925981F	HAV	GOPALA KRISHNAN E	01-10-2012
2605	6925864W	HAV	GOPEN CHANDRA BARMAN	01-09-2012
2606	6926591L	HAV	GOUR CHANDRA MONDAL	01-01-2013
2607	6926274K	HAV	HIRA BAHADUR CHHETRI	01-12-2012
2608	13969942X	HAV	HIRDHAYA RAM	01-10-2012
2609	6925819K	HAV	IQTIDAR ALI KHAN	01-09-2012
2610	6926383W	HAV	JAGAR NATH RAM	01-12-2012
2611	6926080F	HAV	JAGBIR SINGH	01-11-2012
2612	6926493L	HAV	JAGDISH PRASAD	01-01-2013
2613	6926116P	HAV	JAI CHAND	01-11-2012
2614	6926235L	HAV	JASWANT SINGH	01-12-2012
2615	6926607L	HAV	JATENDRA SINGH	01-01-2013
2616	6926535M	HAV	JHAL MAN SINGH	01-01-2013
2617	6926365N	HAV	JODEEY SINGH	01-12-2012
2618	6926120X	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-2012
2619	6929466M	HAV	KALIKA PRASAD SINGH	01-09-2012
2620	6926345A	HAV	KARAM SINGH	01-12-2012
2621	6926594Y	HAV	KESHAV PRASAD	01-01-2013
2622	6926175F	HAV	KHURSHID ALAM	01-12-2012
2623	6926205N	HAV	KULDEEP KUMAR SHARMA	01-12-2012
2624	13971376F	HAV	LAL SINGH	01-01-2013
2625	6926656N	HAV	LAL SINGH	01-01-2013
2626	6926252L	HAV	LAV KUSH	01-12-2012
2627	6926149A	HAV	LAXMIKANTA PANDA	01-11-2012
2628	6926240W	HAV	MAN SINGH	01-12-2012
2629	6926192F	HAV	MANA RAM	01-12-2012
2630	6926605A	HAV	MANINDRA NATH TARAFDAR	01-01-2013
2631	6926396N	HAV	MANUENDRA KUMAR SINGH	01-01-2013
2632	6929094M	HAV	MAREWAD VIJAY BABA	01-01-2013
2633	6926568X	HAV	MATA SHARAN PANDEY	01-01-2013
2634	6926390M	HAV	MEWA LAL	01-12-2012
2635	6926200P	HAV	N GNANA MURTHY	01-12-2012
2636	6926699H	HAV	NABA KANTA BORAH	01-01-2013
2637	6926597M	HAV	NABA KUMAR BISWAS	01-01-2013
2638	6926511H	HAV	NAGENDER PRASAD	01-01-2013
2639	6926464W	HAV	NARAYAN SINGH	01-01-2013
2640	6925862L	HAV	NITYANANDA PARHI	01-09-2012
2641	6925894N	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-10-2012
2642	6925927N	HAV	PADWAL SHIVAJI EKNATH	01-10-2012
2643	6926043N	HAV	PHOKE RADHA KRUSHNA UTTAM RAO	01-10-2012
2644	6926507A	HAV	PITAM SINGH	01-01-2013
2645	6926687N	HAV	POORAN MAL HARIJAN	01-01-2013
2646	6926685H	HAV	PRADYAT KUMAR MAITY	01-01-2013
2647	6926148X	HAV	PRITIRANJAN BISWAS	01-11-2012
2648	6925800L	HAV	R ELANGOVAN	01-09-2012
2649	6926696N	HAV	RABINDRA NATH BALA	01-01-2013
2650	6929700X	HAV	RADHE SHAM	01-01-2013
2651	6926193K	HAV	RAJ KUMAR	01-12-2012
2652	6926672L	HAV	RAJ KUMAR VERMA	01-01-2013

2653	6926586A	HAV	RAJENDER SINGH	01-01-2013
2654	6926439X	HAV	RAJENDRAN P	01-01-2013
2655	6926357P	HAV	RAJESH KUMAR	01-12-2012
2656	6926362A	HAV	RAJJAN LAL VERMA	01-12-2012
2657	6926090L	HAV	RAKSHPAL SINGH	01-11-2012
2658	6926666X	HAV	RAM AVITAR SONI	01-01-2013
2659	6929623N	HAV	RAM CHANDER	01-12-2012
2660	6926243K	HAV	RAM SIROMANI JAISWAL	01-12-2012
2661	6926684A	HAV	RAMA NAND	01-01-2013
2662	6925768F	HAV	RAMA SHANKAR	01-09-2012
2663	13971354H	HAV	RAMDAS KUSHAWAH	01-01-2013
2664	6926411X	HAV	RAMDEV MEENA	01-01-2013
2665	6926332H	HAV	RAMESH CHANDRA KAPRI	01-12-2012
2666	6929595M	HAV	RAMESH CHANDRA MISHRA	01-11-2012
2667	6926427H	HAV	RAMPAL SINGH	01-10-2012
2668	6926430H	HAV	RANDHIR SINGH	01-01-2013
2669	6925953P	HAV	RANJIT KUMAR RAY	01-10-2012
2670	6925821F	HAV	RANVINDRA SINGH KUSHWAHA	01-09-2012
2671	6926194M	HAV	RANVIR SINGH	01-12-2012
2672	6925858H	HAV	RATAN KUMAR BOSE	01-09-2012
2673	6926284N	HAV	RAVI PRATAP SINGH	01-12-2012
2674	6926029F	HAV	REVI P D	01-10-2012
2675	6926123L	HAV	RIAZUDDIN RIJVANULLA KHAN	01-11-2012
2676	6925832N	HAV	ROHTASH KUMAR	01-09-2012
2677	6926448Y	HAV	S S CHAKRABORTY	01-01-2013
2678	6929653L	HAV	SABU U	01-12-2012
2679	6926595F	HAV	SAJAL RAY	01-01-2013
2680	6926291K	HAV	SANTU RAM YADAV	01-12-2012
2681	6926245P	HAV	SAT PAL SINGH	01-12-2012
2682	6926001F	HAV	SATHEESH KUMAR K	01-10-2012
2683	6925796N	HAV	SATYABIR SINGH	01-09-2012
2684	6926386K	HAV	SECHAN YADAV	01-12-2012
2685	6926028Y	HAV	SHAJAN V THOMAS	01-10-2012
2686	6926548K	HAV	SHANKAR DAYAL MISHRA	01-01-2013
2687	6926093Y	HAV	SHRAVAN KUMAR MISHRA	01-11-2012
2688	6926141N	HAV	SIDA MALLAPPA SHEGUNASHI	01-11-2012
2689	6926602M	HAV	SIMANCHAL NAHAK	01-01-2013
2690	6926584P	HAV	SOUMEN BHATTACHARYYA	01-01-2013
2691	6929527Y	HAV	SRI NIBASH BEHERA	01-10-2012
2692	6928195N	HAV	SUBHASH CHAND SHARMA	01-10-2012
2693	6926617P	HAV	SUBHASH CHANDRA SHARMA	01-01-2013
2694	6926677K	HAV	SUDHIR KUMAR PARIJA	01-01-2013
2695	6925793A	HAV	SUK DEV CHATERJEE	01-09-2012
2696	6926371F	HAV	SUKH RATAN	01-12-2012
2697	6926136H	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-11-2012
2698	6926042L	HAV	SWAPAN KUMAR GHOSH	01-10-2012
2699	6926589N	HAV	SWAPAN KUMAR JANA	01-01-2013
2700	6926657W	HAV	UPENDRA PRASAD SINGH	01-01-2013
2701	6926503K	HAV	UTTAM CHAKRABARTY	01-01-2013
2702	6926461H	HAV	V NAGALINGSAM	01-01-2013

2703	6925773M	HAV	VED PRAKASH SHARMA	01-09-2012
2704	6926544N	HAV	VIJAY KUMAR	01-01-2013
2705	6926601K	HAV	VIKRAMA JEET SINGH	01-01-2013
2706	6926241Y	HAV	VINOD KUMAR	01-12-2012
2707	6926604X	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-01-2013

### **CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

2708	14601244N	HAV	A SRINIVASA JEYA KUMAR	01-12-2012
2709	14599695M	HAV	ABHIRAM MISHRA	01-10-2012
2710	14601840A	HAV	ABODHANANDA PATTANAİK	01-01-2013
2711	14599471M	HAV	ABU TALEB	01-10-2012
2712	14599199L	HAV	ABUL KALAM MANDAL	01-11-2012
2713	14600298H	HAV	AHIBARAN SINGH	01-11-2012
2714	14597918A	HAV	AJAY KUMAR DUBEY	01-10-2012
2715	14613266Y	HAV	AJAY KUMAR TIWARI	01-12-2012
2716	14601419L	HAV	AJIT RAJ	01-01-2013
2717	14601019Y	HAV	ALAKH PRAKASH	01-12-2012
2718	14598639F	HAV	AMAL KUMAR BISWAS	01-09-2012
2719	14601445M	HAV	AMAL KUMAR MANDAL	01-01-2013
2720	14601933P	HAV	AMAL SUKLA BAIDYA	01-01-2013
2721	14598131X	HAV	AMAR SINGH	01-09-2012
2722	14597257L	HAV	AMAR SINGH SHAKYAWAR	01-10-2012
2723	14600077W	HAV	AMARNATH SINGH	01-11-2012
2724	14599502F	HAV	AMIR ALI	01-10-2012
2725	145969942K	HAV	AMIR CHAND	01-09-2012
2726	14600267H	HAV	AMIRUL HOQUE MAZUMDAR	01-11-2012
2727	14600270H	HAV	AMITABH KAJRI	01-11-2012
2728	14598482M	HAV	ANCHAL KUMAR	01-09-2012
2729	14597857N	HAV	ANIL CHANDRA GHOSH	01-10-2012
2730	14598442L	HAV	ANIL KUMAR	01-10-2012
2731	14601111X	HAV	ANIL KUMAR MISHRA	01-11-2012
2732	14599518M	HAV	ANIL KUMAR P	01-10-2012
2733	14598205F	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-09-2012
2734	14599597M	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-10-2012
2735	14602930N	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-01-2013
2736	14599398Y	HAV	ANOOP KUMAR SHARMA	01-10-2012
2737	14598317F	HAV	ANUP KUMAR	01-09-2012
2738	14599583M	HAV	ARUN KUMAR NATH	01-10-2012
2739	14600080W	HAV	ASHISH SINGH	01-11-2012
2740	14599590H	HAV	ASHOK AV	01-10-2012
2741	14599652X	HAV	ASHOK KUMAR M	01-12-2012
2742	14597916P	HAV	ASHOK KUMAR PANDEY	01-10-2012
2743	14599944A	HAV	ASHOK KUMAR TIWARI	01-12-2012
2744	14613054N	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-11-2012
2745	14598641Y	HAV	ASIM KUMAR BISWAS	01-09-2012
2746	14598795L	HAV	ASOKAN C	01-09-2012
2747	14601042M	HAV	ASOKAN PV	01-12-2012
2748	14599667A	HAV	ATAWE RAHMAN	01-10-2012
2749	14598496M	HAV	AWADHESH KUMAR	01-09-2012
2750	14612903X	HAV	AWDHESH KUMAR	01-09-2012

2751	14598370M	HAV	AYODYA PRASAD TIWARI	01-09-2012
2752	14600676W	HAV	BABLU BARMAN	01-12-2012
2753	14599596K	HAV	BADAM SINGH YADAV	01-10-2012
2754	14598536H	HAV	BAM BAHADUR ALE	01-09-2012
2755	14598955A	HAV	BANDA AMRUTHA REDDY	01-10-2012
2756	14601911W	HAV	BHABESH NATH	01-01-2013
2757	14601926Y	HAV	BHAG CHAND	01-01-2013
2758	14598884K	HAV	BHAGABAT BEHURIA	01-10-2012
2759	14598604L	HAV	BHAGAT LAXMAN BAPU	01-09-2012
2760	14600108L	HAV	BHAGIRATHI MAHAPATRA	01-11-2012
2761	14597010K	HAV	BHAGU RAM DEWASI	01-09-2012
2762	14599591L	HAV	BHARAT SINGH	01-10-2012
2763	14600869W	HAV	BHAVISHYA KUMAR	01-12-2012
2764	14600886W	HAV	BHIM RAJ NAGAR	01-12-2012
2765	14597787A	HAV	BHOPAL SINGH BALYAN	01-09-2012
2766	14598380W	HAV	BHUDEV SINGH	01-09-2012
2767	8031945H	HAV	BIGENDRA NATH SHARMA	01-09-2012
2768	14597581H	HAV	BIJAY PRASAD	01-10-2012
2769	14599319Y	HAV	BIJENDRA SINGH	01-10-2012
2770	14600457P	HAV	BIJOY KUMAR KOCH	01-12-2012
2771	14600522K	HAV	BINDHYACHAL SINGH	01-12-2012
2772	14600613N	HAV	BINDRESH	01-12-2012
2773	14613350Y	HAV	BIPIN KUMAR	01-12-2012
2774	14596992P	HAV	BIPUL CHANDRA DAS	01-09-2012
2775	14596774W	HAV	BIRENDER SINGH	01-09-2012
2776	14600763K	HAV	BIRENDRA SINGH	01-12-2012
2777	14599488A	HAV	BISHAN DASS	01-10-2012
2778	14599284N	HAV	BRAHM SWAROOP	01-11-2012
2779	14600089L	HAV	BRIJ BHUSHAN	01-11-2012
2780	14597886H	HAV	BRINDABON GHOSH	01-10-2012
2781	14601129N	HAV	BUDHAN RAY	01-11-2012
2782	14596952N	HAV	C MURUGAN	01-09-2012
2783	14599860M	HAV	C NAGA BHUSHANAM	01-11-2012
2784	14599845X	HAV	CHANDER MAHESH	01-11-2012
2785	14597617W	HAV	CHANDRA BHUSHAN THAKUR	01-10-2012
2786	14601535N	HAV	CHANDRA DEO MEHTA	01-01-2013
2787	14599320N	HAV	CHANDRA PAL	01-10-2012
2788	14601449H	HAV	CHANDRA SEKHAR	01-01-2013
2789	14601416X	HAV	CHARAN SINGH	01-01-2013
2790	14599037A	HAV	CHAUDHARI SANTOSH BAJIRAO	01-10-2012
2791	14597822X	HAV	CHAVAN RAMCHANDRA BHIMRAO	01-10-2012
2792	14601458K	HAV	CHHATER PAL	01-01-2013
2793	14600126N	HAV	CHHEDI LAL YADAV	01-11-2012
2794	14600672A	HAV	CHHOTE LAL	01-12-2012
2795	14597910N	HAV	CONGRESS DAKUA	01-10-2012
2796	14599708Y	HAV	D RAVI	01-10-2012
2797	7775226A	HAV	DALBIR SINGH	01-01-2013
2798	14597781Y	HAV	DAYASHANKAR VISHWAKARMA	01-09-2012
2799	14598748N	HAV	DEBENDRA NATH SARANGI	01-11-2012
2800	14596943M	HAV	DESH RAJ	01-09-2012

2801	14601450X	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-01-2013
2802	14601882M	HAV	DEVPAL SINGH	01-01-2013
2803	14600054P	HAV	DEVRAJ SINGH	01-11-2012
2804	14613470X	HAV	DHANJAY KUMAR SINGH	01-01-2013
2805	14598519H	HAV	DHARAM CHAND	01-09-2012
2806	14600110H	HAV	DHARAMBIR	01-11-2012
2807	14598424H	HAV	DHARMINDER SINGH	01-11-2012
2808	14598550P	HAV	DHRUWA NARAYAN SINGH	01-09-2012
2809	14601205P	HAV	DILEEP KUMAR YADAV	01-12-2012
2810	14600406F	HAV	DILIP KUMAR DAS	01-12-2012
2811	14596968Y	HAV	DILIP KUMAR MAJHI	01-09-2012
2812	14599682P	HAV	DILIP PAUL	01-10-2012
2813	14601910N	HAV	DINESH CHANDRA SHARMA	01-01-2013
2814	14600733M	HAV	DINESH CHOUDHARY	01-12-2012
2815	14599289M	HAV	DINESH PRASAD SINGH	01-11-2012
2816	14599169N	HAV	DIP CHANDRA	01-11-2012
2817	14599766H	HAV	DIPAK KUMAR RAUTH	01-10-2012
2818	14598459Y	HAV	DIWAN SINGH BIST	01-09-2012
2819	14600118P	HAV	FAUJDAR YADAV	01-11-2012
2820	14597858W	HAV	FAUJI RAM	01-10-2012
2821	14597018W	HAV	G JAYARAMAN	01-09-2012
2822	14598436X	HAV	G KADAR KARAI	01-11-2012
2823	14613011Y	HAV	G KRISHNA MOORTHY	01-11-2012
2824	14600443P	HAV	G RAM MOHAN	01-12-2012
2825	14599468M	HAV	GANESH CHANDRA ROY	01-10-2012
2826	14600526A	HAV	GANESH DUTT CHAUBEY	01-12-2012
2827	14598930N	HAV	GANESH PANDEY	01-10-2012
2828	14599031Y	HAV	GAVALI LAHU RAM CHANDRA	01-10-2012
2829	14596664F	HAV	GAYANDER KUMAR	01-09-2012
2830	14598464K	HAV	GIRISH CHANDRA JOSHI	01-09-2012
2831	14602936P	HAV	GOPINATH BEHERA	01-01-2013
2832	14597789L	HAV	GYASUDDIN	01-09-2012
2833	14598537L	HAV	H MUNNU SWAMY	01-09-2012
2834	14612945K	HAV	HAJARI RAM	01-09-2012
2835	14600287W	HAV	HANS RAJ	01-11-2012
2836	14600032W	HAV	HAR SINGH	01-11-2012
2837	14613300N	HAV	HARADHAN BISWAS	01-12-2012
2838	14598596X	HAV	HARBANS SINGH	01-09-2012
2839	14600512A	HAV	HARI KUMAR N	01-12-2012
2840	14603944A	HAV	HARI LAL	01-01-2013
2841	14598385P	HAV	HARI SHANKER	01-09-2012
2842	14597359F	HAV	HARIBALLABH	01-10-2012
2843	14600250P	HAV	HARINAM	01-11-2012
2844	14596688L	HAV	HARINDRA NATH	01-09-2012
2845	14599768N	HAV	HARISH CHANDRA RAM	01-11-2012
2846	14598848Y	HAV	HARSURINDER SINGH	01-09-2012
2847	14598456L	HAV	HAYAD SINGH	01-09-2012
2848	14599044W	HAV	HEM SINGH	01-10-2012
2849	14598556W	HAV	HIRA LAL	01-09-2012
2850	14597247F	HAV	HOSHIYAR SINGH	01-10-2012



2851	14597337H	HAV	HRIDAYA NAND SINGH	01-10-2012
2852	14601068F	HAV	I VIJAYA KUMAR	01-12-2012
2853	14599133P	HAV	INDRA DEO PRASAD	01-10-2012
2854	14598386X	HAV	ISHTYAQ AHMED	01-09-2012
2855	14597782F	HAV	ISHWAR SINGH	01-09-2012
2856	14599432N	HAV	JADAV CHANDRA KALITA	01-11-2012
2857	14599628F	HAV	JADHAV GAJANAN TUKARAM	01-10-2012
2858	14599616M	HAV	JAGAT NARAYAN	01-10-2012
2859	14597801F	HAV	JAGDISH SHARMA	01-09-2012
2860	14598484X	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-09-2012
2861	14601923L	HAV	JAGVIR SINGH	01-01-2013
2862	14598831L	HAV	JAI SINGH	01-09-2012
2863	14599382N	HAV	JAI SINGH YADAV	01-10-2012
2864	14600196M	HAV	JALE SINGH KUMHAR	01-11-2012
2865	14613286M	HAV	JASWANT SINGH	01-12-2012
2866	14596644N	HAV	JAWAHAR LAL SAH	01-09-2012
2867	14600160N	HAV	JAY NARAYAN PANDEY	01-11-2012
2868	14599405K	HAV	JAYA KISHORE TIWARI	01-10-2012
2869	14613023N	HAV	JITENDER SINGH	01-11-2012
2870	14598275A	HAV	JITENDER TIWARI	01-09-2012
2871	14601324L	HAV	JITENDRA SINGH	01-01-2013
2872	14597772X	HAV	JOGESWAR SAHOO	01-09-2012
2873	14597003N	HAV	JOY RAM DEKA	01-09-2012
2874	14601067Y	HAV	K DAVID RAJ	01-12-2012
2875	14599699H	HAV	K RAVI	01-10-2012
2876	14600410K	HAV	KAISAR KHAN	01-12-2012
2877	14597898X	HAV	KAMAL KISHOR PRASAD	01-10-2012
2878	14613486H	HAV	KAMAL KUMAR GHOSH	01-01-2013
2879	14600503Y	HAV	KANWAR SINGH	01-12-2012
2880	14599550F	HAV	KAPTAN SINGH YADAV	01-10-2012
2881	14599234H	HAV	KARTAR CHAND	01-11-2012
2882	14597827W	HAV	KAUL RAM	01-10-2012
2883	14599345A	HAV	KESHWAR DAS	01-10-2012
2884	14597875W	HAV	KHURSHEED AHMED	01-10-2012
2885	14600041X	HAV	KHUSHAL SINGH	01-11-2012
2886	14601802K	HAV	KIRON GOGOI	01-01-2013
2887	14598840M	HAV	KOLHE BHAGWAT RAO SAHEB	01-09-2012
2888	14600962X	HAV	KRISHAN CHANDER	01-12-2012
2889	14599180M	HAV	KRISHAN KUMAR	01-11-2012
2890	14600273W	HAV	KULDEEP KUMAR	01-11-2012
2891	14602961N	HAV	KUMAR SEETARAM MIRASHI	01-01-2013
2892	14599716X	HAV	KUNHI KANNAN N	01-10-2012
2893	14597288L	HAV	KURIACHAN MP	01-10-2012
2894	14599268W	HAV	LAL BABU SINGH YADAV	01-11-2012
2895	14600866H	HAV	LAL MANI PANDEY	01-12-2012
2896	14600358M	HAV	LALA LAJPAT ROUT	01-11-2012
2897	14598311A	HAV	LALA RAM	01-09-2012
2898	14596793F	HAV	LANKOJI NAGARAJU	01-09-2012
2899	14599565K	HAV	LAXMI MANDAL	01-10-2012
2900	14599626W	HAV	M GOVINDA RAJULU	01-10-2012

2901	14598553H	HAV	M PANDI	01-09-2012
2902	14599971K	HAV	M RAMAMURTHY REDDY	01-11-2012
2903	14600008A	HAV	MADAN LAL	01-11-2012
2904	14598226X	HAV	MADAN LAL SHARMA	01-09-2012
2905	14600046W	HAV	MAHABIR GIRI	01-11-2012
2906	14600073A	HAV	MAHADEV DHONDIBA SAVANT	01-11-2012
2907	14600711N	HAV	MAHANDER PRASAD SINGH	01-12-2012
2908	14599536P	HAV	MAHAVEER PRASAD YADAV	01-10-2012
2909	14598285K	HAV	MAHENDER KUMAR SHARMA	01-09-2012
2910	14600720P	HAV	MAHENDRA NATH GORAI	01-12-2012
2911	14599325M	HAV	MAHENDRA PAL SINGH	01-10-2012
2912	14600879A	HAV	MAHENDRA SINGH	01-12-2012
2913	14598952M	HAV	MAHENDRAN K	01-10-2012
2914	14598535A	HAV	MAHESH BABU	01-09-2012
2915	14601082N	HAV	MAHIPAL SINGH RAWAT	01-01-2013
2916	14600082F	HAV	MAKSUDAN SINGH YADAV	01-11-2012
2917	14598686Y	HAV	MANGRODA DHIRAJLAL K	01-09-2012
2918	14600697M	HAV	MANJK CHANDRA MAITY	01-12-2012
2919	14598435P	HAV	MANOGARAN G	01-11-2012
2920	14598483P	HAV	MANOHAR LAL	01-09-2012
2921	14600714F	HAV	MANOHAR SINGH	01-12-2012
2922	14599586A	HAV	MANOJ KUMAR	01-10-2012
2923	14601593X	HAV	MANOJ KUMAR	01-01-2013
2924	14600505K	HAV	MANVENDRA KUMAR	01-12-2012
2925	14600513H	HAV	MARDANE PRABHAKAR RAMESH	01-12-2012
2926	14600382H	HAV	MARIA SUSAI	01-12-2012
2927	14598332W	HAV	MD ANSARUL HUSSAIN	01-09-2012
2928	14599575N	HAV	MD RAFIQUE	01-10-2012
2929	14601675A	HAV	MEENA KESWARA RAO KONA	01-01-2013
2930	14598413W	HAV	MITHLESHWAR KUMAR SINGH	01-09-2012
2931	14599574L	HAV	MOHAN KUMAR SINGH	01-10-2012
2932	14598703N	HAV	MOHAN LAL	01-11-2012
2933	14601221M	HAV	MOHAN YADAV	01-12-2012
2934	14598440A	HAV	MOHANAN P	01-11-2012
2935	14599011L	HAV	MOHAR SINGH	01-10-2012
2936	14599187W	HAV	MORE VISHNU NINGU	01-11-2012
2937	14599181P	HAV	MOTILAL	01-11-2012
2938	14613013K	HAV	MUKHTIAR SINGH	01-11-2012
2939	14600293K	HAV	MUL SINGH	01-11-2012
2940	14598145X	HAV	MUNENDRA PAL	01-09-2012
2941	14599135A	HAV	MURARI SINGH	01-10-2012
2942	14599322Y	HAV	NAND LAL	01-10-2012
2943	14598696H	HAV	NANDJI CHAUDHARY	01-11-2012
2944	14602966M	HAV	NANDLAL KESHARI	01-01-2013
2945	14600427X	HAV	NARAYAN DEBNATH	01-12-2012
2946	14600025A	HAV	NARENDER KUMAR	01-11-2012
2947	14600016Y	HAV	NARENDER SINGH	01-11-2012
2948	14612976K	HAV	NARESH KUMAR	01-10-2012
2949	14600453Y	HAV	NIDHU LAL SEN	01-11-2012
2950	14598269M	HAV	NIRANANDA ROY	01-09-2012

2951	14600885N	HAV	NIRANJAN SINGH RAJPUT	01-12-2012
2952	14600308F	HAV	NIRMAL CHANDRA PARIDA	01-11-2012
2953	14598268K	HAV	OM PRAKASH	01-09-2012
2954	14597242H	HAV	OM PRAKASH	01-10-2012
2955	14600935N	HAV	OM PRAKASH	01-12-2012
2956	14600310Y	HAV	OM PRAKASH	01-11-2012
2957	14598135N	HAV	OMVIR SINGH	01-09-2012
2958	14613199Y	HAV	P GOPINATH	01-11-2012
2959	14600150K	HAV	P LAKSHMANAN	01-11-2012
2960	14613340P	HAV	P MARIMUTHU	01-12-2012
2961	14601212L	HAV	P MURUGAVEL	01-12-2012
2962	14599600F	HAV	P RAJ MOHAN	01-10-2012
2963	14600977A	HAV	P SRINIVASA KUMAR	01-12-2012
2964	14598591Y	HAV	PANKAJAKSHA KURUP VR	01-09-2012
2965	14601780W	HAV	PARIDALA RAMANA BABU	01-01-2013
2966	14598568L	HAV	PARMATMANAND RAY	01-09-2012
2967	14598042Y	HAV	PATEL PRAKASH BHAI NARSHIH BHAI	01-10-2012
2968	14598918M	HAV	PATIL ASHOK VITHOBA	01-10-2012
2969	14600755L	HAV	PATURU APPALA NAIDU	01-12-2012
2970	14598379F	HAV	PAWAN KUMAR	01-09-2012
2971	14598255M	HAV	PAZHANI A	01-09-2012
2972	14598533P	HAV	PEDDINENI POLIAH	01-09-2012
2973	14599864H	HAV	PILLA PARASURAMAYYA	01-11-2012
2974	14601085F	HAV	POORAN SINGH	01-01-2013
2975	14601850K	HAV	PRABHU DAYAL PAL	01-01-2013
2976	14612929M	HAV	PRADIP KUMAR BARMAN	01-09-2012
2977	14601527P	HAV	PRADYUMNA KUMAR SAMAL	01-01-2013
2978	14599470K	HAV	PRAFULLA KUMAR PARIDA	01-10-2012
2979	14599100K	HAV	PRAHLAD PRASAD YADAV	01-10-2012
2980	14598599L	HAV	PRAHLAD SINGH	01-09-2012
2981	14598318K	HAV	PRAKASH CHAND	01-09-2012
2982	14600269N	HAV	PRAKASH CHAND	01-11-2012
2983	14599339M	HAV	PRAMOD KUMAR	01-10-2012
2984	14600350A	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-11-2012
2985	14597887L	HAV	PRAMOD KUMAR SINHA	01-10-2012
2986	14599990P	HAV	PRASANTH KUMAR P	01-11-2012
2987	14597013X	HAV	PREM CHANDRA	01-09-2012
2988	14597803M	HAV	PREM PAL SINGH	01-09-2012
2989	14599621X	HAV	PREM SHANKER DUBEY	01-10-2012
2990	14598028M	HAV	PREM SINGH	01-09-2012
2991	14599159K	HAV	PREM SINGH	01-11-2012
2992	14599167H	HAV	PRESANNA KUMAR NAIR KR	01-11-2012
2993	14597848M	HAV	PROBHO NARIN SHARMA	01-10-2012
2994	14601895K	HAV	PROBIN CHANDRA GOGOI	01-01-2013
2995	14600754H	HAV	PUNYADEO SINGH	01-12-2012
2996	14601542K	HAV	PURNA CHANDRA ROUT	01-01-2013
2997	14597338L	HAV	R ARIVALAGAN	01-10-2012
2998	14598555N	HAV	R RADHA KRISHNAN	01-09-2012
2999	14601202F	HAV	R SHANMUGA SUNDARAM	01-12-2012
3000	14598716L	HAV	R SUBBU RAJ	01-11-2012

3001	14600612L	HAV	RABINDER SINGH YADAV	01-12-2012
3002	14598684N	HAV	RABINDRA KUMAR	01-09-2012
3003	14596964H	HAV	RABINDRA KUMAR GIRI K	01-09-2012
3004	14600068P	HAV	RACHHPAL SINGH	01-11-2012
3005	14599160Y	HAV	RADHA KRISHNAN NAIR S	01-11-2012
3006	14598181H	HAV	RADHAKANTA PANDA	01-09-2012
3007	14601102W	HAV	RADHEY SHYAM SINGH	01-11-2012
3008	8031906K	HAV	RADHIKA MOHAN PANTI	01-09-2012
3009	14599765A	HAV	RAGHU NATH ROY	01-10-2012
3010	14612887L	HAV	RAGHUNATHAN NAIR S	01-09-2012
3011	14599045Y	HAV	RAHESH SINGH	01-10-2012
3012	14599176K	HAV	RAJ BAHADUR SINGH	01-11-2012
3013	14601131L	HAV	RAJ KISHORE YADAV	01-11-2012
3014	14613128X	HAV	RAJ KUMAR MISHRA	01-11-2012
3015	14598184W	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-09-2012
3016	14598518A	HAV	RAJ KUMAR SINGH YADAV	01-09-2012
3017	14596999Y	HAV	RAJ KUMAR SINGHA	01-09-2012
3018	14600256W	HAV	RAJ SINGH	01-11-2012
3019	14601756A	HAV	RAJAN KT	01-01-2013
3020	14598284F	HAV	RAJAN SINGH	01-09-2012
3021	14599008L	HAV	RAJAVEL J	01-10-2012
3022	14600575H	HAV	RAJBIR SINGH	01-12-2012
3023	14600815P	HAV	RAJBIR SINGH	01-12-2012
3024	14600910F	HAV	RAJEN SAIKIA	01-12-2012
3025	14601351P	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-2013
3026	14599075W	HAV	RAJENDRA PRASAD PATEL	01-10-2012
3027	14600611H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2012
3028	14597230N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-09-2012
3029	14599444H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2012
3030	14600827K	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2012
3031	14597866P	HAV	RAJESH K	01-10-2012
3032	14599849N	HAV	RAJESH KUMAR	01-11-2012
3033	14601648W	HAV	RAJESH MANI PANDEY	01-01-2013
3034	14598239P	HAV	RAJESH SINGH	01-09-2012
3035	14599853W	HAV	RAJESH SINGH THAKUR	01-11-2012
3036	14597834M	HAV	RAJESHWAR PANDEY	01-10-2012
3037	14599993H	HAV	RAJESHWAR SINGH	01-11-2012
3038	14600302A	HAV	RAJIV KUMAR SHARMA	01-11-2012
3039	14599615K	HAV	RAJJU	01-10-2012
3040	14602926L	HAV	RAKESH CHANDRA	01-01-2013
3041	14599286Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-11-2012
3042	14597896M	HAV	RAKESH KUMAR	01-10-2012
3043	14597342N	HAV	RAKESH KUMAR MISHRA	01-10-2012
3044	14598594M	HAV	RAM ASARA VERMA	01-09-2012
3045	14598428Y	HAV	RAM ASARE RATHOR	01-11-2012
3046	14596632Y	HAV	RAM BABU SINGH	01-09-2012
3047	14596674L	HAV	RAM BAHADUR	01-09-2012
3048	14600156L	HAV	RAM BHAROSH JHA	01-11-2012
3049	14600939K	HAV	RAM BILAS YADAV	01-12-2012
3050	14598927N	HAV	RAM CHELA YADAV	01-10-2012

3051	14601516H	HAV	RAM DARASH	01-01-2013
3052	14599173W	HAV	RAM EKBAL RAJAK	01-11-2012
3053	14596963A	HAV	RAM JANAM	01-09-2012
3054	14598243X	HAV	RAM KRIPAL YADAV	01-09-2012
3055	14597826N	HAV	RAM LAKHAN	01-10-2012
3056	14599873K	HAV	RAM LAL	01-11-2012
3057	14600832P	HAV	RAM NARESH RAI .	01-12-2012
3058	14600863P	HAV	RAM NAWAL YADAV	01-12-2012
3059	14601864K	HAV	RAM NIWAS	01-01-2013
3060	14599894A	HAV	RAM NIWAS	01-12-2012
3061	14600592H	HAV	RAM PRAKASH SINGH	01-12-2012
3062	14599331A	HAV	RAM RAJYA SINGH	01-10-2012
3063	14597305A	HAV	RAM SAMUNDAR SHUKLA	01-10-2012
3064	14601852P	HAV	RAM VILAS	01-01-2013
3065	14600371W	HAV	RAM VIR MISHRA	01-11-2012
3066	14597295F	HAV	RAMA CHANDRAN PV	01-10-2012
3067	14599139W	HAV	RAMA KANT YADAV	01-10-2012
3068	14598460N	HAV	RAMAN CHANDER DHARWAL	01-09-2012
3069	14597591M	HAV	RAMASHISH YADAV	01-10-2012
3070	14598324K	HAV	RAMAWTAR	01-09-2012
3071	14600206L	HAV	RAMAYAN PRASAD PAYASI	01-11-2012
3072	14600596Y	HAV	RAMBIR SINGH YADAV	01-12-2012
3073	14600049K	HAV	RAMBRIKSHA SINGH YADAV	01-11-2012
3074	14597020N	HAV	RAMCHANDRA SINGH	01-09-2012
3075	14598932Y	HAV	RAMENDER YADAV	01-10-2012
3076	14598595P	HAV	RAMENDRA KUMAR TRIPATHI	01-09-2012
3077	14597229Y	HAV	RAMESH CHANDRA KUSHWAHA	01-09-2012
3078	14613655Y	HAV	RAMESH KUMAR	01-01-2013
3079	14601924N	HAV	RAMESH SINGH MEWADA	01-01-2013
3080	14601114L	HAV	RAMJEE PRASAD	01-11-2012
3081	14598387A	HAV	RAMJI LAL DHAKAREY	01-09-2012
3082	14597227N	HAV	RAMLAKHAN SINGH	01-09-2012
3083	14600251X	HAV	RAMSAGAR	01-11-2012
3084	14597587K	HAV	RANA PRATAP SINGH	01-10-2012
3085	14599563Y	HAV	RATANPARA NARENDRA KUMAR BHAGVANJI	01-10-2012
3086	14600590X	HAV	RAVI ANAND	01-12-2012
3087	14601258N	HAV	RAVI CHANDER	01-12-2012
3088	14599482Y	HAV	RAVINDRA KUMAR SAH	01-10-2012
3089	14599509L	HAV	REGY VARGHESE	01-10-2012
3090	14598415F	HAV	RISHI PAL	01-09-2012
3091	14598897F	HAV	ROHINI KUMAR	01-10-2012
3092	14598033X	HAV	ROMESH CHAND	01-09-2012
3093	14599847H	HAV	RUP LAL	01-11-2012
3094	14597262W	HAV	RUPEE LAL	01-10-2012
3095	14596930P	HAV	SABU GEORGE	01-09-2012
3096	14600171A	HAV	SADHAN SARKAR	01-11-2012
3097	14599516F	HAV	SALIL KUMAR TA	01-10-2012
3098	14599364L	HAV	SALLAN PRASAD	01-10-2012
3099	14613571L	HAV	SAMAR BHATTACHARYA	01-12-2012

3100	14597239H	HAV	SANDEEP KUMAR	01-09-2012
3101	14613659P	HAV	SANJAY KUMAR SHUKLA	01-01-2013
3102	14598522H	HAV	SANT RAM	01-09-2012
3103	14599552M	HAV	SANTOSH KUMAR SAHU	01-10-2012
3104	14598977Y	HAV	SARDAR SINGH YADAV	01-09-2012
3105	14600633F	HAV	SASIDHARAN PILLAI K	01-12-2012
3106	14596657L	HAV	SATISH KUMAR	01-09-2012
3107	14601350M	HAV	SATYA PAL SINGH	01-01-2013
3108	14598539W	HAV	SEEPANA RAJA RAO	01-09-2012
3109	14600153X	HAV	SEKHARA PILLAI K	01-11-2012
3110	14599089W	HAV	SEWLANI ISHWAR DHARAMDAS	01-10-2012
3111	14599925P	HAV	SHAIKH SIRAZ	01-12-2012
3112	1460035K	HAV	SHANKAR DATT	01-11-2012
3113	14600387F	HAV	SHANKER KUMAR CHOURASIA	01-12-2012
3114	14598367M	HAV	SHATRUGHAN	01-09-2012
3115	14598401F	HAV	SHATRUGHAN SINGH	01-09-2012
3116	14596685X	HAV	SHER SINGH	01-09-2012
3117	14601018W	HAV	SHER SINGH YADAV	01-12-2012
3118	14601749K	HAV	SHIB SHANKAR PAUL	01-01-2013
3119	14599275M	HAV	SHISHU KUMAR	01-11-2012
3120	14598572N	HAV	SHIV CHARAN SINGH NEGI	01-09-2012
3121	14613225P	HAV	SHIV SHANKAR SINGH	01-11-2012
3122	14600260Y	HAV	SHRAWAN KUMAR	01-11-2012
3123	14599425X	HAV	SHRI BHAGWAN SHARMA	01-10-2012
3124	14600386Y	HAV	SHRI KISHAN CHAUHAN	01-12-2012
3125	14600491P	HAV	SHYAM LAL	01-12-2012
3126	14598807P	HAV	SHYAMAL KUMAR SINGHA	01-09-2012
3127	14599606H	HAV	SIKANDAR SINGH	01-10-2012
3128	14598972A	HAV	SIRAJUDDIN	01-09-2012
3129	14598957L	HAV	SIRIPE BALARAMI REDDY	01-10-2012
3130	14597021W	HAV	SITA RAM	01-09-2012
3131	14597596L	HAV	SITA RAM YADAV	01-10-2012
3132	14598341X	HAV	SRI KEWAL KRISHAN	01-09-2012
3133	14598451M	HAV	SRINAM GUJAR	01-09-2012
3134	14600934L	HAV	SUBASH CHANDRA	01-12-2012
3135	14599356M	HAV	SUBASH CHANDRA SINGH	01-10-2012
3136	14601107P	HAV	SUBE SINGH	01-11-2012
3137	14598132A	HAV	SUBEDAR SINGH	01-09-2012
3138	14598638Y	HAV	SUBHASH BISWAS	01-09-2012
3139	14597344Y	HAV	SUBHASH CHANDER	01-10-2012
3140	14600198X	HAV	SUBIR KUMAR GHOSH	01-11-2012
3141	14602789X	HAV	SUBIR PURKAYASTHA	01-09-2012
3142	14598944N	HAV	SUDARSHAN SINGH	01-10-2012
3143	14600473M	HAV	SUDHAKAR PANDEY	01-12-2012
3144	14601331F	HAV	SUDHIR JHA	01-01-2013
3145	14601592P	HAV	SUDHIR KUMAR	01-01-2013
3146	14598330L	HAV	SULAKHAN SINGH	01-09-2012
3147	14598466P	HAV	SUNDER SINGH DARIYAL	01-09-2012
3148	14600455K	HAV	SUNIL KUMAR BISWAS	01-11-2012
3149	14600573X	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-12-2012

3150	14601279K	HAV	SURAJ PAL SINGH	01-12-2012
3151	14598520X	HAV	SURANDER SINGH	01-09-2012
3152	14600536K	HAV	SURENDER KUMAR	01-12-2012
3153	14599837Y	HAV	SURENDER PAL	01-11-2012
3154	14598893L	HAV	SURENDER SINGH	01-10-2012
3155	14601580A	HAV	SURENDER SINGH	01-01-2013
3156	14600950H	HAV	SURENDRA RAM	01-12-2012
3157	14601442Y	HAV	SURESH CHANDRA TIWARI	01-01-2013
3158	14600601Y	HAV	SURINDER SINGH	01-12-2012
3159	14600547W	HAV	SURINDER SINGH	01-12-2012
3160	14596792Y	HAV	SURJIT KUMAR	01-09-2012
3161	14600330M	HAV	SUSHIL KUMAR RANA	01-11-2012
3162	14599129M	HAV	TAJANE GAJANAN VITHOBA	01-10-2012
3163	14601521N	HAV	TARA CHAND	01-01-2013
3164	14599420Y	HAV	TEJ KUMAR SHARMA	01-10-2012
3165	14596633F	HAV	TEJ NARAIN MAHTO	01-09-2012
3166	14599731M	HAV	THAKOR JENA BHAI PUNJA BHAI	01-10-2012
3167	14598123Y	HAV	THAKUR SINGH KARAYAT	01-09-2012
3168	14599497F	HAV	THOMAS P DANIEL	01-10-2012
3169	14597590K	HAV	TILAK RAJ SHARMA	01-10-2012
3170	14601849P	HAV	UDAYBIR	01-01-2013
3171	14596945X	HAV	UJJWAL SHARMA	01-09-2012
3172	14597017N	HAV	UMED SINGH	01-09-2012
3173	14599490X	HAV	UNNI KRISHNAN S	01-10-2012
3174	14598498X	HAV	UPENDER PRASAD	01-09-2012
3175	14598953P	HAV	V SATYANARAYANA REDDY	01-10-2012
3176	14600806N	HAV	VAGHELA PRAVIN KUMAR NARSINH BHAI	01-12-2012
3177	14598032P	HAV	VELAMALA SIMMANNA	01-09-2012
3178	14599209K	HAV	VIJAY KUMAR	01-11-2012
3179	14601080H	HAV	VIJENDRA SINGH	01-12-2012
3180	14600548Y	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-12-2012
3181	14601040F	HAV	VINSON ANTONY	01-12-2012
3182	14599435F	HAV	VIRENDER KUMAR	01-11-2012
3183	14600553K	HAV	VIRENDER KUMAR	01-12-2012
3184	14599617P	HAV	VISHRAM SINGH	01-10-2012
3185	14600531L	HAV	VISHWANATH PRASAD TIWARI	01-12-2012
3186	14599083P	HAV	YADU NATH PRASAD	01-10-2012
3187	14600383L	HAV	YASH PAL	01-12-2012
3188	14599084X	HAV	YASHOBANTA SWAIN	01-10-2012
3189	14598675M	HAV	YASHWANT SINGH	01-09-2012
3190	14601617W	HAV	ZALA AMRUTLAL VASHRAM	01-01-2013

**ARMY EDUCATION CORPS\***

3191	9509916M	HAV	INDRA PRASAD TIWARI	01-10-2012
3192	9509684Y	HAV	UPPADA CHALAPATHI	01-09-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

3193	7240015W	DFR	AUTAR SINGH	01-12-2012
3194	7239893A	DFR	AVDHESH KUMAR	01-09-2012

3195	7239937M	DFR	AWADH BIHARI SINGH	01-10-2012
3196	7239855K	HAV	BALWANT RAI	01-09-2012
3197	7240018X	DFR	BHAGWANJEE CHOUDHARY	01-12-2012
3198	7239986P	DFR	BINAY KUMAR MISHRA	01-11-2012
3199	7239875X	DFR	CHANDRA SHEKHAR PARMAR	01-09-2012
3200	7239863H	DFR	CHET RAM	01-09-2012
3201	7239927H	DFR	CHIKKANNA C S	01-10-2012
3202	7239849W	DFR	DINA NATH	01-09-2012
3203	7239891P	DFR	GANESHA RAM THOLIA	01-09-2012
3204	7239872K	HAV	KALI RAM	01-09-2012
3205	7240103M	DFR	KAM BABU	01-01-2013
3206	7239885F	DFR	MANGAL SWARUP	01-09-2012
3207	7239856M	DFR	MD NUR ISLAM	01-09-2012
3208	7239892X	DFR	MUNNA SINGH	01-09-2012
3209	7239878L	DFR	MURUGAN A C	01-09-2012
3210	7240009H	DFR	ONKAR CHAND	01-12-2012
3211	7239864L	DFR	PREMANANADA RAUL	01-09-2012
3212	7240032W	DFR	PREMANAND	01-12-2012
3213	7239912A	DFR	RAM EKBAL BHAGAT	01-09-2012
3214	7239874P	DFR	RAM KRISHAN	01-09-2012
3215	7240036M	DFR	RAM SURESH MAHATO	01-12-2012
3216	7239971M	DFR	RASH BIHARI PRASAD	01-11-2012
3217	7240057H	HAV	ROSHAN LAL	01-12-2012
3218	7239925X	DFR	SANTOSH KUMAR	01-10-2012
3219	7239932N	DFR	SHIV SINGH	01-10-2012
3220	7240000N	DFR	SUBHASH YADAV	01-12-2012
3221	7240041X	DFR	SUDHIR KUMAR	01-12-2012
3222	7239881L	DFR	SUMAN KUMAR	01-09-2012
3223	7240016Y	DFR	SURENDER SINGH	01-12-2012
3224	7239868F	DFR	SURESH CHANDRA	01-09-2012
3225	7240097K	HAV	VIBHOOTI NARAYAN SINGH	01-01-2013
3226	7239931L	DFR	YOGESH CHANDRA SINGH	01-10-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

3227	7430740Y	HAV	NAND LAL	01-11-2012
3228	14801263H	HAV	P V BRAHMA M	01-12-2012
3229	7430857X	HAV	RAM YESH YADAV	01-10-2012
3230	6386565W	HAV	SHAIK MUJAHEED	01-10-2012
3231	7430745X	HAV	THAMAS THANSE N BABU AREMANDA	01-01-2013

**CORPS OF MILITARY POLICE**

3232	7776221N	HAV	BACCHU DEY	01-01-2013
3233	7775231L	HAV	BALKAR SINGH	01-01-2013
3234	7775209A	HAV	BINANDA BURMAN	01-11-2012
3235	7775197W	HAV	BINOD KUMAR MISHRA	01-10-2012
3236	7775196N	HAV	DEVI SINGH	01-10-2012
3237	7775216W	HAV	DIPAK KUMAR ROY	01-12-2012
3238	7776154N	HAV	JAI SINGH	01-11-2012
3239	7775183W	HAV	K S D RAO	01-09-2012
3240	7775179N	HAV	KALU RAM DIWAKAR	01-09-2012



3241	7775160P	HAV	LAXMAN SINGH	01-09-2012
3242	7775187M	HAV	LOK BAHADUR GURUNG	01-10-2012
3243	7775200L	HAV	MD ISMAIL HAQUE	01-11-2012
3244	7775825A	HAV	MITHLESH SINGH	01-10-2012
3245	7775236K	HAV	MUNNI LAL	01-01-2013
3246	7775194H	HAV	NAGARE SATYANN MAHADEV	01-10-2012
3247	7775224P	HAV	P R K BABU LAL	01-12-2012
3248	7775192X	HAV	PANNA LAL DUTTA	01-10-2012
3249	7775251Y	HAV	R RAMASAMY	01-01-2013
3250	7775191P	HAV	RAMDIP KUMAR GUPTA	01-10-2012
3251	7776105L	HAV	RAMESH	01-10-2012
3252	7775234Y	HAV	RAMESH KUMAR	01-01-2013
3253	7776152H	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2012
3254	7776158K	HAV	SURYA DEO	01-11-2012
3255	7775218F	HAV	TAMESH KUMAR	01-12-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

3256	4360577F	HAV	M SEKAR	01-11-2012
3257	14396061F	HAV	R SANKAR	01-09-2012

**THE PIONEER CORPS**

3258	8031973P	HAV	AVINATH	01-11-2012
3259	8031938M	HAV	BALA KRISHNA MAHANTA	01-09-2012
3260	8032560X	HAV	BHAWANI SINGH	01-09-2012
3261	8032008X	HAV	KOLHE RAMNATH KARBHARI	01-12-2012
3262	15302327H	HAV	NAVURU BHASKARA REDDY	01-10-2012
3263	8031959H	HAV	PUSHP RAJ SINGH	01-10-2012
3264	8031927A	HAV	RAJESH KUMAR	01-09-2012
3265	8031939P	HAV	RAJINDER SINGH	01-09-2012
3266	8031902N	HAV	SABAN ALI MANDAL	01-09-2012
3267	8032616Y	HAV	SHANKAR KUMAR MONDAL	01-11-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

3268	10181240F	HAV	GANGA RAM	01-09-2012
3269	10388933L	HAV	GANPATI	01-01-2013
3270	10289799H	HAV	JOHNY PD	01-10-2012
3271	10389090P	HAV	KAMTA PRASAD	01-01-2013
3272	10243614X	HAV	PC DEO RAJA	01-01-2013
3273	7237047N	HAV	RAM AWATAR	01-01-2013
3274	10389355N	HAV	RAJDHAR PATEL	01-09-2012
3275	10388956M	HAV	SHESH MANI PATEL	01-09-2012
3276	3972068W	HAV	SURINDER KUMAR	01-01-2013
3277	10289499F	HAV	T CHANDRAN	01-10-2012

**TERRITORIAL ARMY**

3278	10166702L	HAV	A THOMAS	01-11-2012
3279	10374456K	HAV	ARUN KUMAR RASAIL	01-10-2012
3280	10212965L	HAV	NIL MAHAB PANDA	01-12-2012
3281	10362147P	HAV	BAHADUR SINGH	01-09-2012
3282	10421029F	HAV	BHIMAPPA SANNAPPANAVAR	01-01-2012

3283	10421038H	HAV	DIGAMBAR PATIL	01-10-2012
3284	10150273L	HAV	DESHMANE CHANDRAKANT SHANKAR	01-10-2012
3285	10362152A	HAV	DAULAT RAM THAKUR	01-09-2012
3286	10274641H	HAV	GOPAL CHANDRA HIRA	01-10-2012
3287	10119844X	HAV	GIJE ANIL	01-10-2012
3288	10314865N	HAV	JASWANT SINGH	01-11-2012
3289	10150343Y	HAV	KADAM VIJAY DATTU	01-01-2013
3290	10362175F	HAV	KULDEEP SINGH	01-09-2012
3291	10452775L	HAV	M PERIYASAMY	01-10-2012
3292	10303077K	HAV	NAR SINGH	01-10-2012
3293	10362148X	HAV	NARAIN DASS THAKUR	01-09-2012
3294	10260295M	HAV	PARANAND MAHTO	01-01-2013
3295	10302969H	HAV	PRABHU DAYAL	01-10-2012
3296	10228131H	HAV	RAGHUVeer SINGH RAJPUT	01-09-2012
3297	10436896F	HAV	RAJ KUMAR	01-10-2012
3298	10135354N	HAV	RAKESH	01-01-2013
3299	10274655H	HAV	RANJIT KUMAR MONDAL	01-10-2012
3300	10405427Y	HAV	RAJIV KUMAR MISHRA	01-03-2012
3301	10135341W	HAV	RAVINDRA SINGH	01-01-2013
3302	10260309F	HAV	SAROJ KUMAR BHUYAN	01-01-2013
3303	10374470W	HAV	SAROJ RAI	01-10-2012
3304	10135331M	HAV	SURENDER SINGH	01-01-2013
3305	10274649P	HAV	TAPAS HALDER	01-10-2012
3306	10452779F	HAV	V RAMALINGAM	01-10-2012
3307	10359530H	HAV	WILSON T	01-10-2012

[No. B/43432/RD-13/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

संशोधन

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 04(अ).—1. राजपत्र अधिसूचना संख्या (साधारण) संख्या 10(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

हाशिया के नीचेअवैतनिक कप्तान के रूप में(सेवा में रहते हुए)12 आर्मड रेजीमेंट

कमसंख्या 08	के लिए	: रिसालदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
	पदे	: रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट

तोपखाना रेजीमेंट

कमसंख्या 14	के लिए	: सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
	पदे	: सुबेदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट

कमसंख्या 35	के लिए	: सुबेदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट
	पदे	: सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट

हाशिया के नीचेअवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में(सेवा में रहते हुए)45 कैवलरी

कमसंख्या 09 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

तोपखाना रेजीमेंट

क्योत्तिर मंजूरी के लिए : जेसी 269554एम  
पढ़े : जेसी 269554एन

सेना आयुध कोर

कमसंख्या 951 के लिए : ठग बहादुर थंकरियाल  
पढ़े : ठग राम थंकरियाल

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर

कमसंख्या 1053 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

2. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 11 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2012 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संसोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)

आर्मंड कोर

कमसंख्या 03 के लिए : जेसी 238752के  
पढ़े : जेसी 238752एक्स

तोपखाना रेजीमेंट

कमसंख्या 34 के लिए : अवैतनिक कप्तान के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

कमसंख्या 50 के लिए : अवैतनिक कप्तान के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

सिग्नल कोर

कमसंख्या 212 के लिए : 01.03.2012  
पढ़े : 21.02.2012

गढ़वाल राईफल्स

कमसंख्या 456 के लिए : 01.04.2012  
पढ़े : 01.02.2012

मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप

कमसंख्या 130 के लिए : 01.04.2012  
पढ़े : 01.08.2012

कमसंख्या 782 के लिए : सुबेदार  
पढ़े : सुबेदार एवं अवैतनिक लैफ्टिनेंट

कमसंख्या 782 के लिए : अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक कप्तान के रूप में

गढ़वाल राईफल्स

कमसंख्या 1150 के लिए : डोगरा रेजीमेंट  
पढ़े : गढ़वाल राईफल्स

बहार रेजीमेंट

कमसंख्या 2283 के लिए : अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक कप्तान के रूप में

कमसंख्या 2283 के लिए : सुबेदार  
पढ़े : सुबेदार एवं अवैतनिक लेफ्टिनेंट

01 गोरखा राईफल्स

कमसंख्या 2472 के लिए : अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक कप्तान के रूप में

कमसंख्या 2472 के लिए : सुबेदार  
पढ़े : सुबेदार एवं अवैतनिक लेफ्टिनेंट

हाशिया के नीचेअवैतनिक लेफ्टिनेंट के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)सिग्नल कोर

कमसंख्या 298 के लिए : 01.03.2012  
पढ़े : 19.02.2012

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 444 के लिए : 01.04.2012  
पढ़े : 01.02.2012

कमसंख्या 2968 के लिए : अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में  
पढ़े : अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रूप में

कमसंख्या 2968 के लिए : सुबेदार  
पढ़े : सुबेदार मेजर

डिफेंस सेक्यूरिटी कोर

कमसंख्या 526 के लिए : तरसेम राज विशिष्ट  
पढ़े : तरसेम राज विशिष्ट

हाशिया के नीचेअवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप मेंआर्मड कोर

कमसंख्या 78 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 27 के लिए : परदीप कुमार  
पढ़े : प्रदीप कुमार

कमसंख्या 150 के लिए : पारसराम गंगारामजी चुम्बरे  
पढ़े : पारसराम गंगारामजी कुम्बहारे

कमसंख्या 165 के लिए : महाबीर सिंह राजपूत  
पढ़े : महाबीर सिंह राजपूत

कमसंख्या 202 के लिए : स्वरूप चन्द  
पढ़े : स्वरूप सिंह

तापखाना रेजीमेंट

कमसंख्या 337 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सेना वायु सुरक्षा

कमसंख्या 622 के लिए : सेना वायु सुरक्षा  
पढ़े : तोपखाना रेजीमेंट

कमसंख्या 673	के लिए पढ़े	:	सेना वायु सुरक्षा तोपखाना रेजीमेंट
कमसंख्या 669	के लिए पढ़े	:	जेसी 297399एन जेसी 297339वाई
<u>मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप</u>			
कमसंख्या 781	के लिए पढ़े	:	अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में अवैतनिक सुबेदार के रूप में
कमसंख्या 781	के लिए पढ़े	:	सुबेदार नायब सुबेदार
<u>सिग्नल कोर</u>			
कमसंख्या 1168	के लिए पढ़े	:	जेसी 384802एक्स जेसी 374802एक्स
कमसंख्या 1174	के लिए पढ़े	:	बासनगोदा गोदरा बसनगोदा गोदरा
कमसंख्या 1214	के लिए पढ़े	:	01.03.2012 19.02.2012
कमसंख्या 1220	के लिए पढ़े	:	01.03.2012 19.02.2012
कमसंख्या 1327	के लिए पढ़े	:	01.03.2012 20.02.2012
कमसंख्या 1389	के लिए पढ़े	:	टी एस श्यामसुन्दर टी एस श्याम सुन्दर
<u>मैक्नाईज्ड इनफेन्ट्री रेजीमेंट</u>			
कमसंख्या 1525	के लिए पढ़े	:	जेसी 420030वाई जेसी 421030वाई
<u>आसाम रेजीमेंट</u>			
कमसंख्या 2145	के लिए पढ़े	:	30.01.2012 01.03.2012.
<u>गढ़वाल राईफल्स</u>			
कमसंख्या 2004	के लिए पढ़े	:	चन्द्र शेखर कुकरेती चन्द्र शेखर कुकरेती
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>			
कमसंख्या 2992	के लिए पढ़े	:	वीर बाहाद्राप्पा तनवाशे वीर भद्राप्पा तनवाशे
<u>डिफेन्स सेक्यूरिटी कोर</u>			
कमसंख्या 3614	के लिए पढ़े	:	जेसी 811203ए सुबेदार एकनाथबालु जाधव जेसी 841203ए सुबेदार एकनाथ बालु जाधव
<u>हाशिया के नीचे</u>			
<u>आर्मड कोर</u>			
कमसंख्या 07	के लिए पढ़े	:	रमबीर सिंह रघबीर सिंह
<u>तोपखाना रेजीमेंट</u>			
कमसंख्या 19	के लिए पढ़े	:	बिनोद कुमार बिनोद कुमार शर्मा

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

कमसंख्या 24	के लिए पढ़े	: :	01.02.2012 01.08.1012
कमसंख्या 47	के लिए पढ़े	: :	मरिन्दर सिंह नरेन्द्र सिंह
कमसंख्या 48	के लिए पढ़े	: :	मर्ते वेंकट लक्ष्मण राव मुर्ते वेंकट लक्ष्मण राव
<u>मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप</u>			
कमसंख्या 110	के लिए पढ़े	: :	01.04.2012 01.06.2012
कमसंख्या 301	के लिए पढ़े	: :	मद्रास रेजीमेंट मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप
कमसंख्या 302	के लिए पढ़े	: :	मद्रास रेजीमेंट मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप
कमसंख्या 303	के लिए पढ़े	: :	मद्रास रेजीमेंट मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप
<u>सिग्नल कोर</u>			
कमसंख्या 557	के लिए पढ़े	: :	सेना आयुध कोर सिग्नल कोर
कमसंख्या 218	के लिए पढ़े	: :	पी जोहन केनेडी पी जॉन केनेडी
कमसंख्या 219	के लिए पढ़े	: :	रघुनाथन बी रघुनाथन बी
कमसंख्या 241	के लिए पढ़े	: :	एस श्रीकांत पांडूरंग सलुन्खे श्रीकांत पांडूरंग
<u>ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स</u>			
कमसंख्या 267	के लिए पढ़े	: :	बाल कृष्ण मोहोरी बाल कृष्ण महोर
<u>मैक्नाइज्ड इनफैन्ट्री रेजीमेंट</u>			
कमसंख्या 371	के लिए पढ़े	: :	4 गोरखा राईफल्स मैक्नाइज्ड इनफैन्ट्री रेजीमेंट
<u>सिख लाइट इनफैन्ट्री</u>			
कमसंख्या 326	के लिए पढ़े	: :	बलदेक सिंह बलदेव सिंह
<u>गढ़वाल राईफल्स</u>			
कमसंख्या 337	के लिए पढ़े	: :	जेसी 430211ए जेसी 530211ए
<u>4 गोरखा राईफल्स</u>			
कमसंख्या 371	के लिए पढ़े	: :	4 गोरखा राईफल्स मैक्नाइज्ड इनफैन्ट्री रेजीमेंट

सेना सेवा कोर (दक्षिण)

कमसंख्या 2636 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

कमसंख्या 2659	के लिए	:	अवैतनिक सुबेदार मेजर के रूप में
	पढ़े	:	अवैतनिक सुबेदार के रूप में

कमसंख्या 2659	के लिए	:	सुबेदार मेजर
	पढ़े	:	सुबेदार

सेना आयुध कोर

कमसंख्या 557	के लिए	:	सेना आयुध कोर
	पढ़े	:	सिग्नल कोर

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स

कमसंख्या 3188 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सेना डाक सेवा

कमसंख्या 743	के लिए	:	जाधव नन्दकुमार
	पढ़े	:	जाधव नन्दकुमार यदाओराव

कमसंख्या 755	के लिए	:	शेख अशर्फ अली
	पढ़े	:	शेख अशर्फ अली

डिफेन्स सेक्युरिटी कोर

कमसंख्या 770	के लिए	:	हरीश नारायण सिंह
	पढ़े	:	हर्ष नारायण सिंह

3. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 12 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2012 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे                      अवैतनिक नायब रिसालदार/सुबेदार के रूप में

9 हॉर्स

कमसंख्या 01	के लिए	:	हवलदार
	पढ़े	:	दफादार

आर्मड कोर

कमसंख्या 05	के लिए	:	अर्जुन प्रसा यादव
	पढ़े	:	अर्जुन प्रसाद यादव

कमसंख्या 07	के लिए	:	हवलदार
	पढ़े	:	दफादार

कमसंख्या 08	के लिए	:	बोनोद कुमार
	पढ़े	:	बिनोद कुमार

कमसंख्या 10	के लिए	:	हवलदार
	पढ़े	:	दफादार

कमसंख्या 14	के लिए पढ़े	1088779के 1088779एक्स
<u>तोपखाना रेजीमेंट</u>		
कमसंख्या 28	के लिए पढ़े	तोपखाना रेजीमेंट मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप
<u>सिग्नल कोर</u>		
कमसंख्या 620	के लिए पढ़े	अदादेश सिंह अवदेश सिंह
कमसंख्या 658	के लिए पढ़े	बाबुलाल गुर्जर बाबुलाल गुजर
कमसंख्या 716	के लिए पढ़े	धनवीर सिंह दानवीर सिंह
कमसंख्या 775	के लिए पढ़े	ज्योदेब समदार ज्योदेब समादार
कमसंख्या 777	के लिए पढ़े	जुनागरे बाबन अप्पा जुनागारे बबन अप्पा
कमसंख्या 809	के लिए पढ़े	एल एस साखराम एल एस सखाराम
कमसंख्या 820	के लिए पढ़े	मादे अनन्त गोविन्द राव मादने अनन्त गोविन्द राव
कमसंख्या 831	के लिए पढ़े	मोहम्मद अबदुल्ला गन्ने मोहम्मद अबदुल्ला गनी
कमसंख्या 844	के लिए पढ़े	एन एम आनन्द राव एम एम आनन्द राव
कमसंख्या 849	के लिए पढ़े	नन्स राज मीना हंस राज मीना
कमसंख्या 872	के लिए पढ़े	पर्वत कुमार राउत प्रवत कुमार राउत
कमसंख्या 884	के लिए पढ़े	पुरषोत्तम पुरुषोत्तम
कमसंख्या 961	के लिए पढ़े	सत्य नायन सत्य नारायण
कमसंख्या 991	के लिए पढ़े	सुधकर नायक सुधाकर नायक
<u>मैकनाइज्ड इनफैंट्री रेजीमेंट</u>		
कमसंख्या 1188	के लिए पढ़े	संकर कुमार मोडल संकर कुमार मोडल



ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स

क्रमसंख्या 1073	के लिए पढ़े	:	हर ला बिशनोई हर लाल बिशनोई
क्रमसंख्या 1085	के लिए पढ़े	:	ला बाबु बाइथा लाल बाबु बैथा

पंजाब रेजीमेंट

क्रमसंख्या 1109	के लिए पढ़े	:	पैरासूट रेजीमेंट पंजाब रेजीमेंट
क्रमसंख्या 1207	के लिए पढ़े	:	पंजाब रेजीमेंट मद्रास रेजीमेंट

राजपूताना राईफल्स

क्रमसंख्या 1506	के लिए पढ़े	:	31.03.2012 01.07.2012
-----------------	-------------	---	--------------------------

राजपूत रेजीमेंट

क्रमसंख्या 1549	के लिए पढ़े	:	भवानी सिंह भवन सिंह
-----------------	-------------	---	------------------------

गढ़वाल राईफल्स

क्रमसंख्या 1873	के लिए पढ़े	:	4070999एफ 4070999एच
क्रमसंख्या 1929	के लिए पढ़े	:	4070769एन 4070769एम

ग्रेनेडियर्स रेजीमेंट

क्रमसंख्या 1401	के लिए पढ़े	:	माहन मोहन
क्रमसंख्या 1430	के लिए पढ़े	:	27.02.2012 01.03.2012

सिख लाइट इनफैंट्री

क्रमसंख्या 1711	के लिए पढ़े	:	448756एल 4468756एल
-----------------	-------------	---	-----------------------

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स

क्रमसंख्या 3119	के लिए पढ़े	:	चोटे लाल प्रसाद छोटे लाल प्रसाद
क्रमसंख्या 3277	के लिए पढ़े	:	मुन्नी लाल राम मुन्ना लाल राम
क्रमसंख्या 3282	के लिए पढ़े	:	नन्दलाल प्रसाद पटेल नन्दलाल प्रसाद पटेल
क्रमसंख्या 3288	के लिए पढ़े	:	नरेन्द्ररिया कुमार नरेन्द्र कुमार

क्रमसंख्या 3314	के लिए पढ़े	: :	1459001के 14595001के
क्रमसंख्या 3392	के लिए पढ़े	: :	रमेश्वर लाल रामेश्वर लाल
क्रमसंख्या 3445	के लिए पढ़े	: :	सुभाष चन्द्र सुभाष चन्द्र
क्रमसंख्या 3475	के लिए पढ़े	: :	उगारसेन राय उग्रसेन राय
क्रमसंख्या 3226	के लिए पढ़े	: :	कृष्णा कुमार कृष्ण कुमार
क्रमसंख्या 3366	के लिए पढ़े	: :	14593862के 14593862एफ
क्रमसंख्या 3435	के लिए पढ़े	: :	श्याम बहादुर यादव श्याम बहादुर यादव
क्रमसंख्या 3506	के लिए पढ़े	: :	योगेनरा योगेन्द्र

सेना चिकित्सा कोर

क्रमसंख्या 2746	के लिए पढ़े	: :	22.01.2012 01.02.2012
क्रमसंख्या 2855	के लिए पढ़े	: :	13966681एम 13966813एम

मिलिटरी पुलिस कोर

क्रमसंख्या 3539	के लिए पढ़े	: :	मिलिटरी पुलिस कोर पायोनियर कोर
क्रमसंख्या 3542	के लिए पढ़े	: :	बीर पाल बीर लाल

डिफेन्स सेक्युरिटी कोर

क्रमसंख्या 3583	के लिए पढ़े	: :	टी आझानन्दन टी आझाकन्दन
-----------------	----------------	--------	----------------------------

4. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 10 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2004 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

क्रमसंख्या 2639 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

[सं. बी/43432/संशोधन-2012/एजी/सीडब्ल्यू-2]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 04(E).**—1. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 10(E) dated 15th August, 2012, notifying the grant of Honorary Commission to JCOs on the active list under para 177 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :—

<b><u>UNDER HEADING</u></b>	<b><u>TO BE HONORARY CAPTAINS (ACTIVE LIST)</u></b>
-----------------------------	---

**12 ARMoured REGIMENT**

SERIAL 08	FOR - RIS & HONY LT READ - RIS MAJ & HONY LT
-----------	---

**REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 14	FOR - SUB MAJ & HONY LT READ - SUB & HONY LT
-----------	---

SERIAL 35	FOR - SUB & HONY LT READ - SUB MAJ & HONY LT
-----------	---

<b><u>UNDER HEADING</u></b>	<b><u>TO BE HONORARY LIEUTENANT (ACTIVE LIST)</u></b>
-----------------------------	---

**45 CAVALARY**

DELETE SERIAL 09 AND CONNECTED ENTRIES.

**REGIMENT OF ARTILLERY**

EX-POST-FACTO	FOR - JC-269554M READ - JC-269554N
---------------	---------------------------------------

**ARMY ORDNANCE CORPS**

SERIAL 951	FOR - THAG BAHADUR KHANKRIYAL READ - THAG RAM KHANKRIYAL
------------	---

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

DELETE SERIAL 1053 AND CONNECTED ENTRIES.

2. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 11 (E) dated 15 August 2012 notifying the grant of Honorary rank to JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :—

<b><u>UNDER HEADING</u></b>	<b><u>TO BE HONORARY CAPTAINS ON RETIREMENT</u></b>
-----------------------------	---

**ARMoured CORPS**

SERIAL 03	FOR - JC-238752K READ - JC-238752X
-----------	---------------------------------------

**REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 34	FOR - TO BE HONORARY RANK CAPTAIN READ - TO BE HONORARY RANK LIEUTENANT
-----------	--

SERIAL 50

FOR - TO BE HONORARY RANK CAPTAIN  
READ - TO BE HONORARY RANK LIEUTENANT**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 212

FOR - 01.03.2012  
READ - 21.02.2012**THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 456

FOR - 01.04.2012  
READ - 01.02.2012**MADRAS ENGINEERS GROUP**

SERIAL 130

FOR - 01.04.2012  
READ - 01.08.2012

SERIAL 782

FOR - SUB  
READ - SUB & HONY LT

SERIAL 782

FOR - TO BE HONORARY SUBEDAR MAJOR  
READ - TO BE HONORARY CAPT**THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 1150

FOR - THE DOGRA REGIMENT  
READ - THE GARHWAL RIFLES**THE MAHAR REGIMENT**

SERIAL 2283

FOR - TO BE HONORARY SUB MAJ ON RETIREMENT  
READ - TO BE HONORARY CAPTAIN ON RETIREMENT

SERIAL 2283

FOR - SUB  
READ - SUB & HONY LT**1 GORKHA RIFLES**

SERIAL 2472

FOR - TO BE HONORARY SUB MAJ ON RETIREMENT  
READ - TO BE HONORARY CAPTAIN ON RETIREMENT

SERIAL 2472

FOR - SUB  
READ - SUB & HONY LT**UNDER HEADING****TO BE HONORARY LIETENANTS ON RETIREMENT****CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 298

FOR - 01.03.2012  
READ - 19.02.2012**ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 444

FOR - 01.04.2012  
READ - 01.02.2012

SERIAL 2968

FOR - TO BE HONORARY SUBEDAR MAJ ON RETIREMENT  
READ - TO BE HONORARY LIEUTENANTS ON RETIREMENT

SERIAL 2968

FOR - SUB  
READ - SUB MAJ

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 526                      FOR - TARSEM RAJ VISHISHT  
    READ - TARSEM RAJ VASHISHT

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR****ARMOURED CORPS**

**DELETE SERIAL 78 AND CONNECTED ENTRIES.**

SERIAL 27                      FOR - PARDEEP KUMAR  
    READ - PRADEEP KUMAR

SERIAL 150                    FOR - PARASRAM GANGARAMJI CHUMBRE  
    READ - PARASH RAM GANGARAMJI KUMBHARE

SERIAL 165                    FOR - MAHABIR SINGH RAJPOOT  
    READ - MAHABIR SINGH RAJPUT

SERIAL 202                    FOR - SAWROOP CHAND  
    READ - SAWROOP SINGH

**REGIMENT OF ARTILLERY**

**DELETE SERIAL 337 AND CONNECTED ENTRIES.**

**ARMY AIR DEFENCE**

SERIAL 622                    FOR - ARMY AIR DEFENCE  
    READ - REGIMENT OF ARTILLERY

SERIAL 673                    FOR - ARMY AIR DEFENCE  
    READ - REGIMENT OF ARTILLERY

SERIAL 669                    FOR - JC-297399N  
    READ - JC-297339Y

**MADRAS ENGINEER GROUP**

SERIAL 781                    FOR - TO BE HONORARY SUBEDAR MAJOR  
    READ - TO BE HONORARY SUBEDAR

SERIAL 781                    FOR - SUB  
    READ - NB SUB

**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 1168                    FOR - JC-384802X  
    READ - JC-374802X

SERIAL 1774                    FOR - BASANGOUDA GOUDRA  
    READ - BASANAGOUDA GOUDRA

SERIAL 1214                    FOR - 01.03.2012  
    READ - 19.02.2012

SERIAL 1220	FOR - 01.03.2012 READ - 19.02.2012
SERIAL 1327	FOR - 01.03.2012 READ - 20.02.2012
SERIAL 1389	FOR - TS SHYAMSUNDER READ - TS SHYAM SUNDER

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 1525	FOR - JC-420030Y READ - JC-421030Y
-------------	---------------------------------------

**THE ASSAM REGIMENT**

SERIAL 2145	FOR - 30.01.2012 READ - 01.03.2012
-------------	---------------------------------------

**THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 2004	FOR - CHANDRA SHEKHER KUKRETI READ - CHANDRA SHEKHAR KUKRETI
-------------	---

**ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 2992	FOR - VEERA BAHADRAPPA TANVASHE READ - VEERA BHADRAPPA TANVASHE
-------------	--

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 3614	FOR - JC-811203A SUB EKNATHBALU JADHAV READ - JC-841203A SUB EKNATH BALU JADHAV
-------------	--

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR****ARMOURED CORPS**

SERIAL 07	FOR - RABHBIR SINGH READ - RAGHBIR SINGH
-----------	---

**REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 19	FOR - BINOD KUMAR READ - BINOD KUMAR SHARMA
SERIAL 24	FOR - 01.02.2012 READ - 01.08.2012
SERIAL 47	FOR - MARINDER SINGH READ - NARINDER SINGH
SERIAL 48	FOR - MARTE VENKAT LAXMAN RAO READ - MURTE VENKAT LAXMAN RAO

SERIAL 2659      FOR - TO BE HONORARY SUBEDAR MAJOR  
READ - TO BE HONORARY SUBEDAR





**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 620	FOR - ADADHESH SINGH READ - AVADHESH SINGH
SERIAL 658	FOR - BABU LAL GURJJAR READ - BABU LAL GUJAR
SERIAL 716	FOR - DHANVIR SINGH READ - DANVIR SINGH
SERIAL 775	FOR - JOYDEB SAMDDAR READ - JOYDEB SAMADDAR
SERIAL 777	FOR - JUNAGARE BAABN APPA READ - JUNAGARE BABAN APPA
SERIAL 809	FOR - LS SAKHRAM READ - LS SAKHARAM
SERIAL 820	FOR - MADE ANANT GOVIND RAO READ - MADNE ANANT GOVIND RAO
SERIAL 831	FOR - MOHD ABDULAH GANNIE READ - MOHD ABDULAH GANIE
SERIAL 844	FOR - NM ANANDA RAO READ - MM ANANDA RAO
SERIAL 849	FOR - NANS RAJ MEENA READ - HANS RAJ MEENA
SERIAL 872	FOR - PARVAT KUMAR ROUT READ - PRAVAT KUMAR ROUT
SERIAL 884	FOR - PURSHOTTAM READ - PURUSHOTTAM
SERIAL 961	FOR - SATYA NAYAIN READ - SATYA NARAIN
SERIAL 991	FOR - SUDHKAR NAYAK READ - SUDHAKAR NAYAK

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 1188	FOR - SANKR KUMAR MONDAL READ - SANKAR KUMAR MONDAL
-------------	--

**BRIGADE OF THE GUARDS**

SERIAL 1073	FOR - HAR LA BISHNOI READ - HAR LAL BISHNOI
SERIAL 1085	FOR - LA BABU BAITHA READ - LAL BABU BAITHA

**THE PUNJAB REGIMENT**

SERIAL 1109      FOR - THE PARACHUTE REGIMENT  
                      READ - THE PUNJAB REGIMENT

SERIAL 1207      FOR - THE PUNJAB REGIMENT  
                      READ - THE MADRAS REGIMENT

**THE RAJPUTANA RIFLES**

SERIAL 1506      FOR - 31.03.2012  
                      READ - 01.07.2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

SERIAL 1549      FOR - BHAWANI SINGH  
                      READ - BHAWAN SINGH

**THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 1873      FOR - 4070999F  
                      READ - 4070999H

SERIAL 1929      FOR - 4070769N  
                      READ - 4070769M

**THE GRENADIERS REGIMENT**

SERIAL 1401      FOR - MOAHN  
                      READ - MOHAN

SERIAL 1430      FOR - 27.02.2012  
                      READ - 01.03.2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 1711      FOR - 448756L  
                      READ - 4468756L

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

SERIAL 3119      FOR - CHOOTE LAL PRASAD  
                      READ - CHHOTE LAL PRASAD

SERIAL 3277      FOR - MUNNI LAL RAM  
                      READ - MUNNA LAL RAM

SERIAL 3282      FOR - NANDALAL PRASAD PATEL  
                      READ - NANDLAL PRASAD PATEL

SERIAL 3288      FOR - NARENDREA KUMAR  
                      READ - NARENDRA KUMAR

SERIAL 3314      FOR - 1459001K  
                      READ - 14595001K

SERIAL 3392	FOR - REMESHWAR LAL READ - RAMESHWAR LAL
SERIAL 3445	FOR - SUBHASH CHANDER READ - SUBASH CHNADER
SERIAL 3475	FOR - UGARSEN RAI READ - UGRASEN RAI
SERIAL 3226	FOR - KRISHNA KUMAR READ - KRISHAN KUMAR
SERIAL 3366	FOR - 14593862K READ - 14593862F
SERIAL 3435	FOR - SHYAM BAHADUR YADAV READ - SHYAM BAHADUR YADAVA
SERIAL 3506	FOR - YOGENRA READ - YOGENDRA

**ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 2746	FOR - 22.01.2012 READ - 01.02.2012
SERIAL 2855	FOR - 13966813M READ - 13966813M

**CORPS OF MILITARY POLICE**

SERIAL 3539	FOR - CORPS OF MILITARY POLICE READ - THE POINEER CORPS
SERIAL 3542	FOR - BIR PAL READ - BIR LAL

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 3583	FOR - T AZHANANDAN READ - T AZHAKANANDAN
-------------	---

4. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 10 (E) dated 15 August 2004 notifying the grant of Honorary rank of Naib Rasildar/Naib Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :-

**DELETE SERIAL 2639 AND CONNECTED ENTRIES.**

[No. B/43432/Corrigendum ID-2012/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

## ( वायु शाखा )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 05(अ).—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑनरेरी फ्लाईंग अफसरों को 26 जनवरी, 2013 से ऑनरेरी फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है :—

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
1.	646988 जी	मा वा अ (आ फ अ)	देवेन्द्र सिंह छिकारा	एसीएच जीडी
2.	646763 के	मा वा अ (आ फ अ)	सुभाष चन्द खन्ना	एसीएच जीडी
3.	620190 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	नरेन्द्र कुमार वर्मा	ए डी एस ओ
4.	619660 एन	मा वा अ (आ फ अ)	सुरेन्द्र पाल सिंह	ए डी एस ओ
5.	657072 टी	मा वा अ (आ फ अ)	जगजीवन राम यादव	ए एफ फिटर
6.	642795 बी	मा वा अ (आ फ अ)	विजय कुमार गुप्ता	ए एफ फिटर
7.	633175 टी	मा वा अ (आ फ अ)	सत्यवीर सिंह	ए एफ एस ओ
8.	631606 आर	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार शर्मा	ए एफ एस ओ
9.	646546 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	गनेश बिश्वास	कैटरिंग असिस्टेंट
10.	645680 जी	मा वा अ (आ फ अ)	महेश चन्द्र जैन	कैटरिंग असिस्टेंट
11.	646065 एन	मा वा अ (आ फ अ)	शुभ नारायण उपाध्याय	क्लर्क एकाउंट्स
12.	646866 एल	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्द्र महाराज	क्लर्क एकाउंट्स
13.	614158 एल	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्द्र सिंह राठौड़	क्लर्क जीडी
14.	614124 बी	मा वा अ (आ फ अ)	राणा उमापति सिंह	क्लर्क जीडी
15.	646605 बी	मा वा अ (आ फ अ)	भंवर सिंह राठौड़	किप्टो
16.	633565 आर	मा वा अ (आ फ अ)	लाल सिंह यादव	किप्टो
17.	672374 एन	मा वा अ (आ फ अ)	तिरुवारुर सुन्दरम कृष्णन	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
18.	650151 के	मा वा अ (आ फ अ)	विक्रम सिंह वर्मा	इलेक्ट्रिक फिटर
19.	609888 के	मा वा अ (आ फ अ)	सुबास चन्द्र आपटा	इलेक्ट्रिक फिटर
20.	643943 एन	मा वा अ (आ फ अ)	विजयकुमार रामचंद्र कडुकर	इंजन फिटर

क. सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
21.	644858 एच	मा वा अ (आ फ अ)	सुरेश चन्द आजाद	इंजन फिटर
22.	646679 के	मा वा अ (आ फ अ)	भाउसाहे पाराजी रसाल	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
23.	646325 एन	मा वा अ (आ फ अ)	राजबीर सिंह दहिया	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
24.	644842 आर	मा वा अ (आ फ अ)	धर्म बीर त्यागी	फ्लाइट इंजीनियर
25.	642807 एस	मा वा अ (आ फ अ)	आर सुब्रामनियन	फ्लाइट गनर
26.	642824 एस	मा वा अ (आ फ अ)	छेत्री मोहन राव	फ्लाइट गनर
27.	646570 के	मा वा अ (आ फ अ)	श्री राम कुरील	जी टी आई
28.	646247 बी	मा वा अ (आ फ अ)	गुंडेड्डी भट्टी रेड्डी	जी टी आई
29.	618609 बी	मा वा अ (आ फ अ)	सत्य नारायण सिंह	आई ए एफ (पी)
30.	620229 बी	मा वा अ (आ फ अ)	राजमल सिंह लाठर	आई ए एफ (पी)
31.	609943 बी	मा वा अ (आ फ अ)	मुरलीधरन पी के	इंस्ट्रुमेंट फिटर
32.	609757 एस	मा वा अ (आ फ अ)	अनिल कुमार श्रीवास्तव	इंस्ट्रुमेंट फिटर
33.	655248 एस	मा वा अ (आ फ अ)	जोब पालाकुन्नेल अगस्टिन	मेडिकल असिस्टेंट
34.	655159 आर	मा वा अ (आ फ अ)	असगर अली मलवान	मेडिकल असिस्टेंट
35.	633929 एन	मा वा अ (आ फ अ)	प्रभात चन्द्र कर	मेट असिस्टेंट
36.	632415 टी	मा वा अ (आ फ अ)	सुकुमार सामन्त	मेट असिस्टेंट
37.	618014 टी	मा वा अ (आ फ अ)	कपिल देव रॉय	एम टी डी
38.	620527 एच	मा वा अ (आ फ अ)	रतन सरकार	एम टी डी
39.	628954 ए	वा अ (आ फ अ)	जे विलसन	म्युजिशियन
40.	621115 ए	मा वा अ (आ फ अ)	मदन सिंह राना	म्युजिशियन
41.	657153 टी	मा वा अ (आ फ अ)	नित्यानन्द प्रधान	फोटो फिटर
42.	642877 टी	मा वा अ (आ फ अ)	राम लखन	फोटो फिटर
43.	645863 एल	मा वा अ (आ फ अ)	अक्षयबर प्रसाद ओझा	पी जे आई
44.	618125 बी	मा वा अ (आ फ अ)	वेणुगोपाल एम सी	रडार फिटर
45.	618741 बी	मा वा अ (आ फ अ)	राजेश प्रकाश श्रीवास्तव	रडार फिटर

क. सं.	सेवा संख्या	श्रेण	नाम एवं प्राक्षर	टेड
46.	632589 टी	मा वा अ (आ फ अ)	उदय प्रसाद गुप्ता	रेडियो फिटर
47.	633582 आर	मा वा अ (आ फ अ)	उदयबीर सिंह मलिक	रेडियो फिटर
48.	632708 एल	मा वा अ (आ फ अ)	उमाशंकर सिंह	रेडियो टेक
49.	632633 ए	मा वा अ (आ फ अ)	राजकुमार तिकेन्द्रजीत सिंह	रेडियो टेक
50.	644873 आर	मा वा अ (आ फ अ)	चानन सिंह सिधु	एस इ डबल्यू
51.	658009 बी	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार तिवारी	एस इ डबल्यू
52.	634213 बी	मा वा अ (आ फ अ)	सुरेश कुमार राठी	टेलेस्ट आर टी ओ
53.	633082 एल	मा वा अ (आ फ अ)	ताराचन्द गेरा	टेलेस्ट आर टी ओ
54.	643745 ए	मा वा अ (आ फ अ)	केशव प्रसाद यादव	विपन फिटर
55.	657284 एल	मा वा अ (आ फ अ)	शिव चन्द्र सिंह	विपन फिटर
56.	641241 के	मा वा अ (आ फ अ)	नवल किशोर राय	वर्कशॉप फिटर (बी)
57.	658137 जी	मा वा अ (आ फ अ)	सुंकरा राजेश्वर राव	वर्कशॉप फिटर (बी)
58.	657867 एच	वा अ (आ फ अ)	करुना कान्त बर्मन	वर्कशॉप फिटर (सी)
59.	657335 एच	मा वा अ (आ फ अ)	जनार्दन प्रसाद पान्डेय	वर्कशॉप फिटर (सी)
60.	644057 के	मा वा अ (आ फ अ)	रणवीर सिंह हुड्डा	वर्कशॉप फिटर (एम)

[सं. वासेमु/सी-40254/1/2/पीए (सीपीसी)]

पी.आर. शर्मा, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(AIR BRANCH)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 05(E).**—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26th January, 2013 on occasion of Republic Day under Para 344 of Regulations for the Air Force :—

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
1.	646988-G	MWO (HFO)	DAVENDER SINGH CHHIKARA	ACH GD
2.	646763-K	MWO (HFO)	SUBHASH CHAND KHANNA	ACH GD
3.	620190-F	MWO (HFO)	NARENDRA KUMAR VERMA	ADSO

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
4.	619660-N	MWO (HFO)	SURINDAR PAL SINGH	ADSO
5.	657072-T	MWO (HFO)	JAGJIWAN RAM YADAVA	AF FIT
6.	642795-B	MWO (HFO)	VIJAY KUMAR GUPTA	AF FIT
7.	633175-T	MWO (HFO)	SATYAVIR SINGH	AFSO
8.	631606-R	MWO (HFO)	ASHOK KUMAR SHARMA	AFSO
9.	646546-F	MWO (HFO)	GANESH BISWAS	CAT ASST
10.	645680-G	MWO (HFO)	MAHESH CHANDRA JAIN	CAT ASST
11.	646065-N	MWO (HFO)	SHUBH NARAIN UPADHYAY	CLK ACCTS
12.	646866-L	MWO (HFO)	RAJENDRA MAHARAJ	CLK ACCTS
13.	614158-L	MWO (HFO)	RAJENDAR SINGH RATHORE	CLK GD
14.	614124-B	MWO (HFO)	RANA UMAPATI SINGH	CLK GD
15.	646605-B	MWO (HFO)	BHANWAR SINGH RATHORE	CRYPTO
16.	633565-R	MWO (HFO)	LAL SINGH YADAV	CRYPTO
17.	672374-N	MWO (HFO)	TIRUVARUR SUNDARAM KRISHNAN	EDN INSTR
18.	650151-K	MWO (HFO)	VIKRAM SINGH VERMA	ELECT FIT
19.	609888-K	MWO (HFO)	SUBAS CHANDRA APATA	ELECT FIT
20.	643943-N	MWO (HFO)	VIJAYKUMAR RAMCHANDRA KADUKAR	ENG FIT
21.	644858-H	MWO (HFO)	SURESH CHAND AZAD	ENG FIT
22.	646679-K	MWO (HFO)	BHAUSAHE PARAJEE RASAL	EQPT ASST
23.	646325-N	MWO (HFO)	RAJ BIR SINGH DAHIYA	EQPT ASST
24.	644842-R	MWO (HFO)	DHARAM VIR TYAGI	FLT ENG
25.	642807-S	MWO (HFO)	R SUBRAMANIAN	FLT GUN
26.	642824-S	MWO (HFO)	CHATHRI MOHAN RAO	FLT GUN
27.	646570-K	MWO (HFO)	SHRI RAM KURIL	GTI

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
28.	646247-B	MWO (HFO)	GUNDREDDY BHADRI REDDY	GTI
29.	618609-B	MWO (HFO)	SATYA NARAYAN SINGH	IAF(P)
30.	620229-B	MWO (HFO)	RAJMAL SINGH LATHER	IAF(P)
31.	609943-B	MWO (HFO)	MURALEEDHARAN PK	INST FIT
32.	609757-S	MWO (HFO)	ANIL KUMAR SRIVASTAVA	INST FIT
33.	655248-S	MWO (HFO)	JOB PALAKKUNNEL AUGUSTINE	MED ASST
34.	655159-R	MWO (HFO)	ASGER ALI MALWAN	MED ASST
35.	633929-N	MWO (HFO)	PRABHAT CHANDRA KAR	MET ASST
36.	632415-T	MWO (HFO)	SUKUMAR SAMANTA	MET ASST
37.	618014-T	MWO (HFO)	KAPIL DEO ROY	MTD
38.	620527-H	MWO (HFO)	RATAN SARKAR	MTD
39.	628954-A	WO (HFO)	J WILSON	MUSN
40.	621115-A	MWO (HFO)	MADAN SINGH RANA	MUSN
41.	657153-T	MWO (HFO)	NITYANANDA PRADHAN	PHOTO FIT
42.	642877-T	MWO (HFO)	RAM LAKHAN	PHOTO FIT
43.	645863-L	MWO (HFO)	AKSHAIBAR PRASAD OJHA	PJI
44.	618125-B	MWO (HFO)	MADDURANDAGAM CHINNASWAMY VENUGOPAL	RAD FIT
45.	618741-B	MWO (HFO)	RAJESH PRAKASH SRIVASTAVA	RAD FIT
46.	632589-T	MWO (HFO)	UDAY PRASAD GUPTA	RDO FIT
47.	633582-R	MWO (HFO)	UDAIBIR SINGH MALIK	RDO FIT
48.	632708-L	MWO (HFO)	UMA SHANKER SINGH	RDO TECH
49.	632633-A	MWO (HFO)	RAJKUMAR TIKENDRAJIT SINGH	RDO TECH
50.	644873-R	MWO (HFO)	CHANAN SINGH SIDHU	SEW
51.	658009-B	MWO (HFO)	ASHOK KUMAR TEWARI	SEW
52.	634213-B	MWO (HFO)	SURESH KUMAR RATHEE	TELST RTO



Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
53.	633082-L	MWO (HFO)	TARA CHAND GERA	TELST RTO
54.	643745-A	MWO (HFO)	KESHAV PRASAD YADAV	WPN FIT
55.	657284-L	MWO (HFO)	SHIW CHANDRA SINGH	WPN FIT
56.	641241-K	MWO (HFO)	NAWAL KISHOR ROY	WS FIT(B)
57.	658137-G	MWO (HFO)	SUNKARA RAJESWARA RAO	WS FIT(B)
58.	657867-H	WO (HFO)	KARUNA KANTA BARMAN	WS FIT(C)
59.	657335-H	MWO (HFO)	JANARDAN PRASAD PANDEY	WS FIT(C)
60.	644057-K	MWO (HFO)	RANVIR SINGH HOODA	WS FIT(M)

[No. Air HQ/C-40254/1/2/PA (CPC)]

P. R. SHARMA, Air Mshl, Air Officer-in-charge Personnel

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

**सं. 06(अ).**—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 26 जनवरी, 2013 से फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
1.	642740 एच	मा वा अ	अजय प्रसाद सिंह	एसीएच जीडी
2.	632296 जी	मा वा अ	राम कृष्णा विद्यार्थी	एसीएच जीडी
3.	646109 एफ	मा वा अ	हरिश चन्द्रा जाट	एसीएच जीडी
4.	642491 टी	मा वा अ	गिरिश यादव	एसीएच जीडी
5.	613022 जी	मा वा अ	राजेन्द्र मोदी	एसीएच जीडी
6.	618769 बी	मा वा अ	राजकुमार सिंह	एसीएच जीडी
7.	613779 बी	मा वा अ	सर्वजीत सिंह	एसीएच जीडी
8.	646655 आर	मा वा अ	गुप्तेश्वर सिंह	एसीएच जीडी
9.	643387 ए	मा वा अ	अरुन कुमार समदर्शी	एसीएच जीडी
10.	646968 एस	मा वा अ	सचिदा नन्द सिंह	एसीएच जीडी
11.	618861 एफ	मा वा अ	सत्य प्रकाश शर्मा	ए डी एस ओ

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
12.	620114 एन	मा वा अ	बीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	ए डी एस ओ
13.	619844 आर	मा वा अ	सुरेन्द्र सिंह	ए डी एस ओ
14.	619084 एल	मा वा अ	सत्येन्द्र प्रसाद	ए डी एस ओ
15.	657917 एच	मा वा अ	कृष्ण मोहन सिंह	ए एफ फिटर
16.	643354 एच	मा वा अ	किशोरी सिंह	ए एफ फिटर
17.	657890 एस	मा वा अ	उपेन्द्र कुमार	ए एफ फिटर
18.	641511 एफ	मा वा अ	प्रकाश चन्द्र घोष	ए एफ फिटर
19.	658416 टी	मा वा अ	ललता प्रसाद गुप्ता	ए एफ फिटर
20.	644631 टी	मा वा अ	प्रकाश चन्द्र जश	ए एफ फिटर
21.	657649 जी	मा वा अ	रब्बी सिंह	ए एफ फिटर
22.	657087 आर	मा वा अ	शरत चन्द्र दास	ए एफ फिटर
23.	644682 एच	मा वा अ	विश्राम सिंह सेंगर	ए एफ फिटर
24.	643020 ए	मा वा अ	रामा नन्द पन्त	ए एफ फिटर
25.	644678 एल	मा वा अ	अजय कुमार श्रीवास्तव	ए एफ फिटर
26.	641982 एन	मा वा अ	रमेश प्रसाद डांगीवाल	ए एफ फिटर
27.	644199 एन	मा वा अ	जितेन्द्र कुमार	ए एफ फिटर
28.	643379 टी	मा वा अ	बोणम जगन मोहनाराव	ए एफ फिटर
29.	620320 एच	मा वा अ	शिव करन सिंह	ए एफ एस ओ
30.	633148 एफ	मा वा अ	धीरेन्द्र कुमार पहाड़ सिंह	ए एफ एस ओ
31.	633540 एफ	मा वा अ	सुरेश प्रसाद	ए एफ एस ओ
32.	632670 के	मा वा अ	राजा राम दास	ए एफ एस ओ
33.	632737 टी	मा वा अ	विजय शंकर सिंह	ए एफ एस ओ
34.	633692 बी	मा वा अ	राजेन्द्र सिंह यादव	ए एफ एस ओ
35.	633823 बी	मा वा अ	नित्या नन्द पांडेय	ए एफ एस ओ
36.	623715 टी	मा वा अ	पंकी पिल्लई सुकुमारन	कैटरिंग असिस्टेंट
37.	613905 ए	मा वा अ	सुभाष चंद्र डे	कैटरिंग असिस्टेंट
38.	646504 एन	मा वा अ	वेद प्रकाश शर्मा	कैटरिंग असिस्टेंट
39.	613419 एस	मा वा अ	बीरेन्द्र कुमार सिंह	कैटरिंग असिस्टेंट

क.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
40.	645869 के	मा वा अ	रघुनाथन कोलंगडा मुलायिल बीडु	क्लर्क एकाउंट्स
41.	645508 एच	मा वा अ	धीरज सिंह नागर	क्लर्क एकाउंट्स
42.	614132 एफ	मा वा अ	राम एकबाल सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
43.	646850 टी	मा वा अ	रतन कुमार दास	क्लर्क एकाउंट्स
44.	645697 आर	मा वा अ	राम बचन सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
45.	612600 के	मा वा अ	कृष्णा प्रसाद	क्लर्क एकाउंट्स
46.	643532 एल	मा वा अ	नंद किशोर सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
47.	647013 टी	मा वा अ	होती लाल यादव	क्लर्क जीडी
48.	646045 एफ	मा वा अ	मुण्डनचेरी मोहनदास	क्लर्क जीडी
49.	614759 एफ	मा वा अ	नव नाथ यादव	क्लर्क जीडी
50.	646063 ए	मा वा अ	राम नारायण	क्लर्क जीडी
51.	614584 ए	मा वा अ	अशोक कुमार प्रधान	क्लर्क जीडी
52.	646467 एस	मा वा अ	सुरिन्दर सिंह	क्लर्क जीडी
53.	645007 एच	मा वा अ	देव राज	क्लर्क जीडी
54.	645923 जी	मा वा अ	राम लखन सिंह	क्लर्क जीडी
55.	614359 एन	मा वा अ	दलबीर सिंह	क्लर्क जीडी
56.	646064 एस	मा वा अ	राजदेव यादव	क्लर्क जीडी
57.	613197 बी	मा वा अ	जगदीश चंद्रा	क्लर्क जीडी
58.	614235 जी	मा वा अ	गौतम घोष	क्लर्क जीडी
59.	613688 एच	मा वा अ	लालजी प्रसाद	क्लर्क जीडी
60.	647012 बी	मा वा अ	राम पलट यादव	किप्टो
61.	645693 के	मा वा अ	सूर्य देव यादव	किप्टो
62.	645415 ए	मा वा अ	राजेन्द्र प्रसाद साव	किप्टो
63.	646698 बी	मा वा अ	दिलीप कुमार बरूआ	किप्टो

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
64.	670103 एच	मा वा अ	राम औतार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
65.	670677 टी	मा वा अ	नन्द किशोर सिंह	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
66.	609996 एफ	मा वा अ	जी राधाकृष्णन नायर	इलेक्ट फिटर
67.	650058 एल	मा वा अ	विरेन्द्र सिंह	इलेक्ट फिटर
68.	609786 एफ	मा वा अ	बिनय कुमार बराल	इलेक्ट फिटर
69.	609101 के	मा वा अ	गिरिजा शंकर शुक्ला	इलेक्ट फिटर
70.	650150 एन	मा वा अ	तुषार कान्त पाल	इलेक्ट फिटर
71.	609463 एच	मा वा अ	महाराज सिंह	इलेक्ट फिटर
72.	650020 एस	मा वा अ	ओम प्रकाश सिन्हा	इलेक्ट फिटर
73.	609762 के	मा वा अ	दलीप कुमार पालीवाल	इलेक्ट फिटर
74.	608780 आर	मा वा अ	कपिल देव मंडल	इलेक्ट फिटर
75.	657107 एल	मा वा अ	बलवन्त सिंह नेहरा	इंजन फिटर
76.	644832 ए	मा वा अ	राखाल मजुमदार	इंजन फिटर
77.	642663 एन	मा वा अ	शंकर गुरुंग	इंजन फिटर
78.	643435 एच	मा वा अ	बिजय बहादुर राय	इंजन फिटर
79.	644703 ए	मा वा अ	मेहर सिंह	इंजन फिटर
80.	644850 एस	मा वा अ	रत्तन सिंह	इंजन फिटर
81.	643504 ए	मा वा अ	परशुराम नागर	इंजन फिटर
82.	642765 टी	मा वा अ	केशरी कान्त सिंह	इंजन फिटर
83.	643986 ए	मा वा अ	सुभाष चन्द्र	इंजन फिटर
84.	644822 जी	मा वा अ	विश्वम्भर प्रसाद	इंजन फिटर
85.	657953 ए	मा वा अ	रामेश्वर दयाल शर्मा	इंजन फिटर
86.	657422 एस	मा वा अ	लाल प्रताप सिंह	इंजन फिटर
87.	643101 ए	मा वा अ	ओम प्रकाश गुप्ता	इंजन फिटर

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
88.	644730 आर	मा वा अ	शरद मोहन खरे	इंजन फिटर
89.	657689 एफ	मा वा अ	महेश चन्द्र शर्मा	इंजन फिटर
90.	643467 एफ	मा वा अ	राज नारायण तिवारी	इंजन फिटर
91.	644796 ए	मा वा अ	रघु बंश सिंह	इंजन फिटर
92.	647100 एच	मा वा अ	जगदीश सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
93.	645670 एल	मा वा अ	उमेश प्रसाद पाण्डेय	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
94.	645984 के	मा वा अ	जगदीश प्रसाद मिश्रा	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
95.	614205 बी	मा वा अ	राज देव यादव	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
96.	646774 ए	मा वा अ	पुरन देव	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
97.	646634 के	मा वा अ	पुल्लामडुत्तिल राघवन पिल्लई गोपालकृष्णन	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
98.	647016 एच	मा वा अ	राम नारायण मिश्र	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
99.	646990 के	मा वा अ	हुकम चन्द	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
100.	646106 आर	मा वा अ	राज कुमार	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
101.	646361 जी	मा वा अ	सुभाष चन्द्र महापात्रा	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
102.	614423 एफ	मा वा अ	राज किशोर सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
103.	614796 एन	मा वा अ	सुरेश चन्द्र श्रीचना	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
104.	645393 एल	मा वा अ	अजय कुमार साहा	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
105.	646291 एस	मा वा अ	योगेन्द्र लाल राय	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
106.	645513 ए	मा वा अ	ऋषिपाल सिंह वर्मा	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
107.	646815 बी	मा वा अ	नकाती पीर अहमद	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
108.	646724 एच	मा वा अ	जितेन्द्र नाथ दूबे	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
109.	613975 बी	मा वा अ	चन्दर कुमार	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
110.	645736 एफ	मा वा अ	योगेन्द्र प्रसाद बारी	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
111.	642625 एच	मा वा अ	रतन लाल जाट	फ्लाइट इंजीनियर

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्ति	ट्रेड
112.	657480 एल	मा वा अ	रमेश चंद	फ्लाइट गनर
113.	657292 एन	मा वा अ	इफ्तखार अहमद अन्सारी	फ्लाइट गनर
114.	657273 ए	मा वा अ	सतेन्द्र सिंह	फ्लाइट गनर
115.	647127 एल	मा वा अ	विनय कुमार शर्मा	जी टी आई
116.	647157 आर	मा वा अ	अवध बिहारी पाठक	जी टी आई
117.	646924 एन	मा वा अ	सुरेश राय	जी टी आई
118.	646923 एस	मा वा अ	वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय	जी टी आई
119.	619105 एफ	मा वा अ	पवित्रन नायर	आई ए एफ (पी)
120.	620309 जी	मा वा अ	गुरबक्श सिंह	आई ए एफ (पी)
121.	619935 के	मा वा अ	खेम राज	आई ए एफ (पी)
122.	620121 टी	मा वा अ	वीर बहादुर सिंह	आई ए एफ (पी)
123.	619753 ए	मा वा अ	मनजीत सिंह	आई ए एफ (पी)
124.	619928 एफ	मा वा अ	ललन जी तिवारी	आई ए एफ (पी)
125.	618593 बी	मा वा अ	राजपाल सिंह सुहाग	आई ए एफ (पी)
126.	609345 टी	मा वा अ	जाकिर हुसैन	इंस्ट्रुमेंट फिटर
127.	650016 ए	मा वा अ	युगल किशोर प्रसाद	इंस्ट्रुमेंट फिटर
128.	609944 टी	मा वा अ	इन्द्र सिंह मलिक	इंस्ट्रुमेंट फिटर
129.	650063 एफ	मा वा अ	अनिल कुमार गुप्ता	इंस्ट्रुमेंट फिटर
130.	650089 एल	मा वा अ	अनन्त चरण साहु	इंस्ट्रुमेंट फिटर
131.	650216 जी	मा वा अ	इंद्राज सिंह	इंस्ट्रुमेंट फिटर
132.	650215 के	मा वा अ	जय पाल सिंह यादव	इंस्ट्रुमेंट फिटर
133.	650092 एल	मा वा अ	सत्य नारायण गुप्ता	इंस्ट्रुमेंट फिटर
134.	655276 एच	मा वा अ	लज्जाराम राजपूत	मेडिकल असिस्टेंट
135.	655214 एच	मा वा अ	केवल सिंह	मेडिकल असिस्टेंट

क.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्ति	ट्रेड
136.	655263 एफ	मा वा अ	मदन लाल	मेडिकल असिस्टेंट
137.	242910 ए	मा वा अ	सुरेन्द्र लाल	मेडिकल असिस्टेंट
138.	655041 एस	मा वा अ	प्रेम शंकर शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट
139.	242922 एच	मा वा अ	राघव प्रसाद सिंह	मेडिकल असिस्टेंट
140.	633560 एन	मा वा अ	सतीश कुमार शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट
141.	655282 एस	मा वा अ	सरोज कान्त दास	मेडिकल असिस्टेंट
142.	655197 ए	मा वा अ	परमेश्वरी दयाल	मेडिकल असिस्टेंट
143.	655075 जी	मा वा अ	अजय कुमार डे	मेडिकल असिस्टेंट
144.	655224 बी	वा अ	राम सिद्धा जी प्रसाद	मेडिकल असिस्टेंट
145.	655188 बी	मा वा अ	सुरेन्द्र नाथ चौधरी	मेडिकल असिस्टेंट
146.	655269 बी	मा वा अ	गोपाल चंद्र मंडल	मेडिकल असिस्टेंट
147.	655277 एफ	मा वा अ	विजय शंकर मिश्र	मेडिकल असिस्टेंट
148.	619162 बी	मा वा अ	रामू प्रसाद यादव	मेट असिस्टेंट
149.	633625 के	मा वा अ	वट्टोमपाडम श्रीधरन	मेट असिस्टेंट
150.	632667 के	मा वा अ	उमा शंकर मिश्रा	मेट असिस्टेंट
151.	619434 के	मा वा अ	प्रेम किशोर सिंह	एम टी डी
152.	620155 एच	मा वा अ	सुरजित पाल	एम टी डी
153.	619242 जी	मा वा अ	रमेश चन्द पर्वार	एम टी डी
154.	618394 एन	मा वा अ	लखन बहादुर सिंह	एम टी डी
155.	619756 के	मा वा अ	परमजीत सिंह	एम टी डी
156.	620106 एल	मा वा अ	महताब सिंह	एम टी डी
157.	618896 के	मा वा अ	केशव दत्त जोशी	एम टी डी
158.	618237 बी	मा वा अ	बृजनाथ चौबे	एम टी डी
159.	619280 एल	मा वा अ	आजाद सिंह सहरावत	एम टी डी

क.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्तर	ट्रेड
160.	617398 एच	मा वा अ	बीर बहादुर सिंह	एम टी डी
161.	619483 जी	मा वा अ	सत्यवीर सिंह	एम टी डी
162.	620296 आर	मा वा अ	बाल किशन ठिकारा	एम टी डी
163.	619268 एन	मा वा अ	देवनेसन रूबेन	म्युजिशियन
164.	621193 एफ	मा वा अ	सत्य पाल	म्युजिशियन
165.	626606 ए	वा अ	शर्मा मथुरा प्रसाद	म्युजिशियन
166.	657982 एच	मा वा अ	महेन्द्र कुमार	फोटो फिटर
167.	650411 के	मा वा अ	रविंदर सिंह	फोटो फिटर
168.	614950 बी	मा वा अ	फलाहुददीन खॉ	पी जे आई
169.	645253 ए	मा वा अ	विजय कुमार	पी जे आई
170.	644786 जी	मा वा अ	प्रेमपाल सिंह पौरुष	पी एम एफ (एम)
171.	618518 एच	मा वा अ	संत राम	रडार फिटर
172.	620364 एल	मा वा अ	विभवेन्दु शेखर मिश्र	रडार फिटर
173.	619757 जी	मा वा अ	आशा नंद	रडार फिटर
174.	619717 एच	मा वा अ	बाबू एस	रडार फिटर
175.	620223 एफ	मा वा अ	ऋषिपाल सिंह चौहान	रडार फिटर
176.	619796 एच	मा वा अ	उमा शंकर दुबे	रडार फिटर
177.	619466 जी	मा वा अ	दया नन्द दहिया	रडार फिटर
178.	620252 एल	मा वा अ	प्रदीप कुमार पाण्डेय	रडार फिटर
179.	618839 एल	मा वा अ	सुभाष ठाकुर	रडार फिटर
180.	620038 आर	मा वा अ	जितेन्द्र कुमार वर्मा	रडार फिटर
181.	620539 आर	मा वा अ	जनेश्वर दयाल	रडार फिटर
182.	633686 एन	मा वा अ	बाबू शर्मा	रेडियो फिटर
183.	632658 एल	मा वा अ	गंगा सागर प्रसाद	रेडियो फिटर



क.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
184.	633976 एस	मा वा अ	विश्वनाथ सिंह	रेडियो फिटर
185.	634116 टी	मा वा अ	रामकुमार सिंह पेंवार	रेडियो फिटर
186.	632803 बी	मा वा अ	पुरंजय कुमार	रेडियो फिटर
187.	632367 एल	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	रेडियो फिटर
188.	633839 आर	मा वा अ	संगवी नारायणा	रेडियो फिटर
189.	633103 एफ	मा वा अ	देव नाथ सिंह	रेडियो फिटर
190.	633257 आर	मा वा अ	केदार राम	रेडियो फिटर
191.	633417 बी	मा वा अ	एम के सुब्रमनियम	रेडियो फिटर
192.	633300 ए	मा वा अ	गगन बिहारी बराल	रेडियो फिटर
193.	632821 टी	मा वा अ	मुनिसामी राजन	रेडियो फिटर
194.	632366 आर	मा वा अ	नरेश कुमार	रेडियो फिटर
195.	633843 एल	मा वा अ	प्रणब कुमार नाग	रेडियो फिटर
196.	633279 एस	मा वा अ	ऋषि कुमार टांगर	रेडियो फिटर
197.	632484 एफ	मा वा अ	दासलुरी श्री रामचन्द्र मुर्ती	रेडियो फिटर
198.	632175 एच	मा वा अ	कृष्णा नन्द सिंह	रेडियो फिटर
199.	631060 एच	मा वा अ	पिजूष कान्त चौधूरी	रेडियो फिटर
200.	633022 एफ	मा वा अ	योगेन्द्र सिंह	रेडियो टेक
201.	633031 बी	मा वा अ	शत्रुघ्न सिंह	रेडियो टेक
202.	632661 एल	मा वा अ	अशोक कुमार राय	रेडियो टेक
203.	633599 एफ	मा वा अ	सिंह अरुण कुमार	रेडियो टेक
204.	622532 बी	मा वा अ	सुरेश सिंह	रेडियो टेक
205.	633849 के	मा वा अ	मलखान सिंह	रेडियो टेक
206.	632165 एन	मा वा अ	रामा सिंह	रेडियो टेक
207.	658760 एल	मा वा अ	गुरव बालकृष्ण ओंकार	एस इ डबल्यू

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
208.	644886 टी	मा वा अ	सुरेश कुमार चौधरी	एस इ डबल्यू
209.	657734 बी	मा वा अ	सानप सुधाकर किसनराव	एस इ डबल्यू
210.	658510 एन	मा वा अ	ओम राम	एस इ डबल्यू
211.	657738 एच	मा वा अ	बिप्रबर बिश्वाल	एस इ डबल्यू
212.	644896 एन	मा वा अ	महावीर सिंह	एस इ डबल्यू
213.	657731 एन	मा वा अ	श्री कृष्ण प्रसाद	एस इ डबल्यू
214.	658257 एच	वा अ	देवेन्द्र साहु	एस इ डबल्यू
215.	634200 टी	मा वा अ	शिशिर कुमार साहु	टेलेस्ट आर टी ओ
216.	634206 एस	मा वा अ	कमल नयन शर्मा	टेलेस्ट आर टी ओ
217.	634480 ए	मा वा अ	राम शेखर शुक्ल	टेलेस्ट आर टी ओ
218.	634362 एल	मा वा अ	सुच्चा सिंह	टेलेस्ट आर टी ओ
219.	633878 एस	मा वा अ	कमलेश ओझा	टेलेस्ट आर टी ओ
220.	634340 के	मा वा अ	भेंवर सिंह शेखावत	टेलेस्ट आर टी ओ
221.	633375 एफ	मा वा अ	एन एस वी भट राजगोपाल वीट्ठल	टेलेस्ट आर टी ओ
222.	644997 बी	मा वा अ	दुर्गा प्रसाद	विपन फिटर
223.	657211 ए	मा वा अ	ज्ञानेन्द्र सिंह तेवतिआ	विपन फिटर
224.	643288 एफ	मा वा अ	सत्य नारायण सिंह	विपन फिटर
225.	642255 ए	मा वा अ	गणेश सिंह राठौर	विपन फिटर
226.	657001 ए	मा वा अ	नारायण सिंह	विपन फिटर
227.	657021 के	मा वा अ	रामा नन्द	विपन फिटर
228.	658125 टी	मा वा अ	रघुवीर सिंह यादव	विपन फिटर
229.	657848 आर	मा वा अ	ए वेंकट रेड्डी	विपन फिटर
230.	658085 एन	मा वा अ	वेदप्रकाश यादव	विपन फिटर
231.	657247 बी	मा वा अ	लक्ष्मी नारायण गुप्ता	विपन फिटर

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
232.	642036 बी	मा वा अ	बिरेन्द्र मट्ट	विपन फिटर
233.	658378 जी	मा वा अ	कुमुद रंजन प्रसाद सिन्हा	वर्कशॉप फिटर (बी)
234.	658390 एफ	वा अ	बालेश्वर दयाल त्यागी	वर्कशॉप फिटर (बी)
235.	657851 आर	वा अ	नारायण बसाक	वर्कशॉप फिटर (बी)
236.	657596 एस	वा अ	सुखबीर सिंह नागर	वर्कशॉप फिटर (सी)
237.	658409 एन	मा वा अ	सिराज अहमद	वर्कशॉप फिटर (सी)
238.	657871 एफ	वा अ	गोकुला नन्द जेना	वर्कशॉप फिटर (सी)
239.	657759 एन	मा वा अ	प्रदीप कुमार	वर्कशॉप फिटर (एम)
240.	644060 के	वा अ	बीरेन्द्र प्रसाद साह	वर्कशॉप फिटर (एम)
241.	658028 आर	वा अ	ब्रजेन्द्र कुमार द्विवेदी	वर्कशॉप फिटर (एम)

[सं. वासेमु/सी-40254/1/2/पीए (सीपीसी)]

पी.आर. शर्मा, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 06(E).**—The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26th January, 2013 on occasion of Republic Day under Para 344 of Regulations for the Air Force 1964 :—

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	642740-H	MWO	AJAY PRASAD SINGH	ACH GD
2.	632296-G	MWO	RAM KRISHNA VIDYARTHI	ACH GD
3.	646109-F	MWO	HARISH CHANDRA JAT	ACH GD
4.	642491-T	MWO	GIRISH YADAV	ACH GD
5.	613022-G	MWO	RAJENDRA MODI	ACH GD
6.	618769-B	MWO	RAJ KUMAR SINGH	ACH GD
7.	613779-B	MWO	SARBAJIT SINGH	ACH GD
8.	646655-R	MWO	GUPTESHWAR SINGH	ACH GD
9.	643387-A	MWO	ARUN KUMAR SAMDERSHY	ACH GD
10.	646968-S	MWO	SACHIDA NAND SINGH	ACH GD
11.	618861-F	MWO	SATYA PRAKASH SHARMA	ADSO

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
12.	620114-N	MWO	BIRENDRA KUMAR PANDAY	ADSO
13.	619844-R	MWO	SURENDRA SINGH	ADSO
14.	619084-L	MWO	SATYENDRA PRASAD	ADSO
15.	657917-H	MWO	KRISHNA MOHAN SINGH	AF FIT
16.	643354-H	MWO	KISHORI SINGH	AF FIT
17.	657890-S	MWO	UPENDRA KUMAR	AF FIT
18.	641511-F	MWO	PRAKASH CHANDRA GHOSH	AF FIT
19.	658416-T	MWO	LALTA PRASAD GUPTA	AF FIT
20.	644631-T	MWO	PROKAS CHANDRA JAS	AF FIT
21.	657649-G	MWO	RABBI SINGH	AF FIT
22.	657087-R	MWO	SARAT CHANDRA DAS	AF FIT
23.	644682-H	MWO	VISHRAM SINGH SENGAR	AF FIT
24.	643020-A	MWO	RAMA NAND PANT	AF FIT
25.	644678-L	MWO	AJAI KUMAR SHRIVASTAWA	AF FIT
26.	641982-N	MWO	RAMESH PRASAD DANGIWAL	AF FIT
27.	644199-N	MWO	JITENDRA KUMAR	AF FIT
28.	643379-T	MWO	JAGAN MOHANARAO BONAM	AF FIT
29.	620320-H	MWO	SHIV KARAN SINGH	AFSO
30.	633148-F	MWO	DHIRENDRA KUMAR PAHADA SINGH	AFSO
31.	633540-F	MWO	SURESH PRASAD	AFSO
32.	632670-K	MWO	RAJA RAM DAS	AFSO
33.	632737-T	MWO	VIJAYA SHANKER SINGH	AFSO
34.	633692-B	MWO	RAJANDER SINGH YADAVA	AFSO
35.	633823-B	MWO	NITYA NAND PANDEY	AFSO
36.	623715-T	MWO	PANKI PILLAI SUKUMARAN	CAT ASST
37.	613905-A	MWO	SUBHASH CHANDRA DEY	CAT ASST

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
38.	646504-N	MWO	VED PRAKASH SHARMA	CAT ASST
39.	613419-S	MWO	BIRENDRA KUMAR SINGH	CAT ASST
40.	645869-K	MWO	REGHUNATHAN KOLANGADA MOOLAYIL VEEDU	CLK ACCTS
41.	645508-H	MWO	DHIRAJ SINGH NAGER	CLK ACCTS
42.	614132-F	MWO	RAM AKBAL SINGH	CLK ACCTS
43.	646850-T	MWO	RATAN KUMAR DAS	CLK ACCTS
44.	645697-R	MWO	RAM BACHAN SINGH	CLK ACCTS
45.	612600-K	MWO	KRISHNA PRASAD	CLK ACCTS
46.	643532-L	MWO	NAND KISHOR SINGH	CLK ACCTS
47.	647013-T	MWO	HOTI LAL YADAV	CLK GD
48.	646045-F	MWO	MUNDANCHERY MOHANDAS	CLK GD
49.	614759-F	MWO	NAV NATH YADAV	CLK GD
50.	646063-A	MWO	RAM NARAYAN	CLK GD
51.	614584-A	MWO	ASHOK KUMAR PRADHAN	CLK GD
52.	646467-S	MWO	SURINDER SINGH	CLK GD
53.	645007-H	MWO	DEV RAJ	CLK GD
54.	645923-G	MWO	RAM LAKHAN SINGH	CLK GD
55.	614359-N	MWO	DALBIR SINGH	CLK GD
56.	646064-S	MWO	RAJDEV YADAV	CLK GD
57.	613197-B	MWO	JAGDISH CHANDRA	CLK GD
58.	614235-G	MWO	GAUTAM GHOSH	CLK GD
59.	613688-H	MWO	LALJI PRASAD	CLK GD
60.	647012-B	MWO	RAM PALAT YADAV	CRYPTO

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
61.	645693-K	MWO	SURYA DEO YADAV	CRYPTO
62.	645415-A	MWO	RAJENDRA PRASAD SHAW	CRYPTO
63.	646698-B	MWO	DILIP KUMAR BARUA	CRYPTO
64.	670103-H	MWO	RAM AUTAR	EDN INSTR
65.	670677-T	MWO	NAND KISHORE SINGH	EDN INSTR
66.	609996-F	MWO	G RADHAKRISHNAN NAIR	ELECT FIT
67.	650058-L	MWO	VIRENDRA SINGH	ELECT FIT
68.	609786-F	MWO	BINAYA KUMAR BARAL	ELECT FIT
69.	609101-K	MWO	GIRIJA SHANKAR SHUKLA	ELECT FIT
70.	650150-N	MWO	TUSHAR KANTI PAL	ELECT FIT
71.	609463-H	MWO	MAHARAJ SINGH	ELECT FIT
72.	650020-S	MWO	OM PRAKASH SINHA	ELECT FIT
73.	609762-K	MWO	DALIP KUMAR PALIWAL	ELECT FIT
74.	608780-R	MWO	KAPIL DEO MANDAL	ELECT FIT
75.	657107-L	MWO	BALWANT SINGH NARRAH	ENG FIT
76.	644832-A	MWO	RAKHAL MAJUMDAR	ENG FIT
77.	642663-N	MWO	SHANKER GURUNG	ENG FIT
78.	643435-H	MWO	BIJAI BAHADUR RAI	ENG FIT
79.	644703-A	MWO	MEHAR SINGH	ENG FIT
80.	644850-S	MWO	RATTAN SINGH	ENG FIT
81.	643504-A	MWO	PARSHU RAM NAGAR	ENG FIT
82.	642765-T	MWO	KESHRI KANT SINGH	ENG FIT

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
83.	643986-A	MWO	SUBHASH CHANDRA	ENG FIT
84.	644822-G	MWO	VISHWAMBHAR PRASAD	ENG FIT
85.	657953-A	MWO	RAMESHWAR DAYAL SHARMA	ENG FIT
86.	657422-S	MWO	LAL PRATAP SINGH	ENG FIT
87.	643101-A	MWO	OM PRAKSH GUPTA	ENG FIT
88.	644730-R	MWO	SHARAD MOHAN KHARE	ENG FIT
89.	657689-F	MWO	MAHESH CHANDRA SHARMA	ENG FIT
90.	643467-F	MWO	RAJ NARAYAN TIWARI	ENG FIT
91.	644796-A	MWO	RAGHU BANSH SINGH	ENG FIT
92.	647100-H	MWO	JAGDISH SINGH	EQPT ASST
93.	645670-L	MWO	UMESH PRASAD PANDEY	EQPT ASST
94.	645984-K	MWO	JAGDISH PRASAD MISHRA	EQPT ASST
95.	614205-B	MWO	RAJ DEO YADAV	EQPT ASST
96.	646774-A	MWO	PURAN DEV	EQPT ASST
97.	646634-K	MWO	PULLAMMADATHIL RAGHAVAN PILLAI GOPALAKRISHNAN	EQPT ASST
98.	647016-H	MWO	RAM NARAYAN MISHRA	EQPT ASST
99.	646990-K	MWO	HUKUM CHAND	EQPT ASST
100.	646106-R	MWO	RAJ KUMAR	EQPT ASST
101.	646361-G	MWO	SUBAS CHANDRA MOHAPATRA	EQPT ASST
102.	614423-F	MWO	RAJ KISHOR SINGH	EQPT ASST
103.	614796-N	MWO	SURESH CHANDRA SRICHANA	EQPT ASST
104.	645393-L	MWO	AJOY KUMAR SAHA	EQPT ASST

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
105.	646291-S	MWO	YOGENDRA LAL ROY	EQPT ASST
106.	645513-A	MWO	RISHIPAL SINGH VERMA	EQPT ASST
107.	646815-B	MWO	NAKATI PEER AHMED	EQPT ASST
108.	646724-H	MWO	JITENDRA NATH DUBEY	EQPT ASST
109.	613975-B	MWO	CHANDRA KUMAR	EQPT ASST
110.	645736-F	MWO	YOGENDRA PRASAD BARI	EQPT ASST
111.	642625-H	MWO	RATAN LAL JAT	FLT ENG
112.	657480-L	MWO	RAMESH CHAND	FLT GUN
113.	657292-N	MWO	IFTKHAR AHMAD ANSARI	FLT GUN
114.	657273-A	MWO	SATENDER SINGH	FLT GUN
115.	647127-L	MWO	VINAY KUMAR SHARMA	GTI
116.	647157-R	MWO	AWADH BIHARI PATHAK	GTI
117.	646924-N	MWO	SURESH RAI	GTI
118.	646923-S	MWO	VIRENDRA NATH PANDAY	GTI
119.	619105-F	MWO	PAVITHRAN NAIR	IAF(P)
120.	620309-G	MWO	GURBAX SINGH	IAF(P)
121.	619935-K	MWO	KHEM RAJ	IAF(P)
122.	620121-T	MWO	VEER BAHADUR SINGH	IAF(P)
123.	619753-A	MWO	MANJIT SINGH	IAF(P)
124.	619928-F	MWO	LALAN JEE TEWARY	IAF(P)
125.	618593-B	MWO	RAJPAL SINGH SUHAG	IAF(P)
126.	609345-T	MWO	JAKIR HUSSAIN	INST FIT



Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
127.	650016-A	MWO	YUGAL KISHOR PRASAD	INST FIT
128.	609944-T	MWO	INDER SINGH MALIK	INST FIT
129.	650063-F	MWO	ANIL KUMAR GUPTA	INST FIT
130.	650089-L	MWO	ANANTA CHARAN SAHOO	INST FIT
131.	650216-G	MWO	INDRAJ SINGH	INST FIT
132.	650215-K	MWO	JAI PAL SINGH YADAV	INST FIT
133.	650092-L	MWO	SATYA NARAIN GUPTA	INST FIT
134.	655276-H	MWO	LAJJARAM RAJPUT	MED ASST
135.	655214-H	MWO	KEWAL SINGH	MED ASST
136.	655263-F	MWO	MADAN LAL	MED ASST
137.	242910-A	MWO	SURENDRA LAL	MED ASST
138.	655041-S	MWO	PREM SHANKER SHARMA	MED ASST
139.	242922-H	MWO	RAGHAW PRASAD SINGH	MED ASST
140.	633560-N	MWO	SATISH KUMAR SHARMA	MED ASST
141.	655282-S	MWO	SAROJA KANTA DAS	MED ASST
142.	655197-A	MWO	PARMESHWARI DAYAL	MED ASST
143.	655075-G	MWO	AJAY KUMAR DEY	MED ASST
144.	655224-B	WO	RAM SIDHA JEE PRASAD	MED ASST
145.	655188-B	MWO	SURENDRA NATH CHOUDHARY	MED ASST
146.	655269-B	MWO	GOPAL CHANDRA MANDAL	MED ASST
147.	655277-F	MWO	VIJAYA SHANKER MISHRA	MED ASST
148.	619162-B	MWO	RAMU PRASAD YADAV	MED ASST

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
149.	633625-K	MWO	VATTOMPADOM SREEDHARAN	MET ASST
150.	632667-K	MWO	UMA SHANKAR MISHRA	MET ASST
151.	619434-K	MWO	PREM KISHOR SINGH	MTD
152.	620155-H	MWO	SURAJIT PAUL	MTD
153.	619242-G	MWO	RAMESH CHAND PANWAR	MTD
154.	618394-N	MWO	LAKHAN BAHADUR SINGH	MTD
155.	619756-K	MWO	PARMJIT SINGH	MTD
156.	620106-L	MWO	MAHTAB SINGH	MTD
157.	618896-K	MWO	KESHAV DATT JOSHI	MTD
158.	618237-B	MWO	BRIJNATH CHOUBEY	MTD
159.	619280-L	MWO	AZAD SINGH SHARAWAT	MTD
160.	617398-H	MWO	BIR BAHADUR SINGH	MTD
161.	619483-G	MWO	SATYVIR SINGH	MTD
162.	620296-R	MWO	BAL KRISHAN CHIKARA	MTD
163.	619268-N	MWO	DEVANESAN RUBEN	MUSN
164.	621193-F	MWO	SATYA PAL	MUSN
165.	626606-A	WO	SHARMA MATHURA PRASAD	MUSN
166.	657982-H	MWO	MAHENDRA KUMAR	PHOTO FIT
167.	650411-K	MWO	RAVINDER SINGH	PHOTO FIT
168.	614950-B	MWO	FALAHUDDIN KHAN	PJI
169.	645253-A	MWO	VIJAY KUMAR	PJI
170.	644786-G	MWO	PREMPAL SINGH PAURUSH	PMF(MECH)

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
171.	618518-H	MWO	SANT RAM	RAD FIT
172.	620364-L	MWO	VIBHAWENDU SHEKHAR MISHRA	RAD FIT
173.	619757-G	MWO	ASHA NAND	RAD FIT
174.	619717-H	MWO	BABU S	RAD FIT
175.	620223-F	MWO	RISHIPAL SINGH CHAUHAN	RAD FIT
176.	619796-H	MWO	UMA SHANKER DUBEY	RAD FIT
177.	619466-G	MWO	DAYA NAND DAHIYA	RAD FIT
178.	620252-L	MWO	PRADEEP KUMAR PANDEY	RAD FIT
179.	618839-L	MWO	SUBHAS THAKUR	RAD FIT
180.	620038-R	MWO	JITENDRA KUMAR VERMA	RAD FIT
181.	620539-R	MWO	JANESHWAR DAYAL	RAD FIT
182.	633686-N	MWO	BABU SHARMA	RDO FIT
183.	632658-L	MWO	GANGA SAGAR PRASAD	RDO FIT
184.	633976-S	MWO	BISHWANATH SINGH	RDO FIT
185.	634116-T	MWO	RAMKUMAR SINGH PANWAR	RDO FIT
186.	632803-B	MWO	PURANJAY KUMAR	RDO FIT
187.	632367-L	MWO	SURANDER KUMAR SHARMA	RDO FIT
188.	633839-R	MWO	SANGIVI NARAYANA	RDO FIT
189.	633103-F	MWO	DEW NATH SINGH	RDO FIT
190.	633257-R	MWO	KEDAR RAM	RDO FIT
191.	633417-B	MWO	M K SUBRAHMANYAM	RDO FIT
192.	633300-A	MWO	GAGAN BIHARI BARAL	RDO FIT

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
193.	632821-T	MWO	MUNISAMY RAJAN	RDO FIT
194.	632366-R	MWO	NARESH KUMAR	RDO FIT
195.	633843-L	MWO	PRANAB KUMAR NAG	RDO FIT
196.	633279-S	MWO	RISHI KUMAR TANGAR	RDO FIT
197.	632484-F	MWO	DAVULURI SRI RAMACHANDRA MURTHY	RDO FIT
198.	632175-H	MWO	KRISHNA NAND SINGH	RDO FIT
199.	631060-H	MWO	PIJUSH KANTA CHOUDHURY	RDO FIT
200.	633022-F	MWO	YOGENDRA SINGH	RDO TECH
201.	633031-B	MWO	SHATRUGHNA SINGH	RDO TECH
202.	632661-L	MWO	ASHOK KUMAR RAI	RDO TECH
203.	633599-F	MWO	SINGH ARUN KUMAR	RDO TECH
204.	633532-B	MWO	SURESH SINGH	RDO TECH
205.	633849-K	MWO	MALKHAN SINGH	RDO TECH
206.	632165-N	MWO	RAMA SINGH	RDO TECH
207.	658760-L	MWO	GURAV BALKRISHN ONKAR	SEW
208.	644886-T	MWO	SURESH KUMAR CHOUDHARY	SEW
209.	657734-B	MWO	SANAP SUDHAKAR KISANRAO	SEW
210.	658510-N	MWO	OM RAM	SEW
211.	657738-H	MWO	BIPRABAR BISWAL	SEW
212.	644896-N	MWO	MAHAVIR SINGH	SEW
213.	657731-N	MWO	SHREE KRISHNA PRASAD	SEW
214.	658257-H	WO	DEVENDRA SAHU	SEW

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
215.	634200-T	MWO	SHISHIR KUMAR SAHU	TELST RTO
216.	634206-S	MWO	KAMAL NAYAN SHARMA	TELST RTO
217.	634480-A	MWO	RAM SHEKHER SHUKLA	TELST RTO
218.	634362-L	MWO	SUCHA SINGH	TELST RTO
219.	633878-S	MWO	KAMALESH OJHA	TELST RTO
220.	634340-K	MWO	BHANWAR SINGH SHEKHAWAT	TELST RTO
221.	633375-F	MWO	N S VITTAL BHAT RAJAGOPAL V	TELST RTO
222.	644997-B	MWO	DURGA PRASAD	WPN FIT
223.	657211-A	MWO	GYANENDRA SINGH TEOTIA	WPN FIT
224.	643288-F	MWO	SATYA NARAYAN SINGH	WPN FIT
225.	642255-A	MWO	GANESH SINGH RATHORE	WPN FIT
226.	657001-A	MWO	NARAIN SINGH	WPN FIT
227.	657021-K	MWO	RAMA NAND	WPN FIT
228.	658125-T	MWO	RAGHUVIR SINGH YADAV	WPN FIT
229.	657848-R	MWO	A VENKATA REDDY	WPN FIT
230.	658085-N	MWO	VEDPARKASH YADAV	WPN FIT
231.	657247-B	MWO	LAXMI NARAYAN GUPTA	WPN FIT
232.	642036-B	MWO	BIRENDRA BHATT	WPN FIT
233.	658378-G	MWO	KUMUD RANJAN PRASAD SINHA	WS FIT(B)
234.	658390-F	WO	BALESHWER DYAL TYAGI	WS FIT(B)
235.	657851-R	WO	NARAYAN BASAK	WS FIT(B)
236.	657596-S	WO	SUKH BIR SINGH NAGAR	WS FIT(C)

246 6513-66

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
237.	658409-N	MWO	SERAJ AHMED	WS FIT(C)
238.	657871-F	WO	GOKULA NANDA JENA	WS FIT(C)
239.	657759-N	MWO	PRADEEP KUMAR	WS FIT(M)
240.	644060-K	WO	BIRENDRA PRASAD SAH	WS FIT(M)
241.	658028-R	WO	BRAJENDRA KUMAR DWIVEDI	WS FIT(M)

[No. Air HQ/C-40254/1/2/PA (CPC)]

P. R. SHARMA, Air Mshl, Air Officer-in-charge Personnel

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 07(अ).—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति सूची में निम्नलिखित सेवानिवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 26 जनवरी, 2013 से ऑनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक प्रदान किया जाता है :—

क. सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
1	650046 एफ	भूतपूर्व—मा वा अ	अनिल कुमार सिंह	आई ए एफ (पी)
2	646418 ए	भूतपूर्व—मा वा अ	सोहनाराम	क्लर्क जीडी
3	632599 एन	भूतपूर्व—मा वा अ	अम्बिका प्रसाद सिंह कांत	एसीएच जीडी
4	618909 ए	भूतपूर्व—मा वा अ	अब्दुल सामद	एम टी डी

[सं. वासेमु/सी-40254/1/2/पीए (सीपीसी)]

पी.आर. शर्मा, एयर मार्शल, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January, 2013

No. 07(E).—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 26th January, 2013 on occasion of Republic Day under Para 345 of Regulations for the Air Force 1964 :—

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	650046-F	Ex-MWO	ANIL KUMAR SINGH	IAF (P)
2.	646418-A	Ex-MWO	SOHANARAM	CLK GD

3.	632599-N	Ex-MWO	AMBIKA PD SINGH KANT	ACH GD
4.	618909-A	Ex-MWO	ABDUL SAMAD	MTD

[No. Air HQ/C-40254/1/2/PA (CPC)]

P. R. SHARMA, Air Mshl, Air Officer-in-charge Personnel

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2013

सं. 08(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2013.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

**भारतीय नौसेना****स्थायी काडर****विशेष ड्यूटी सूची**

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसर को विशेष ड्यूटी सूची पर 26 जनवरी 2013 से

अवैतनिक कमीशन की कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है

**अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर**

क्रम	नाम	रैंक	नम्बर
1.	भार सिंह	एमसीपीओ I	110166 B
2.	सी आई जोय	एमसीपीओ I	146187 W
3.	रेजि कुरियाकोस	एमसीपीओ I	114055 T
4.	एन के सोम	एमसीपीओ I	108751 N
5.	नरेश कुमार तोमर	एमएससीपीओ I	108677 W
6.	किरण चन्द्र दास	एमसीपीओ रायटर I	109169 N
7.	धर्म प्रकाश	एमएससीपीओ I	143461 T
8.	राज सिंह	एमएससीपीओ I	143224 K
9.	लाल बचन यादव	एमएससीपीओ I	110100 B
10.	शेख मौला	एमसीपीओ एसटीडी I	145313 H
11.	राम कुमार	एमसीपीओ एसटीडी I	143765 R
12.	सत्यनाथन के ए	एमसी एए (डब्ल्यू) I	192088 R
13.	कीजूरीडतिल सुरेश	एमसीपीओ एएफ I	164842 T
14.	किशोरी लाल	एमसीपीओआर एसपीएल I	143207 Y
15.	अशोक कुमार	एमसी मेक I	114128 H
16.	जसवन्त सिंह	एमसी एसडब्ल्यूए I	192700 F
17.	राम नारायण यादव	एमसी एमई I	149136 Y
18.	छायाकान्त सिंह	एमसी ईआरए I	192718 Y

19.	लेखराज सिंह	एमसी एमई I	142768 Z
20.	उदय शंकर उपाध्याय	एमसी मेक I	113900 R
21.	किशोर सिंह	एमसी मेक पी I	110124 H
22.	स्वपन कुमार प्रधान	एमसी ईएलपी I	147372 N
23.	पी एस बीष्ट	एमसी ईएलपी I	160314 A
24.	बेरड बालकृष्ण नामदेव	एमसी ईएपी I	192381 F
25.	अब्दुल गफ्फार	एमसी मेक पी I	162203 W
26.	सूर्यभान सिंह	एमसीईएआर I	191490 F
27.	रमेश चन्द राठौर	एमसीपीओ एम I	108964 Y
28.	उपेन्द्र प्रसाद सिंह	एमसीपीओ एम I	109130 Z
29.	यशवंत सिंह चौहान	एमसी एट आर्मस I	108853 W
30.	रूपा राम	एमसी एट आर्मस I	143679 W
31.	सुदर्शनन बी	एमसीपीओ म्युस I	188037 H
32.	गोबिन्द सिंह	एमसीपीओ म्युस I	188071 K

#### अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट विशेष ड्यूटी के पद पर

क्रम	नाम	रैंक	नम्बर
1	प्रीतम सिंह	एमसीपीओ II	147953 H
2	अब्दुल रेहान	एमसीपीओ II	147469 H
3	औमेन्द्र सिंह शेखावत	एमसीपीओ II	148955 K
4	कृष्ण कुमार द्विवेदी	एमसीपीओ II	149785 Y
5	पी जी जो	एमसीपीओ II	161598 W
6	धर्मपाल सिंह यादव	एमसीपीओ II	149088 N
7	सुकरम पाल सिंह मलिक	एमसीपीओ II	110471 Y
8	सुशील कुमार	एमसीपीओ II	111269 K
9	निकम हनमन्त राजाराम	एमसीपीओ II	147584 W
10	बालेश्वर सिंह	एमसीपीओ II	147844 K
11	अजित कुमार शुक्ला	एमसीपीओ II	111807 H
12	अनुप सिंह	एमसीपीओ II	147493 N
13	मनोहर नायक	एमसीपीओ II	147454 Z
14	सुरेश प्रसाद सिंह	एमसीपीओ II	112034 Z
15	अवधेश यादव	एमसीपीओ II	148279 Z
16	मुहकम सिंह	एमसीपीओ II	161621 Y
17	राजेन्द्र सिंह	एमसीपीओ II	149221 R
18	हिम्मत सिंह शेखावत	एमसीपीओ II	148142 N
19	दारा सिंह	एमसीपीओ II	148468 B
20	धर्म पाल	एमसीपीओ II	111847 Z



21	श्रीकृष्ण	एमसीपीओ II	147145	Y
22	परमा नन्द सिंह	एमसीपीओ II	110586	H
23	उमाशंकर	एमसीपीओ II	148025	Y
24	राजेन्द्र सिंह	एमसीपीओ II	113547	N
25	गणेश पापा राव	एमसीपीओ I	161412	Y
26	निरंजन परमाणिक	एमसीपीओ I	142668	Y
27	निहाल सिंह	एमसीपीओ I	143064	Y
28	लालजी यादव	एमसीपीओ I	110588	N
29	राधा कान्त पाण्डेय	एमसीपीओ I	109394	Z
30	धनपति सिंह	एमसीपीओ I	142767	Y
31	जगदीश सिंह	एमसीपीओ I	143926	F
32	सिंह गोपाल बी सिंह	एमसीपीओ I	143946	A
33	अशवनी कुमार	एमसीपीओ I	144469	R
34	सत्येन्द्रपाल सिंह	एमसीपीओ रायटर II	147770	T
35	ब्रजेश चन्द्र बाजपेई	एमसीपीओ रायटर II	111201	F
36	नरेश कुमार	एमएससीपीओ II	147484	T
37	सत्येन्द्र कुमार सिंह	एमसीपीओ रायटर II	162448	A
38	रोहतास	एमसीपीओ रायटर II	110856	Y
39	राम शंकर सिंह	एमएससीपीओ I	142843	W
40	राम चरण	एमसीपीओ टॉप II	145251	T
41	महीपाल यादव	एमसीपीओ सीके(एस) II	145351	W
42	दिलीप कुमार गुप्ता	एमसीपीओ टॉप II	145380	K
43	गोपाल चन्द्रा मंडल	एमसीपीओ एसटीडी II	145298	Z
44	बीरेन्द्र सिंह	एमसीपीओ एसटीडी II	145293	N
45	अरूमुघम पाण्डियन	एमसीपीओ टॉप II	145383	T
46	कन्डथिल वर्गीस गी	एमसीपीओ टॉप II	145419	Z
47	विक्रम सिंह कुशवाहा	एमसीपीओ सीके(ओ) I	108626	B
48	पद्मनाभण एम	एमसीपीओ एसटीडी I	109586	K
49	ओंकार पाठक	एमसीपीओ सीके(ओ) I	108241	B
50	घनश्याम सिंह	एमसीए पीएच II	111064	W
51	अनिल कुमार चौहान	एमसीए (एएच) I	163094	W
52	योगेन्द्र कुमार	एमसीए (एएच) I	149507	R
53	अमीर चन्द	एमसीए (एएच) I	108465	N
54	राम नरेश मौर्य	एमसी एए II	185234	N
55	रामरतन राम	एमसीपीओ एएफ II	148095	F
56	प्रबोध कुमार झा	एमसी ईएलए II	149229	H
57	करन वीर सिंह	एमसी ईएलए II	112292	K
58	सुरीन्द्र कुमार	एमसी ईएलए II	112117	N
59	रामेन्द्र प्रसाद	एमसी एए (डब्ल्यू) I	192827	W
60	तपस गोस्वामी	एमसी ईएए I	197175	A

61	प्रमोद कुमार	एमसी ईएएआर I	197476	K
62	कुलदीप सिंह	एमसीपीओ एएफ I	163122	H
63	एस रघुनाथन	एमसी ईएलएआर I	165626	Z
64	धनंजय चक्रवर्ती	एमसी ईएए I	187173	W
65	श्रीराम यादव	एमसी ईएलएआर I	143083	R
66	ध्रुव सिंह	एमसीपीओआर टेल II	149705	R
67	अशोक कुमार पति	एमसीपीओआर टेल II	148215	B
68	उमा शंकर मिश्रा	एमसीपीओआर टेल II	148152	K
69	मोहन पाल सिंह	एमसीपीओआर टैंक II	148472	N
70	राजेन्द्र कुमार	एमसीपीओआर टैंक I	143990	A
71	तेजपाल सिंह	एमसीपीओआरटेल I	108254	H
72	सतीश चन्द्र सिंह	एमसीपीओआरटेल I	142968	B
73	हरेन्द्र मिश्रा	एमसी ईआरए II	169324	B
74	सेतोष राज द्विवेदी	एमसी एसडब्ल्यूए I	193126	Z
75	मोहनदासन पी	एमसी मेक II	149038	Z
76	कृष्ण नाल	एमसी मेक II	146109	T
77	अशोक कुमार सिंह	एमसी एमई II	161891	K
78	परभात सिंह	एमसी एमई II	149541	T
79	ग्यान सिंह	एमसी एमई II	148200	W
80	पवन कुमार कुन्डू	एमसी एसडब्ल्यूए I	192599	A
81	हरजीत सिंह	एमसी ईआरए I	192130	K
82	जगदीश सिंह	एमसी एमई I	110466	K
83	पुरन सिंह चिलवल	एमसी एमई I	160388	W
84	सुभाष चन्द्र	एमसी एमई I	109452	F
85	विनोद कुमार	एमसी ईएलआर II	147603	N
86	संतोष कुमार दुबे	एमसी मेक पी II	169407	T
87	प्रेम पाल सिंह	एमसी ईएलआर II	166496	A
88	दया शंकर यादव	एमसी ईएलपी II	167763	F
89	अल्बर्ट डॅमीयन पी व्ही	एमसी ईएलआर II	160896	Z
90	राम प्रसाद	एमसी ईएलआर II	148958	T
91	विजय कुमार ठाकुर	एमसी ईएलपी II	160339	H
92	दिनदयाल	एमसी ईएलआर II	149132	N
93	राम प्रकाश सिंह चहर	एमसीईएआर II	191501	F
94	प्रमोद कुमार सिंह	एमसी ईएलआर II	148274	N
95	दिलीप कुमार शुक्ला	एमसी ईएलपी II	160424	A
96	टि पव्ही रवी	एमसी ईएलपी II	165308	A
97	तेज सिंह चौहान	एमसी मेक पी I	147011	T
98	निमाई सी घोश	एमसी ईएलपी I	110482	Y
99	बाबु राम बिश्नोई	एमसी मेक आर I	147411	A
100	चक्कान एस गनपत	एमसी ईएलआर I	114784	Z

101	नरेश चन्द्र सिंह	एमसी मेक पी I	109962 R
102	श्याम लाल सिंह	एमसी ईएलआर I	109377 K
103	सन्वत सिंह बिका	एमसी ईएलआर I	109481 Y
104	ब्रह्मपाल सिंह	एमसी मेक आर I	109444 N
105	उदय कुमार	एमसीपीओ एम II	147769 R
106	रमेश कुमार	एमसीपीओ एम II	111082 K
107	पूरन मल यादव	एमसीपीओ एम II	147400 A
108	विपीन कुमार शर्मा	एमसीपीओ एम II	148516 N
109	हीरा सिंह	एमसीपीओ एम II	148555 A
110	राम एकबाल सिंह	एमसीपीओ एम II	148459 H
111	रमेश चन्द्र	एमसीपीओ एम II	148033 R
112	कर्मबीर सिंह	एमसीपीओ एम II	148438 K
113	एस सिंह	एमसीपीओ एम I	144272 T
114	भरत सिंह	एमसी एट आर्मस II	146758 T
115	सतवीर सिंह	एमसी एट आर्मस I	143610 N
116	समर कुमार डे	एमसीपीओ म्युस II	188118 T
117	डी सेल्वमणि	एमसीपीओ म्युस II	188193 N

[फा. सं. एच ए/2504/अवैतनिक/2013-अवैतनिक कमीशन-जनवरी 2013]

ए. जी. थापलियाल, वाईस एडमिरल, कार्मिक अध्यक्ष, एकीकृत मुख्यालय

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January, 2013

**No. 08(E) dated 26th January, 2013.**—The President is pleased to make the following appointments :—

**INDIAN NAVY**  
**PERMANENT CADRE**  
**SPECIAL DUTIES LIST**

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 26 Jan 2013 :-

**TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)**

<b><u>SL.</u></b>	<b><u>NAME</u></b>	<b><u>RANK</u></b>	<b><u>PNO</u></b>
1	BHAR SINGH	MCPO I	110166 B
2	JOY CI	MCPO I	146187 W
3	REGI KURIAKOSE	MCPO I	114055 T
4	NK SHOME	MCPO I	108751 N
5	NARESH KUMAR TOMAR	MSCPO I	108677 W

6	KIRAN CHANDRA DAS	MCPO WTR I	109169 N
7	DHARAM PRAKASH	MSCPO I	143461 Z
8	RAJ SINGH	MSCPO I	143224 K
9	LAL BACHAN YADAV	MSCPO I	110100 B
10	SHAIK MOULA	MCPO STD I	145313 H
11	RAM KUMAR	MCPO STD I	143765 R
12	SATHYANATHAN KA	MC AA(W) I	192088 R
13	K SURESH	MCPO AF I	164842 T
14	KISHORI LAL	MCPO RSPL I	143207 Y
15	ASHOK KUMAR	MC MECH I	114128 H
16	JASWANT SINGH	MC SWA I	192700 F
17	RAM NARAIN YADAV	MC ME I	149136 Y
18	CHHAYA KANTA PATTANAIK	MC ERA I	192718 Y
19	LEKHRAJ SINGH	MC ME I	142768 Z
20	UDAI SHANKER UPADHYAY	MC MECH I	113900 R
21	KISHOR SINGH	MC MECH P I	110124 H
22	SWAPAN KUMAR PRADHAN	MC ELP I	147372 N
23	PS BISHT	MC ELP I	160314 A
24	BERAD BALKRISNA NAMDEO	MC EAP I	192381 F
25	ABDUL GAFFAR	MC MECH P I	162203 W
26	SURYA BHAN SINGH	MCEAR I	191490 F
27	RAMESH CHAND RATHORE	MCPO M I	108964 Y
28	UPENDRA PRASAD SINGH	MCPO M I	109130 Z
29	YASHWANT SINGH CHAUHAN	MC AT ARMS I	108853 W
30	ROOPA RAM	MC AT ARMS I	143679 W
31	SUDARSANAN B	MCPO MUS I	188037 H
32	GOVIND SINGH	MCPO MUS I	188071 K

**TO BE HONORARY SUB LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)**

<b><u>SL</u></b>	<b><u>NAME</u></b>	<b><u>RANK</u></b>	<b><u>P.NO.</u></b>	
1	PRITAM SINGH	MCPO II	CD1	147953 H
2	ABDUL REHAN	MCPO II	UC1	147469 H
3	OMENDRA SINGH SHEKHAWAT	MCPO II	UW1	148955 K
4	KRISHNA KUMAR DWIVEDI	MCPO II	UW1 S/M	149785 Y
5	PG ZOU	MCPO II	PT1	161598 W
6	DHARAM PAL SINGH YADAV	MCPO II	RP1	149088 N
7	SUKRAM PAL SINGH MALIK	MCPO II	PT1	110471 Y
8	SUSHIL KUMAR	MCPO II	RP1 S/M	111269 K
9	NIKAM HANMANT RAJARAM	MCPO II	UC1	147584 W
10	BALESHWER SINGH	MCPO II	RC1	147844 K
11	AJIT KUMAR SHUKLA	MCPO II	RP1	111807 H
12	ANOOP SINGH	MCPO II	RP1	147493 N
13	MANOHAR NAYAK	MCPO II	RP1	147454 Z
14	SURESH PRASAD SINGH	MCPO II	UW1	112034 Z
15	AVADHESH YADAV	MCPO II	RC1	148279 Z
16	MUHAKAM SINGH	MCPO II	QA1	161621 Y
17	RAJENDER SINGH	MCPO II	QA1	149221 R
18	HIMMAT SINGH SHEKHAWAT	MCPO II	QA1	148142 N
19	DARA SINGH	MCPO II	PT1	148468 B
20	DHARAM PAL	MCPO II	RP1	111847 Z
21	SHRI KRISHNA	MCPO II	RC1	147145 Y
22	PARMANAND SINGH	MCPO II	QA1	110586 H
23	UMA SHANKAR	MCPO II	GI(S)	148025 Y
24	RAJENDER SINGH	MCPO II	RP1	113547 N
25	GANESHA PAPA RAO	MCPO I	ASWI(W)	161412 Y
26	NIRANJAN PARAMANIK	MCPO I	UC1	142668 Y
27	NIHAL SINGH	MCPO I	QA1	143064 Y

28	LALJI YADAV	MCPO I	RC1	110588	N
29	RADHA KANT PANDEY	MCPO I	QA1	109394	Z
30	DHAN PATI SINGH	MCPO I	RC1	142767	Y
31	JAGDISH SINGH	MCPO I	UW1	143926	F
32	SINGH GOPAL B SINGH	MCPO I	UW1 S/M	143946	A
33	ASHWANI KUMAR	MCPO I	RC1	144469	R
34	SATYENDRA PAL SINGH	MCPO WTR II		147770	T
35	BRAJESH CHANDRA BAJPAI	MCPO WTR II		111201	F
36	NARESH KUMAR	MSCPO II		147484	T
37	SATYENDRA KUMAR SINGH	MCPO WTR II		162448	A
38	ROHTAS	MCPO WTR II		110856	Y
39	RAMA SHANKAR SINGH	MSCPO I		142843	W
40	RAM CHARAN	MCPO TOP II		145251	T
41	MAHIPAL YADAV	MCPO CK(S) II		145351	W
42	DILIP KUMAR GUPTA	MCPO TOP II		145380	K
43	GOPAL CHANDRA MONDAL	MCPO STD II	S/M	145298	Z
44	BIRENDER SINGH	MCPO STD II		145293	N
45	ARUMUGHAM PANDIAN	MCPO TOP II		145383	T
46	KANDTHILGEE VARGHESE	MCPO TOP II		145419	Z
47	VIKRAM SINGH KUSHWAHA	MCPO CK(O) I		108626	B
48	PADMANABHAN M	MCPO STD I	S/M	109586	K
49	ONKAR PATHAK	MCPO CK(O) I		108241	B
50	GHANSHYAM SINGH	MCA PH II		111064	W
51	ANIL KUMAR CHAUHAN	MCA(AH) II		163094	W
52	YOGENDRA KUMAR	MCA(AH) II		149507	R
53	AMIR CHAND	MCA(AH) I		108465	N
54	RAM NARESH MAURYA	MC AA II		185234	N
55	RAMRATAN RAM	MCPO AF II		148095	F
56	PRABODH KUMAR JHA	MC ELA II		149229	H
57	KARAN VIR SINGH	MC ELA II		112292	K

58	SURINDER KUMAR	MC ELA II	112117	N
59	RAMENDRA PRASAD	MC AA(W) I	192827	W
60	TAPAS GOSWAMI	MC EAA I	197175	A
61	PARMOD KUMAR	MC EAAR I	197476	K
62	KULDEEP SINGH	MCPO AF I	163122	H
63	S RAGHUNATHAN	MC ELAR I	165626	Z
64	DHANANJOY CHAKRAVORTTY	MC EAA I	187173	W
65	SHRI RAM YADAV	MC ELAR I	143083	R
66	DHRUV SINGH	MCPOTEL II	149705	R
67	ASHOK KUMAR PATI	MCPOTEL II	148215	B
68	UMA SHANKER MISHRA	MCPOTEL II	148152	K
69	MOHAN PAL SINGH	MCPORTAC II	148472	N
70	RAJENDRA KUMAR	MCPORTAC I	143990	A
71	TEJPAL SINGH	MCPOTEL I	108254	H
72	SATISH CHANDER SINGH	MCPOTEL I	142968	B
73	HARENDRA MISHRA	MC ERA II	169324	B
74	SANTOSH RAJ DWIVEDI	MC SWA I	193126	Z
75	MOHANADASAN P	MC MECH II	149038	Z
76	KRISHNA PAL	MC MECH II	146109	T
77	ASHOK KUMAR SINGH	MC ME II	161891	K
78	PARBHAT SINGH	MC ME II	S/M 149541	T
79	GAIN SINGH	MC ME II	148200	W
80	PAWAN KUMAR KUNDU	MC SWA I	192599	A
81	HARJEET SINGH	MC ERA I	192130	K
82	JAGDISH SINGH	MC ME I	110466	K
83	PURAN SINGH CHILWAL	MC ME I	160388	W

84	SUBHASH CHANDER	MC ME I		109452	F
85	BINOD KUMAR	MC ELR II		147603	N
86	SANTOSH KUMAR DUBEY	MC MECH P II		169407	T
87	PREM PAL SINGH	MC ELR II		166496	A
88	DAYA SHANKAR YADAV	MC ELP II		167763	F
89	ALBERT DAMIAN PV	MC ELR II	S/M	160896	Z
90	RAM PRASAD	MC ELR II		148958	T
91	BIJAY KUMAR THAKUR	MC ELP II		160339	H
92	DINDYAL	MC ELR II		149132	N
93	RAM PRAKASH SINGH CHAHAR	MCEAR II		191501	F
94	PRAMOD KUMAR SINGH	MC ELR II		148274	N
95	DILEEP KUMAR SHUKLA	MC ELP II	S/M	160424	A
96	TV RAVI	MC ELP II		165308	A
97	TEJ SINGH CHAUHAN	MC MECH P I		147011	T
98	NEMAI C GHOSH	MC ELP I	S/M	110482	Y
99	BABU RAM BISHNOI	MC MECH R I		147411	A
100	CHAVAN S GANPAT	MC ELR I	S/M	114784	Z
101	NARESH CHANDRA SINGH	MC MECH P I		109962	R
102	SHYAM LALA SINGH	MC ELR I		109377	K
103	SANWAT SINGH BIKA	MC ELR I	S/M	109481	Y
104	BRAHMPAL SINGH	MC MECH R I		109444	N
105	UDAYA KUMAR	MCPO M II	DT1	147769	R
106	RAMESH KUMAR	MCPO M I	SD1	111082	K
107	POORANMAL YADAV	MCPO M II	UWM1 S/M	147400	A
108	VIPAN KUMAR SHARMA	MCPO M II	ORT1	148516	N
109	HIRA SINGH	MCPO M II	SD1	148555	A



110	RAM IQBAL SINGH	MCPO M II	SD1	148459	H
111	RAMESH CHANDRA	MCPO M II	L1	148033	R
112	KARAMBIR SINGH	MCPO M II	UWM1 S/M	148438	K
113	S SINGH	MCPO M I	R TECH	144272	T
114	BHARAT SINGH	MC AT ARMS I		146758	T
115	SATVIR SINGH	MC AT ARMS I		143610	N
116	SAMAR KUMAR DEY	MCPO MUS II		188118	T
117	D SELVAMANI	MCPO MUS II		188193	N

[F. No. HA/2504/Jan. 2013-Hony Commission-Jan 2013]

A.G. THAPLIYAL, Vice Admiral, Chief of Personnel, Integrated Headquarters